



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4

PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 15, 2010/श्रावण 24, 1932

No. 3]

NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 15, 2010/SHRAVANA 24, 1932

रक्षा मंत्रालय

(सेना विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 10(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज़ को सेना विनियमावली, 1987 के पैरा 177 के अधीन उनको अवैतनिक कप्तान, एवं अवैतनिक लै. का पद 15 अगस्त, 2010 से सहाय्य प्रदान करती हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

**63 केवेलरी**

1	जेसी	238757	डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धर्म पाल सिंह
<b>67 आर्मंड रेजीमेंट</b>					
2	जेसी	238018	के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तेशम लाल शर्मा
<b>70 आर्मंड रेजीमेंट</b>					
3	जेसी	238382	एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुरनाम सिंह भाटी
<b>41 आर्मंड रेजीमेंट</b>					
4	जेसी	238053	एम	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बचिचर सिंह
<b>44 आर्मंड रेजीमेंट</b>					
5	जेसी	242007	पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	नन्देश्वर सिंह
<b>49 आर्मंड रेजीमेंट</b>					
6	जेसी	241319	वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	चको के सी
<b>6 आर्मंड रेजीमेंट</b>					
7	जेसी	236889	एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शिवराज सिंह-पनवर
<b>आर्टिलरी रेजीमेंट</b>					
8	जेसी	260177	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भूला सिंह
9	जेसी	262144	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कटारे नामदेव सुर्याबा
10	जेसी	260559	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेंद्र पाल सिंह

11	जेसी 266733	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अशोके कुमार घोष
12	जेसी 268868	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाबू लाल मीना, एसएम
13	जेसी 266415	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाबू सिंह लंगे
14	जेसी 262962	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलेल सिंह
15	जेसी 265546	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	डी. साउदारा राजन
16	जेसी 267322	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गुरबक्श सिंह
17	जेसी 267060	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरलाल सिंह
18	जेसी 266980	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कमला कांता बाईलुंग
19	जेसी 267366	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	महेंद्र सिंह
20	जेसी 266249	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम कुमार ब्रमा
21	जेसी 268642	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	परुसोतम मिश्रा
22	जेसी 258049	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रघुनाथ ओरान
23	जेसी 268608	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रमेश बाबू यादव
24	जेसी 268266	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम नरेश कन्नौजिया
25	जेसी 263538	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शिव पूजन सिंह
26	जेसी 267284	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुंदरन के
27	जेसी 265844	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार
28	जेसी 267109	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	वेद प्रकाश

#### सेना वायु सुरक्षा

29	जेसी 296962	एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विजय कुमार समकरिया
30	जेसी 296932	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिरेन्द्र कुमार
31	जेसी 299101	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरी राम यादव
32	जेसी 299056	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जनार्दन मिशार
33	जेसी 299024	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नाथी सिंह
34	जेसी 299026	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शंकर सिंह

#### मद्रास इंजीनियर समूह

35	जेसी 305730	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एम पनीर सेल्वम
36	जेसी 306119	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बेबी के.जे
37	जेसी 307810	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाममीदी नारायना राव
38	जेसी 307199	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गणेशन जे
39	जेसी 307669	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	के राजेंद्रा मूर्ती
40	जेसी 306167	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मधुसूधन पिल्लई एस
41	जेसी 307798	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मुदुगूला बासी रेडी
42	जेसी 307909	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नंदगोपाल ई
43	जेसी 307805	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नरासेन्दरन एन
44	जेसी 307731	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विजयन ए एम

बंगाल इंजीनियर समूह

45	जेसी 327994	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अगस्टियन खर्सयानटिव
46	जेसी 327092	एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हिमत सिंह
47	जेसी 120471	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश प्रसाद आर टी
48	जेसी 327098	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुलविन्दर सिंह
49	जेसी 327928	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पप्पी
50	जेसी 327088	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम ईश्वर राय
51	जेसी 327941	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरजीत सिंह
52	जेसी 329057	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	आनंद सिंह बाफिला
53	जेसी 329233	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अवतार सिंह
54	जेसी 328921	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	धन्य चंद्रा रौय
55	जेसी 329016	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहन चंद्र
56	जेसी 329171	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रीतम चन्द
57	जेसी 328880	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रामायण सिंह
58	जेसी 328745	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम बाबू सिंह
59	जेसी 328881	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुदर्शन यादव

बोम्बे इंजीनियर समूह

60	जेसी 348110	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इश्वर सिंह शर्मा
61	जेसी 349734	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जरनैल सिंह
62	जेसी 349818	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजबीर सिंह
63	जेसी 349808	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सत पाल

सिग्नल्स कोर

64	जेसी 370696	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बचन सिंह
65	जेसी 369339	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देव प्रकाश शर्मा
66	जेसी 131987	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हर्ष सिंह डंगवाल आर टी
67	जेसी 370732	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जयवीर
68	जेसी 368191	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	निमाइ चंद्रा पाल
69	जेसी 370369	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश
70	जेसी 370728	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम लाल जूद
71	जेसी 368199	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम राज गुप्ता
72	जेसी 368657	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उत्तातम चन्द
73	जेसी 375813	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दर्शन कुमार
74	जेसी 375557	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कुलदीप सिंह
75	जेसी 374569	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नारान्त सिंह राना
76	जेसी 375212	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नरेंदर सिंह
77	जेसी 374239	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रवि कांतू सिंह

78	जेसी 374738	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विशामबर सिंह
<u>गार्डस</u>				
79	जेसी 402631	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुंवर सिंह
80	जेसी 402725	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सत्येंद्र कुमार शुक्ला
81	जेसी 403236	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अजंत सिंह
82	जेसी 403481	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पदम नारायण
<u>पैराशूट रेजीमेन्ट</u>				
83	जेसी 412303	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भगवाना राम गूजर
84	जेसी 412128	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरी राम यादव
85	जेसी 412115	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हेम राज सिंह वालदिया
86	जेसी 412126	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कष्णन कुमार
87	जेसी 412468	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बहादुर सिंह, 2सेना मैडल
88	जेसी 412469	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कश्मीर सिंह
<u>मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट</u>				
89	जेसी 418074	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोथीन्द्रा नाथन टी पी
90	जेसी 418875	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णापाल सिंह पठानिया
91	जेसी 418640	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा सिंह
92	जेसी 420058	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम अवतार सिंह बघेल
<u>पंजाब रेजीमेन्ट</u>				
93	जेसी 428886	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अनिल कुमार
94	जेसी 428272	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरदयाल सिंह
95	जेसी 127466	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुर्वक्स सिंह आर टी
96	जेसी 428070	एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पलपिन्दर सिंह
97	जेसी 428871	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	तेजा सिंह
98	जेसी 430188	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जगदेव सिंह
99	जेसी 429582	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहन सिंह
100	जेसी 429387	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहन सिंह
<u>मद्रास रेजीमेन्ट</u>				
101	जेसी 438290	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देवेन्द्र राजपूत
102	जेसी 438141	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हंसा कुंजू एम
103	जेसी 438163	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जनार्दनन एमएम
104	जेसी 438070	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एम मुनिराज, एसएम
105	जेसी 438124	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेन्द्रन आर
106	जेसी 439248	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रवि ए

ग्रेनेडियर्स

107	जेसी 449681	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलजीत सिंह
108	जेसी 449642	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चेन सिंह
109	जेसी 449867	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलीप सिंह
110	जेसी 450145	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेश कुमार अत्री
111	जेसी 450122	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	वागदावत सिंह

मराठा लघु सेना

112	जेसी 226181	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अरुण सावंत
113	जेसी 458293	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	औतादे राधाकिशना गोविंदराव
114	जेसी 458049	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भोरे लक्ष्मन गोविंदराव
115	जेसी 458410	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	माने किसान केशव
116	जेसी 458388	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पाटिल सुरेश भारामु

राजपूताना राईफल्स

117	जेसी 468534	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धर्म पाल सिंह, एसएम
118	जेसी 468678	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अमर सिंह
119	जेसी 469453	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गिरधारी लाल
120	जेसी 469759	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर सिंह
121	जेसी 469434	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मुकेश कुमार
122	जेसी 469533	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सत्य प्रकाश
123	जेसी 196205	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विजया कुमारन बी

राजपूत रेजीमेन्ट

124	जेसी 478554	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	द्वारिका प्रसाद तिवारी
125	जेसी 478679	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राज बहादुर शर्मा
126	जेसी 478415	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम गुणी
127	जेसी 211057	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम सिंह गुर्जर
128	जेसी 478541	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	श्री पाल गूजर
129	जेसी 479321	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाल बीर सिंह राजपूत
130	जेसी 479411	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पेहल सिंह
131	जेसी 479389	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा सिंह
132	जेसी 479280	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रमेश सिंह
133	जेसी 479409	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	समुद्र सिंह

जाट रेजीमेन्ट

134	जेसी 488645	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ब्रम प्रकाश
-----	-------------	---------	-------------------------------	-------------

135	जेसी 488395	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नेत राम
136	जेसी 489352	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देवेन्द्र
137	जेसी 489824	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नाहर सिंह, एसएम
138	जेसी 489486	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजबीर सिंह

सिख रेजीमेन्ट

139	जेसी 498616	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरवैल सिंह
140	जेसी 498270	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लखविन्दर सिंह
141	जेसी 498863	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह
142	जेसी 499111	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	इकबाल सिंह, एसएम
143	जेसी 499308	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत सिंह

सिख लघु पैदल सेना

144	जेसी 508313	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वरयम सिंह
145	जेसी 508959	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलदेव सिंह
146	जेसी 508479	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलबीर सिंह

डोगरा रेजीमेन्ट

147	जेसी 518980	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह क9शल
148	जेसी 518992	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दलजीत सिंह
149	जेसी 519084	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दयाल सिंह, एससी
150	जेसी 518976	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हेम राज
151	जेसी 519280	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कपूर सिंह
152	जेसी 519110	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रकाश चन्द
153	जेसी 519284	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजिन्दर सिंह

गढवाल राईफल्स

154	जेसी 528708	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह
155	जेसी 528849	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बिरेन्द्र सिंह, एसएम
156	जेसी 529089	एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दरमयान सिंह
157	जेसी 528846	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरीश चंद्रा
158	जेसी 529493	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलवीर सिंह
159	जेसी 529562	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कुंदन सिंह
160	जेसी 529649	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	लखपत सिंह
161	जेसी 529781	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सोबन सिंह, एसएम

कुमाँउ रेजीमेन्ट

162	जेसी 538869	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	घमंडी लाल यादव
163	जेसी 158231	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुशल नन्द बहुगुणा आर टी

164	जेसी 539382	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भगत सिंह
165	जेसी 539331	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरीश सिंह
166	जेसी 539257	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	होशियार राम
167	जेसी 539444	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जय करन सिंह
168	जेसी 539765	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रामेश्वर
169	जेसी 539738	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	त्रिलोक सिंह

आसाम रेजीमेन्ट

170	जेसी 548171	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जमखोथंग
171	जेसी 548303	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जनार्दन सिन्हा
172	जेसी 548948	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चिनिओ लोथा, एसएम
173	जेसी 548949	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एच आर रामकटिन्ग
174	जेसी 549003	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मनिन्द्र चंद्रा रौय

बिहार रेजीमेन्ट

175	जेसी 558693	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नबीन कुमार प्रधान, एसएम
176	जेसी 558535	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वीरेंद्र प्रसाद सिंह
177	जेसी 559574	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिहारी तिवारी
178	जेसी 559444	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम बाबू ठाकुर

महार रेजीमेन्ट

179	जेसी 568464	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	माखन सिंह
180	जेसी 569804	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कमल चंद्रा राय, एसएम

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

181	जेसी 578823	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलवान सिंह
182	जेसी 578999	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भगवान दास
183	जेसी 578626	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चरण दास शर्मा
184	जेसी 579790	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अमरजीत सिंह, एसएम
185	जेसी 579895	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गोपाल दास
186	जेसी 579773	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रवीन कुमार कटाल
187	जेसी 579708	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुभाष चन्द
188	जेसी 579865	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विजय सिंह

लध्दाख स्काउट

189	जेसी 588136	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रिगजिन नमगौल
-----	-------------	----	--------------------------	--------------

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

190	जेसी 592240	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	स्वामी राज
-----	-------------	------	-------------------------------	------------

191	जेसी 593438	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अब्दुल रशीद धर
192	जेसी 593287	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अवतार सिंह
193	जेसी 592809	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अवतार सिंह
194	जेसी 592888	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शमशेर सिंह, एसएम
195	जेसी 592839	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरजीत सिंह
<b>1 गोरखा राईफल्स</b>				
196	जेसी 602227	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दल बहादुर माल
197	जेसी 602273	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विपन कुमार प्रधान
<b>3 गोरखा राईफल्स</b>				
198	जेसी 607310	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शिब बहादुर थापा
199	जेसी 607332	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	तिलक बहादुर थापा
200	जेसी 607154	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम रतन यादव
<b>4 गोरखा राईफल्स</b>				
201	जेसी 612492	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	तेज मान गुरंग
<b>5 गोरखा राईफल्स</b>				
202	जेसी 617276	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चित्रा बहादुर रोका
203	जेसी 617339	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दीप राज सावन
<b>8 गोरखा राईफल्स</b>				
204	जेसी 623267	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धन बहादुर बसनत
205	जेसी 623068	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गनेश बहादुर माल
206	जेसी 623136	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शब्बीर थापा
<b>9 गोरखा राईफल्स</b>				
207	जेसी 629377	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दिल बहादुर खत्री
208	जेसी 122072	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शीशकान्ता शर्मा धिमीर आर टी
209	जेसी 629387	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	याक बहादुर थापा
<b>11 गोरखा राईफल्स</b>				
210	जेसी 634570	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जगत बहादुर श्रेष्ठा
<b>सेना सेवा कोर दक्षिण</b>				
211	जेसी 217864	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भंवर सिंह
212	जेसी 662288	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भूवन चन्द्र



213	जेसी 661434 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश प्रसाद
214	जेसी 215552 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मदन मोहन दान
215	जेसी 661430 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	परमार अशरफ खान हैयात खान
216	जेसी 640063 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शशि भूषण सिंह
217	जेसी 640938 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार पाराशर
218	जेसी 663600 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

219	जेसी 680319 एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोविंद सिंह
220	जेसी 680297 पी	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कर्म सिंह
221	जेसी 680676 एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	बिप्रादास चत्तराज
222	जेसी 680764 एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	गीतम सिंह

सेना चिकित्सा कोर

223	जेसी 690985 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलवंत सिंह
224	जेसी 692756 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोविन्द चंद्रा बेहेरा
225	जेसी 692942 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जुबाराज सरकार
226	जेसी 692752 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रणब गोस्वामी
227	जेसी 694091 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अतर सिंह
228	जेसी 695192 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिरसा नाघ
229	जेसी 695051 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कष्णन सिंह
230	जेसी 694533 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रफुल्ल चंद्रा सत्याथी
231	जेसी 161062 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम नारायन विश्व कर्मा आर टी

सेना आयुध कोर

232	जेसी 723258 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कमालेन्दु देबनाथ
233	जेसी 723256 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	माता शंकर शुक्ला
234	जेसी 723474 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमन कुमार शर्मा
235	जेसी 725361 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश कुमार
236	जेसी 723191 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुखवीर सिंह
237	जेसी 725382 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	लाला राम शर्मा
238	जेसी 725439 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा सिंह चौहान

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

239	जेसी 749246 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भूपेंद्र सिंह परिहार
240	जेसी 749841 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बी श्री कृष्णा
241	जेसी 749511 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देविन्द्र कुमार बख्शी

242	जेसी 752813	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर सिंह
243	जेसी 749845	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	के.एम लोकेश
244	जेसी 749901	एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	महाबीर सिंह
245	जेसी 749483	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नन्द लाल वर्मा
246	जेसी 749891	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रवि कुमार के एन
247	जेसी 749732	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सभाजीत पांडे
248	जेसी 749973	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एस दामोथरन
249	जेसी 752428	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार चौबे
250	जेसी 760105	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भक्ता बहादुर कार्की
251	जेसी 755923	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भुपिन्द्र सिंह
252	जेसी 760170	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दिनेश प्रसाद
253	जेसी 754249	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दुब्बा वेनु गोपाल रेडी
254	जेसी 753230	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हिमत सिंह
255	जेसी 753971	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जल सिंह
256	जेसी 756256	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रमेशन एम
257	जेसी 756326	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम पुकार सिंह
258	जेसी 759916	वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सयो राम यादव

सेना शिक्षा-कोर

259	जेसी 225474	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	केशव राज शर्मा
260	जेसी 223755	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनोहर सिंह
261	जेसी 802864	के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नरेश कुमार

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

262	जेसी 797223	एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	राम सुभाष प्रधान
-----	-------------	----	---------------------------	------------------

आसुचना कोर

263	जेसी 810541	डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देवकी नन्द
264	जेसी 810335	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	लोखिन्दर सिंह
265	जेसी 810399	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शाम शेर सिंह

सेना पुलिस कोर

266	जेसी 818383	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सूबे सिंह
-----	-------------	----	-------------------------------	-----------

सेना डाक सेवा

267	जेसी 834087	ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	घनशाम गुलेरिया
-----	-------------	---	-------------------------------	----------------

रक्षा सुरक्षा कोर

268	जेसी 841307	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दिल बहादुर एस थापा
-----	-------------	----	--------------------------	--------------------

269	जेसी 841226	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कनक कुमार सेकिआ
270	जेसी 841295	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कुंदन सिंह भंडारी
271	जेसी 841338	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	महेन्द्र साह
<b>प्रदेशिक सेना</b>				
272	टिजे 4206	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	घान श्याम
273	टिजे 3513	ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	साधु सिंह
274	टिजे 4382	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	श्रीकांत वालीकर
275	टिजे 3669	एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश प्रसाद पटेल

**अवैतनिक लेफिटनेन्ट के रूप में****राष्ट्रपति अंगरक्षक**

1	जेसी 235030	ए	रिसालदार	बलकार सिंह
<b>8 केवेलरी</b>				
2	जेसी 241531	डब्ल्यू	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह
<b>9 होर्स</b>				
3	जेसी 240103	एल	रिसालदार	बलवंत सिंह
<b>18 केवेलरी</b>				
4	जेसी 238483	डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	सुभाष चन्द्र मलिक
<b>4 होर्स</b>				
5	जेसी 241255	वाइ	रिसालदार	मस्त राम डोगरा
<b>केन्द्रीय भारत अश्व</b>				
6	जेसी 238142	एल	रिसालदार मेजर	जय सिंह
<b>65 आर्मड रेजीमेंट</b>				
7	जेसी 239212	एल	रिसालदार मेजर	राज पाले सिंह
8	जेसी 241494	एन	रिसालदार	ए कुमार सिंह गौतम
<b>71 आर्मड रेजीमेंट</b>				
9	जेसी 241434	वाइ	रिसालदार	किशोर लाल
<b>72 आर्मड रेजीमेंट</b>				
10	जेसी 240864	डब्ल्यू	रिसालदार	फकीर चन्द
<b>81 आर्मड रेजीमेंट</b>				
11	जेसी 239493	एम	रिसालदार मेजर	राम भरोसी वर्मा

84 आर्मड रेजीमेंट

12 जेसी 239063 एच रिसालदार मेजर भजन सिंह  
90 आर्मड रेजीमेंट

13 जेसी 242140 एक्स रिसालदार सत्येन्द्र मिश्रा  
41 आर्मड रेजीमेंट

14 जेसी 241935 वाइ रिसालदार मोहन लाल  
42 आर्मड रेजीमेंट

15 जेसी 237859 ए रिसालदार मेजर भुपिन्द्र कुमार  
43 आर्मड रेजीमेंट

16 जेसी 241876 एक्स रिसालदार राम नगीना पाल  
46 आर्मड रेजीमेंट

17 जेसी 241770 एल रिसालदार राजीव लोचन पांडे  
49 आर्मड रेजीमेंट

18 जेसी 241352 डब्ल्यू रिसालदार अशरैल बाड़ा  
6 आर्मड रेजीमेंट

19 जेसी 241905 एफ रिसालदार मिथलेश कुमार तिवारी  
20 जेसी 241966 वाइ रिसालदार सनातन डेका  
21 जेसी 241347 एल रिसालदार वाइ जादुमनी सिंह

11 आर्मड रेजीमेंट

22 जेसी 239823 ए रिसालदार छोटे लाल  
23 जेसी 237767 एन रिसालदार राकेश कुमार शर्मा

13 आर्मड रेजीमेंट

24 जेसी 238907 एफ रिसालदार शिव प्रताप सिंह चौहान  
आर्मड कोर

25 जेसी 237429 डब्ल्यू रिसालदार मेजर जय पाल सिंह  
26 जेसी 237270 डब्ल्यू रिसालदार मेजर सुबाष चंद्र चौधरी  
27 जेसी 237496 एफ रिसालदार मेजर वी ससिधरन पिल्लई  
28 जेसी 170655 वाइ रिसालदार मोहम्मद वसीम खान  
29 जेसी 241622 ए रिसालदार योहानन थामस

आर टी

आर्टिलरी रेजीमेंट

30 जेसी 261228 डब्ल्यू सुबेदार मेजर बांस बहादुर सिंह  
31 जेसी 261150 डब्ल्यू सुबेदार मेजर भूपाल सिंह  
32 जेसी 261665 डब्ल्यू सुबेदार मेजर छेदी लाल

33	जेसी 256236	एल	सुबेदार मेजर	दया राम	
34	जेसी 256404	वाइ	सुबेदार मेजर	गजराज सिंह	
35	जेसी 137665	एच	सुबेदार मेजर	गिरिराज प्रसाद उपाध्याय	आर टी
36	जेसी 257492	एम	सुबेदार मेजर	गोविंद प्रसाद	
37	जेसी 256578	वाइ	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	
38	जेसी 258342	एच	सुबेदार मेजर	गुरमेल सिंह	
39	जेसी 258447	एम	सुबेदार मेजर	हरी प्रेम	
40	जेसी 259288	एम	सुबेदार मेजर	हृदय नारायण	
41	जेसी 256452	वाइ	सुबेदार मेजर	जनार्दन पी	
42	जेसी 256174	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह वर्मा	
43	जेसी 226254	वाइ	सुबेदार मेजर	कदम शिवाजी रामचंद्र	
44	जेसी 256175	वाइ	सुबेदार मेजर	लक्ष्मी कांत तिवारी	
45	जेसी 127131	के	सुबेदार मेजर	मधुसूदन प्रसाद पांडे	आर टी
46	जेसी 256821	एल	सुबेदार मेजर	मोहन राव डी.	
47	जेसी 260280	एम	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह	
48	जेसी 256872	वाइ	सुबेदार मेजर	निरपाल सिंह	
49	जेसी 257109	एच	सुबेदार मेजर	राज कुमार	
50	जेसी 256557	एच	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द	
51	जेसी 257961	के	सुबेदार मेजर	राम निवास	
52	जेसी 257326	वाइ	सुबेदार मेजर	रणधीर सिंह	
53	जेसी 255961	एल	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र सिंह धीमान	
54	जेसी 258610	एफ	सुबेदार मेजर	रिछपाल सिंह	
55	जेसी 256472	एम	सुबेदार मेजर	सुभाष चन्द	
56	जेसी 267928	ए	सुबेदार	ए मैरी मुथु	
57	जेसी 270444	एल	सुबेदार	अमर सिंह	
58	जेसी 269409	डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार	
59	जेसी 264968	एल	सुबेदार	अवतार सिंह	
60	जेसी 267444	ए	सुबेदार	बक्शीश सिंह	
61	जेसी 269278	डब्ल्यू	सुबेदार	बसवन्त	
62	जेसी 269930	डब्ल्यू	सुबेदार	बासुदेव महाकुर	
63	जेसी 267374	एम	सुबेदार	भास्कर नन्द लोहनी	
64	जेसी 269412	डब्ल्यू	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	
65	जेसी 265601	एच	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह, एसएम	
66	जेसी 269129	एच	सुबेदार	बीरी सिंह	
67	जेसी 259620	एक्स	सुबेदार	चमन प्रकाश	
68	जेसी 265360	एन	सुबेदार	चमकौर सिंह	
69	जेसी 267364	एच	सुबेदार	चंद्रा सिंह चौहान	
70	जेसी 269592	के	सुबेदार	छेबरोलू जसूवा	
71	जेसी 266802	एन	सुबेदार	दलीप सिंह	

72	जेसी 267589	एल	सुबेदार	दरयाई लाल
73	जेसी 267127	वाइ	सुबेदार	दशरथ सिंह
74	जेसी 266940	पी	सुबेदार	देव राज मौर्या
75	जेसी 264974	के	सुबेदार	धनंजय कुमार पांडे
76	जेसी 264726	एन-	सुबेदार	धर्म वीर
77	जेसी 267591	एच	सुबेदार	गुना मनी सिंघा
78	जेसी 265886	ए	सुबेदार	हरदान राम
79	जेसी 267814	पी	सुबेदार	हरी शंकर
80	जेसी 266389	एच	सुबेदार	हरीश चंद्रा यादव
81	जेसी 268631	एल	सुबेदार	हेमंत कुमार
82	जेसी 270027	वाइ	सुबेदार	जिरमल सिंह
83	जेसी 262747	एल	सुबेदार	जिरगे काशिनाथ अपाया
84	जेसी 267131	एफ	सुबेदार	करुणा करन पी
85	जेसी 269957	एन	सुबेदार	खजान सिंह
86	जेसी 269255	पी	सुबेदार	लखविन्दर सिंह
87	जेसी 269751	डब्ल्यू	सुबेदार	लाल सिंह
88	जेसी 266445	डब्ल्यू	सुबेदार	महावीर सिंह
89	जेसी 266977	डब्ल्यू	सुबेदार	मजीद ए
90	जेसी 269228	एल	सुबेदार	मृदुल चंद्रा फुकन
91	जेसी 268584	वाइ	सुबेदार	नारायण दत्त
92	जेसी 267365	एल	सुबेदार	नरेंदर सिंह यादव
93	जेसी 263229	एक्स	सुबेदार	एन कानन्न
94	जेसी 269438	एल	सुबेदार	प्रमोद सिंह
95	जेसी 268895	एम	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह
96	जेसी 269730	ए	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
97	जेसी 267191	डब्ल्यू	सुबेदार	राजवीर सिंह चौहान
98	जेसी 261834	एम	सुबेदार	रामाचन्दीरन टी
99	जेसी 265684	वाइ	सुबेदार	रामचन्द्रन पीपी
100	जेसी 267880	एक्स	सुबेदार	रामबीर सिंह चाहर
101	जेसी 267436	एफ	सुबेदार	राम चंद्र
102	जेसी 266986	एक्स	सुबेदार	राम नरेश सिंह भदोरिया
103	जेसी 268156	ए	सुबेदार	राम प्रसाद मिश्रा
104	जेसी 266636	एल	सुबेदार	आर दुरई राज
105	जेसी 266555	एल	सुबेदार	साही राम
106	जेसी 264887	डब्ल्यू	सुबेदार	सालुंके शाम रामचंद्र
107	जेसी 266304	एफ	सुबेदार	सतीश कुमार पांडे
108	जेसी 267468	के	सुबेदार	सतनाम सिंह
109	जेसी 269589	के	सुबेदार	सीते कुमार राना
110	जेसी 261249	एम	सुबेदार	शार्दूल सिंह

111	जेसी 266332	एन	सुबेदार	शोभा सिंह
112	जेसी 268664	डब्ल्यू	सुबेदार	सोमवीर सिंह
113	जेसी 265971	एच	सुबेदार	सुरेश चंद्रा ओझा
114	जेसी 267491	एक्स	सुबेदार	तरसेम सिंह
115	जेसी 263722	एल	सुबेदार	धामस योहानन
116	जेसी 269761	ए	सुबेदार	उल्लाहन्लान पीजे
117	जेसी 267416	एन	सुबेदार	उत्तातम सिंह
118	जेसी 266392	एच	सुबेदार	वी वी मदन मोहन
119	जेसी 267808	एफ	सुबेदार	विजय पाल सिंह
120	जेसी 266697	एच	सुबेदार	याद राम

सेना वायू सुरक्षा

121	जेसी 296273	एफ	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह नुगखाल
122	जेसी 296356	एम	सुबेदार मेजर	धर्म पाल
123	जेसी 297100	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	निर्मल सिंह
124	जेसी 296943	एक्स	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण प्रसाद
125	जेसी 296848	एल	सुबेदार मेजर	निमलेश कुमार
126	जेसी 299064	पी	सुबेदार	ब्रंजदर सिंह
127	जेसी 298967	ए	सुबेदार	हासन बेग
128	जेसी 298452	ए	सुबेदार	जगन्ना नारायण
129	जेसी 299046	एम	सुबेदार	लालाराम यादवा
130	जेसी 299043	वाइ	सुबेदार	लांडेगे अशोक मानिकराव
131	जेसी 298415	एम	सुबेदार	महेंद्र सिंह यादव
132	जेसी 297662	एन	सुबेदार	मनी राम
133	जेसी 298905	ए	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह
134	जेसी 298048	एल	सुबेदार	ओम प्रकाश हरिजन
135	जेसी 297802	पी	सुबेदार	ओसफ चेरिअन
136	जेसी 298196	डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार
137	जेसी 298723	एम	सुबेदार	सत्य पाल
138	जेसी 297586	एम	सुबेदार	एस्आईवी सिंह
139	जेसी 298449	ए	सुबेदार	सिगमानी एम
140	जेसी 299202	एल	सुबेदार	सूबे सिंह
141	जेसी 298576	पी	सुबेदार	सुरेश बहादुर सिंह
142	जेसी 297853	एच	सुबेदार	सुरेश कुमार
143	जेसी 297402	एच	सुबेदार	योगेन्द्रा कुमार

मद्रास इंजीनियर समूह

144	जेसी 305732	वाइ	सुबेदार मेजर	छिगुरुपती एसके. प्रसाद
145	जेसी 305817	पी	सुबेदार मेजर	एम पशुपथि

146	जेसी 305729	वाइ	सुबेदार	मेजर	एम सेकारन
147	जेसी 305756	एच	सुबेदार	मेजर	आर कनिकाराज
148	जेसी 305725	एच	सुबेदार	मेजर	श्रीनिवास छिबईयम
149	जेसी 307791	के	सुबेदार		बाबू एन
150	जेसी 308397	एल	सुबेदार		बी के.ए
151	जेसी 307886	के	सुबेदार		सी कुप्पूसामी
152	जेसी 307544	डब्ल्यू	सुबेदार		सी सुब्रमण्यन
153	जेसी 307803	एन	सुबेदार		सी वेन्गल रेडी
154	जेसी 308003	एफ	सुबेदार		गजेन्दिरन के
155	जेसी 307790	एफ	सुबेदार		जी. जयबालन
156	जेसी 308010	एक्स	सुबेदार		गोपालन पुथान वेलिल
157	जेसी 306878	वाइ	सुबेदार		गोपाल थोमबरे
158	जेसी 307810	एम	सुबेदार		ग्रीसन नाबर आर
159	जेसी 307873	एम	सुबेदार		हरिदासन एम
160	जेसी 307440	पी	सुबेदार		कृष्णान कुट्टी छेत्तयारनटी
161	जेसी 307674	वाइ	सुबेदार		के वी रविचंद्रन
162	जेसी 307458	एल	सुबेदार		मनोज कुमार पी
163	जेसी 308022	एम	सुबेदार		मरकू जी.
164	जेसी 307308	पी	सुबेदार		मेथ्यू के टी
165	जेसी 307270	डब्ल्यू	सुबेदार		एम सीतूपथी
166	जेसी 307252	एन	सुबेदार		प्रकासन यू
167	जेसी 307289	पी	सुबेदार		राधाकृष्ण पीपी
168	जेसी 307781	ए	सुबेदार		रवीन्द्रन कोलाती के
169	जेसी 307417	एफ	सुबेदार		रविन्द्रन एके.
170	जेसी 307908	एक्स	सुबेदार		रोनांकी छानछान्ना
171	जेसी 307799	डब्ल्यू	सुबेदार		सहदेवन कनियाल
172	जेसी 307789	एम	सुबेदार		ससिनदरन ए
173	जेसी 308076	एन	सुबेदार		सुकुमारन नायर पी
174	जेसी 307802	एल	सुबेदार		टी राजेन्धिरन

**बंगाल इंजीनियर समूह**

175	जेसी 328278	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	अरूप कुमार जी.ओएन
176	जेसी 325608	वाइ	सुबेदार	मेजर	भूरा
177	जेसी 327099	के	सुबेदार	मेजर	धन बहादुर बुरा
178	जेसी 328349	एम	सुबेदार	मेजर	जितेन्द्र कुमार सिंह
179	जेसी 326525	ए	सुबेदार	मेजर	कृष्णा बहादुर यादव
180	जेसी 327162	एन	सुबेदार	मेजर	लक्ष्मणा पलाइ
181	जेसी 328166	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	नरयन सिंह अधिकारी
182	जेसी 327310	एन	सुबेदार	मेजर	प्रकाश सिंह



183	जेसी 327350	पी	सुबेदार मेजर	रछपाल सिंह जग्गी
184	जेसी 328029	एक्स	सुबेदार मेजर	साहिब सिंह
185	जेसी 326401	एल	सुबेदार मेजर	एस अलागर छात्री
186	जेसी 325314	के	सुबेदार मेजर	सरूप सिंह
187	जेसी 325541	एल	सुबेदार मेजर	सुभाष प्रसाद कुशवाहा
188	जेसी 329263	ए	सुबेदार	अमूल्य बर्मन
189	जेसी 329108	वाइ	सुबेदार	अवधेश कुमार सिंह
190	जेसी 328386	ए	सुबेदार	दलीप सिंह
191	जेसी 326477	एल	सुबेदार	ध्रुव कुमार सिंह
192	जेसी 329527	डब्ल्यू	सुबेदार	दीन दयाल
193	जेसी 329231	एक्स	सुबेदार	गिरीस चंद्र पलारिया
194	जेसी 328746	एल	सुबेदार	गोपाल हज़ारिका
195	जेसी 329074	डब्ल्यू	सुबेदार	गौरांग मिश्रा
196	जेसी 329212	एम	सुबेदार	गुरबचन सिंह
197	जेसी 329243	एम	सुबेदार	जय प्रकाश
198	जेसी 329060	डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
199	जेसी 329209	एम	सुबेदार	कमला सिंह
200	जेसी 329254	वाइ	सुबेदार	एम राधा रोमन सिंघा
201	जेसी 328727	ए	सुबेदार	महेश चंद्रा जोशी
202	जेसी 329048	पी	सुबेदार	मातबर सिंह
203	जेसी 329063	के	सुबेदार	नंदन सिंह रावत
204	जेसी 329234	एल	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा
205	जेसी 329217	एल	सुबेदार	राजेन्द्र सिंह यादव
206	जेसी 329340	के	सुबेदार	राजेंद्र सिंह
207	जेसी 326663	एफ	सुबेदार	राकेशपाल सिंह
208	जेसी 329350	एन	सुबेदार	रमेश चंद्र शर्मा
209	जेसी 329214	एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह
210	जेसी 329208	के	सुबेदार	शुभाष सिंह
211	जेसी 329360	एक्स	सुबेदार	सीतल सिंह
212	जेसी 328580	पी	सुबेदार	विजय कुमार

**बोम्बे इंजीनियर समूह**

213	जेसी 348009	एल	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह
214	जेसी 348288	एफ	सुबेदार मेजर	दयाराम यादव
215	जेसी 348178	एम	सुबेदार मेजर	देसे प्रकाश विनायक राव
216	जेसी 347501	के	सुबेदार मेजर	जुगल किशोर गुप्ता
217	जेसी 349042	पी	सुबेदार मेजर	मंगल सिंह
218	जेसी 348607	एच	सुबेदार मेजर	पाटिल किरन कुमार
219	जेसी 348366	एन	सुबेदार मेजर	राजेश बहादुर सिंह

220	जेसी 348046	वाइ	सुबेदार मेजर	राम किशन सैनी
221	जेसी 347395	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रेशम सिंह
222	जेसी 347347	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतनाम चन्द कम्बोज
223	जेसी 348421	वाइ	सुबेदार मेजर	त्रिवेनी राय
224	जेसी 349302	पी	सुबेदार	अब्दुल कईयोम
225	जेसी 349839	एन	सुबेदार	बक्शीश सिंह, एससी
226	जेसी 349769	ए	सुबेदार	बुंदे अली खान
227	जेसी 348506	पी	सुबेदार	जी. मालू काम्बले
228	जेसी 349767	पी	सुबेदार	गुरमेल सिंह
229	जेसी 350351	के	सुबेदार	हरबंस सिंह
230	जेसी 349577	एच	सुबेदार	कलीमुल्ला शाही
231	जेसी 348721	ए	सुबेदार	केहर सिंह
232	जेसी 349574	पी	सुबेदार	कुन्दालिक वातु अगाशे
233	जेसी 349603	वाइ	सुबेदार	लाल सिंह
234	जेसी 349206	ए	सुबेदार	मलकियत सिंह
235	जेसी 349261	डब्ल्यू	सुबेदार	मनजीत सिंह भाटी
236	जेसी 349768	एक्स	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
237	जेसी 349736	पी	सुबेदार	निर्मल सिंह
238	जेसी 349282	एम	सुबेदार	रमेश सिंह
239	जेसी 349407	वाइ	सुबेदार	शंख दिलावर
240	जेसी 349738	ए	सुबेदार	सरदुल सिंह
241	जेसी 349831	एफ	सुबेदार	सतवीन्द्र सिंह
242	जेसी 349275	डब्ल्यू	सुबेदार	शमशेर सिंह
243	जेसी 349233	के	सुबेदार	श्री वाली मोहम्मद
244	जेसी 349628	एल	सुबेदार	सुखवीर सिंह
245	जेसी 349733	एफ	सुबेदार	वीजेन्द्र

सिग्नल्स कोर

246	जेसी 368821	एम	सुबेदार मेजर	गोरी शंकर धर दुबे
247	जेसी 367265	पी	सुबेदार मेजर	गूलप्पा केम्पालिन्गान्नावार
248	जेसी 370139	एन	सुबेदार मेजर	हजारी लाल
249	जेसी 370705	एच	सुबेदार मेजर	हरी शंकर प्रसाद
250	जेसी 367264	एम	सुबेदार मेजर	इश्वर दास
251	जेसी 370743	वाइ	सुबेदार मेजर	के सिंह
252	जेसी 368514	पी	सुबेदार मेजर	खीमा राम बिश्नोई
253	जेसी 370830	एम	सुबेदार मेजर	कुमार निरंजन
254	जेसी 370708	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुमेदन सिंह
255	जेसी 370826	के	सुबेदार मेजर	लीलू राम
256	जेसी 370703	एक्स	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश

257	जेसी 370721	ए	सुबेदार मेजर	राजेंद्र पांडे
258	जेसी 370735	ए	सुबेदार मेजर	राम बहादुर सिंह
259	जेसी 370076	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	समीर कुमार पाल
260	जेसी 368795	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतीश चंद्रा जोशी
261	जेसी 370725	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण
262	जेसी 374568	एम	सुबेदार	अखिलेश कुमार
263	जेसी 376218	वाइ	सुबेदार	अरविंद सिंह
264	जेसी 372933	के	सुबेदार	अशोक सिंह
265	जेसी 368734	वाइ	सुबेदार	बलवान सिंह
266	जेसी 374740	एच	सुबेदार	बंसीधर ओझा
267	जेसी 375584	डब्ल्यू	सुबेदार	बिजन बिहारी नाथ
268	जेसी 373569	एच	सुबेदार	बी उथिरा कुमार
269	जेसी 374370	एन	सुबेदार	दलीप सिंह ठाकुर
270	जेसी 373167	एल	सुबेदार	देव कुमार सिंह
271	जेसी 376069	डब्ल्यू	सुबेदार	फत्ता राम भाकर
272	जेसी 374272	एन	सुबेदार	गायकवाड विथोवा नारायण
273	जेसी 375507	एफ	सुबेदार	हरबंस सिंह
274	जेसी 374276	के	सुबेदार	जगेश्वर ठाकुर
275	जेसी 372315	वाइ	सुबेदार	कान्धीलाल कोस्ता
276	जेसी 373566	पी	सुबेदार	कान्हा राम
277	जेसी 374341	वाइ	सुबेदार	कृष्णन कुमार
278	जेसी 374379	एच	सुबेदार	कृष्णा दास के
279	जेसी 374808	वाइ	सुबेदार	महेन्दर सिंह
280	जेसी 375555	एफ	सुबेदार	नेम सिंह
281	जेसी 372591	एफ	सुबेदार	ओमबीर सिंह
282	जेसी 374165	एम	सुबेदार	पी कुमार
283	जेसी 373240	वाइ	सुबेदार	राधे श्याम
284	जेसी 373567	एक्स	सुबेदार	रघुबीर सिंह
285	जेसी 375534	एल	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद
286	जेसी 374468	एफ	सुबेदार	राजिन्दर कुमार
287	जेसी 370911	एम	सुबेदार	राम निवास
288	जेसी 375578	एच	सुबेदार	साल्वे सुरेश दोलत
289	जेसी 373971	एम	सुबेदार	सरदार सिंह
290	जेसी 375050	एल	सुबेदार	सतबीर
291	जेसी 373956	एक्स	सुबेदार	सत्यबीर सिंह
292	जेसी 374194	एफ	सुबेदार	सुच्चा राम
293	जेसी 376238	एम	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार
294	जेसी 376418	पी	सुबेदार	सुरेश सिंह
295	जेसी 371825	एन	सुबेदार	स्वरूप चन्द

296	जेसी 371821	एक्स	सुबेदार	सैयद सोमेर अली
297	जेसी 375798	एम	सुबेदार	टेक चन्द
298	जेसी 372936	एक्स	सुबेदार	तिलक सिंह
299	जेसी 374316	ए	सुबेदार	उमा शंकर शर्मा
300	जेसी 372223	एम	सुबेदार	उमेद सिंह बी
301	जेसी 374534	वाइ	सुबेदार	उत्तातम सिंह
302	जेसी 376433	के	सुबेदार	विजय कुमार
303	जेसी 373486	एक्स	सुबेदार	यशोदा नन्द झा

गार्ड्स

304	जेसी 402328	एन	सुबेदार मेजर	बिरप्पा बी यू
305	जेसी 403631	एफ	सुबेदार	भीम सिंह
306	जेसी 403417	वाइ	सुबेदार	भूपाल चन्द
307	जेसी 403471	एम	सुबेदार	चन्द मोहम्मद
308	जेसी 403188	वाइ	सुबेदार	पृथ्वी सिंह
309	जेसी 403154	एल	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह
310	जेसी 403422	के	सुबेदार	रघुवीर सिंह
311	जेसी 403404	एफ	सुबेदार	राम प्रकाश पण्डित
312	जेसी 403389	एक्स	सुबेदार	श्रीपाल सिंह नेगी
313	जेसी 403465	वाइ	सुबेदार	श्याम सिंह
314	जेसी 403591	एल	सुबेदार	सुरेश कुमार
315	जेसी 403656	एन	सुबेदार	तरसीम लाल
316	जेसी 403609	डब्ल्यू	सुबेदार	उत्तातम सिंह

पैराशूट रेजीमेन्ट

317	जेसी 412312	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चंद्रा सिंह
318	जेसी 412300	एफ	सुबेदार मेजर	डूंगर सिंह बिष्ट
319	जेसी 412272	ए	सुबेदार मेजर	सुदेश कुमार
320	जेसी 412894	एफ	सुबेदार	अलताफ हुसैन
321	जेसी 412362	एफ	सुबेदार	बलकार सिंह
322	जेसी 412873	एल	सुबेदार	दीपक कुमार
323	जेसी 412857	एन	सुबेदार	कैलाश चन्द जाट, एसएम
324	जेसी 412794	डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल
325	जेसी 412836	एक्स	सुबेदार	मंगल सिंह तोमर
326	जेसी 412705	एम	सुबेदार	नरदेव सिंह, एसएम
327	जेसी 412834	एम	सुबेदार	फुल कंवर
328	जेसी 412751	एफ	सुबेदार	राजबीर सिंह
329	जेसी 412670	एफ	सुबेदार	राम किशन
330	जेसी 412896	एम	सुबेदार	रानी दान सिंह

331	जेसी 412865	एम	सुबेदार	संसार चन्द
332	जेसी 412489	के	सुबेदार	सुल्तान सिंह, एसएम
333	जेसी 413032	पी	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह
334	जेसी 412645	एच	सुबेदार	तारा चन्द
335	जेसी 412703	एफ	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह, एसएम

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

336	जेसी 418660	एन	सुबेदार मेजर	करतार सिंह
337	जेसी 418255	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मुख्त्यार सिंह
338	जेसी 418269	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखनिन्दर सिंह
339	जेसी 420670	डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू राम
340	जेसी 419926	एफ	सुबेदार	जगदीश प्रसाद
341	जेसी 419652	एफ	सुबेदार	कर्म सिंह
342	जेसी 419989	के	सुबेदार	कुन्दन लाल
343	जेसी 419477	एक्स	सुबेदार	लांडेगे विष्णु अन्ना
344	जेसी 419709	एल	सुबेदार	नारायणन के
345	जेसी 419267	एक्स	सुबेदार	राम बीर सिंह
346	जेसी 420392	एन	सुबेदार	आर अरिवालागन
347	जेसी 419578	एल	सुबेदार	रतन लाल
348	जेसी 419310	एन	सुबेदार	सिद्ध मुनि पटेल
349	जेसी 418896	एच	सुबेदार	सुमेर सिंह
350	जेसी 420153	वाइ	सुबेदार	सुरजीत सिंह

पंजाब रेजीमेंट

351	जेसी 428566	एक्स	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह राना
352	जेसी 428674	एफ	सुबेदार मेजर	हरभजन सिंह
353	जेसी 428742	के	सुबेदार मेजर	हरी सिंह
354	जेसी 428450	एफ	सुबेदार मेजर	हरप्रकाश सिंह
355	जेसी 428872	एम	सुबेदार मेजर	जरनैल सिंह
356	जेसी 428575	वाइ	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह वर्मा
357	जेसी 428744	पी	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
358	जेसी 429078	एफ	सुबेदार	अमरजीत सिंह
359	जेसी 429692	डब्ल्यू	सुबेदार	बचन लाल
360	जेसी 430246	एफ	सुबेदार	बचन सिंह
361	जेसी 428763	ए	सुबेदार	बलबीर सिंह
362	जेसी 429394	ए	सुबेदार	बलवंत सिंह
363	जेसी 429315	ए	सुबेदार	भगवान सिंह
364	जेसी 429791	वाइ	सुबेदार	भविशन सिंह
365	जेसी 429108	एन	सुबेदार	बूटा सिंह

366	जेसी 429913	वाइ	सुबेदार	दर्शन सिंह
367	जेसी 429706	एल	सुबेदार	दिलबाग सिंह
368	जेसी 429848	एच	सुबेदार	गुलचैन सिंह
369	जेसी 429201	पी	सुबेदार	हरपाल सिंह
370	जेसी 429560	एच	सुबेदार	जय राम
371	जेसी 429256	वाइ	सुबेदार	जसवंत सिंह
372	जेसी 428921	के	सुबेदार	जसविन्दर पौल सिंह
373	जेसी 429354	वाइ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह गिल
374	जेसी 429602	के	सुबेदार	कष्णन लाल
375	जेसी 429426	एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह
376	जेसी 429458	ए	सुबेदार	लखबिन्दर सिंह
377	जेसी 429840	डब्ल्यू	सुबेदार	लेख राज
378	जेसी 429667	एक्स	सुबेदार	माखन सिंह
379	जेसी 429550	वाइ	सुबेदार	मनजीत सिंह, एसएम
380	जेसी 152327	एच	सुबेदार	मोहिन्दर पाल सिंह
381	जेसी 429601	एफ	सुबेदार	ओंकार सिंह
382	जेसी 429452	वाइ	सुबेदार	पदम नाभ
383	जेसी 430068	के	सुबेदार	प्रताप चन्द
384	जेसी 429953	वाइ	सुबेदार	राजिन्दर कुमार
385	जेसी 430057	एक्स	सुबेदार	राज कुमार
386	जेसी 429878	ए	सुबेदार	राम सिंह
387	जेसी 429061	एन	सुबेदार	रणधीर सिंह
388	जेसी 429468	के	सुबेदार	रंजीत सिंह
389	जेसी 429823	डब्ल्यू	सुबेदार	रतन चन्द ठाकुर
390	जेसी 429894	एक्स	सुबेदार	सत पाल
391	जेसी 429745	के	सुबेदार	सत पाल सिंह
392	जेसी 429158	वाइ	सुबेदार	सुरेन सिंह
393	जेसी 430075	ए	सुबेदार	सुरेश कुमार शर्मा
394	जेसी 429858	एम	सुबेदार	यश पाल

आर टी

मद्रास रेजीमेन्ट

395	जेसी 438298	एम	सुबेदार मेजर	जी. मनोगरन.
396	जेसी 438405	एच	सुबेदार मेजर	के एल नायडू
397	जेसी 438134	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कृष्णन सी
398	जेसी 438540	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन एनडी.
399	जेसी 438366	पी	सुबेदार मेजर	एस सीथापथि
400	जेसी 438629	एच	सुबेदार मेजर	टोमी एनजे
401	जेसी 438193	एच	सुबेदार मेजर	टी वासुदेवन
402	जेसी 518918	एल	सुबेदार मेजर	वरधेसे पीजी.

403	जेसी 438736	के	सुबेदार	बेन्नी सांसद
404	जेसी 438873	एच	सुबेदार	दादाला सत्यनारायना
405	जेसी 439242	एम	सुबेदार	डी. जेम्स
406	जेसी 439005	एच	सुबेदार	जानूमपल्ली लक्ष्मन स्वामी
407	जेसी 439348	वाइ	सुबेदार	के कृष्णा कुमार
408	जेसी 438610	के	सुबेदार	मोहानन के एन
409	जेसी 438589	एम	सुबेदार	मुरलीधरन पी
410	जेसी 439442	एच	सुबेदार	नेदुनचेजियान
411	जेसी 439035	ए	सुबेदार	एन पेरुमल स्वामी
412	जेसी 439353	के	सुबेदार	पोथुला मनोहर
413	जेसी 438582	एच	सुबेदार	साने मादूलेती
414	जेसी 438580	एक्स	सुबेदार	शेक जमाल वाली
415	जेसी 438885	एक्स	सुबेदार	सिरसापल्ली अप्पला राजू
416	जेसी 438991	डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश बाबू

ग्रेनेडियर्स

417	जेसी 120475	ए	सुबेदार मेजर	अल्लाह दित्ता भाट	आर टी
418	जेसी 449165	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	
419	जेसी 448864	पी	सुबेदार मेजर	एम एस शेखावत, एसएम	
420	जेसी 448681	वाइ	सुबेदार मेजर	मोहन लाल	
421	जेसी 448924	वाइ	सुबेदार मेजर	मुमताज अली	
422	जेसी 448921	एल	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	
423	जेसी 448741	एच	सुबेदार मेजर	पी लाल	
424	जेसी 448909	के	सुबेदार मेजर	फूल सिंह	
425	जेसी 448912	के	सुबेदार मेजर	रघुराज सिंह	
426	जेसी 448997	एल	सुबेदार मेजर	सत्य पाल सिंह शेखावत	
427	जेसी 449899	एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	
428	जेसी 450212	पी	सुबेदार	अशोक कुमार	
429	जेसी 450054	एल	सुबेदार	बचन लाल	
430	जेसी 449923	एच	सुबेदार	हरी बुक्श	
431	जेसी 449791	ए	सुबेदार	जगबीर सिंह	
432	जेसी 449491	वाइ	सुबेदार	जगदीश चन्द्र डोगरा	
433	जेसी 449958	वाइ	सुबेदार	कमल सिंह	
434	जेसी 449806	एक्स	सुबेदार	मेहारदीन	
435	जेसी 450180	एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह	
436	जेसी 449812	एल	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	
437	जेसी 450028	के	सुबेदार	राम सिंह	
438	जेसी 449955	एल	सुबेदार	रोशन लाल	
439	जेसी 448942	एफ	सुबेदार	रूपलाल	

मराठा लघु सेना

440	जेसी 458145	के	सुबेदार	मेजर	अपासाहेब पवार
441	जेसी 458243	के	सुबेदार	मेजर	धमनेकर पुंदलिक
442	जेसी 458077	एफ	सुबेदार	मेजर	फकीरा एन
443	जेसी 458324	के	सुबेदार	मेजर	गायकवाड एम वामन
444	जेसी 458444	एच	सुबेदार	मेजर	जी. सदासिव मारुति
445	जेसी 458340	एफ	सुबेदार	मेजर	गोपाल न
446	जेसी 528297	एल	सुबेदार	मेजर	जनार्दन सरजीराव पडवाल
447	जेसी 226987	एक्स	सुबेदार	मेजर	राणे विलास वासुदेव
448	जेसी 458800	एक्स	सुबेदार		अर्जुन शामराव पवार
449	जेसी 459249	एक्स	सुबेदार		जाधव मारुति गोविन्द
450	जेसी 459337	एन	सुबेदार		मोहन मलप्पा शिंदे
451	जेसी 458995	एन	सुबेदार		नडफ दास्तागिर एम
452	जेसी 459036	के	सुबेदार		पाटिल मलप्पा माशनू
453	जेसी 458813	पी	सुबेदार		राजेंद्रा रामचंद्र महादिक
454	जेसी 459321	एच	सुबेदार		राम निवास
455	जेसी 459081	डब्ल्यू	सुबेदार		राठोर दन्यानोबा भौराव, एसएम
456	जेसी 459348	ए	सुबेदार		सुरेश हनुमंत महाब्दी

राजपूताना राईफल्स

457	जेसी 468900	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	महेंद्र सिंह
458	जेसी 468378	वाइ	सुबेदार	मेजर	नवल सिंह
459	जेसी 469110	एन	सुबेदार	मेजर	फूल सिंह
460	जेसी 468148	एल	सुबेदार	मेजर	सोलंकी चंदू भाई फुला भाई
461	जेसी 468641	वाइ	सुबेदार	मेजर	सुनायक सिंह, एसएम
462	जेसी 469803	एल	सुबेदार		भागीरथ सिंह
463	जेसी 469607	एल	सुबेदार		बिजेन्दर पाल
464	जेसी 469547	एफ	सुबेदार		चंद्र पाल सिंह
465	जेसी 469599	एक्स	सुबेदार		गजेन्द्र सिंह चौहान
466	जेसी 469624	एल	सुबेदार		काबुल सिंह चौहान
467	जेसी 469596	के	सुबेदार		कैलाश सिंह
468	जेसी 469625	एन	सुबेदार		महेंद्र सिंह
469	जेसी 469694	के	सुबेदार		मोहन सिंह
470	जेसी 469537	एक्स	सुबेदार		राजेंद्रा कुमार सिंह
471	जेसी 469280	एक्स	सुबेदार		राज कुमार राना
472	जेसी 469608	एन	सुबेदार		राजवीर सिंह
473	जेसी 469847	एच	सुबेदार		राम बाबू
474	जेसी 469188	वाइ	सुबेदार		राम कुमार सिंह शेखावत



475	जेसी 469283	एल	सुबेदार	रामवीर सिंह
476	जेसी 469485	एम	सुबेदार	रनबीर सिंह
477	जेसी 469860	एम	सुबेदार	सरजीत सिंह
478	जेसी 469571	एक्स	सुबेदार	सतीश कुमार
479	जेसी 469595	एफ	सुबेदार	सतपाल सिंह
480	जेसी 469575	एन	सुबेदार	सत्य बीर
481	जेसी 468704	डब्ल्यू	सुबेदार	सवाई सिंह
482	जेसी 469627	वाइ	सुबेदार	शरवन सिंह
483	जेसी 469606	एच	सुबेदार	सुमेर सिंह

राजपूत रेजीमेन्ट

484	जेसी 478637	के	सुबेदार मेजर	अमर सिंह चौहान
485	जेसी 478947	पी	सुबेदार मेजर	भोले बहादुर सिंह
486	जेसी 478647	एन	सुबेदार मेजर	दिगविजय सिंह, एसएम
487	जेसी 122084	एन	सुबेदार मेजर	कृष्णा नन्द पाठक आर टी
488	जेसी 478558	पी	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश सिंह
489	जेसी 478370	ए	सुबेदार मेजर	राधे श्याम
490	जेसी 478465	ए	सुबेदार मेजर	राम बक्श सिंह
491	जेसी 478467	एल	सुबेदार मेजर	राम धनी सिंह
492	जेसी 478870	एक्स	सुबेदार	अशोक विश्वास
493	जेसी 479248	डब्ल्यू	सुबेदार	बहोरन सिंह
494	जेसी 479741	के	सुबेदार	बलवान सिंह
495	जेसी 479541	एन	सुबेदार	बीर पाल
496	जेसी 479483	पी	सुबेदार	जगन्मथ
497	जेसी 479481	के	सुबेदार	जहान सिंह
498	जेसी 479417	एम	सुबेदार	कमलेश सिंह
499	जेसी 479391	एच	सुबेदार	ओम प्रकाश
500	जेसी 479846	एन	सुबेदार	राजपाल सिंह
501	जेसी 478900	के	सुबेदार	राजपाल सिंह तनवर
502	जेसी 479448	एम	सुबेदार	राम प्रसाद
503	जेसी 479835	एफ	सुबेदार	राम रतन
504	जेसी 479285	के	सुबेदार	राम शरण सिंह
505	जेसी 479806	एम	सुबेदार	समय सिंह गूजर
506	जेसी 479487	एल	सुबेदार	सत्य प्रकाश सिंह
507	जेसी 479469	एच	सुबेदार	सत्यवीर
508	जेसी 479540	एल	सुबेदार	शेर सिंह
509	जेसी 479354	पी	सुबेदार	सोने लाल पांडे
510	जेसी 479306	पी	सुबेदार	श्रीकांत सिंह
511	जेसी 479687	एफ	सुबेदार	सुबाष चंद्र, एसएम

512	जेसी 479067	एल	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह
513	जेसी 479616	ए	सुबेदार	तीर्थ पाल सिंह
<u>जाट रेजीमेन्ट</u>				
514	जेसी 488496	एन	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह जाट
515	जेसी 488319	एन	सुबेदार मेजर	ओंकार सिंह
516	जेसी 488332	एक्स	सुबेदार मेजर	सम्मात सिंह
517	जेसी 489905	एच	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह
518	जेसी 489614	एच	सुबेदार	छोटू राम शर्मा
519	जेसी 489539	के	सुबेदार	दलवीर सिंह
520	जेसी 489351	पी	सुबेदार	गोपाल लाल
521	जेसी 489060	पी	सुबेदार	माणे राम
522	जेसी 489480	पी	सुबेदार	रामबीर सिंह
523	जेसी 488867	एल	सुबेदार	रनबीर सिंह
524	जेसी 489518	एन	सुबेदार	एस सिंह
525	जेसी 489644	ए	सुबेदार	सुखवीर सिंह
<u>सिख रेजीमेन्ट</u>				
526	जेसी 498523	ए	सुबेदार मेजर	अछार सिंह
527	जेसी 498784	एन	सुबेदार मेजर	बलजीत सिंह
528	जेसी 498391	एक्स	सुबेदार मेजर	भजन सिंह
529	जेसी 498153	एल	सुबेदार मेजर	ध्यान सिंह
530	जेसी 498528	वाइ	सुबेदार मेजर	जसवीर सिंह
531	जेसी 498227	पी	सुबेदार मेजर	जसवंत सिंह
532	जेसी 498070	ए	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह
533	जेसी 498426	एच	सुबेदार मेजर	मुख्त्यार सिंह
534	जेसी 499294	एम	सुबेदार	बलकार सिंह
535	जेसी 498931	एल	सुबेदार	दर्शन सिंह
536	जेसी 498751	एच	सुबेदार	दिलबाग सिंह
537	जेसी 498855	के	सुबेदार	गुरपाल सिंह
538	जेसी 499095	वाइ	सुबेदार	हरभजन सिंह
539	जेसी 498955	पी	सुबेदार	जगजीत सिंह
540	जेसी 499109	एन	सुबेदार	जरनैल सिंह
541	जेसी 499298	एच	सुबेदार	जरनैल सिंह
542	जेसी 498818	डब्ल्यू	सुबेदार	लखविन्दर सिंह
543	जेसी 498850	एल	सुबेदार	मेवा सिंह
544	जेसी 499091	एच	सुबेदार	प्रकाश सिंह
545	जेसी 499074	एच	सुबेदार	प्रमोद सिंह
546	जेसी 498946	एन	सुबेदार	संतोख सिंह

547	जेसी 498789	एण	सुबेदार	श्रवण सिंह
548	जेसी 498858	एक्स	सुबेदार	सुच्चा सिंह
549	जेसी 499187	एल	सुबेदार	सुरजीत सिंह
550	जेसी 498901	एन	सुबेदार	सुरजीत सिंह
551	जेसी 499036	एम	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह

सिख लघु पैदल सेना

552	जेसी 508357	एन	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह	
553	जेसी 508539	एफ	सुबेदार मेजर	भुपिन्द्र सिंह	
554	जेसी 508170	एफ	सुबेदार मेजर	चन्द सिंह	
555	जेसी 508305	एक्स	सुबेदार मेजर	देव राज सिंह	
556	जेसी 140407	एन	सुबेदार मेजर	गुरबख्श सिंह	आर टी
557	जेसी 508678	एल	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	
558	जेसी 558217	एक्स	सुबेदार मेजर	लक्खा सिंह	
559	जेसी 226898	वाइ	सुबेदार मेजर	परमजीत सिंह	
560	जेसी 508421	ए	सुबेदार मेजर	सख्यवीर सिंह	
561	जेसी 508231	एन	सुबेदार मेजर	वीर सिंह	
562	जेसी 509059	के	सुबेदार	गुलजार सिंह	
563	जेसी 509027	एफ	सुबेदार	गुरदयाल सिंह	
564	जेसी 509207	के	सुबेदार	गुरमुख सिंह	
565	जेसी 508824	ए	सुबेदार	जगदेव सिंह	
566	जेसी 508809	एल	सुबेदार	जरनैल सिंह	
567	जेसी 508968	एच	सुबेदार	जसमेल सिंह	
568	जेसी 509004	ए	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	
569	जेसी 508869	ए	सुबेदार	सिंगारा सिंह	
570	जेसी 508929	के	सुबेदार	सुखपाल सिंह	
571	जेसी 509099	एल	सुबेदार	सूरत सिंह	

डोगरा रेजीमेन्ट

572	जेसी 519230	एल	सुबेदार मेजर	अशवनी कुमार शर्मा
573	जेसी 518655	एक्स	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह
574	जेसी 519248	एफ	सुबेदार मेजर	हरबंस लाल
575	जेसी 519228	एल	सुबेदार मेजर	जगदीश चन्द
576	जेसी 519329	एफ	सुबेदार मेजर	कृष्णन लाल वर्मा
577	जेसी 519425	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मिलाप चन्द बरवाल
578	जेसी 519133	एन	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह बिब
579	जेसी 518956	एफ	सुबेदार मेजर	शमशेर सिंह
580	जेसी 519292	एल	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्र
581	जेसी 520036	एच	सुबेदार	अवतार सिंह

582	जेसी 519911	एन	सुबेदार	गनेश सञ्ज जसवाल
583	जेसी 519965	पी	सुबेदार	हर्षोत्तम लाल
584	जेसी 519961	वाइ	सुबेदार	होमिच्यार सिंह
585	जेसी 519931	एफ	सुबेदार	कर्म चन्द
586	जेसी 519943	डब्ल्यू	सुबेदार	करतार सिंह
587	जेसी 520074	वाइ	सुबेदार	कवींद्र सिंह
588	जेसी 519883	एम	सुबेदार	मदन लाल सम्पोलिया
589	जेसी 520073	डब्ल्यू	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
590	जेसी 520623	एन	सुबेदार	निर्मल सिंह, एससी, एसएम
591	जेसी 519913	वाइ	सुबेदार	प्रीतम सिंह
592	जेसी 519984	ए	सुबेदार	रछपाल सिंह
593	जेसी 519858	एन	सुबेदार	रघबीर सिंह
594	जेसी 519902	एम	सुबेदार	रघुबीर सिंह
595	जेसी 519881	एफ	सुबेदार	राजीव सिंह
596	जेसी 520052	ए	सुबेदार	राम सिंह ठाकुर
597	जेसी 519966	एक्स	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह
598	जेसी 519878	एफ	सुबेदार	ऋषि कुमार
599	जेसी 519836	पी	सुबेदार	सुबाष चन्द
600	जेसी 519914	एफ	सुबेदार	टेक चन्द

गढ़वाल राईफल्स

601	जेसी 529125	एच	सुबेदार मेजर	बुधी बल्लभ जोशी
602	जेसी 528039	एक्स	सुबेदार मेजर	चत्तर सिंह
603	जेसी 528716	एक्स	सुबेदार मेजर	हुकम सिंह
604	जेसी 529079	वाइ	सुबेदार मेजर	महाबीर सिंह
605	जेसी 528822	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
606	जेसी 528526	एल	सुबेदार मेजर	उमा नन्द बलोदी
607	जेसी 529909	ए	सुबेदार	दबेल सिंह, एसएम
608	जेसी 529608	ए	सुबेदार	धनी लाल
609	जेसी 529790	एल	सुबेदार	जगदीश सिंह, एसएम
610	जेसी 530174	एक्स	सुबेदार	जोत सिंह
611	जेसी 529583	वाइ	सुबेदार	खुसल सिंह, एसएम
612	जेसी 529696	एफ	सुबेदार	कुशल नन्द
613	जेसी 529536	एफ	सुबेदार	महाबीर सिंह
614	जेसी 529814	के	सुबेदार	महेशा नन्द
615	जेसी 530089	पी	सुबेदार	मटवर सिंह
616	जेसी 529538	एम	सुबेदार	प्रताप सिंह रावत
617	जेसी 529629	डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम सिंह
618	जेसी 529481	एच	सुबेदार	पुशकर सिंह

619	जेसी 529589	ए	सुबेदार	राकेश चन्द
620	जेसी 530001	ए	सुबेदार	रमेश चंद्रा
621	जेसी 529720	एम	सुबेदार	सत्येन्द्र सिंह बिष्ट
622	जेसी 529607	एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह
623	जेसी 529742	एल	सुबेदार	उमेश चंद्र
624	जेसी 529634	एफ	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह

कुर्माँउ रेजीमेन्ट

625	जेसी 539003	एम	सुबेदार मेजर	हरी चन्द
626	जेसी 538613	एम	सुबेदार मेजर	राम सिंह
627	जेसी 539782	ए	सुबेदार	आनंद सिंह
628	जेसी 539756	वाइ	सुबेदार	अतर सिंह
629	जेसी 599786	एल	सुबेदार	भीम सिंह
630	जेसी 539339	एम	सुबेदार	भोपाल राम
631	जेसी 539660	वाइ	सुबेदार	भूवन चंद्रा कपारी
632	जेसी 539849	एन	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह कंवल
633	जेसी 599680	के	सुबेदार	दया नन्द यादव
634	जेसी 539208	एफ	सुबेदार	दीवान सिंह
635	जेसी 539214	पी	सुबेदार	गंगा सिंह
636	जेसी 539603	पी	सुबेदार	हरी नंदन भट्ट
637	जेसी 539606	एच	सुबेदार	हयात सिंह राना
638	जेसी 539696	एम	सुबेदार	जोखन यादव
639	जेसी 539537	एक्स	सुबेदार	करन सिंह
640	जेसी 539495	डब्ल्यू	सुबेदार	खड़क सिंह
641	जेसी 540038	पी	सुबेदार	खुशाल सिंह
642	जेसी 539802	एच	सुबेदार	किशन सिंह
643	जेसी 539101	एम	सुबेदार	कुंदन सिंह
644	जेसी 539443	ए	सुबेदार	कुंवर सिंह
645	जेसी 539166	ए	सुबेदार	मदन लाल
646	जेसी 539546	वाइ	सुबेदार	मनोहर सिंह पुजारी
647	जेसी 539758	के	सुबेदार	नंदा बल्लभ
648	जेसी 539436	के	सुबेदार	नंदन सिंह
649	जेसी 539314	ए	सुबेदार	पदम सिंह
650	जेसी 539506	एक्स	सुबेदार	प्रहलाद सिंह
651	जेसी 538257	एक्स	सुबेदार	प्रमोद चंद्रा
652	जेसी 539209	के	सुबेदार	प्रेम सिंह
653	जेसी 539332	एच	सुबेदार	पृथ्वी पाल
654	जेसी 539406	एम	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
655	जेसी 539468	एम	सुबेदार	राजेन्द्रा गिरि

656	जेसी 539980	एल	सुबेदार	राज कुमार
657	जेसी 539967	एफ	सुबेदार	राम दास
658	जेसी 539196	एक्स	सुबेदार	रमेश चंद्र
659	जेसी 539933	एन	सुबेदार	त्रिलोक सिंह, एसएम

**आसाम रेजीमेन्ट**

660	जेसी 548391	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दिल बहादुर थापा, केसी
661	जेसी 548139	एक्स	सुबेदार मेजर	इन्द्रा कुमार सिंघा
662	जेसी 548449	एच	सुबेदार मेजर	लामा दीपक प्रतापशिरिन्ग
663	जेसी 548208	एच	सुबेदार मेजर	सहदेव घोष
664	जेसी 549047	एक्स	सुबेदार	एकेन्द्रा सिंघा
665	जेसी 549193	एक्स	सुबेदार	एच एल जेहु अमल
666	जेसी 548968	एल	सुबेदार	कैयखानलियान सिमते
667	जेसी 548841	एच	सुबेदार	खोगेन्द्रा सिंघा, एसएम
668	जेसी 549032	पी	सुबेदार	एल दरलॉंग
669	जेसी 549052	एच	सुबेदार	मान बहादुर थापा
670	जेसी 548960	वाइ	सुबेदार	मान बहादुर थापा
671	जेसी 548705	एम	सुबेदार	सिद्धि राम दास
672	जेसी 548992	एफ	सुबेदार	सुबल सिन्हा
673	जेसी 549162	एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार सिन्हा
674	जेसी 549063	पी	सुबेदार	टी लालसंगमाविया
675	जेसी 549012	एफ	सुबेदार	उत्तातम च. दास

**बिहार रेजीमेन्ट**

676	जेसी 558362	पी	सुबेदार मेजर	दिनेश नाथ झा
677	जेसी 558349	एफ	सुबेदार मेजर	राम सुरेश राय
678	जेसी 558708	एन	सुबेदार मेजर	तारकेशवर पांडे
679	जेसी 559574	एम	सुबेदार	बिहारी तिवारी
680	जेसी 559428	एम	सुबेदार	बिजुअल लकरा
681	जेसी 558770	ए	सुबेदार	बीरेन कुमार बिस्वाल
682	जेसी 559350	एम	सुबेदार	धरेन्धर साहू
683	जेसी 559185	एम	सुबेदार	नाबा किशोर स्वेन
684	जेसी 559641	एम	सुबेदार	नवल किशोर सिंह
685	जेसी 559233	एफ	सुबेदार	राधा मोहन सिंह
686	जेसी 559375	वाइ	सुबेदार	राजेंद्रा राय
687	जेसी 559296	के	सुबेदार	राज कुमार सिंह
688	जेसी 559344	एन	सुबेदार	राज नाथ सिंह
689	जेसी 559683	वाइ	सुबेदार	रवि कांत राय
690	जेसी 559508	के	सुबेदार	सैलेश कुमार सिंह

691	जेसी 589107	पी	सुबेदार	श्री राम सिंह
692	जेसी 589372	एल	सुबेदार	सुकुब्बा ओरान
<b>बिहार रेजीमेन्ट</b>				
693	जेसी 568341	एम	सुबेदार मेजर	अजयपाल सिंह
694	जेसी 568435	के	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह
695	जेसी 568305	एफ	सुबेदार मेजर	बेनेदिक्ट कुजुर
696	जेसी 568474	एफ	सुबेदार मेजर	भीमसव बी हिवराले
697	जेसी 568316	एन	सुबेदार मेजर	बिशन लाल गुज्जर
698	जेसी 568474	एच	सुबेदार मेजर	धवारे अशरू दिगम्बर
699	जेसी 568528	वाइ	सुबेदार मेजर	प्रबीर कुमार मंडल
700	जेसी 568463	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रीतपाल सिंह, एसएम
701	जेसी 568437	पी	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा कुमार
702	जेसी 569072	एक्स	सुबेदार	आनंद सिंह
703	जेसी 569699	एक्स	सुबेदार	बैजनाथ सिंह
704	जेसी 569419	वाइ	सुबेदार	फतेह राम
705	जेसी 568965	वाइ	सुबेदार	हीरा लाल
706	जेसी 569291	वाइ	सुबेदार	जयपाल सिंह
707	जेसी 568968	एम	सुबेदार	कोतवाल सिंह
708	जेसी 569140	ए	सुबेदार	कष्णन चंद्र
709	जेसी 569717	पी	सुबेदार	मुख्य राज
710	जेसी 569186	एच	सुबेदार	नारं सिंह
711	जेसी 569188	एन	सुबेदार	राजिन्दर सिंह धनी
712	जेसी 569294	एम	सुबेदार	राम निवास
713	जेसी 569399	डब्ल्यू	सुबेदार	ऋषि पाल
714	जेसी 569142	एल	सुबेदार	शिव भगवान शर्मा
715	जेसी 569356	एफ	सुबेदार	उदयवीर सिंह
716	जेसी 568899	एफ	सुबेदार	विजेन्द्र सिंह
<b>जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स</b>				
717	जेसी 579091	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह
718	जेसी 579187	वाइ	सुबेदार मेजर	जगदीश सिंह
719	जेसी 579060	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मदन लाल
720	जेसी 579266	एन	सुबेदार मेजर	पवन कुमार
721	जेसी 579337	के	सुबेदार मेजर	रंजीत भाख
722	जेसी 579615	एम	सुबेदार	अली मोहम्मद हजाम
723	जेसी 580272	एन	सुबेदार	अमर सिंह
724	जेसी 580232	एम	सुबेदार	बलबीर सिंह
725	जेसी 579990	एक्स	सुबेदार	बलदेव राज

726	जेसी 579748	एच	सुबेदार	बीरी सिंह
727	जेसी 580171	ए	सुबेदार	चैन सिंह
728	जेसी 579985	एम	सुबेदार	चैत्र सिंह
729	जेसी 579806	एफ	सुबेदार	दर्शन कुमार
730	जेसी 580013	एल	सुबेदार	दीपक कुमार थापा
731	जेसी 579964	डब्ल्यू	सुबेदार	धामेन्द्र
732	जेसी 579982	वाइ	सुबेदार	धम्मन सिंह थापा
733	जेसी 580092	एल	सुबेदार	धरु राम
734	जेसी 579893	ए	सुबेदार	सुरी कृष्णन
735	जेसी 579903	वाइ	सुबेदार	इंद्र सिंह
736	जेसी 579913	एच	सुबेदार	जगदीश चन्द
737	जेसी 579947	डब्ल्यू	सुबेदार	जालम सिंह
738	जेसी 580200	के	सुबेदार	कृष्णन सिंह
739	जेसी 579966	एफ	सुबेदार	कुलवीर सिंह
740	जेसी 579705	एन	सुबेदार	मैन्द लाल आकुर
741	जेसी 579908	एक्स	सुबेदार	नरिंदर सिंह
742	जेसी 579784	एन	सुबेदार	नरिंदर सिंह
743	जेसी 579898	वाइ	सुबेदार	एब चन्द्र कटोच
744	जेसी 580141	एच	सुबेदार	ओम प्रकाश
745	जेसी 579789	एम	सुबेदार	प्रकाश चंद्र
746	जेसी 579991	ए	सुबेदार	प्रेम चन्द्र
747	जेसी 580058	एल	सुबेदार	रघुनाथ सिंह
748	जेसी 580101	एफ	सुबेदार	राज कुमार
749	जेसी 579866	डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चन्द्र
750	जेसी 579706	डब्ल्यू	सुबेदार	राम लाल
751	जेसी 579514	वाइ	सुबेदार	रोमेश लाल
752	जेसी 579745	पी	सुबेदार	संसार चन्द्र
753	जेसी 579909	ए	सुबेदार	सत पाल सिंह
754	जेसी 579338	एम	सुबेदार	सत पौल सिंह, एलएम
755	जेसी 579878	एल	सुबेदार	सत्य पाल
756	जेसी 580350	ए	सुबेदार	शाम सिंह
757	जेसी 580337	डब्ल्यू	सुबेदार	सोल सिंह
758	जेसी 579844	एक्स	सुबेदार	सुबाष चंद्र
759	जेसी 580226	वाइ	सुबेदार	सुजान सिंह बनयाल
760	जेसी 579890	एम	सुबेदार	सुखदेव सिंह
761	जेसी 580311	एफ	सुबेदार	तरसेम लाल
762	जेसी 579912	ए	सुबेदार	तिलक राज
763	जेसी 580398	एन	सुबेदार	उमेश खडगा
764	जेसी 580097	के	सुबेदार	विजय कुमार



765	जेसी 579803	एन	सुबेदार	विजय कुमार
766	जेसी 579989	एच	सुबेदार	विनोद कुमार
767	जेसी 580349	एल	सुबेदार	विनोद कुमार, एसएम

लध्दाख स्काउट

768	जेसी 588074	एक्स	सुबेदार मेजर	छेरिंग अंगदस
769	जेसी 588084	एफ	सुबेदार मेजर	छेरिंग फुनचोक
770	जेसी 588044	ए	सुबेदार मेजर	सोनम मुरुप
771	जेसी 588161	एल	सुबेदार	छेरिंग मुतुप
772	जेसी 588310	एन	सुबेदार	फुनचोक अंगचौक
773	जेसी 588090	पी	सुबेदार	ताशी छेरिंग
774	जेसी 588371	एल	सुबेदार	जाफर अली

नागा रेजीमेन्ट

775	जेसी 590172	डब्ल्यू	सुबेदार	भूपाल सिंह
776	जेसी 590168	एन	सुबेदार	गोविंद सिंह
777	जेसी 590162	एम	सुबेदार	पान सिंह
778	जेसी 590148	ए	सुबेदार	राम सिंह

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

779	जेसी 592628	एच	सुबेदार मेजर	बिशन लाल
780	जेसी 592269	ए	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर दास
781	जेसी 592306	एफ	सुबेदार मेजर	साहिब सिंह
782	जेसी 593280	एल	सुबेदार	अब्दुल क्यूम, एसएम
783	जेसी 592742	ए	सुबेदार	बलदेव सिंह
784	जेसी 593278	एन	सुबेदार	बलविन्दर सिंह
785	जेसी 592543	एम	सुबेदार	भगवान दास
786	जेसी 593202	एन	सुबेदार	चमेल सिंह
787	जेसी 593345	एन	सुबेदार	जाफर अली
788	जेसी 593039	वाइ	सुबेदार	कमल दास
789	जेसी 593031	एम	सुबेदार	केवल कष्णन
790	जेसी 592695	एन	सुबेदार	कष्णन लाल
791	जेसी 592680	एल	सुबेदार	मदन लाल शर्मा
792	जेसी 592770	एम	सुबेदार	मोहिन्दर लाल
793	जेसी 592991	वाइ	सुबेदार	मोहम्मद शेफी बेग
794	जेसी 592967	एच	सुबेदार	नाथा राम
795	जेसी 593293	एच	सुबेदार	ओम प्रकाश
796	जेसी 592954	एल	सुबेदार	पवन सिंह
797	जेसी 592854	ए	सुबेदार	प्रेम चन्द

798	जेसी 593144	पी	सुबेदार	राज सिंह
799	जेसी 593320	एफ	सुबेदार	राम लाल
800	जेसी 592649	वाइ	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार
801	जेसी 592241	ए	सुबेदार	संसार सिंह
802	जेसी 592646	एल	सुबेदार	सोम पाल
803	जेसी 592863	एफ	सुबेदार	सुबाष चंद्र
804	जेसी 593161	पी	सुबेदार	सुखदेव सिंह
805	जेसी 592887	एल	सुबेदार	त्रिलोक राज
806	जेसी 592814	वाइ	सुबेदार	वेद प्रकाश

**1 गोरखा राईफल्स**

807	जेसी 602272	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दम बहादुर पुन
808	जेसी 602173	एन	सुबेदार मेजर	टीआईके प्रसाद गुरंग
809	जेसी 602262	एम	सुबेदार मेजर	विजय गुरंग
810	जेसी 602555	एक्स	सुबेदार	प्रेम बहादुर एम मगर
811	जेसी 602569	एक्स	सुबेदार	टुल बहादुर राना
812	जेसी 602623	ए	सुबेदार	टीयूएम प्रसाद श्रेष्ठा

**3 गोरखा राईफल्स**

813	जेसी 607293	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बिदुर थापा
814	जेसी 607383	एक्स	सुबेदार मेजर	मदन कुमार मगर
815	जेसी 607331	एफ	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार थापा
816	जेसी 607476	एम	सुबेदार	बीर सुब्बा गुरंग
817	जेसी 607416	एक्स	सुबेदार	गोकर्ण बहादुर पुन
818	जेसी 607532	ए	सुबेदार	हरका बहादुर गुरंग
819	जेसी 607471	एन	सुबेदार	लाल बहादुर थापा
820	जेसी 607661	ए	सुबेदार	मान काजी गुरंग
821	जेसी 607470	एल	सुबेदार	नंदा बहादुर गुरंग

**4 गोरखा राईफल्स**

822	जेसी 612559	एफ	सुबेदार	गंगा बहादुर थापा
823	जेसी 612572	एल	सुबेदार	गिमन सिंह राना
824	जेसी 612511	एन	सुबेदार	हरी बहादुर गुरंग
825	जेसी 612514	एफ	सुबेदार	खेम बहादुर पुन
826	जेसी 612423	एक्स	सुबेदार	कुल प्रसाद गुरंग
827	जेसी 612409	एल	सुबेदार	सुर बहादुर थापा, एसएम

**5 गोरखा राईफल्स**

828	जेसी 617379	एच	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार पांडे
-----	-------------	----	--------------	------------------

829	जेसी 143091	एक्स	सुबेदार मेजर	हुम नाथ गोवर्धन शर्मा	आर टी
830	जेसी 617465	एन	सुबेदार मेजर	सागर गुरंग	
831	जेसी 617607	एफ	सुबेदार	होम बहादुर थापा	
832	जेसी 617598	के	सुबेदार	कुमार बहादुर राना	
833	जेसी 617722	ए	सुबेदार	मिन बहादुर गुरंग	
834	जेसी 617550	डब्ल्यू	सुबेदार	पूर्णा बहादुर थापा	
835	जेसी 617452	डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद आर्य	

**8 गोरखा राईफल्स**

836	जेसी 623190	एफ	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार थापा	
837	जेसी 623242	एम	सुबेदार मेजर	बिशन बहादुर थापा	
838	जेसी 623193	पी	सुबेदार मेजर	नरन सिंह राना	
839	जेसी 623667	एल	सुबेदार	बेन बहादुर पुन	
840	जेसी 623620	ए	सुबेदार	गिरीमन गुरंग	
841	जेसी 623719	डब्ल्यू	सुबेदार	खिम बहादुर खत्री	
842	जेसी 623523	एच	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	
843	जेसी 623320	वाइ	सुबेदार	लाल बहादुर गुरंग	
844	जेसी 623543	डब्ल्यू	सुबेदार	माधव न्युपाने	
845	जेसी 623511	एन	सुबेदार	प्रेम बहादुर थापा	
846	जेसी 623648	ए	सुबेदार	रोम बहादुर राना	

**9 गोरखा राईफल्स**

847	जेसी 629363	के	सुबेदार मेजर	गनेश बहादुर छत्री	
848	जेसी 629640	के	सुबेदार	बाल बहादुर खत्री	
849	जेसी 629799	पी	सुबेदार	तेज बहादुर छत्री	

**11 गोरखा राईफल्स**

850	जेसी 634092	एफ	सुबेदार मेजर	बिशन सिंह खत्री	
851	जेसी 634076	के	सुबेदार मेजर	के राय	
852	जेसी 634468	एक्स	सुबेदार	भीम कुमार लिम्बू	
853	जेसी 634452	एम	सुबेदार	करण बहादुर तमंग	
854	जेसी 634727	पी	सुबेदार	राबिन कुमार लिम्बू	
855	जेसी 634528	एफ	सुबेदार	राम कुमार तमंग	

**सेना सेवा कोर दक्षिण**

856	जेसी 640343	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह	
857	जेसी 221401	एम	सुबेदार मेजर	बी ए देवैया	
858	जेसी 661451	एन	सुबेदार मेजर	गजेन्द्र कुमार	
859	जेसी 640141	पी	सुबेदार मेजर	मदन मोहन देब नाथ	

860	जेसी 213814	एफ	सुबेदार मेजर	मेघ सिंह
861	जेसी 662026	पी	सुबेदार मेजर	नागराज आर
862	जेसी 829104	एल	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
863	जेसी 640948	एक्स	सुबेदार मेजर	पी राजू
864	जेसी 661365	एच	सुबेदार मेजर	रमा कृष्णन अथोल्ले
865	जेसी 640358	वाइ	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र
866	जेसी 661364	ए	सुबेदार मेजर	सचिन कुमार मंडल
867	जेसी 641006	एन	सुबेदार मेजर	समपूरन चन्द भारद्वाज
868	जेसी 661228	के	सुबेदार मेजर	संदीप कुमार चकर्वती
869	जेसी 661521	एफ	सुबेदार मेजर	एसआईएस राम
870	जेसी 661367	एन	सुबेदार मेजर	सुग्रीव सिंह गुर्जर
871	जेसी 641165	एल	सुबेदार मेजर	सुप्रासन्नम आर
872	जेसी 663232	एल	सुबेदार	अशोकन के
873	जेसी 641569	एन	सुबेदार	बाला कृष्णन के
874	जेसी 643164	एफ	सुबेदार	भगवान सिंह
875	जेसी 642446	एन	सुबेदार	चंद्र पाल
876	जेसी 642726	एफ	सुबेदार	दिनेश चंद्रा घोष
877	जेसी 642714	एम	सुबेदार	मोहम्मद मूसा
878	जेसी 663068	एन	सुबेदार	मोहन सिंह राठोर
879	जेसी 663111	के	सुबेदार	ओम प्रकाश
880	जेसी 643166	एम	सुबेदार	प्रमोद नारायण सिंह
881	जेसी 642647	एम	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद
882	जेसी 663039	वाइ	सुबेदार	रशपाल चन्द विधी
883	जेसी 663589	एफ	सुबेदार	रतनेश्वर बरुयह
884	जेसी 642344	एक्स	सुबेदार	रुद्रांपल सिंह
885	जेसी 662924	एन	सुबेदार	शमशेर सिंह
886	जेसी 640854	ए	सुबेदार	श्री धर त्रिपाठी
887	जेसी 641663	एक्स	सुबेदार	श्याम नारायण झा
888	जेसी 663110	एफ	सुबेदार	सोबरन सिंह
889	जेसी 663244	ए	सुबेदार	सुल्तान सिंह यादव
890	जेसी 663222	एफ	सुबेदार	सूरत बहादुर थापा
891	जेसी 663295	एन	सुबेदार	तनु बाबू सिंघा
892	जेसी 643142	एच	सुबेदार	विजय कुमार
893	जेसी 663103	एल	सुबेदार	विनोद कुमार दाउदयाल
<b>सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन</b>				
894	जेसी 680286	एच	रिसालदार मेजर	शीश राम
895	जेसी 680326	वाइ	रिसालदार मेजर	यादव उदया भान एस बी
896	जेसी 680842	एन	रिसालदार	धर्म सिंह

897	जेसी 680971	एन	रिसालदार	हीरा लाल
898	जेसी 680829	के	रिसालदार	मुक्ता राम कपिंग
899	जेसी 680858	वाइ	रिसालदार	प्रोनब कुमार सेन
900	जेसी 680940	एन	रिसालदार	सुरेन्द्रा नायक

सेना चिकित्सा कोर

901	जेसी 692885	पी	सुबेदार मेजर	अलख देव ओझा
902	जेसी 692769	एम	सुबेदार मेजर	आज़ाद सिंह
903	जेसी 692944	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भुपिन्द्र नाथ राय
904	जेसी 692230	एच	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह राठी
905	जेसी 693059	एफ	सुबेदार मेजर	घना कांता पछानी
906	जेसी 692872	एक्स	सुबेदार मेजर	हरिद्वार प्रसाद मिश्रा
907	जेसी 692762	एच	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह
908	जेसी 692879	एफ	सुबेदार मेजर	मनजीत सिंह
909	जेसी 692757	एक्स	सुबेदार मेजर	मातादीन
910	जेसी 692864	वाइ	सुबेदार मेजर	नज़ीमुदीन एस
911	जेसी 693060	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रघुबीर सिंह
912	जेसी 692766	वाइ	सुबेदार मेजर	राम पी यादव
913	जेसी 692955	एच	सुबेदार मेजर	रतनेश्वर सिंह
914	जेसी 692773	पी	सुबेदार मेजर	श्याम बिहारी
915	जेसी 694075	एल	सुबेदार	अम्बिका नंदन रावत
916	जेसी 695100	एल	सुबेदार	बहादुर सिंह
917	जेसी 692254	एम	सुबेदार	बालन ई
918	जेसी 695204	एम	सुबेदार	भीम बहादुर थापा
919	जेसी 694216	पी	सुबेदार	बिजय कुमार सिंह
920	जेसी 694752	एक्स	सुबेदार	चंद्रा शेखर भट्ट
921	जेसी 695155	पी	सुबेदार	हरेन्द्र प्रसाद सिंह
922	जेसी 695084	वाइ	सुबेदार	हरी नारायण सिंह
923	जेसी 695014	ए	सुबेदार	जय भगवान सिंह
924	जेसी 692506	एन	सुबेदार	जय प्रकाश
925	जेसी 691446	एक्स	सुबेदार	लखन सिंह
926	जेसी 695343	डब्ल्यू	सुबेदार	मदन पाल शर्मा
927	जेसी 692508	वाइ	सुबेदार	मनोहरन नायर टी आर
928	जेसी 691993	एम	सुबेदार	ओमपाल सिंह डंबर
929	जेसी 694702	एन	सुबेदार	राम नरेश सिंह, एसएम
930	जेसी 691805	ए	सुबेदार	सजीव के एस
931	जेसी 694076	एन	सुबेदार	शिदी दास पी
932	जेसी 694036	एम	सुबेदार	सुभ नारायण गुप्ता
933	जेसी 694994	ए	सुबेदार	विपिन कुमार दीक्षित

सेना आयुध कोर

934	जेसी 723020	एम	सुबेदार मेजर	अमर सिंह
935	जेसी 723418	एफ	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
936	जेसी 725370	एक्स	सुबेदार मेजर	बीर सिंह यादव
937	जेसी 723294	एक्स	सुबेदार मेजर	गोपाल कृष्णा पिल्लई वी एन
938	जेसी 723260	के	सुबेदार मेजर	हरदयाल सिंह भंडारी
939	जेसी 725472	एन	सुबेदार मेजर	हर सहाय सिंह
940	जेसी 723476	एल	सुबेदार मेजर	जमुना सिंह
941	जेसी 723478	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जयराजन के के
942	जेसी 723190	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कमलेश कुमार चहल
943	जेसी 722784	वाइ	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
944	जेसी 723088	एन	सुबेदार मेजर	आर कुमार बी
945	जेसी 722983	एम	सुबेदार मेजर	सतीश चंद्रा
946	जेसी 725365	एम	सुबेदार मेजर	शेर सिंह
947	जेसी 110765	के	सुबेदार मेजर	शिव कुमार पांडे आर टी
948	जेसी 723398	वाइ	सुबेदार मेजर	शिवलिंगम एस
949	जेसी 723407	पी	सुबेदार मेजर	सुरेश सिंह
950	जेसी 722856	एक्स	सुबेदार मेजर	विजया कुमार के
951	जेसी 723316	एल	सुबेदार मेजर	विष्णु सिंह
952	जेसी 725283	के	सुबेदार	दीन दयाल
953	जेसी 724452	एन	सुबेदार	धनंजय माथो
954	जेसी 724447	एच	सुबेदार	करन सिंह
955	जेसी 724250	एम	सुबेदार	प्रसांत कुमार मंडल
956	जेसी 725296	एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह
957	जेसी 724449	एन	सुबेदार	राजेश कुमार यादव
958	जेसी 726729	ए	सुबेदार	राम नरेश शाक्य
959	जेसी 724311	वाइ	सुबेदार	सत्य नारायण
960	जेसी 724312	एफ	सुबेदार	शम्भू प्रसाद रौय
961	जेसी 724620	एफ	सुबेदार	सीताराम चौहान
962	जेसी 724349	एच	सुबेदार	सुकान्त चौधुरी
963	जेसी 726437	एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रन ए के

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

964	जेसी 749247	एक्स	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह
965	जेसी 749859	पी	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार
966	जेसी 747895	एफ	सुबेदार मेजर	आसराम यादव
967	जेसी 748998	एम	सुबेदार मेजर	चुनी लाल शर्मा
968	जेसी 750826	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दया राम

969	जेसी 749899	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	धर्मवीर सिंह
970	जेसी 749967	वाइ	सुबेदार	मेजर	डी. पलानी
971	जेसी 753735	एक्स	सुबेदार	मेजर	गंगा प्रसाद त्रिवेदी
972	जेसी 750832	के	सुबेदार	मेजर	जी. मंगलपुरी बी
973	जेसी 748132	एक्स	सुबेदार	मेजर	हरविन्दर सिंह मिन्हास
974	जेसी 753729	के	सुबेदार	मेजर	इन्दरपाल सिंह
975	जेसी 748883	वाइ	सुबेदार	मेजर	जसविन्द्र पौल सिंह
976	जेसी 750188	एच	सुबेदार	मेजर	के शण्मुगमै
977	जेसी 750415	एक्स	सुबेदार	मेजर	लाला राम
978	जेसी 749844	एम	सुबेदार	मेजर	मोती लाल शर्मा
979	जेसी 750419	एन	सुबेदार	मेजर	राधे श्याम वी
980	जेसी 752815	एच	सुबेदार	मेजर	रघुवीर प्रसाद शर्मा
981	जेसी 750077	एल	सुबेदार	मेजर	आर मिश्रा
982	जेसी 752523	ए	सुबेदार	मेजर	राम बिनय प्रसाद
983	जेसी 752696	एक्स	सुबेदार	मेजर	राम चंद्रा सिंह
984	जेसी 752811	एम	सुबेदार	मेजर	राम दिनेश ठाकुर
985	जेसी 749831	पी	सुबेदार	मेजर	रमेश चंद्र
986	जेसी 749890	एफ	सुबेदार	मेजर	रंजीत सिंह
987	जेसी 753511	एक्स	सुबेदार	मेजर	संतोष कुमार
988	जेसी 749809	के	सुबेदार	मेजर	सतीश चंद्रा श्रीवास्तव
989	जेसी 749509	एच	सुबेदार	मेजर	सत्यवीर सिंह
990	जेसी 750553	वाइ	सुबेदार	मेजर	सेन प्रताप सिंह
991	जेसी 749855	वाइ	सुबेदार	मेजर	शैलेंद्र नाथ र्थीपथी
992	जेसी 749955	के	सुबेदार	मेजर	शंकर दास
993	जेसी 751954	ए	सुबेदार	मेजर	शशि पौल रानाउत
994	जेसी 748527	वाइ	सुबेदार	मेजर	शिव प्रसाद सिंह यादव
995	जेसी 749829	एक्स	सुबेदार	मेजर	सुखवीर शर्मा
996	जेसी 748877	एल	सुबेदार	मेजर	सूरज भान
997	जेसी 748131	पी	सुबेदार	मेजर	तरसेम सिंह
998	जेसी 749843	के	सुबेदार	मेजर	तुला राम
999	जेसी 749795	पी	सुबेदार	मेजर	उपेन चंद्रा बोरा
1000	जेसी 750078	एन	सुबेदार	मेजर	वरघेसे के.एम
1001	जेसी 753722	ए	सुबेदार	मेजर	विजय कुमार सिंह
1002	जेसी 750263	एफ	सुबेदार	मेजर	विनोद कुमार मिश्रा
1003	जेसी 760386	एफ	सुबेदार		अनिल कुमार
1004	जेसी 759446	वाइ	सुबेदार		बलबीर सिंह
1005	जेसी 760752	ए	सुबेदार		बंसी राम मीना
1006	जेसी 756123	एल	सुबेदार		भूवन चंद्रा पाठक
1007	जेसी 758049	एन	सुबेदार		बिमल थापा

1008	जेसी 759439	एच	सुबेदार	ब्रध्दयो पुदार
1009	जेसी 753972	एफ	सुबेदार	छामा नन्द पांडे
1010	जेसी 753572	पी	सुबेदार	दुर्योधन बेहेरा
1011	जेसी 753668	एक्स	सुबेदार	गोविंद सिंह
1012	जेसी 757352	एच	सुबेदार	हरीश चंद्रा पांडे
1013	जेसी 753047	वाइ	सुबेदार	जोज कुमार के
1014	जेसी 757095	डब्ल्यू	सुबेदार	जुगल किशोर सोनी
1015	जेसी 760100	एफ	सुबेदार	कदम मंगेश केशव
1016	जेसी 756126	वाइ	सुबेदार	करमबीर सिंह
1017	जेसी 751641	एफ	सुबेदार	कोप्तेकान्ती अमीर बाशा
1018	जेसी 754261	एन	सुबेदार	कृष्णापा राम पांडे
1019	जेसी 753292	एफ	सुबेदार	मदन लाल कुमार
1020	जेसी 755537	एल	सुबेदार	माया राम
1021	जेसी 756306	एफ	सुबेदार	एम कृष्णन
1022	जेसी 758091	एम	सुबेदार	मोती लाल थापा
1023	जेसी 760652	पी	सुबेदार	नंदलाल तिवारी
1024	जेसी 752840	एफ	सुबेदार	नसीब सिंह
1025	जेसी 760645	वाइ	सुबेदार	प्रमोद कुमार
1026	जेसी 758482	एक्स	सुबेदार	प्रेम चन्द सिंह कुशवाहा
1027	जेसी 751788	एक्स	सुबेदार	रबीन्द्र कुमार बारिक
1028	जेसी 759440	एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
1029	जेसी 752002	एम	सुबेदार	राज पाल शर्मा
1030	जेसी 760168	एच	सुबेदार	राम बाबू
1031	जेसी 759449	एम	सुबेदार	रमेश चंद्रा
1032	जेसी 760096	के	सुबेदार	राम किशन यादव
1033	जेसी 753976	एक्स	सुबेदार	रनबीर सिंह
1034	जेसी 753955	एफ	सुबेदार	रंजन चंद्रा मंडल
1035	जेसी 760405	एफ	सुबेदार	साहिब सिंह
1036	जेसी 759764	एच	सुबेदार	सालागरकर उदय कुमार यमनअप्पा
1037	जेसी 756072	एच	सुबेदार	सम्मू सिंह राठोर
1038	जेसी 757777	एफ	सुबेदार	संतो दास
1039	जेसी 753025	ए	सुबेदार	सतेन्द्रन शर्मा
1040	जेसी 760294	पी	सुबेदार	शिवजी राम
1041	जेसी 760296	ए	सुबेदार	शिव नारायण शर्मा
1042	जेसी 752296	एल	सुबेदार	श्री/राम यादव
1043	जेसी 752110	डब्ल्यू	सुबेदार	सोमासेखरन पिल्लई पीडी
1044	जेसी 758501	एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्र कुमार



सेना शिक्षा कोर

1045	जेसी 802252	एम	सुबेदार मेजर	अमर बहादुर
1046	जेसी 802244	एन	सुबेदार मेजर	आनंद बल्लभ जोशी
1047	जेसी 802034	एन	सुबेदार मेजर	देव राज शर्मा
1048	जेसी 802030	एक्स	सुबेदार मेजर	गंगा सिंह
1049	जेसी 802159	एल	सुबेदार मेजर	जगवीर सिंह
1050	जेसी 223757	वाइ	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह
1051	जेसी 223009	एल	सुबेदार मेजर	शिव बहादुर सिंह
1052	जेसी 802245	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तन्गी दास शिलपाकर
1053	जेसी 802246	वाइ	सुबेदार मेजर	त्रिलोक नाथ पांडे
1054	जेसी 219023	ए	सुबेदार मेजर	वेद सिंह लोहाचा
1055	जेसी 802544	पी	सुबेदार	गजराज सिंह
1056	जेसी 802502	एच	सुबेदार	नेपाल सिंह
1057	जेसी 803362	एन	सुबेदार	राकेश भंडारी

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

1058	जेसी 797224	एन	रिसालदार	अर्जुन लक्ष्मन अगरे
1059	जेसी 797379	एच	रिसालदार	चन्दन सिंह रावत
1060	जेसी 797356	एफ	रिसालदार	दशरथ प्रसाद शुक्ल
1061	जेसी 797364	ए	रिसालदार	महावीर प्रसाद
1062	जेसी 797215	एम	रिसालदार	रघु नाथ सिंह

आसुचना कोर

1063	जेसी 209286	एल	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह बिल्लावारिया
1064	जेसी 210038	एफ	सुबेदार मेजर	वेद प्रकाश
1065	जेसी 223467	एफ	सुबेदार मेजर	विद्या सागर ठाकुर
1066	जेसी 810361	एन	सुबेदार	अनिल कुमार वर्मा
1067	जेसी 810609	एम	सुबेदार	गंगापाल सिंह
1068	जेसी 810442	एन	सुबेदार	हसन सिंह
1069	जेसी 810439	एन	सुबेदार	मनोहर सिंह
1070	जेसी 810592	के	सुबेदार	पीर सिंह कटोच
1071	जेसी 810363	वाइ	सुबेदार	राम चंद्रा
1072	जेसी 810392	एन	सुबेदार	राम कुमार
1073	जेसी 810417	पी	सुबेदार	सुभ करन
1074	जेसी 810421	एक्स	सुबेदार	सुखदेव सिंह कांग

सेना पुलिस कोर

1075	जेसी 818391	ए	सुबेदार मेजर	बोद्धू राम गुज्जर
------	-------------	---	--------------	-------------------

1076	जेसी 818508	एन	सुबेदार मेजर	राम कंवर
1077	जेसी 818503	पी	सुबेदार मेजर	रण बहादुर सिंह
1078	जेसी 818513	वाइ	सुबेदार मेजर	शिशुपाल सिंह
1079	जेसी 818928	एन	सुबेदार	गुनाधर महता
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				
1080	जेसी 826145	के	सुबेदार	मिथलेश सिंह
<u>पायोनियर कोर</u>				
1081	जेसी 829161	एम	सुबेदार	पान सिंह
<u>सेना डाक सेवा</u>				
1082	जेसी 834086	एक्स	सुबेदार मेजर	नन्द कुमार
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
1083	जेसी 840258	एक्स	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह
1084	जेसी 840325	एक्स	सुबेदार मेजर	हनुमान प्रसाद लता
1085	जेसी 840509	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम सजीवन
1086	जेसी 840717	एल	सुबेदार	ए सिंह
1087	जेसी 841792	एफ	सुबेदार	अजमत शेख
1088	जेसी 841604	पी	सुबेदार	हरदेव सिंह
1089	जेसी 840672	डब्ल्यू	सुबेदार	रकम सिंह
1090	जेसी 841715	एम	सुबेदार	रामचंद्र दुबे
<u>प्रदेशिक सेना</u>				
1091	टिजे 3280	के	सुबेदार मेजर	देवी सिंह
1092	टिजे 4140	के	सुबेदार	बलबीर सिंह
1093	टिजे 3797	पी	सुबेदार	बी प्रसाद पटेल
1094	टिजे 4234	एफ	सुबेदार	दया शंकर राय
1095	टिजे 4418	ए	सुबेदार	दुर्गा बहादुर गुरंग
1096	टिजे 4616	एल	सुबेदार	जगेन्द्र सिंह
1097	टिजे 4392	एल	सुबेदार	जय राम के
1098	टिजे 3840	एल	सुबेदार	करमबीर
1099	टिजे 4553	एन	सुबेदार	पाटिल दत्तत्रे श्रीपति
1100	टिजे 3782	एम	सुबेदार	राम लाल
1101	टिजे 3934	एच	सुबेदार	रक्सपाल सिंह
1102	टिजे 4316	के	सुबेदार	सनिल कुमार
1103	टिजे 4559	पी	सुबेदार	सरन सिंह
1104	टिजे 4417	एक्स	सुबेदार	सुंदर लाल यादव
1105	टिजे 3843	वाइ	सुबेदार	विजय कुमार

क्योत्तिर मंजूरी 15 अगस्त 2009 से अवैतनिक लैटिनेंट के रूप में

**आर्टीलरी रेजीमेन्ट**

1 जेसी 264505 एफ एक्स सुबेदार

सुरेश प्रसाद सिंह

[सं. बी/43432/कोरी-2010/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै जनरल, एंडजुटेन्ट जनरल

**MINISTRY OF DEFENCE**

(ARMY BRANCH)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 10(E) dated 15th August, 2010.**—The President is pleased to grant honorary commission to the rank of Honorary Captain/Lieutenant on the eve of Independence Day 2010 to the undermentioned Honorary Lieutenants/JCOs on active list under para 177 of Regulations for the Army Act, 1987, with effect from 15 August, 2010 :—

**TO BE HONORARY CAPTAINS**

**63 CAVALRY**

1	JC 238757W	RIS MAJ & HONY LT	DHARAM PAL SINGH
	<b><u>67 ARMOURED REGIMENT</u></b>		
2	JC 238018K	RIS MAJ & HONY LT	ROSHAN LAL SHARMA
	<b><u>70 ARMOURED REGIMENT</u></b>		
3	JC 238382H	RIS MAJ & HONY LT	GURNAM SINGH BHATTI
	<b><u>41 ARMOURED REGIMENT</u></b>		
4	JC 238053M	RIS MAJ & HONY LT	BACHITTAR SINGH
	<b><u>44 ARMOURED REGIMENT</u></b>		
5	JC 242007P	RIS & HONY LT	NANDESHWAR SINGH
	<b><u>49 ARMOURED REGIMENT</u></b>		
6	JC 241319Y	RIS & HONY LT	CHACKO K C
	<b><u>6 ARMOURED REGIMENT</u></b>		
7	JC 236889L	RIS MAJ & HONY LT	SHEORAJ SINGH PANWAR
	<b><u>REGIMENT OF ARTILLERY</u></b>		
8	JC 260177F	SUB MAJ & HONY LT	BHULA SINGH
9	JC 262144P	SUB MAJ & HONY LT	KATARE NAMDEO SURYABA
10	JC 260559L	SUB MAJ & HONY LT	NARENDER PAL SINGH
11	JC 266733H	SUB & HONY LT	ASHOKE KUMAR GHOSH
12	JC 268868H	SUB & HONY LT	BABU LAL MEENA, SM
13	JC 266415Y	SUB & HONY LT	BABU SINGH LANGEH

14	JC	262962W	SUB & HONY LT	DALEL SINGH
15	JC	265546X	SUB & HONY LT	D SOUNDARA RAJAN
16	JC	267322W	SUB & HONY LT	GURBAX SINGH
17	JC	267060L	SUB & HONY LT	HARLAL SINGH
18	JC	266980W	SUB & HONY LT	KAMALA KANTA BAILUNG
19	JC	267366N	SUB & HONY LT	MAHENDER SINGH
20	JC	266249W	SUB & HONY LT	PREM KUMAR BRAHMA
21	JC	268642X	SUB & HONY LT	PRUSOTAM MISRA
22	JC	258049L	SUB & HONY LT	RAGHUNATH ORAON
23	JC	268608X	SUB & HONY LT	RAMESH BABOO YADAV
24	JC	268266P	SUB & HONY LT	RAM NARESH KANOJIA
25	JC	263538A	SUB & HONY LT	SHEO PUJAN SINGH
26	JC	267284L	SUB & HONY LT	SUNDARAN K
27	JC	265844N	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR
28	JC	267109W	SUB & HONY LT	VED PARKASH

**ARMY AIR DEFENCE**

29	JC	296962H	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY KUMAR SAMKARIA
30	JC	296932L	SUB & HONY LT	BIRENDER KUMAR
31	JC	299101X	SUB & HONY LT	HARI RAM YADAV
32	JC	299056W	SUB & HONY LT	JANARDHAN MISHAR
33	JC	299024N	SUB & HONY LT	NATTHI SINGH
34	JC	299026Y	SUB & HONY LT	SHANKAR SINGH

**MADRAS ENGINEER GROUP**

35	JC	305730N	SUB MAJ & HONY LT	M PANNEER SELVAM
36	JC	306119Y	SUB & HONY LT	BABY KJ
37	JC	307810K	SUB & HONY LT	BAMMIDI NARAYANA RAO
38	JC	307199N	SUB & HONY LT	GANESAN J
39	JC	307669N	SUB & HONY LT	K RAJENDRA MURTHY
40	JC	306167Y	SUB & HONY LT	MADHUSOODANAN PILLAI S
41	JC	307798N	SUB & HONY LT	MUDUGOOLA BASI REDDY
42	JC	307909A	SUB & HONY LT	NANDAGOPAL E
43	JC	307805Y	SUB & HONY LT	NARASENDRAN N
44	JC	307731P	SUB & HONY LT	VIJAYAN A M

**BENGAL ENGINEER GROUP**

45	JC	327994P	SUB MAJ & HONY LT	AUGUSTINE KHARSYNTEW
46	JC	327092H	SUB MAJ & HONY LT	HIMAT SINGH
47	JC	120471K	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD (RT)
48	JC	327098F	SUB MAJ & HONY LT	KULVINDER SINGH
49	JC	327928M	SUB MAJ & HONY LT	PAPPI
50	JC	327088X	SUB MAJ & HONY LT	RAM ISWAR RAY
51	JC	327941W	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH
52	JC	329057W	SUB & HONY LT	ANAND SINGH BAFILA
53	JC	329233H	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH
54	JC	328921P	SUB & HONY LT	DHANYA CHANDRA ROY
55	JC	329016M	SUB & HONY LT	MOHAN CHANDER
56	JC	329171N	SUB & HONY LT	PRITAM CHAND
57	JC	328880W	SUB & HONY LT	RAMAYAN SINGH
58	JC	328745H	SUB & HONY LT	RAM BABU SINGH
59	JC	328881Y	SUB & HONY LT	SUDARSHAN YADAV

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

60	JC	348110L	SUB MAJ & HONY LT	ISHWAR SINGH SHARMA
61	JC	349734K	SUB & HONY LT	JARNAIL SINGH
62	JC	349818X	SUB & HONY LT	RAJBIR SINGH
63	JC	349808N	SUB & HONY LT	SAT PAL

**CORPS OF SIGNALS**

64	JC	370696M	SUB MAJ & HONY LT	BACHAN SINGH
65	JC	369339X	SUB MAJ & HONY LT	DEO PRAKASH SHARMA
66	JC	131987M	SUB MAJ & HONY LT	HARSH SINGH DANGWAL (RT)
67	JC	370732M	SUB MAJ & HONY LT	JAIVIR
68	JC	368191X	SUB MAJ & HONY LT	NIMAI CHANDRA PAL
69	JC	370369F	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH
70	JC	370728K	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAL ZOOD
71	JC	368199K	SUB MAJ & HONY LT	RAM RAJ GUPTA
72	JC	368657P	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM CHAND
73	JC	375813W	SUB & HONY LT	DARSHAN KUMAR
74	JC	375557M	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH
75	JC	374569P	SUB & HONY LT	NARANT SINGH RANA
76	JC	375212L	SUB & HONY LT	NARENDER SINGH
77	JC	374239W	SUB & HONY LT	RAVI KANT SINGH
78	JC	374738L	SUB & HONY LT	VISAMBER SINGH

**THE BRIGADE OF GUARDS**

79	JC	402631P	SUB MAJ & HONY LT	KUNWAR SINGH
80	JC	402725M	SUB MAJ & HONY LT	SATYENDER KUMAR SHUKLA
81	JC	403236N	SUB & HONY LT	AJANT SINGH
82	JC	403481W	SUB & HONY LT	PADAM NARAIN

**THE PARACHUTE REGIMENT**

83	JC	412303P	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWANA RAM GUJAR
84	JC	412128L	SUB MAJ & HONY LT	HARI RAM YADAV
85	JC	412115N	SUB MAJ & HONY LT	HEM RAJ SINGH WALDIA
86	JC	412126A	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN KUMAR
87	JC	412468N	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH, SM*
88	JC	412469W	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

89	JC	418074L	SUB MAJ & HONY LT	JOTHEENDRA NATHAN TP
90	JC	418875M	SUB MAJ & HONY LT	KIRPAL SINGH PATHANIA
91	JC	418640A	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA SINGH
92	JC	420058M	SUB & HONY LT	RAM AVTAR SINGH BAGHEL

**THE PUNJAB REGIMENT**

93	JC	428886M	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR
94	JC	428272K	SUB MAJ & HONY LT	GURDIAL SINGH
95	JC	127466F	SUB MAJ & HONY LT	GURWAX SINGH (RT)
96	JC	428070H	SUB MAJ & HONY LT	PALPINDER SINGH
97	JC	428871K	SUB MAJ & HONY LT	TEJA SINGH
98	JC	430188H	SUB & HONY LT	JAGDEV SINGH
99	JC	429582F	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH
100	JC	429387K	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH

**THE MADRAS REGIMENT**

101	JC	438290A	SUB MAJ & HONY LT	DEVENDRA RAJAPUT
102	JC	438141M	SUB MAJ & HONY LT	HAMSA KUNJU M
103	JC	438163L	SUB MAJ & HONY LT	JANARDANAN MM
104	JC	438070W	SUB MAJ & HONY LT	M MUNIRAJ, SM
105	JC	438124M	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRAN R
106	JC	439248N	SUB & HONY LT	RAVI A

**THE GRENADIERS**

107	JC	449681L	SUB & HONY LT	BALJIT SINGH
108	JC	449642M	SUB & HONY LT	CHEN SINGH
109	JC	449867P	SUB & HONY LT	DALIP SINGH
110	JC	450145P	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR ATTRI
111	JC	450122N	SUB & HONY LT	VAGDAWAT SINGH

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

112	JC	226181X	SUB MAJ & HONY LT	ARUN SAWANT
113	JC	458293P	SUB MAJ & HONY LT	AUTADE RADHAKISHANA GOVINDRAO
114	JC	458049P	SUB MAJ & HONY LT	BHORE LAXMAN GOVINDRAO
115	JC	458410P	SUB MAJ & HONY LT	MANE KISAN KESHAV
116	JC	458388P	SUB & HONY LT	PATIL SURESH BHARAMU

**THE RAJPUTANA RIFLES**

117	JC	468534X	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM PAL SINGH, SM
118	JC	468678A	SUB & HONY LT	AMAR SINGH
119	JC	469453K	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL
120	JC	469759M	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH
121	JC	469434Y	SUB & HONY LT	MUKESH KUMAR
122	JC	469533F	SUB & HONY LT	SATYA PRAKASH
123	JC	196205Y	SUB & HONY LT	VIJAYA KUMARAN B

**THE RAJPUT REGIMENT**

124	JC	478554Y	SUB MAJ & HONY LT	DWARIKA PRASAD TIWARI
125	JC	478679W	SUB MAJ & HONY LT	RAJ BAHADUR SHARMA
126	JC	478415P	SUB MAJ & HONY LT	RAM GUNI
127	JC	211057Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH GURJAR
128	JC	478541F	SUB MAJ & HONY LT	SHREE PAL GUJAR
129	JC	479321K	SUB & HONY LT	BAL BIR SINGH RAJPUT
130	JC	479411L	SUB & HONY LT	PAHAL SINGH
131	JC	479389L	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH
132	JC	479280L	SUB & HONY LT	RAMESH SINGH
133	JC	479409N	SUB & HONY LT	SAMUNDER SINGH

**THE JAT REGIMENT**

134	JC	488645W	SUB MAJ & HONY LT	BRAHAM PARKASH
135	JC	488395A	SUB MAJ & HONY LT	NET RAM
136	JC	489352X	SUB & HONY LT	DEVENDRA
137	JC	489824H	SUB & HONY LT	NAHAR SINGH, SM

138 JC 489486W SUB & HONY LT RAJBIR SINGH

**THE SIKH REGIMENT**

139 JC 498616P SUB MAJ & HONY LT GURVAIL SINGH  
 140 JC 498270W SUB MAJ & HONY LT LAKHWINDER SINGH  
 141 JC 498863H SUB & HONY LT BALBIR SINGH  
 142 JC 499111L SUB & HONY LT IQBAL SINGH, SM  
 143 JC 499308F SUB & HONY LT RANJIT SINGH

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

144 JC 508313W SUB MAJ & HONY LT WARYAM SINGH  
 145 JC 508959F SUB & HONY LT BALDEV SINGH  
 146 JC 508479X SUB & HONY LT DALBIR SINGH

**THE DOGRA REGIMENT**

147 JC 518980X SUB MAJ & HONY LT BALBIR SINGH KOSHAL  
 148 JC 518992M SUB MAJ & HONY LT DALJIT SINGH  
 149 JC 519084W SUB MAJ & HONY LT DAYAL SINGH, SC  
 150 JC 518976P SUB MAJ & HONY LT HEM RAJ  
 151 JC 519280W SUB MAJ & HONY LT KAPOOR SINGH  
 152 JC 519110M SUB MAJ & HONY LT PARKASH CHAND  
 153 JC 519284M SUB MAJ & HONY LT RAJINDER SINGH

**THE GARHWAL RIFLES**

154 JC 528708Y SUB MAJ & HONY LT BALBIR SINGH  
 155 JC 528849N SUB MAJ & HONY LT BIRENDAR SINGH, SM  
 156 JC 529089H SUB MAJ & HONY LT DARMAYAN SINGH  
 157 JC 528846A SUB MAJ & HONY LT HARISH CHANDRA  
 158 JC 529493X SUB & HONY LT DALVIR SINGH  
 159 JC 529562H SUB & HONY LT KUNDAN SINGH  
 160 JC 529649K SUB & HONY LT LAKHPAT SINGH  
 161 JC 529781K SUB & HONY LT SOBAN SINGH, SM

**THE KUMAON REGIMENT**

162 JC 538869P SUB MAJ & HONY LT GHAMANDI LAL YADAV  
 163 JC 158231W SUB MAJ & HONY LT KUSHALA NAND BAHUGUNA (RT)  
 164 JC 539382N SUB & HONY LT BHAGAT SINGH  
 165 JC 539331A SUB & HONY LT HARISH SINGH  
 166 JC 539257K SUB & HONY LT HOSHIYAR RAM  
 167 JC 539444H SUB & HONY LT JAI KARAN SINGH  
 168 JC 539765A SUB & HONY LT RAMESHWAR  
 169 JC 539738W SUB & HONY LT TRILOK SINGH

**THE ASSAM REGIMENT**

170 JC 548171M SUB MAJ & HONY LT JAMKHOTHANG  
 171 JC 548303P SUB MAJ & HONY LT JANARDHAN SINHA  
 172 JC 548948X SUB & HONY LT CHINIO LOTH, SM  
 173 JC 548949A SUB & HONY LT H R RAMKATING  
 174 JC 549003A SUB & HONY LT MANINDRA CHANDRA ROY

**THE BIHAR REGIMENT**

175	JC	558693W	SUB MAJ & HONY LT	NABIN KUMAR PRADHAN, SM
176	JC	558535A	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDRA PRASAD SINGH
177	JC	559574M	SUB & HONY LT	BIHARI TIWARI
178	JC	559444K	SUB & HONY LT	RAM BABU THAKUR

**THE MAHAR REGIMENT**

179	JC	568464Y	SUB MAJ & HONY LT	MAKHAN SINGH
180	JC	569804H	SUB & HONY LT	KAMAL CHANDRA RAY, SM

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

181	JC	578823P	SUB MAJ & HONY LT	BALWAN SINGH
182	JC	578999A	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN DASS
183	JC	578626M	SUB MAJ & HONY LT	CHARAN DASS SHARMA
184	JC	579790L	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH, SM
185	JC	579895L	SUB & HONY LT	GOPAL DASS
186	JC	579773F	SUB & HONY LT	PRAVEEN KUMAR KATAL
187	JC	579708F	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND
188	JC	579865N	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH

**THE LADAKH SCOUTS**

189	JC	588136M	SUB & HONY LT	RIGZIN NAMGIAL
-----	----	---------	---------------	----------------

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

190	JC	592240X	SUB MAJ & HONY LT	SWAMI RAJ
191	JC	593438H	SUB & HONY LT	ABDUL RASHID DAR
192	JC	593287P	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH
193	JC	592809N	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH
194	JC	592888N	SUB & HONY LT	SHAMSHER SINGH, SM
195	JC	592839L	SUB & HONY LT	SURJEET SINGH

**1 GORKHA RIFLES**

196	JC	602227K	SUB MAJ & HONY LT	DAL BAHADUR MALL
197	JC	602273Y	SUB MAJ & HONY LT	VIPAN KUMAR PRADHAN

**3 GORKHA RIFLES**

198	JC	607310L	SUB MAJ & HONY LT	SHIB BAHADUR THAPA
199	JC	607332K	SUB MAJ & HONY LT	TILAK BAHADUR THAPA
200	JC	607154M	SUB & HONY LT	RAM RATAN YADAV

**4 GORKHA RIFLES**

201	JC	612492N	SUB & HONY LT	TEJ MAN GURUNG
-----	----	---------	---------------	----------------

**5 GORKHA RIFLES**

202	JC	617276K	SUB MAJ & HONY LT	CHITRA BAHADUR ROKA
203	JC	617339F	SUB MAJ & HONY LT	DEEP RAJ SAWAN

**8 GORKHA RIFLES**

204	JC	623267Y	SUB MAJ & HONY LT	DHAN BAHADUR BASNET
-----	----	---------	-------------------	---------------------



205	JC	623068L	SUB MAJ & HONY LT	GANESH BAHADUR MALL
206	JC	623136N	SUB MAJ & HONY LT	SHABBIR THAPA

**9 GORKHA RIFLES**

207	JC	629377K	SUB MAJ & HONY LT	DIL BAHADUR KHATTRI
208	JC	122072Y	SUB MAJ & HONY LT	SHESHKANTA SHARMA GHIMIRE (RT)
209	JC	629387N	SUB MAJ & HONY LT	YAK BAHADUR THAPA

**11 GORKHA RIFLES**

210	JC	634570A	SUB & HONY LT	JAGAT BAHADUR SHRESTHA
-----	----	---------	---------------	------------------------

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

211	JC	217864K	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR SINGH
212	JC	662288L	SUB MAJ & HONY LT	BHUWAN CHANDAR
213	JC	661434N	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD
214	JC	215552P	SUB MAJ & HONY LT	MADAN MOHAN DAN
215	JC	661430X	SUB MAJ & HONY LT	PARMAR ASHARF KHAN HAIYAT KHAN
216	JC	640063H	SUB MAJ & HONY LT	SHASHI BHUSHAN SINGH
217	JC	640938N	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR PRASHER
218	JC	663600P	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

219	JC	680319H	RIS MAJ & HONY LT	GOVIND SINGH
220	JC	680297P	RIS MAJ & HONY LT	KARAM SINGH
221	JC	680676L	RIS & HONY LT	BIPRADAS CHATTARAJ
222	JC	680764F	RIS & HONY LT	GEETAM SINGH

**ARMY MEDICAL CORPS**

223	JC	690985F	SUB MAJ & HONY LT	BALWANT SINGH
224	JC	692756P	SUB MAJ & HONY LT	GOVINDA CHANDRA BEHERA
225	JC	692942L	SUB MAJ & HONY LT	JUBARAJ SARKAR
226	JC	692752Y	SUB MAJ & HONY LT	PRANAB GOSWAMI
227	JC	694091H	SUB & HONY LT	ATTAR SINGH
228	JC	695192H	SUB & HONY LT	BIRSA NAGH
229	JC	695051N	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH
230	JC	694533W	SUB & HONY LT	PRAFULLA CHANDRA SATYARTHI
231	JC	161062L	SUB & HONY LT	RAM NARAIN VISHVA KARMA (RT)

**ARMY ORDNANCE CORPS**

232	JC	723258M	SUB MAJ & HONY LT	KAMALENDU DEBNATH
233	JC	723256F	SUB MAJ & HONY LT	MATA SHANKER SHUKLA
234	JC	723474A	SUB MAJ & HONY LT	RAMAN KUMAR SHARMA
235	JC	725361W	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR
236	JC	723191Y	SUB MAJ & HONY LT	SUKHBIR SINGH
237	JC	725382M	SUB & HONY LT	LALA RAM SHARMA
238	JC	725439W	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH CHAUHAN

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

239	JC	749246P	SUB MAJ & HONY LT	BHUPENDER SINGH PARIHAR
240	JC	749841Y	SUB MAJ & HONY LT	B SRI KRISHNA

241	JC	749511A	SUB MAJ & HONY LT	DAVINDER KUMAR BAKSHI
242	JC	752813X	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH
243	JC	749845P	SUB MAJ & HONY LT	KM LOKESH
244	JC	749901H	SUB MAJ & HONY LT	MAHABIR SINGH
245	JC	749483Y	SUB MAJ & HONY LT	NAND LAL VERMA
246	JC	749891K	SUB MAJ & HONY LT	RAVI KUMAR K N
247	JC	749732M	SUB MAJ & HONY LT	SABHAJEET PANDEY
248	JC	749973M	SUB MAJ & HONY LT	S DHAMOTHARAN
249	JC	752428N	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR CHOUBEY
250	JC	760105A	SUB & HONY LT	BHAKTA BAHADUR KARKY
251	JC	755923Y	SUB & HONY LT	BHUPINDER SINGH
252	JC	760170A	SUB & HONY LT	DINESH PRASAD
253	JC	754249M	SUB & HONY LT	DUBBA VENU GOPAL REDDY
254	JC	753230F	SUB & HONY LT	HIMAT SINGH
255	JC	753971Y	SUB & HONY LT	JAL SINGH
256	JC	756256F	SUB & HONY LT	RAMESAN M
257	JC	756326P	SUB & HONY LT	RAM PUKAR SINGH
258	JC	759916Y	SUB & HONY LT	SHYO RAM YADAV

**ARMY EDUCATION CORPS**

259	JC	225474W	SUB MAJ & HONY LT	KESHAV RAJ SHARMA
260	JC	223755N	SUB MAJ & HONY LT	MANOHAR SINGH
261	JC	802864K	SUB & HONY LT	NARESH KUMAR

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

262	JC	797223L	RIS & HONY LT	RAM SUBHASH PRADHAN
-----	----	---------	---------------	---------------------

**THE INTELLIGENCE CORPS**

263	JC	810541W	SUB & HONY LT	DEVKI NAND
264	JC	810335M	SUB & HONY LT	LOKINDER SINGH
265	JC	810399X	SUB & HONY LT	SHAM SHER SINGH

**CORPS OF MILITARY POLICE**

266	JC	818383F	SUB MAJ & HONY LT	SUBE SINGH
-----	----	---------	-------------------	------------

**ARMY POSTAL SERVICE**

267	JC	834087A	SUB MAJ & HONY LT	GHANSHYAM GULERIA
-----	----	---------	-------------------	-------------------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

268	JC	841307F	SUB & HONY LT	DIL BAHADUR SUNARI THAPA
269	JC	841226F	SUB & HONY LT	KANAK KUMAR SAIKIA
270	JC	841295X	SUB & HONY LT	KUNDAN SINGH BHANDARI
271	JC	841338F	SUB & HONY LT	MAHENDAR SAH

**TERRITORIAL ARMY**

272	TJ	4206P	SUB & HONY LT	GHAN SHYAM
273	TJ	3513A	SUB & HONY LT	SADHU SINGH
274	TJ	4382M	SUB & HONY LT	SHRIKANT WALIKAR
275	TJ	3669X	SUB & HONY LT	SURESH PRASAD PATEL

TO BE HONORARY LIEUTENANTSPRESIDENT'S BODY GUARD

1	JC 235030A	RIS	BALKAR SINGH
<u>8 CAVALRY</u>			
2	JC 241531W	RIS	SURINDER SINGH
<u>9 HORSE</u>			
3	JC 240103L	RIS	BALWANT SINGH
<u>18 CAVALRY</u>			
4	JC 238483W	RIS MAJ	SUBHASH CHAND MALIK
<u>4 HORSE</u>			
5	JC 241255Y	RIS	MAST RAM DOGRA
<u>CENTRAL INDIA HORSE</u>			
6	JC 238142L	RIS MAJ	JAI SINGH
<u>65 ARMOURED REGIMENT</u>			
7	JC 239212L	RIS MAJ	RAJ PAL SINGH
8	JC 241494N	RIS	AKHHILESH KUMAR SINGH GAUTAM
<u>71 ARMOURED REGIMENT</u>			
9	JC 241434Y	RIS	KISHORE LAL
<u>72 ARMOURED REGIMENT</u>			
10	JC 240864W	RIS	FAQIR CHAND
<u>81 ARMOURED REGIMENT</u>			
11	JC 239493M	RIS MAJ	RAM BHAROSI VERMA
<u>84 ARMOURED REGIMENT</u>			
12	JC 239063H	RIS MAJ	BHAJAN SINGH
<u>90 ARMOURED REGIMENT</u>			
13	JC 242140X	RIS	SATYENDRA MISHRA
<u>41 ARMOURED REGIMENT</u>			
14	JC 241935Y	RIS	MOHAN LAL
<u>42 ARMOURED REGIMENT</u>			
15	JC 237859A	RIS MAJ	BHUPINDER KUMAR
<u>43 ARMOURED REGIMENT</u>			
16	JC 241876X	RIS	RAM NAGINA PAL

**46 ARMOURED REGIMENT**

17 JC 241770L RIS RAJIV LOCHAN PANDEY

**49 ARMOURED REGIMENT**

18 JC 241352W RIS ASHREL BARA

**6 ARMOURED REGIMENT**

19 JC 241905F RIS MITHLESH KUMAR TIWARI

20 JC 241966Y RIS SANATAN DEKA

21 JC 241347L RIS Y JADUMANI SINGH

**11 ARMOURED REGIMENT**

22 JC 239823A RIS CHHOTE LAL

23 JC 237767N RIS RAKESH KUMAR SHARMA

**13 ARMOURED REGIMENT**

24 JC 238907F RIS SHIV PRATAP SINGH CHAUHAN

**ARMOURED CORPS**

25 JC 237429W RIS MAJ JAI PAL SINGH

26 JC 237270W RIS MAJ SUBASH CHANDER CHOUDRY

27 JC 237496F RIS MAJ V SASIDHARAN PILLAI

28 JC 170655Y RIS MOHAMAD WASEEM KHAN (RT)

29 JC 241622A RIS YOHANNAN THOMAS

**REGIMENT OF ARTILLERY**

30 JC 261228W SUB MAJ BANS BAHADUR SINGH

31 JC 261150W SUB MAJ BHUPAL SINGH

32 JC 261665W SUB MAJ CHHEDI LAL

33 JC 256236L SUB MAJ DAYA RAM

34 JC 256404Y SUB MAJ GAJRAJ SINGH

35 JC 137665H SUB MAJ GIRIRAJ PRASAD UPADHYAY (RT)

36 JC 257492M SUB MAJ GOVIND PRASAD

37 JC 256578Y SUB MAJ GURDIP SINGH

38 JC 258342H SUB MAJ GURMAIL SINGH

39 JC 258447M SUB MAJ HARI PREM

40 JC 259288M SUB MAJ HRIDAY NARAYAN

41 JC 256452Y SUB MAJ JANARDHANAN P

42 JC 256174W SUB MAJ JOGINDER SINGH VERMA

43 JC 226254Y SUB MAJ KADAM SHIVAJI RAMCHANDRA

44 JC 256175Y SUB MAJ LAKSHMI KANT TIWARI

45 JC 127131K SUB MAJ MADHUSUDAN PRASAD PANDEY (RT)

46 JC 256821L SUB MAJ MOHAN RAO DONGA

47 JC 260280M SUB MAJ MOHAN SINGH

48 JC 256872Y SUB MAJ NIRPAL SINGH

49 JC 257109H SUB MAJ RAJ KUMAR

50 JC 256557H SUB MAJ RAMESH CHAND

51 JC 257961K SUB MAJ RAM NIWAS

52 JC 257326Y SUB MAJ RANDHIR SINGH

53	JC 255961L	SUB MAJ	RAVINDER SINGH DHIMAN
54	JC 258610F	SUB MAJ	RICHHPAL SINGH
55	JC 256472M	SUB MAJ	SUBHASH CHAND
56	JC 267928A	SUB	A MARI MUTHU
57	JC 270444L	SUB	AMAR SINGH
58	JC 269409W	SUB	ASHOK KUMAR
59	JC 264966L	SUB	AVTAR SINGH
60	JC 267444A	SUB	BAKSHISH SINGH
61	JC 269278W	SUB	BASAVANT
62	JC 269930W	SUB	BASUDEV MAHAKUR
63	JC 267374M	SUB	BHASKARA NAND LOHANI
64	JC 269412W	SUB	BHUPENDER SINGH
65	JC 265601H	SUB	BHUPINDER SINGH, SM
66	JC 269129H	SUB	BIRI SINGH
67	JC 259620X	SUB	CHAMAN PRAKASH
68	JC 265360N	SUB	CHAMKAUR SINGH
69	JC 267364H	SUB	CHANDRA SINGH CHAUHAN
70	JC 269592K	SUB	CHEBROLU JASUVA
71	JC 266802N	SUB	DALIP SINGH
72	JC 267589L	SUB	DARYAI LAL
73	JC 267127Y	SUB	DASHRATH SINGH
74	JC 266940P	SUB	DEO RAJ MAURYA
75	JC 264974K	SUB	DHANANJAY KUMAR PANDEY
76	JC 264726N	SUB	DHARM VIR
77	JC 267591H	SUB	GUNA MANI SINGHA
78	JC 265886A	SUB	HARDAN RAM
79	JC 267814P	SUB	HARI SHANKER
80	JC 266389H	SUB	HARISH CHANDRA YADAV
81	JC 268631L	SUB	HEMANT KUMAR
82	JC 270027Y	SUB	JHIRMAL SINGH
83	JC 262747L	SUB	JRAGE KASHINATH APAYA
84	JC 267131F	SUB	KARUNA KARAN P
85	JC 269957N	SUB	KHAJAN SINGH
86	JC 269255P	SUB	LAKHWINDER SINGH
87	JC 269751W	SUB	LAL SINGH
88	JC 266445W	SUB	MAHAVEER SINGH
89	JC 266977W	SUB	MAJEED A
90	JC 269228L	SUB	MIRDUL CHANDRA PHUKAN
91	JC 268584Y	SUB	NARAYAN DATT
92	JC 267365L	SUB	NARENDER SINGH YADAV
93	JC 263229X	SUB	N KANNAN
94	JC 269438L	SUB	PARMODH SINGH
95	JC 268895M	SUB	PREM PAL SINGH
96	JC 269730A	SUB	RAJENDRA SINGH
97	JC 267191W	SUB	RAJVIR SINGH CHOUHAN
98	JC 261834M	SUB	RAMACHANDIRAN T
99	JC 265684Y	SUB	RAMACHANDRAN PP
100	JC 267880X	SUB	RAMBIR SINGH CHAHAR
101	JC 267436F	SUB	RAM CHANDER
102	JC 266986X	SUB	RAM NARESH SINGH BHADORIYA

103	JC 268156A	SUB	RAM PRASAD MISHRA
104	JC 266636L	SUB	R DURAI RAJ
105	JC 266555L	SUB	SAHI RAM
106	JC 264887W	SUB	SALUNKE SHAM RAMCHANDRA
107	JC 266304F	SUB	SATISH KUMAR PANDEY
108	JC 267468K	SUB	SATNAM SINGH
109	JC 269589K	SUB	SETE KUMAR RANA
110	JC 261249M	SUB	SHARDUL SINGH
111	JC 266332N	SUB	SHOBHA SINGH
112	JC 268664W	SUB	SOMVIR SINGH
113	JC 265971H	SUB	SURESH CHANDRA OJHA
114	JC 267491X	SUB	TARSEM SINGH
115	JC 263722L	SUB	THOMAS YOHANNAN
116	JC 269761A	SUB	ULAHANNAN PJ
117	JC 267416N	SUB	UTTAM SINGH
118	JC 266392H	SUB	V V MADAN MOHAN
119	JC 267808F	SUB	VIJAI PAL SINGH
120	JC 266697H	SUB	YAD RAM

**ARMY AIR DEFENCE**

121	JC 296273F	SUB MAJ	BALBIR SINGH NUGYAL
122	JC 296356M	SUB MAJ	DHARAM PAL
123	JC 297100W	SUB MAJ	NIRMAL SINGH
124	JC 296943X	SUB MAJ	SATYA NARAYAN PRASAD
125	JC 296848L	SUB MAJ	VIMLESH KUMAR
126	JC 299064P	SUB	BARJINDER SINGH
127	JC 298967A	SUB	HASAN BAIG
128	JC 298452A	SUB	JAGAT NARAYAN
129	JC 299046M	SUB	LALARAM YADAVA
130	JC 299043Y	SUB	LANDGE ASHOK MANIKRAO
131	JC 298415M	SUB	MAHENDRA SINGH YADAV
132	JC 297662N	SUB	MANI RAM
133	JC 298905A	SUB	NARENDRA SINGH
134	JC 298048L	SUB	OM PRAKASH HARIJAN
135	JC 297802P	SUB	OUSEPH CHERIAN
136	JC 298196W	SUB	RAJ KUMAR
137	JC 298723M	SUB	SATYA PAL
138	JC 297586M	SUB	SEV SINGH
139	JC 298449A	SUB	SIGAMANI M
140	JC 299202L	SUB	SUBE SINGH
141	JC 298576P	SUB	SURESH BAHADUR SINGH
142	JC 297853H	SUB	SURESH KUMAR
143	JC 297402H	SUB	YOGENDRA KUMAR

**MADRAS ENGINEER GROUP**

144	JC 305732Y	SUB MAJ	CHIGURUPATI SK PRASAD
145	JC 305817P	SUB MAJ	M PASUPATHY
146	JC 305729Y	SUB MAJ	M SEKARAN
147	JC 305756H	SUB MAJ	R KANICKARAJ
148	JC 305725H	SUB MAJ	SRINIVAS CHEBIYYAM

149	JC 307791K	SUB	BABU N
150	JC 308397L	SUB	BAKTHAVATCHALAM KA
151	JC 307886K	SUB	C KUPPUSAMY
152	JC 307544W	SUB	C SUBRAMANIYAN
153	JC 307803N	SUB	C VENGAL REDDY
154	JC 308003F	SUB	GAJENDIRAN K
155	JC 307790F	SUB	G JAYABALAN
156	JC 308010X	SUB	GOPALAN PUTHAN VEETIL
157	JC 306878Y	SUB	GOPAL THOMBRE
158	JC 307310M	SUB	GREESAN NAIR R
159	JC 307873M	SUB	HARIDASAN M
160	JC 307440P	SUB	KRISHNAN KUTTY CHETTIAR T
161	JC 307674Y	SUB	KV RAVICHANDRAN
162	JC 307458L	SUB	MANOJ KUMAR P
163	JC 308022M	SUB	MARKU G
164	JC 307308P	SUB	MATHEW KT
165	JC 307270W	SUB	M SETHUPATHY
166	JC 307252N	SUB	PRAKASAN U
167	JC 307289P	SUB	RADHAKRISHNAN PP
168	JC 307781A	SUB	RAVEENDRAN KOLATI KKANDIYIL
169	JC 307417F	SUB	RAVINDRAN AK
170	JC 307908X	SUB	RONANKI CHANCHANNA
171	JC 307799W	SUB	SAHADEVAN KANIYAL
172	JC 307789M	SUB	SASINDRAN A
173	JC 308076N	SUB	SUKUMARAN NAIR P
174	JC 307802L	SUB	T RAJENDHIRAN

**BENGAL ENGINEER GROUP**

175	JC 328278W	SUB MAJ	ARUP KUMAR GON
176	JC 325608Y	SUB MAJ	BHURA
177	JC 327099K	SUB MAJ	DHAN BAHADUR BURA
178	JC 328349M	SUB MAJ	JITENDER KUMAR SINGH
179	JC 326525A	SUB MAJ	KRISHNA BAHADUR YADAV
180	JC 327162N	SUB MAJ	LAKSHMANA PALAI
181	JC 328166W	SUB MAJ	NARYAN SINGH ADHIKARI
182	JC 327310N	SUB MAJ	PARKASH SINGH
183	JC 327350P	SUB MAJ	RACHHPAL SINGH JAGGI
184	JC 328029X	SUB MAJ	SAHIB SINGH
185	JC 326401L	SUB MAJ	S ALAGAR CHAMY
186	JC 325314K	SUB MAJ	SAROOP SINGH
187	JC 325541L	SUB MAJ	SUBASH PRASAD KUSHAWAHA
188	JC 329263A	SUB	AMULYA BARMAN
189	JC 329108Y	SUB	AWDESH KUMAR SINGH
190	JC 328386A	SUB	DALIP SINGH
191	JC 326477L	SUB	DHRUB KUMAR SINGH
192	JC 329527W	SUB	DIN DAYAL
193	JC 329231X	SUB	GIRIS CHANDER PALARIA
194	JC 328746L	SUB	GOPAL HAZARIKA
195	JC 329074W	SUB	GOURANGA MISHRA
196	JC 329212M	SUB	GURBACHAN SINGH

197	JC 329243M	SUB	JAI PRAKASH
198	JC 329060W	SUB	JOGINDER SINGH
199	JC 329209M	SUB	KAMLA SINGH
200	JC 329254Y	SUB	M RADHA ROMAN SINGHA
201	JC 328727A	SUB	MAHESH CHANDRA JOSHI
202	JC 329048P	SUB	MATBAR SINGH
203	JC 329063K	SUB	NANDAN SINGH RAWAT
204	JC 329234L	SUB	PRAKASH CHANDRA
205	JC 329217L	SUB	RAJENDAR SINGH YADAV
206	JC 329340K	SUB	RAJENDER SINGH
207	JC 326663F	SUB	RAKESHPAL SINGH
208	JC 329350N	SUB	RAMESH CHANDER SHARMA
209	JC 329214X	SUB	RANJIT SINGH
210	JC 329208K	SUB	SHUBASH SINGH
211	JC 329360X	SUB	SITAL SINGH
212	JC 328580P	SUB	VIJAY KUMAR

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

213	JC 348009L	SUB MAJ	BALWINDER SINGH
214	JC 348288F	SUB MAJ	DAYARAM YADAV
215	JC 348178M	SUB MAJ	DESAI PRAKASH VINAYAK RAO
216	JC 347501K	SUB MAJ	JUGAL KISHORE GUPTA
217	JC 349042P	SUB MAJ	MANGAL SINGH
218	JC 348607H	SUB MAJ	PATIL KIRAN KUMAR
219	JC 348366N	SUB MAJ	RAJESH BAHADUR SINGH
220	JC 348046Y	SUB MAJ	RAM KISHAN SAINI
221	JC 347395W	SUB MAJ	RESHAM SINGH
222	JC 347347W	SUB MAJ	SATNAM CHAND KAMBOJ
223	JC 348421Y	SUB MAJ	TRIVENI RAI
224	JC 349302P	SUB	ABDUL KAYYOM
225	JC 349839N	SUB	BAKSHISH SINGH, SC
226	JC 349769A	SUB	BUNDE ALI KHAN
227	JC 348506P	SUB	GUNDIDAS MALU KAMBLE
228	JC 349767P	SUB	GURMEL SINGH
229	JC 350351K	SUB	HARBANS SINGH
230	JC 349577H	SUB	KALIMULLAH SHAHI
231	JC 348721A	SUB	KEHAR SINGH
232	JC 349574P	SUB	KUNDALIK WATU AGASHE
233	JC 349603Y	SUB	LAL SINGH
234	JC 349206A	SUB	MALKIAT SINGH
235	JC 349261W	SUB	MANJIT SINGH BHATTI
236	JC 349768X	SUB	MOHINDER SINGH
237	JC 349736P	SUB	NIRMAL SINGH
238	JC 349282M	SUB	RAMESH SINGH
239	JC 349407Y	SUB	SAIKH DILAWAR
240	JC 349738A	SUB	SARDUL SINGH
241	JC 349831F	SUB	SATWINDER SINGH
242	JC 349275W	SUB	SHAMSHER SINGH
243	JC 349233K	SUB	SRI WALI MOHAMMAD
244	JC 349628L	SUB	SUKHVIR SINGH



245	JC 349733F	SUB	VIJENDRA		
<b>CORPS OF SIGNALS</b>					
246	JC 368821M	SUB MAJ	GAURI SHANKAR DHAR DUBEY		
247	JC 367265P	SUB MAJ	GOOLAPPA KEMPALINGANNAVAR		
248	JC 370139N	SUB MAJ	HAJARI LAL		
249	JC 370705H	SUB MAJ	HARI SHANKAR PRASAD		
250	JC 367264M	SUB MAJ	ISHWAR DASS		
251	JC 370743Y	SUB MAJ	KARMJIT SINGH		
252	JC 368514P	SUB MAJ	KHEMA RAM BISHNOI		
253	JC 370830M	SUB MAJ	KUMAR NIRANJAN		
254	JC 370708W	SUB MAJ	KUMEDAN SINGH		
255	JC 370826K	SUB MAJ	LILU RAM		
256	JC 370703X	SUB MAJ	OM PARKASH		
257	JC 370721A	SUB MAJ	RAJENDRA PANDEY		
258	JC 370735A	SUB MAJ	RAM BAHADUR SINGH		
259	JC 370076W	SUB MAJ	SAMIR KUMAR PAL		
260	JC 368795W	SUB MAJ	SATISH CHANDRA JOSHI		
261	JC 370725W	SUB MAJ	SATYA NARAYAN		
262	JC 374568M	SUB	AKHILESH KUMAR		
263	JC 376218Y	SUB	ARWIND SINGH		
264	JC 372933K	SUB	ASHOK SINGH		
265	JC 368734Y	SUB	BALWAN SINGH		
266	JC 374740H	SUB	BANSIDHAR OJHA		
267	JC 375584W	SUB	BIJAN BIHARI NATH		
268	JC 373569H	SUB	B UTHIRA KUMAR		
269	JC 374370N	SUB	DALIP SINGH THAKUR		
270	JC 373167L	SUB	DEO KUMAR SINGH		
271	JC 376069W	SUB	FATTA RAM BHAKAR		
272	JC 374272N	SUB	GAIKWAD VITHOBA NARAYAN		
273	JC 375507F	SUB	HARBANS SINGH		
274	JC 374276K	SUB	JAGESHWAR THAKUR		
275	JC 372315Y	SUB	KANDHILAL KOSTA		
276	JC 373566P	SUB	KANHA RAM		
277	JC 374341Y	SUB	KRISHAN KUMAR		
278	JC 374379H	SUB	KRISHNA DAS K		
279	JC 374808Y	SUB	MAHINDAR SINGH		
280	JC 375555F	SUB	NEM SINGH		
281	JC 372591F	SUB	OMBIR SINGH		
282	JC 374165M	SUB	PRDEEP KUMAR		
283	JC 373240Y	SUB	RADHE SHYAM		
284	JC 373567X	SUB	RAGHUBIR SINGH		
285	JC 375534L	SUB	RAJENDER PRASAD		
286	JC 374468F	SUB	RAJINDER KUMAR		
287	JC 370911M	SUB	RAM NIWAS		
288	JC 375578H	SUB	SALVE SURESH DAULAT		
289	JC 373971M	SUB	SARDAR SINGH		
290	JC 375050L	SUB	SATBIR		
291	JC 373956X	SUB	SATYABIR SINGH		
292	JC 374194F	SUB	SUCHA RAM		

293	JC 376238M	SUB	SURENDER KUMAR
294	JC 376418P	SUB	SURESH SINGH
295	JC 371825N	SUB	SWAROOP CHAND
296	JC 371821X	SUB	SYED SOMER ALI
297	JC 375798M	SUB	TEK CHAND
298	JC 372936X	SUB	TILAK SINGH
299	JC 374316A	SUB	UMA SHANKAR SHARMA
300	JC 372223M	SUB	UMED SINGH BHUKAL
301	JC 374534Y	SUB	UTTAM SINGH
302	JC 376433K	SUB	VIJAY KUMAR
303	JC 373486X	SUB	YASHODA NAND JHA

**THE BRIGADE OF GUARDS**

304	JC 402328N	SUB MAJ	BIDDAPPA B U
305	JC 403631F	SUB	BHIM SINGH
306	JC 403417Y	SUB	BHUPAL CHAND
307	JC 403471M	SUB	CHAND MOHAMMED
308	JC 403188Y	SUB	PRITHVI SINGH
309	JC 403154L	SUB	PROMOD KUMAR SINGH
310	JC 403422K	SUB	RAGHUBAR SINGH
311	JC 403404F	SUB	RAM PRAKASH PANDIT
312	JC 403389X	SUB	SHRIPAL SINGH NEGI
313	JC 403465Y	SUB	SHYAM SINGH
314	JC 403591L	SUB	SURESH KUMAR
315	JC 403656N	SUB	TARSEEM LAL
316	JC 403609W	SUB	UTTAM SINGH

**THE PARACHUTE REGIMENT**

317	JC 412312W	SUB MAJ	CHANDRA SINGH
318	JC 412300F	SUB MAJ	DUNGAR SINGH BISHT
319	JC 412272A	SUB MAJ	SUDESH KUMAR
320	JC 412894F	SUB	ALTAH HUSSAIN
321	JC 412362F	SUB	BALKAR SINGH
322	JC 412873L	SUB	DEEPAK KUMAR
323	JC 412857N	SUB	KAILASH CHAND JAT, SM
324	JC 412794W	SUB	MADAN LAL
325	JC 412836X	SUB	MANGAL SINGH TOMAR
326	JC 412705M	SUB	NARDEV SINGH, SM
327	JC 412834M	SUB	PHUL KANWAR
328	JC 412751F	SUB	RAJBIR SINGH
329	JC 412670F	SUB	RAM KISHAN
330	JC 412896M	SUB	RANI DAN SINGH
331	JC 412865M	SUB	SANSAR CHAND
332	JC 412489K	SUB	SULTAN SINGH, SM
333	JC 413032P	SUB	SURINDER SINGH
334	JC 412645H	SUB	TARA CHAND
335	JC 412703F	SUB	VIRENDER SINGH, SM

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

336	JC 418660N	SUB MAJ	KARTAR SINGH
-----	------------	---------	--------------

337	JC 418255W	SUB MAJ	MUKHTIAR SINGH
338	JC 418269W	SUB MAJ	SUKHNINDER SINGH
339	JC 420670W	SUB	BABU RAM
340	JC 419926F	SUB	JAGDISH PRASAD
341	JC 419652F	SUB	KARAM SINGH
342	JC 419989K	SUB	KUNDEN LAL
343	JC 419477X	SUB	LANDGE VISHNU ANNA
344	JC 419709L	SUB	NARAYANAN K
345	JC 419267X	SUB	RAM BIR SINGH
346	JC 420392N	SUB	R ARIVALAGAN
347	JC 419578L	SUB	RATTAN LAL
348	JC 419310N	SUB	SIDDHU MUNI PATEL
349	JC 418896H	SUB	SUMER SINGH
350	JC 420153Y	SUB	SURJIT SINGH

**THE PUNJAB REGIMENT**

351	JC 428566X	SUB MAJ	DALIP SINGH RANA
352	JC 428674F	SUB MAJ	HARBHAJAN SINGH
353	JC 428742K	SUB MAJ	HARI SINGH
354	JC 428450F	SUB MAJ	HARPARKASH SINGH
355	JC 428872M	SUB MAJ	JARNAIL SINGH
356	JC 428575Y	SUB MAJ	PRITAM SINGH VERMA
357	JC 428744P	SUB MAJ	SURESH KUMAR
358	JC 429078F	SUB	AMARJIT SINGH
359	JC 429692W	SUB	BACHAN LAL
360	JC 430246F	SUB	BACHAN SINGH
361	JC 428763A	SUB	BALBIR SINGH
362	JC 429394A	SUB	BALWANT SINGH
363	JC 429315A	SUB	BHAGWAN SINGH
364	JC 429791Y	SUB	BHAVISHAN SINGH
365	JC 429108N	SUB	BUTA SINGH
366	JC 429913Y	SUB	DARSHAN SINGH
367	JC 429706L	SUB	DILBAG SINGH
368	JC 429848H	SUB	GULCHAIN SINGH
369	JC 429201P	SUB	HARPAL SINGH
370	JC 429560H	SUB	JAI RAM
371	JC 429256Y	SUB	JASWANT SINGH
372	JC 428921K	SUB	JASWINDER PAUL SINGH
373	JC 429354Y	SUB	JOGINDER SINGH GILL
374	JC 429602K	SUB	KRISHAN LAL
375	JC 429426X	SUB	KULDIP SINGH
376	JC 429458A	SUB	LAKHBINDER SINGH
377	JC 429840W	SUB	LEKH RAJ
378	JC 429667X	SUB	MAKHAN SINGH
379	JC 429550Y	SUB	MANJIT SINGH, SM
380	JC 152327H	SUB	MOHINDER PAL SINGH
381	JC 429601F	SUB	ONKAR SINGH
382	JC 429452Y	SUB	PADAM NABH
383	JC 430068K	SUB	PRATAP CHAND
384	JC 429953Y	SUB	RAJINDER KUMAR

(RT)

385	JC 430057X	SUB	RAJ KUMAR	10 430057X	385
386	JC 429878A	SUB	RAM SINGH	10 429878A	386
387	JC 429061N	SUB	RANDHIR SINGH	10 429061N	387
388	JC 429468K	SUB	RANJIT SINGH	10 429468K	388
389	JC 429823W	SUB	RATTAN CHAND THAKUR	10 429823W	389
390	JC 429894X	SUB	SAT PAL	10 429894X	390
391	JC 429745K	SUB	SAT PAL SINGH	10 429745K	391
392	JC 429158Y	SUB	SURAIN SINGH	10 429158Y	392
393	JC 430075A	SUB	SURESH KUMAR SHARMA	10 430075A	393
394	JC 429858M	SUB	YASH PAL	10 429858M	394
<b>THE MADRAS REGIMENT</b>					
395	JC 438298M	SUB MAJ	G MANOGARAN	10 438298M	395
396	JC 438405H	SUB MAJ	KORIKANA LAKSHUM NAIDU	10 438405H	396
397	JC 438134W	SUB MAJ	KRISHNAN C	10 438134W	397
398	JC 438540W	SUB MAJ	RAJENDRAN ND	10 438540W	398
399	JC 438366P	SUB MAJ	S SEETHAPATHI	10 438366P	399
400	JC 438629H	SUB MAJ	TOMY NJ	10 438629H	400
401	JC 438193H	SUB MAJ	T VASUDEVAN	10 438193H	401
402	JC 518918L	SUB MAJ	VARGHESE PG	10 518918L	402
403	JC 438736K	SUB	BENNY MP	10 438736K	403
404	JC 438873H	SUB	DADALA SATYANARAYANA	10 438873H	404
405	JC 439242M	SUB	D JAMES	10 439242M	405
406	JC 439005H	SUB	JANUMPALLY LAXMANA SWAMY	10 439005H	406
407	JC 439348Y	SUB	K KRISHNA KUMAR	10 439348Y	407
408	JC 438610K	SUB	MOHANAN KN	10 438610K	408
409	JC 438589M	SUB	MURALEEDHARAN P	10 438589M	409
410	JC 439442H	SUB	NEDUNCHEZHIAN	10 439442H	410
411	JC 439035A	SUB	N PERUMAL SWAMY	10 439035A	411
412	JC 439353K	SUB	POTHULA MANOHAR	10 439353K	412
413	JC 438582H	SUB	SANE MADDULETI	10 438582H	413
414	JC 438580X	SUB	SHAIK JAMAL VALI	10 438580X	414
415	JC 438885X	SUB	SIRASAPALLI APPALARAJU	10 438885X	415
416	JC 438991W	SUB	SURESH BABU	10 438991W	416
<b>THE GRENADIERS</b>					
417	JC 120475A	SUB MAJ	ALLAH DITTA BHAT	10 120475A	417 (RT)
418	JC 449165W	SUB MAJ	BALBIR SINGH	10 449165W	418
419	JC 448864P	SUB MAJ	M'S SHEKHAWAT, SM	10 448864P	419
420	JC 448681Y	SUB MAJ	MOHAN LAL	10 448681Y	420
421	JC 448924Y	SUB MAJ	MUMTAJ ALI	10 448924Y	421
422	JC 448921L	SUB MAJ	OM PRAKASH	10 448921L	422
423	JC 448741H	SUB MAJ	PARAMESHWAR LAL	10 448741H	423
424	JC 448909K	SUB MAJ	PHOOL SINGH	10 448909K	424
425	JC 448912K	SUB MAJ	RAGHURAJ SINGH	10 448912K	425
426	JC 448997L	SUB MAJ	SATYA PAL SINGH SHEKHAWAT	10 448997L	426
427	JC 449899X	SUB	ASHOK KUMAR	10 449899X	427
428	JC 450212P	SUB	ASHOK KUMAR	10 450212P	428
429	JC 450054L	SUB	BACHAN LAL	10 450054L	429
430	JC 449923H	SUB	HARI BUKSH	10 449923H	430

431	JC 449791A	SUB	JAGBIR SINGH	477
432	JC 449491Y	SUB	JAGDISH CHAND DOGRA	478
433	JC 449958Y	SUB	KAMAL SINGH	479
434	JC 449806X	SUB	MEHARDIN	480
435	JC 450180X	SUB	PREM SINGH	481
436	JC 449812L	SUB	RAJENDRA SINGH	482
437	JC 450028K	SUB	RAM SINGH	483
438	JC 449955L	SUB	ROSHAN LAL	484
439	JC 448942F	SUB	RUPLAL	485

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

440	JC 458145K	SUB MAJ	APPASAHEB PAWAR	486
441	JC 458243K	SUB MAJ	DHAMANEKAR PUNDALIK	487
442	JC 458077F	SUB MAJ	FAKIRA NAVAGEKAR	488
443	JC 458324K	SUB MAJ	GAIKWAD MANASING VAMAN	489
444	JC 458444H	SUB MAJ	GHEVADE SADASHIV MARUTI	490
445	JC 458340F	SUB MAJ	GOPALA NA	491
446	JC 528297L	SUB MAJ	JANARDAN SARJERAO PADWAL	492
447	JC 226987X	SUB MAJ	RANE VILAS VASUDEO	493
448	JC 458800X	SUB	ARJUN SHAMRAO PAWAR	494
449	JC 459249X	SUB	JADHAV MARUTI GOVINDA	495
450	JC 459337N	SUB	MOHAN MALLAPPA SHINDE	496
451	JC 458995N	SUB	NADAF DASTAGIR MHAMULLA	497
452	JC 459036K	SUB	PATIL MALLAPPA MASHNU	498
453	JC 458813P	SUB	RAJENDRA RAMACHANDRA MAHADIK	499
454	JC 459321H	SUB	RAM NIWAS	500
455	JC 459081W	SUB	RATHORE DNYANOBA BHAURAO SM	501
456	JC 459348A	SUB	SURESH HANUMANT MAHABDI	502

**THE RAJPUTANA RIFLES**

457	JC 468900W	SUB MAJ	MAHENDER SINGH	503
458	JC 468378Y	SUB MAJ	NAWAL SINGH	504
459	JC 469110N	SUB MAJ	PHOOL SINGH	505
460	JC 468148L	SUB MAJ	SOLANKI CHANDU BHAI FULA BHAI	506
461	JC 468641Y	SUB MAJ	SUNAYAK SINGH, SM	507
462	JC 469803L	SUB	BHAGIRATH SINGH	508
463	JC 469607L	SUB	BIJENDER PAL	509
464	JC 469547F	SUB	CHANDER PAL SINGH	510
465	JC 469599X	SUB	GAJENDRA SINGH CHAUHAN	511
466	JC 469624L	SUB	KABUL SINGH CHOUHAN	512
467	JC 469596K	SUB	KAILASH SINGH	513
468	JC 469625N	SUB	MAHENDER SINGH	514
469	JC 469694K	SUB	MOHAN SINGH	515
470	JC 469537X	SUB	RAJENDRA KUMAR SINGH	516
471	JC 469280X	SUB	RAJKUMAR RANA	517
472	JC 469608N	SUB	RAJVEER SINGH	518
473	JC 469847H	SUB	RAM BABU	519
474	JC 469188Y	SUB	RAM KUMAR SINGH SHEKHAWAT	520
475	JC 469283L	SUB	RAMVIR SINGH	521
476	JC 469485M	SUB	RANBIR SINGH	522

477	JC 469860M	SUB	SARJEET SINGH
478	JC 469571X	SUB	SATISH KUMAR
479	JC 469595F	SUB	SATPAL SINGH
480	JC 469575N	SUB	SATYA BIR
481	JC 468704W	SUB	SAWAI SINGH
482	JC 469627Y	SUB	SHRWAN SINGH
483	JC 469606H	SUB	SUMER SINGH

**THE RAJPUT REGIMENT**

484	JC 478637K	SUB MAJ	AMAR SINGH CHAUHAN
485	JC 478947P	SUB MAJ	BHOLE BHADUR SINGH
486	JC 478647N	SUB MAJ	DIGVIJAI SINGH, SM
487	JC 122084N	SUB MAJ	KRISHNA NAND PATHAK (RT)
488	JC 478558P	SUB MAJ	OM PRAKASH SINGH
489	JC 478370A	SUB MAJ	RADHE SHYAM
490	JC 478465A	SUB MAJ	RAM BAKSH SINGH
491	JC 478467L	SUB MAJ	RAM DHANI SINGH
492	JC 478870X	SUB	ASHOK BISWAS
493	JC 479248W	SUB	BAHORAN SINGH
494	JC 479741K	SUB	BALWAN SINGH
495	JC 479541N	SUB	BIR PAL
496	JC 479483P	SUB	JAGANNATH
497	JC 479481K	SUB	JAHAN SINGH
498	JC 479417M	SUB	KAMLESH SINGH
499	JC 479391H	SUB	OM PRAKASH
500	JC 479846N	SUB	RAJPAL SINGH
501	JC 478900K	SUB	RAJPAL SINGH TANWAR
502	JC 479448M	SUB	RAM PRASAD
503	JC 479835F	SUB	RAM RATAN
504	JC 479285K	SUB	RAM SHARAN SINGH
505	JC 479806M	SUB	SAMAY SINGH GUJAR
506	JC 479487L	SUB	SATYA PRAKASH SINGH
507	JC 479469H	SUB	SATYAVIR
508	JC 479540L	SUB	SHER SINGH
509	JC 479354P	SUB	SONE LAL PANDEY
510	JC 479306P	SUB	SRIKANT SINGH
511	JC 479687F	SUB	SUBASH CHANDER, SM
512	JC 479067L	SUB	SURENDER SINGH
513	JC 479616A	SUB	TIRTH PAL SINGH

**THE JAT REGIMENT**

514	JC 488496N	SUB MAJ	GOPAL SINGH JAT
515	JC 488319N	SUB MAJ	ONKAR SINGH
516	JC 488332X	SUB MAJ	SAMMAT SINGH
517	JC 489905H	SUB	BIJENDER SINGH
518	JC 489614H	SUB	CHHOTU RAM SHARMA
519	JC 489539K	SUB	DALVIR SINGH
520	JC 489351P	SUB	GOPAL LAL
521	JC 489060P	SUB	MANGE RAM
522	JC 489480P	SUB	RAMBIR SINGH

523	JC 488867L	SUB	RANBIR SINGH
524	JC 489518N	SUB	SAMWAL SINGH
525	JC 489644A	SUB	SUKHBIR SINGH

**THE SIKH REGIMENT**

526	JC 498523A	SUB MAJ	ACHHAR SINGH
527	JC 498784N	SUB MAJ	BALJIT SINGH
528	JC 498391X	SUB MAJ	BHAJAN SINGH
529	JC 498153L	SUB MAJ	DHIAN SINGH
530	JC 498528Y	SUB MAJ	JASVIR SINGH
531	JC 498227P	SUB MAJ	JASWANT SINGH
532	JC 498070A	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
533	JC 498426H	SUB MAJ	MUKHTIAR SINGH
534	JC 499294M	SUB	BALKAR SINGH
535	JC 498931L	SUB	DARSHAN SINGH
536	JC 498751H	SUB	DILBAG SINGH
537	JC 498855K	SUB	GURPAL SINGH
538	JC 499095Y	SUB	HARBHAJAN SINGH
539	JC 498955P	SUB	JAGJIT SINGH
540	JC 499109N	SUB	JARNAIL SINGH
541	JC 499298H	SUB	JARNAIL SINGH
542	JC 498818W	SUB	LAKHWINDER SINGH
543	JC 498850L	SUB	MEWA SINGH
544	JC 499091H	SUB	PARKASH SINGH
545	JC 499074H	SUB	PARMOD SINGH
546	JC 498946N	SUB	SANTOKH SINGH
547	JC 498789M	SUB	SARWAN SINGH
548	JC 498858X	SUB	SUCHA SINGH
549	JC 499187L	SUB	SURJIT SINGH
550	JC 498901N	SUB	SURJIT SINGH
551	JC 499036M	SUB	TARLOCHAN SINGH

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

552	JC 508357N	SUB MAJ	AVTAR SINGH
553	JC 508539F	SUB MAJ	BHUPINDER SINGH
554	JC 508170F	SUB MAJ	CHAND SINGH
555	JC 508305X	SUB MAJ	DEV RAJ SINGH
556	JC 140407N	SUB MAJ	GURBAKHASH SINGH
557	JC 508678L	SUB MAJ	GURDIP SINGH
558	JC 558217X	SUB MAJ	LAKHA SINGH
559	JC 226898Y	SUB MAJ	PARMJIT SINGH
560	JC 508421A	SUB MAJ	SATYABIR SINGH
561	JC 508231N	SUB MAJ	VIR SINGH
562	JC 509059K	SUB	GULZAR SINGH
563	JC 509027F	SUB	GURDIAL SINGH
564	JC 509207K	SUB	GURMUKH SINGH
565	JC 508824A	SUB	JAGDEV SINGH
566	JC 508809L	SUB	JARNAIL SINGH
567	JC 508968H	SUB	JASMEL SINGH
568	JC 509004A	SUB	LAKHWINDER SINGH

(RT)

569 JC 508869A SUB  
570 JC 508929K SUB  
571 JC 509099L SUB

SINGARA SINGH  
SUKHPAL SINGH  
SURAT SINGH  
SUKHIR SINGH

SUB 253  
SUB 254  
SUB 255  
SUB 256

**THE DOGRA REGIMENT****THE SIKH REGIMENT**

572 JC 519230L SUB MAJ  
573 JC 518655X SUB MAJ  
574 JC 519248F SUB MAJ  
575 JC 519228L SUB MAJ  
576 JC 519329F SUB MAJ  
577 JC 519425W SUB MAJ  
578 JC 519133N SUB MAJ  
579 JC 518956F SUB MAJ  
580 JC 519292L SUB MAJ  
581 JC 520036H SUB  
582 JC 519911N SUB  
583 JC 519965P SUB  
584 JC 519961Y SUB  
585 JC 519931F SUB  
586 JC 519943W SUB  
587 JC 520074Y SUB  
588 JC 519883M SUB  
589 JC 520073W SUB  
590 JC 520623N SUB  
591 JC 519913Y SUB  
592 JC 519984A SUB  
593 JC 519858N SUB  
594 JC 519902M SUB  
595 JC 519881F SUB  
596 JC 520052A SUB  
597 JC 519966X SUB  
598 JC 519878F SUB  
599 JC 519836P SUB  
600 JC 519914F SUB

ASHWANI KUMAR SHARMA  
DARSHAN SINGH  
HARBANS LAL  
JAGDISH CHAND  
KRISHAN LAL VERMA  
MILAP CHAND BARWAL  
PRITAM SINGH CHIB  
SHAMSHER SINGH  
SUBHASH CHANDER  
AVTAR SINGH  
GANESH RAJ JASWAL  
HARMESH LAL  
HOSHIAR SINGH  
KARAM CHAND  
KARTAR SINGH  
KAVINDER SINGH  
MADAN LAL SAPOLIA  
MOHINDER SINGH  
NIRMAL SINGH, SC, SM  
PRITAM SINGH  
RACHPAL SINGH  
RAGHBIR SINGH  
RAGHUBIR SINGH  
RAJIV SINGH  
RAM SINGH THAKUR  
RAVINDER SINGH  
RISHI KUMAR  
SUBASH CHAND  
TEK CHAND

SUB MAJ 256  
SUB MAJ 257  
SUB MAJ 258  
SUB MAJ 259  
SUB MAJ 260  
SUB MAJ 261  
SUB MAJ 262  
SUB MAJ 263  
SUB MAJ 264  
SUB MAJ 265  
SUB MAJ 266  
SUB MAJ 267  
SUB MAJ 268  
SUB MAJ 269  
SUB MAJ 270  
SUB MAJ 271  
SUB MAJ 272  
SUB MAJ 273  
SUB MAJ 274  
SUB MAJ 275  
SUB MAJ 276  
SUB MAJ 277  
SUB MAJ 278  
SUB MAJ 279  
SUB MAJ 280  
SUB MAJ 281  
SUB MAJ 282  
SUB MAJ 283  
SUB MAJ 284  
SUB MAJ 285  
SUB MAJ 286  
SUB MAJ 287  
SUB MAJ 288  
SUB MAJ 289  
SUB MAJ 290  
SUB MAJ 291  
SUB MAJ 292  
SUB MAJ 293  
SUB MAJ 294  
SUB MAJ 295  
SUB MAJ 296  
SUB MAJ 297  
SUB MAJ 298  
SUB MAJ 299  
SUB MAJ 300

**THE GARHWAL RIFLES**

601 JC 529125H SUB MAJ  
602 JC 529039X SUB MAJ  
603 JC 528716X SUB MAJ  
604 JC 529079Y SUB MAJ  
605 JC 528822W SUB MAJ  
606 JC 528526L SUB MAJ  
607 JC 529909A SUB  
608 JC 529608A SUB  
609 JC 529790L SUB  
610 JC 530174X SUB  
611 JC 529583Y SUB  
612 JC 529696F SUB  
613 JC 529536F SUB  
614 JC 529814K SUB

BUDHI BALLABH JOSHI  
CHATTAR SINGH  
HUKAM SINGH  
MAHABIR SINGH  
PRATAP SINGH  
UMA NAND BALODI  
DABAL SINGH, SM  
DHANI LAL  
JAGDISH SINGH, SM  
JOT SINGH  
KHUSAL SINGH, SM  
KUSHALA NAND  
MAHABIR SINGH  
MAHESHA NAND

SUB MAJ 301  
SUB MAJ 302  
SUB MAJ 303  
SUB MAJ 304  
SUB MAJ 305  
SUB MAJ 306  
SUB MAJ 307  
SUB MAJ 308  
SUB MAJ 309  
SUB MAJ 310  
SUB MAJ 311  
SUB MAJ 312  
SUB MAJ 313  
SUB MAJ 314  
SUB MAJ 315  
SUB MAJ 316  
SUB MAJ 317  
SUB MAJ 318  
SUB MAJ 319  
SUB MAJ 320  
SUB MAJ 321  
SUB MAJ 322  
SUB MAJ 323  
SUB MAJ 324  
SUB MAJ 325  
SUB MAJ 326  
SUB MAJ 327  
SUB MAJ 328  
SUB MAJ 329  
SUB MAJ 330  
SUB MAJ 331  
SUB MAJ 332  
SUB MAJ 333  
SUB MAJ 334  
SUB MAJ 335  
SUB MAJ 336  
SUB MAJ 337  
SUB MAJ 338  
SUB MAJ 339  
SUB MAJ 340



615	JC 530089P	SUB	MATWAR SINGH
616	JC 529538M	SUB	PRATAP SINGH RAWAT
617	JC 529629W	SUB	PREM SINGH
618	JC 529481H	SUB	PUSHKAR SINGH
619	JC 529589A	SUB	RAKESH CHAND
620	JC 530001A	SUB	RAMESH CHANDRA
621	JC 529720M	SUB	SATYENDRA SINGH BISHT
622	JC 529607X	SUB	SURENDAR SINGH
623	JC 529742L	SUB	UMESH CHANDER
624	JC 529634F	SUB	VIRENDER SINGH

**THE KUMAON REGIMENT**

625	JC 539003M	SUB MAJ	HARI CHAND
626	JC 538613M	SUB MAJ	RAM SINGH
627	JC 539782A	SUB	ANAND SINGH
628	JC 539756Y	SUB	ATTAR SINGH
629	JC 539736L	SUB	BHIM SINGH
630	JC 539339M	SUB	BHOPAL RAM
631	JC 539660Y	SUB	BHUWAN CHANDRA KAPARI
632	JC 539849N	SUB	BIRENDRA SINGH KANWAL
633	JC 539680K	SUB	DAYA NAND YADAV
634	JC 539208F	SUB	DIWAN SINGH
635	JC 539214P	SUB	GANGA SINGH
636	JC 539603P	SUB	HARI NANDAN BHATT
637	JC 539606H	SUB	HAYAT SINGH RANA
638	JC 539695M	SUB	JOKHAN YADAV
639	JC 539537X	SUB	KARAN SINGH
640	JC 539495W	SUB	KHARAK SINGH
641	JC 540038P	SUB	KHUSHAL SINGH
642	JC 539802H	SUB	KISHAN SINGH
643	JC 539101M	SUB	KUNDAN SINGH
644	JC 539443A	SUB	KUNWAR SINGH
645	JC 539166A	SUB	MADAN LAL
646	JC 539546Y	SUB	MANOHAR SINGH PUJARI
647	JC 539758K	SUB	NANDA BALLABH
648	JC 539436K	SUB	NANDAN SINGH
649	JC 539314A	SUB	PADAM SINGH
650	JC 539506X	SUB	PRAHLAD SINGH
651	JC 538257X	SUB	PRAMOD CHANDRA
652	JC 539209K	SUB	PREM SINGH
653	JC 539332H	SUB	PRITHAVI PAL
654	JC 539406M	SUB	RAJENDRA SINGH
655	JC 539468M	SUB	RAJINDRA GIRI
656	JC 539980L	SUB	RAJ KUMAR
657	JC 539967F	SUB	RAM DAS
658	JC 539196X	SUB	RAMESH CHANDER
659	JC 539933N	SUB	TRILOK SINGH, SM

**THE ASSAM REGIMENT**

660	JC 548391W	SUB MAJ	DIL BAHADUR THAPA, KC
-----	------------	---------	-----------------------

661	JC 548139X	SUB MAJ	INDRA KUMAR SINGHA
662	JC 548449H	SUB MAJ	LAMA DEEPAK PTCHRING
663	JC 548208H	SUB MAJ	SAHADEV GHOSH
664	JC 549047X	SUB	EKENDRA SINGHA
665	JC 549193X	SUB	HL JOHU ANAL
666	JC 548968L	SUB	KAIKHANLIAN SIMTE
667	JC 548841H	SUB	KHOGENDRA SINGHA, SM
668	JC 549032P	SUB	LALCHUNGA DARLONG
669	JC 549052H	SUB	MAN BAHADUR THAPA
670	JC 548960Y	SUB	MAN BAHADUR THAPA
671	JC 548705M	SUB	SIDDHI RAM DAS
672	JC 548992F	SUB	SUBAL SINHA
673	JC 549162X	SUB	SURENDRA KUMAR SINHA
674	JC 549063P	SUB	T LALSANGMAWIA
675	JC 549012F	SUB	UTTAM CH DAS

**THE BIHAR REGIMENT**

676	JC 558362P	SUB MAJ	DINESH NATH JHA
677	JC 558549F	SUB MAJ	RAM SURESH RAI
678	JC 558708N	SUB MAJ	TARKESHWAR PANDEY
679	JC 559574M	SUB	BIHARI TIWARI
680	JC 559428M	SUB	BIJUEL LAKRA
681	JC 558770A	SUB	BIREN KUMAR BISWAL
682	JC 559350M	SUB	DHARANIDHAR SAHU
683	JC 559185M	SUB	NABA KISHOR SWAIN
684	JC 559641M	SUB	NAWAL KISHORE SINGH
685	JC 559233F	SUB	RADHA MOHAN SINGH
686	JC 559375Y	SUB	RAJENDRA RAI
687	JC 559296K	SUB	RAJ KUMAR SINGH
688	JC 559344N	SUB	RAJ NATH SINGH
689	JC 559683Y	SUB	RAVI KANT RAY
690	JC 559508K	SUB	SAILESH KUMAR SINGH
691	JC 559107P	SUB	SHREE RAM SINGH
692	JC 559372L	SUB	SUKRA ORAON

**THE MAHAR REGIMENT**

693	JC 568341M	SUB MAJ	AJAIPAL SINGH
694	JC 568435K	SUB MAJ	AMRIK SINGH
695	JC 568305F	SUB MAJ	BENEDICT KUJUR
696	JC 568174F	SUB MAJ	BHIMRAO BAPUNA HIWRALE
697	JC 568316N	SUB MAJ	BISHAN LAL GUJJAR
698	JC 568474H	SUB MAJ	DHAVARE ASHRU DIGAMBER
699	JC 568528Y	SUB MAJ	PRABIR KUMAR MANDAL
700	JC 568463W	SUB MAJ	PRITPAL SINGH, SM
701	JC 568437P	SUB MAJ	RAJENDRA KUMAR
702	JC 569072X	SUB	ANAND SINGH
703	JC 569699X	SUB	BAIJNATH SINGH
704	JC 569419Y	SUB	FATEH RAM
705	JC 568965Y	SUB	HIRA LAL
706	JC 569291Y	SUB	JAIPAL SINGH

707	JC 568968M	SUB	KOTWAL SINGH
708	JC 569140A	SUB	KRISHAN CHANDER
709	JC 569717P	SUB	MULKH RAJ
710	JC 569186H	SUB	NAR SINGH
711	JC 569188N	SUB	RAJINDER SINGH DHANI
712	JC 569294M	SUB	RAM NIWAS
713	JC 569399W	SUB	RISHI PAL
714	JC 569142L	SUB	SHIV BHAGWAN SHARMA
715	JC 569356F	SUB	UDAYVIR SINGH
716	JC 568899F	SUB	VIJENDER SINGH

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

717	JC 579091W	SUB MAJ	DARSHAN SINGH
718	JC 579187Y	SUB MAJ	JAGDISH SINGH
719	JC 579060W	SUB MAJ	MADAN LAL
720	JC 579266N	SUB MAJ	PAWAN KUMAR
721	JC 579337K	SUB MAJ	RANJIT BHAU
722	JC 579615M	SUB	ALI MOHD HAJAM
723	JC 580272N	SUB	AMAR SINGH
724	JC 580232M	SUB	BALBIR SINGH
725	JC 579990X	SUB	BALDEV RAJ
726	JC 579748H	SUB	BIRI SINGH
727	JC 580171A	SUB	CHAIN SINGH
728	JC 579985M	SUB	CHAIN SINGH
729	JC 579806F	SUB	DARSHAN KUMAR
730	JC 580013L	SUB	DEEPAK KUMAR THAPA
731	JC 579964W	SUB	DHAMENDER
732	JC 579982Y	SUB	GAMAN SINGH THAPA
733	JC 580092L	SUB	G HARU RAM
734	JC 579893A	SUB	HARI KRISHAN
735	JC 579903Y	SUB	INDER SINGH
736	JC 579913H	SUB	JAGDISH CHAND
737	JC 579947W	SUB	JALAM SINGH
738	JC 580200K	SUB	KRISHAN SINGH
739	JC 579966F	SUB	KULVIR SINGH
740	JC 579705N	SUB	NAND LAL THAKUR
741	JC 579908X	SUB	NARINDER SINGH
742	JC 579784N	SUB	NARINDER SINGH
743	JC 579898Y	SUB	NERINDER CHAND KATOCH
744	JC 580141H	SUB	OM PRAKASH
745	JC 579789M	SUB	PRAKASH CHANDER
746	JC 579991A	SUB	PREM CHAND
747	JC 580058L	SUB	RAGHUNATH SINGH
748	JC 580101F	SUB	RAJ KUMAR
749	JC 579866W	SUB	RAMESH CHAND
750	JC 579706W	SUB	RAM LAL
751	JC 579514Y	SUB	ROMESH LAL
752	JC 579745P	SUB	SANSAR CHAND
753	JC 579909A	SUB	SAT PALL SINGH
754	JC 579338M	SUB	SAT PAUL SINGH, SM

755	JC 579873L	SUB	SATYA PAL
756	JC 580350A	SUB	SHAM SINGH
757	JC 580337W	SUB	SOUL SINGH
758	JC 579844X	SUB	SUBASH CHANDER
759	JC 580226Y	SUB	SUJAN SINGH BANYAL
760	JC 579890M	SUB	SUKHDEV SINGH
761	JC 580311F	SUB	TARSEM LAL
762	JC 579912A	SUB	TILK RAJ
763	JC 580398N	SUB	UMESH KHADGA
764	JC 580097K	SUB	VIJAY KUMAR
765	JC 579803N	SUB	VIJAY KUMAR
766	JC 579989H	SUB	VINOD KUMAR
767	JC 580349L	SUB	VINOD KUMAR, SM

**THE LADAKH SCOUTS**

768	JC 588074X	SUB MAJ	CHHERING ANGDUS
769	JC 588084F	SUB MAJ	CHHERING PHUNCHOK
770	JC 588044A	SUB MAJ	SONAM MURUP
771	JC 588161L	SUB	CHHERING MUTUP
772	JC 588310N	SUB	PHUNCHOK ANGCHOK
773	JC 588090P	SUB	TASHI CHHERING
774	JC 588371L	SUB	ZAFAR ALI

**THE NAGA REGIMENT**

775	JC 590172W	SUB	BHUPAL SINGH
776	JC 590168N	SUB	GOVIND SINGH
777	JC 590162M	SUB	PAN SINGH
778	JC 590148A	SUB	RAM SINGH

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

779	JC 592628H	SUB MAJ	BISHAN LAL
780	JC 592269A	SUB MAJ	MOHINDER DASS
781	JC 592306F	SUB MAJ	SAHIB SINGH
782	JC 593280L	SUB	ABDUL QUYOOM, SM
783	JC 592742A	SUB	BALDEV SINGH
784	JC 593278N	SUB	BALVINDER SINGH
785	JC 592543M	SUB	BHAGWAN DASS
786	JC 593202N	SUB	CHAMEL SINGH
787	JC 592345N	SUB	JAFAR ALI
788	JC 593039Y	SUB	KAMAL DASS
789	JC 593031M	SUB	KEWAL KRISHAN
790	JC 592695N	SUB	KRISHAN LAL
791	JC 592680L	SUB	MADAN LAL SHARMA
792	JC 592770M	SUB	MOHINDER LAL
793	JC 592991Y	SUB	MOHMAD SHAFI BEG
794	JC 592967H	SUB	NATHA RAM
795	JC 593293H	SUB	OM PARKASH
796	JC 592954L	SUB	PAWAN SINGH
797	JC 592854A	SUB	PREM CHAND
798	JC 593144P	SUB	RAJ SINGH

799	JC 593320F	SUB	RAM LAL
800	JC 592649Y	SUB	RAVINDER KUMAR
801	JC 592241A	SUB	SANSAR SINGH
802	JC 592646L	SUB	SOM PAL
803	JC 592863F	SUB	SUBASH CHANDER
804	JC 593161P	SUB	SUKHDEV SINGH
805	JC 592887L	SUB	TIRLOK RAJ
806	JC 592814Y	SUB	VED PARKASH
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>			
807	JC 602272W	SUB MAJ	DAM BAHADUR PUN
808	JC 602173N	SUB MAJ	TIK PRASAD GURUNG
809	JC 602262M	SUB MAJ	VIJAY GURUNG
810	JC 602555X	SUB	PREM BAHADUR MACHKOTI MAGAR
811	JC 602569X	SUB	TUL BAHADUR RANA
812	JC 602623A	SUB	TUM PRASAD SHRESHTHA
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>			
813	JC 607293W	SUB MAJ	BIDUR THAPA
814	JC 607383X	SUB MAJ	MADAN KUMAR MAGAR
815	JC 607331F	SUB MAJ	PRADIP KUMAR THAPA
816	JC 607476M	SUB	BIR SUBBA GURUNG
817	JC 607416X	SUB	GOKARN BAHADUR PUN
818	JC 607532A	SUB	HARKA BAHADUR GURUNG
819	JC 607471N	SUB	LAL BAHADUR THAPA
820	JC 607661A	SUB	MAN KAJI GURUNG
821	JC 607470L	SUB	NANDA BAHADUR GURUNG
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>			
822	JC 612559F	SUB	GANGA BAHADUR THAPA
823	JC 612572L	SUB	GIMAN SINGH RANA
824	JC 612511N	SUB	HARI BAHADUR GURUNG
825	JC 612514F	SUB	KHEM BAHADUR PUN
826	JC 612423X	SUB	KUL PRASAD GURUNG
827	JC 612409L	SUB	SUR BAHADUR THAPA, SM
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>			
828	JC 617379H	SUB MAJ	ANIL KUMAR PANDEY
829	JC 143091X	SUB MAJ	HUM NATH GOVERDHAN SHARMA (RT)
830	JC 617465N	SUB MAJ	SAGAR GURUNG
831	JC 617607F	SUB	HOM BAHADUR THAPA
832	JC 617598K	SUB	KUMAR BAHADUR RANA
833	JC 617722A	SUB	MIN BAHADUR GURUNG
834	JC 617550W	SUB	PURNA BAHADUR THAPA
835	JC 617452W	SUB	RAJENDRA PRASAD ARYA
<b><u>8 GORKHA RIFLES</u></b>			
836	JC 623190F	SUB MAJ	ANIL KUMAR THAPA
837	JC 623242M	SUB MAJ	BISHAN BAHADUR THAPA
838	JC 623193P	SUB MAJ	NARAN SINGH RANA

839	JC 623667L	SUB	BAN BAHADUR PUN
840	JC 623620A	SUB	GIRIMAN GURUNG
841	JC 623719W	SUB	KHIM BAHADUR KHATRI
842	JC 623523H	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA
843	JC 623320Y	SUB	LAL BAHADUR GURUNG
844	JC 623543W	SUB	MADHAV NEUPANE
845	JC 623511N	SUB	PREM BAHADUR THAPA
846	JC 623648A	SUB	ROM BAHADUR RANA

**9 GORKHA RIFLES**

847	JC 629363K	SUB MAJ	GANESH BAHADUR CHHETRI
848	JC 629640K	SUB	BAL BAHADUR KHATRI
849	JC 629799P	SUB	TEJ BAHADUR CHHETRI

**11 GORKHA RIFLES**

850	JC 634092F	SUB MAJ	BISHAN SINGH KHATTRI
851	JC 634076K	SUB MAJ	KRIPASHUR RAI
852	JC 634468X	SUB	BHIM KUMAR LIMBU
853	JC 634452M	SUB	KARNA BAHADUR TAMANG
854	JC 634727P	SUB	RABIN KUMAR LIMBU
855	JC 634528F	SUB	RAM KUMAR TAMANG

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

856	JC 640343W	SUB MAJ	AVTAR SINGH
857	JC 221401M	SUB MAJ	B A DEVAIAH
858	JC 661451N	SUB MAJ	GAJENDRA KUMAR
859	JC 640141P	SUB MAJ	MADAN MOHAN DEB NATH
860	JC 213814F	SUB MAJ	MEGH SINGH
861	JC 662026P	SUB MAJ	NAGARAJ R
862	JC 829104L	SUB MAJ	OM PRAKASH
863	JC 640948X	SUB MAJ	P RAJU
864	JC 661365H	SUB MAJ	RAMA KRISHNAN ATHOLLY
865	JC 640358Y	SUB MAJ	RAMESH CHANDER
866	JC 661364A	SUB MAJ	SACHIN KUMAR MANDAL
867	JC 641006N	SUB MAJ	SAMPURAN CHAND BHARDWAJ
868	JC 661228K	SUB MAJ	SANDIP KUMAR CHAKRABORTY
869	JC 661521F	SUB MAJ	SIS RAM
870	JC 661367N	SUB MAJ	SUGRIV SINGH GURJAR
871	JC 641165L	SUB MAJ	SUPRASANNAN R
872	JC 663232L	SUB	ASHOKAN K
873	JC 641569N	SUB	BALA KRISHNAN K
874	JC 643164F	SUB	BHAGWAN SINGH
875	JC 642446N	SUB	CHANDER PAL
876	JC 642726F	SUB	DINESH CHANDRA GHOSH
877	JC 642714M	SUB	MOHAMAD MUSA
878	JC 663068N	SUB	MOHAN SINGH RATHORE
879	JC 663111K	SUB	OM PRAKASH
880	JC 643166M	SUB	PROMOD NARAIN SINGH
881	JC 642647M	SUB	RAJENDER PRASAD
882	JC 663039Y	SUB	RASHPAL CHAND VIRDHI

883	JC 663589F	SUB	RATNESWAR BARUAH
884	JC 642344X	SUB	RUDRAPAL SINGH
885	JC 662924N	SUB	SHAMSHER SINGH
886	JC 640854A	SUB	SHRI DHAR TRIPATHI
887	JC 641663X	SUB	SHYAM NARAYAN JHA
888	JC 663110F	SUB	SOBARAN SINGH
889	JC 663244A	SUB	SULTAN SINGH YADAV
890	JC 663222F	SUB	SURAT BAHADUR THAPA
891	JC 663295N	SUB	TANU BABU SINGHA
892	JC 643142H	SUB	VIJAY KUMAR
893	JC 663103L	SUB	VINOD KUMAR DAUDIYAL

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

894	JC 680286H	RIS MAJ	SHISH RAM
895	JC 680326Y	RIS MAJ	YADAV UDAYA BHAN S B
896	JC 680842N	RIS	DHARAM SINGH
897	JC 680971N	RIS	HIRA LAL
898	JC 680829K	RIS	MUKTA RAM KAIPENG
899	JC 680858Y	RIS	PRONAB KUMAR SEN
900	JC 680940N	RIS	SURENDRA NAYAK

**ARMY MEDICAL CORPS**

901	JC 692885P	SUB MAJ	ALAKH DEO OJHA
902	JC 692769M	SUB MAJ	AZAD SINGH
903	JC 692944W	SUB MAJ	BHUPINDER NATH RAI
904	JC 692230H	SUB MAJ	DHARAMVIR SINGH RATHEE
905	JC 693059F	SUB MAJ	GHANA KANTA PACHANI
906	JC 692872X	SUB MAJ	HARIDWAR PRASHAD MISHRA
907	JC 692762H	SUB MAJ	KASHMIR SINGH
908	JC 692879F	SUB MAJ	MANJEET SINGH
909	JC 692757X	SUB MAJ	MATADIN
910	JC 692864Y	SUB MAJ	NAZIMUDEEN S
911	JC 693060W	SUB MAJ	RAGHUBIR SINGH
912	JC 692766Y	SUB MAJ	RAM PRIKHA YADAV
913	JC 692955H	SUB MAJ	RATNESHWAR SINGH
914	JC 692773P	SUB MAJ	SHYAM BIHARI
915	JC 694075L	SUB	AMBIKA NANDAN RAWAT
916	JC 695100L	SUB	BAHADUR SINGH
917	JC 692254M	SUB	BALAN E
918	JC 695204M	SUB	BHIM BAHADUR THAPA
919	JC 694216P	SUB	BIJAY KUMAR SINGH
920	JC 694752X	SUB	CHANDRA SHEKHAR BHATT
921	JC 695155P	SUB	HARENDRA PRASAD SINGH
922	JC 695084Y	SUB	HARI NARAYAN SINGH
923	JC 695014A	SUB	JAI BHAGWAN SINGH
924	JC 692506N	SUB	JAI PRAKASH
925	JC 691446X	SUB	LAKHAN SINGH
926	JC 695343W	SUB	MADAN PAL SHARMA
927	JC 692508Y	SUB	MANOHARAN NAIR T R
928	JC 691993M	SUB	OMPAL SINGH DANWAR

929	JC 694702N	SUB	RAM NARESH SINGH, SM
930	JC 691805A	SUB	SAJEEV K S
931	JC 694076N	SUB	SHIRDI DAS P
932	JC 694036M	SUB	SUBH NARAYAN GUPTA
933	JC 694994A	SUB	VIPIN KUMAR DIXIT

**ARMY ORDNANCE CORPS**

934	JC 723020M	SUB MAJ	AMAR SINGH	
935	JC 723418F	SUB MAJ	BALDEV SINGH	
936	JC 725370X	SUB MAJ	BIR SINGH YADAV	
937	JC 723294X	SUB MAJ	GOPALA KRISHNA PILLAI V N	
938	JC 723260K	SUB MAJ	HARDAYAL SINGH BHANDARI	
939	JC 725472N	SUB MAJ	HAR SAHAY SINGH	
940	JC 723476L	SUB MAJ	JAMUNA SINGH	
941	JC 723478W	SUB MAJ	JAYARAJAN K K	
942	JC 723190W	SUB MAJ	KAMALESH KUMAR CHAHAL	
943	JC 722784Y	SUB MAJ	KULDIP SINGH	
944	JC 723088N	SUB MAJ	REJIT KUMAR B	
945	JC 722983M	SUB MAJ	SATISH CHANDRA	
946	JC 725365M	SUB MAJ	SHER SINGH	
947	JC 110765K	SUB MAJ	SHIV KUMAR PANDEY	(RT)
948	JC 723398Y	SUB MAJ	SIVALINGAM S	
949	JC 723407P	SUB MAJ	SURESH SINGH	
950	JC 722856X	SUB MAJ	VIJAYA KUMAR K	
951	JC 723316L	SUB MAJ	VISHNU SINGH	
952	JC 725283K	SUB	DEEN DAYAL	
953	JC 724452N	SUB	DHANANJAY MATHO	
954	JC 724447H	SUB	KARAN SINGH	
955	JC 724250M	SUB	PRASANTA KUMAR MANDAL	
956	JC 725296F	SUB	PRATAP SINGH	
957	JC 724449N	SUB	RAJESH KUMAR YADAV	
958	JC 726729A	SUB	RAM NARESH SHAKYA	
959	JC 724311Y	SUB	SATYA NARAYAN	
960	JC 724312F	SUB	SHAMBHU PRASAD ROY	
961	JC 724620F	SUB	SITARAM CHAUHAN	
962	JC 724349H	SUB	SUKANTA CHOUDHURY	
963	JC 726437X	SUB	SURENDRAN A K	

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

964	JC 749247X	SUB MAJ	AMARJIT SINGH
965	JC 749859P	SUB MAJ	ARUN KUMAR
966	JC 747895F	SUB MAJ	ASARAM YADAV
967	JC 748998M	SUB MAJ	CHUNI LAL SHARMA
968	JC 750826W	SUB MAJ	DAYA RAM
969	JC 749899W	SUB MAJ	DHARMVIR SINGH
970	JC 749967Y	SUB MAJ	D PALANI
971	JC 753735X	SUB MAJ	GANGA PRASAD TRIVEDI
972	JC 750832K	SUB MAJ	G MANGALPURI BHIKHAPURI
973	JC 748132X	SUB MAJ	HARBINDER SINGH MINHAS
974	JC 753729K	SUB MAJ	INDARPAL SINGH



975	JC 748883Y	SUB MAJ	JASVINDER PAUL SINGH
976	JC 750188H	SUB MAJ	K SHANMUGAM
977	JC 750415X	SUB MAJ	LALA RAM
978	JC 749844M	SUB MAJ	MOTI LAL SHARMA
979	JC 750419N	SUB MAJ	RADHEY SYAM VISHWAKREMA
980	JC 752815H	SUB MAJ	RAGHUVeer PRASAD SHARMA
981	JC 750077L	SUB MAJ	RAMASHISAH MISHRA
982	JC 752523A	SUB MAJ	RAM BINAY PRASAD
983	JC 752696X	SUB MAJ	RAM CHANDRA SINGH
984	JC 752811M	SUB MAJ	RAM DINESH THAKUR
985	JC 749831P	SUB MAJ	RAMESH CHANDER
986	JC 749890F	SUB MAJ	RANJIT SINGH
987	JC 753511X	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR
988	JC 749809K	SUB MAJ	SATISH CHANDRA SRIVASTAVA
989	JC 749509H	SUB MAJ	SATYAVIR SINGH
990	JC 750553Y	SUB MAJ	SEN PARTAP SINGH
991	JC 749855Y	SUB MAJ	SHAIENDRA NATH THRIPATHI
992	JC 749955K	SUB MAJ	SHANKAR DASS
993	JC 751954A	SUB MAJ	SHASHI PAUL RANAUT
994	JC 748527Y	SUB MAJ	SHIV PRASAD SINGH YADAV
995	JC 749829X	SUB MAJ	SUKHBIR SHARMA
996	JC 748877L	SUB MAJ	SURAJ BHAN
997	JC 748131P	SUB MAJ	TARSEM SINGH
998	JC 749843K	SUB MAJ	TULA RAM
999	JC 749795P	SUB MAJ	UPEN CHANDRA BORA
1000	JC 750078N	SUB MAJ	VARGHESE KM
1001	JC 753722A	SUB MAJ	VIJAY KUMAR SINGH
1002	JC 750263F	SUB MAJ	VINOD KUMAR MISHRA
1003	JC 760386F	SUB	ANIL KUMAR
1004	JC 759446Y	SUB	BALBIR SINGH
1005	JC 760752A	SUB	BANSI RAM MEENA
1006	JC 756123L	SUB	BHUWAN CHANDRA PATHAK
1007	JC 758049N	SUB	BIMAL THAPA
1008	JC 759439H	SUB	BRAHMDEO PODDAR
1009	JC 753972F	SUB	CHAMA NAND PANDEY
1010	JC 753572P	SUB	DURYODHAN BEHERA
1011	JC 753668X	SUB	GOVIND SINGH
1012	JC 757352H	SUB	HARISH CHANDRA PANDEY
1013	JC 753047Y	SUB	JOSE KUMAR K
1014	JC 757095W	SUB	JUGAL KISHOR SONI
1015	JC 760100F	SUB	KADAM MANGESH KESHAV
1016	JC 756126Y	SUB	KARAMBIR SINGH
1017	JC 751641F	SUB	KOPTEKANTI AMEER BASHA
1018	JC 754261N	SUB	KRIPA RAM PANDEY
1019	JC 753292F	SUB	MADAN LAL KUMAR
1020	JC 755537L	SUB	MAYA RAM
1021	JC 756306F	SUB	M KRISHNAN
1022	JC 758091M	SUB	MOTI LAL THAPA
1023	JC 760652P	SUB	NANDLAL TIWARY
1024	JC 752840F	SUB	NASIB SINGH

1025	JC 760645Y	SUB	PRAMOD KUMAR
1026	JC 758482X	SUB	PREM CHAND SINGH KUSHWAHA
1027	JC 751788X	SUB	RABINDRA KUMAR BARIK
1028	JC 759440X	SUB	RAJENDRA SINGH
1029	JC 752002M	SUB	RAJ PAL SHARMA
1030	JC 760168H	SUB	RAM BABOO
1031	JC 759449M	SUB	RAMESH CHANDRA
1032	JC 760096K	SUB	RAM KISHAN YADAV
1033	JC 753976X	SUB	RANBIR SINGH
1034	JC 753955F	SUB	RANJAN CHANDRA MANDAL
1035	JC 760405F	SUB	SAHIB SINGH
1036	JC 759764H	SUB	SALAGARKAR UDAY KUMAR YAMANAPPA
1037	JC 756072H	SUB	SAMMU SINGH RATHORE
1038	JC 757777F	SUB	SANTO DAS
1039	JC 753025A	SUB	SATNARAIN SHARMA
1040	JC 760294P	SUB	SHIVJEE RAM
1041	JC 760296A	SUB	SHIV NARAYAN SHARMA
1042	JC 752296L	SUB	SHRI RAM YADAV
1043	JC 752110W	SUB	SOMASEKHAREN PILLAI PD
1044	JC 758501X	SUB	SURENDAR KUMAR

**ARMY EDUCATION CORPS**

1045	JC 802252M	SUB MAJ	AMAR BAHADUR
1046	JC 802244N	SUB MAJ	ANAND BALLABH JOSHI
1047	JC 802034N	SUB MAJ	DEV RAJ SHARMA
1048	JC 802030X	SUB MAJ	GANGA SINGH
1049	JC 802159L	SUB MAJ	JAGVIR SINGH
1050	JC 223757Y	SUB MAJ	LAXMAN SINGH
1051	JC 223009L	SUB MAJ	SHIV BAHADUR SINGH
1052	JC 802245W	SUB MAJ	TANGI DAS SHILPAKAR
1053	JC 802246Y	SUB MAJ	TRILOK NATH PANDEY
1054	JC 219023A	SUB MAJ	VED SINGH LOHACH
1055	JC 802544P	SUB	GAJRAJ SINGH
1056	JC 802502H	SUB	NEPAL SINGH
1057	JC 803362N	SUB	RAKESH BHANDARI

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

1058	JC 797224N	RIS	ARJUN LAXMAN AGRE
1059	JC 797379H	RIS	CHANDAN SINGH RAWAT
1060	JC 797356F	RIS	DASHRATH PRASAD SHUKAL
1061	JC 797364A	RIS	MAHAVIR PRASAD
1062	JC 797215M	RIS	RAGHU NATH SINGH

**THE INTELLIGENCE CORPS**

1063	JC 209286L	SUB MAJ	RANJIT SINGH BILLAWARIA
1064	JC 210038F	SUB MAJ	VED PARKASH
1065	JC 223467F	SUB MAJ	VIDYA SAGAR THAKUR
1066	JC 810361N	SUB	ANIL KUMAR VERMA

1067	JC 810609M	SUB	GANGAPAL SINGH
1068	JC 810442N	SUB	HUSAN SINGH
1069	JC 810439N	SUB	MANOHAR SINGH
1070	JC 810592K	SUB	PEER SINGH KATOCH
1071	JC 810363Y	SUB	RAM CHANDRA
1072	JC 810392N	SUB	RAM KUMAR
1073	JC 810417P	SUB	SUBH KARAN
1074	JC 810421X	SUB	SUKHDEV SINGH KANG

**CORPS OF MILITARY POLICE**

1075	JC 818391A	SUB MAJ	BODU RAM GUJJAR
1076	JC 818508N	SUB MAJ	RAM KANWAR
1077	JC 818503P	SUB MAJ	RAN BAHADUR SINGH
1078	JC 818513Y	SUB MAJ	SHISHUPAL SINGH
1079	JC 818928N	SUB	GUNADHAR MAHATA

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

1080	JC 826145K	SUB	MITHILESH SINGH
------	------------	-----	-----------------

**THE PIONEER CORPS**

1081	JC 829161M	SUB	PAN SINGH
------	------------	-----	-----------

**ARMY POSTAL SERVICE**

1082	JC 834086X	SUB MAJ	NAND KUMAR
------	------------	---------	------------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

1083	JC 840258X	SUB MAJ	DALIP SINGH
1084	JC 840325X	SUB MAJ	HANUMAN PRASAD LATA
1085	JC 840509W	SUB MAJ	RAM SAJIWAN
1086	JC 840717L	SUB	AZADVIR SINGH
1087	JC 841792F	SUB	AZMAT SHAIKH
1088	JC 841604P	SUB	HARDEV SINGH
1089	JC 840672W	SUB	RAKAM SINGH
1090	JC 841715M	SUB	RAMCHANDRA DUBE

**TERRITORIAL ARMY**

1091	TJ 3280K	SUB MAJ	DEVI SINGH
1092	TJ 4140K	SUB	BALBIR SINGH
1093	TJ 3797P	SUB	BUDHASEN PRASAD PATEL
1094	TJ 4234F	SUB	DAYA SHANKAR RAI
1095	TJ 4418A	SUB	DURGA BAHADUR GURUNG
1096	TJ 4616L	SUB	JAGENDRA SINGH
1097	TJ 4392L	SUB	JAI RAM KURAMWANSHI
1098	TJ 3840L	SUB	KARAMBIR
1099	TJ 4553N	SUB	PATIL DATTATRAY SHRIPATI
1100	TJ 3782M	SUB	RAM LAL
1101	TJ 3934H	SUB	RAXPAL SINGH
1102	TJ 4316K	SUB	SANIL KUMAR
1103	TJ 4559P	SUB	SARAN SINGH
1104	TJ 4417X	SUB	SUNDER LAL YADAV
1105	TJ 3843Y	SUB	VIJAY KUMAR

**EX-POST-FACTO**  
**GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS**  
**WITH EFFECT FROM 15 AUG 2009**  
**(ACTIVE)**

**REGIMENT OF ARTILLERY**

1. JC 264505F EX-SUB SURESH PRASAD SINGH

[No. B/43432/ID-10/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt Gen, Adjutant General

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 11(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज़ को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

**अवैतनिक कप्तान के रूप में**

**7 केवेलरी**

1	जेसी238023पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राजबीर सिंह	01.08.2010
---	--------------	-----------------------------	-------------	------------

**8 केवेलरी**

2	जेसी240998पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	शाम सिंह	01.04.2010
---	--------------	-----------------------------	----------	------------

**2 लार्न्सस**

3	जेसी237889एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सिंह	01.03.2010
---	----------------	----------------------------------	-----------------	------------

**9 होर्स**

4	जेसी240389एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	युद्धवीर सिंह	01.04.2010
---	--------------	-----------------------------	---------------	------------

**62 केवेलरी**

5	जेसी238751पी	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हीरा सिंह	01.05.2010
---	--------------	----------------------------------	-----------	------------

**20 लार्न्सस**

6	जेसी238472के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर सिंह	01.02.2010
---	--------------	----------------------------------	---------------	------------

**63 केवेलरी**

7	जेसी241028वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा सिंह	01.05.2010
8	जेसी240880एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाश चन्द	01.07.2010

**65 आर्मड रेजीमेंट**

9	जेसी241003एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश सिंह बघेल	01.04.2010
10	जेसी240760पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	नरिंदर सिंह	01.06.2010
11	जेसी239849पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राम किशोर	01.04.2010

**69 आर्मड रेजीमेंट**

12	जेसी237786वाइ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश मिश्रा	01.04.2010
----	---------------	----------------------------------	--------------	------------

**72 आर्मड रेजीमेंट**

13	जेसी238738एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.06.2010
----	--------------	----------------------------------	------------	------------

**88 आर्मड रेजीमेंट**

14	जेसी238828एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार महतो	01.08.2010
15	जेसी241190डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राज रोसी	01.04.2010

**89 आर्मड रेजीमेंट**

16	जेसी237689एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देस राज	01.07.2010
----	--------------	----------------------------------	---------	------------

**46 आर्मड रेजीमेंट**

17	जेसी237158के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमृतपौल सिंह	01.02.2010
----	--------------	----------------------------------	--------------	------------

**6 आर्मड रेजीमेंट**

18	जेसी237576वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	जलसेन सिंह	01.06.2010
----	---------------	-----------------------------	------------	------------

आर्मड कोर

19	जेसी239985एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	बचन सिंह	01.06.2010
20	जेसी241172एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	साजन सिंह	01.05.2010

आर्टिलरी रेजीमेंट

21	जेसी255453पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए मुरुगन	01.08.2010
22	जेसी253245एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चन्दन कुमार सामंत	01.03.2010
23	जेसी256549के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र मोहन	01.05.2010
24	जेसी258857एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जी. मार्था	01.04.2010
25	जेसी256058एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसबीर सिंह	01.05.2010
26	जेसी257332एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसबीर सिंह	01.05.2010
27	जेसी255950वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर पाल कत्तना	01.06.2010
28	जेसी256960पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लख्मी सिंह	01.07.2010
29	जेसी256059डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महाबीर प्रसाद	01.06.2010
30	जेसी255578एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह भाकुनी	01.04.2010
31	जेसी257208एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र कुमार नाई	01.06.2010
32	जेसी256562एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनबीर सिंह	01.02.2010
33	जेसी255625वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर सिंह	01.04.2010
34	जेसी255972एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम नाथ	01.08.2010
35	जेसी259243एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम सिंह सोनी	01.02.2010
36	जेसी255390एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्र शर्मा	01.08.2010

37	जेसी259443एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सर्वाजीत सिंह यादव	01.06.2010
38	जेसी118178एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतानंद दीक्षित	01.07.2010
39	जेसी259441एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शिव नाथ प्रसाद यादव	01.07.2010
40	जेसी259143एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुग्रीव प्रसाद	01.02.2010
41	जेसी257921एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उदय नारायण दीक्षित	01.02.2010
42	जेसी257437डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.04.2010
43	जेसी266632पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अखिलेश कुमार अवस्थी	01.07.2010
44	जेसी265122एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.07.2010
45	जेसी265189ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अरविन्दाक्षन पी के	01.04.2010
46	जेसी257767पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू लाल	01.07.2010
47	जेसी263141एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बचन बाबू	01.02.2010
48	जेसी264546एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.02.2010
49	जेसी262305एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह, एसएम	01.07.2010
50	जेसी268580एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बोध राज, एसएम	01.07.2010
51	जेसी268262वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चिन्थाला चंद्रा शेखर	01.07.2010
52	जेसी269468एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश दास	01.08.2010
53	जेसी268108ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदीप सिंह	01.05.2010
54	जेसी266436पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरबंस लाल	01.07.2010
55	जेसी267223एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह यादवा	01.08.2010

56	जेसी267438एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हौसेला प्रसाद सिंह	01.05.2010
57	जेसी266470पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करुण कुमार सिंह	01.07.2010
58	जेसी266095पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुंदन सिंह	01.02.2010
59	जेसी268393के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनिकांत झा	01.07.2010
60	जेसी263947एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह जे	01.02.2010
61	जेसी267718ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एन पांडु	01.02.2010
62	जेसी268441वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नवल सिंह	01.02.2010
63	जेसी266054एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फुलन चंद्रा राय	01.02.2010
64	जेसी267996एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्यार सिंह	01.07.2010
65	जेसी263666एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	01.04.2010
66	जेसी160789के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रघु नंदन सिंह	01.02.2010
67	जेसी266018ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.02.2010
68	जेसी266902वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम आसरे	01.02.2010
69	जेसी266474एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम अवतार	01.02.2010
70	जेसी266878एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम किशन	01.06.2010
71	जेसी261666वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम फल	01.02.2010
72	जेसी263884डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राना देवानंद सिंह	01.04.2010
73	जेसी266729ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोशन लाल	01.02.2010
74	जेसी260609एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस नवनीथा बालाकृष्णन	01.02.2010
75	जेसी150004एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साहा डियु तिवारी	01.03.2010



76	जेसी264517डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतबीर सिंह	01.06.2010
77	जेसी266127एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूबे सिंह	01.02.2010
78	जेसी266146एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुल्तान सिंह	01.02.2010
79	जेसी264505एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश प्रसाद सिंह	01.12.2009
80	जेसी269460डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूर्या नाथ सिंह	01.07.2010
81	जेसी267161वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलक राज	01.06.2010
82	जेसी266755एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उधम सिंह	01.06.2010
83	जेसी265881एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उपेंद्र प्रसाद सिंह	01.07.2010
84	जेसी265489एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीर सिंह	01.02.2010
85	जेसी269330एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विरेन्द्र सिंह	01.07.2010

#### सेना वायू सुरक्षा

86	जेसी296673एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बस्ती राम	01.02.2010
87	जेसी296615के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जयवीर सिंह	01.07.2010
88	जेसी297051वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.02.2010
89	जेसी297068एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद खुशीद आलम	01.04.2010
90	जेसी256137एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रथिबान एन	01.06.2010
91	जेसी296197ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज पाल गन्नोरिया	01.06.2010
92	जेसी296731एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम स्नेही	01.07.2010
93	जेसी296855एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबूलाल यादव	01.06.2010
94	जेसी297532एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाल किशुन शर्मा	01.05.2010

95	जेसी298936ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरीश चंद्रा बराकोटी	01.08.2010
96	जेसी298387एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश स्वरूप	01.07.2010
97	जेसी297228एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.02.2010
98	जेसी297143एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखन लाल	01.07.2010
99	जेसी298696एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य प्रकाश	01.04.2010
100	जेसी298439डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेक दस्तागिरी साहेब	01.07.2010
101	जेसी298742एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यशवंत सिंह	01.07.2010
102	जेसी298145एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जिले सिंह जसपाल	01.04.2010

**मद्रास इंजीनियर समूह**

103	जेसी306388एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बसवन्तराए शिवापुत्रप्पा मुदनूर	01.06.2010
104	जेसी305728डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सी अनंता राजन	01.07.2010
105	जेसी305331के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देवैया एम एस	01.07.2010
106	जेसी219357पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जी. साउदारा राज	01.06.2010
107	जेसी224777वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुट्टप्पा एम के	01.04.2010
108	जेसी306030एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	माधवन वीएम	01.05.2010
109	जेसी226135एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मैथ्यू टिजे	01.02.2010
110	जेसी305588पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पी संधानाथन	01.07.2010
111	जेसी305338एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रसन्ना कुमार वी	01.04.2010
112	जेसी305580एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रन ए	01.06.2010
113	जेसी305578एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामकृष्ण ए पी	01.04.2010

114	जेसी305601एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेसन पी	01.04.2010
115	जेसी305699एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजयाकुमारन नायर एस	01.08.2010
116	जेसी307225के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अन्बू	01.05.2010
117	जेसी306053एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धाना संजयन बी	01.04.2010
118	जेसी307340के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जी. महालिंगम	01.04.2010
119	जेसी307100एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जी. वेंकट रामी रेडी	01.03.2010
120	जेसी305293वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गवेली छेनहइया	01.02.2010
121	जेसी307661एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के पांडि	01.05.2010
122	जेसी307298डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के राजेन्द्रन	01.05.2010
123	जेसी307605एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करुनागरन के	01.05.2010
124	जेसी307455एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम लौरुधू	01.02.2010
125	जेसी307573एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुरलीधरन पिल्लई वी	01.04.2010
126	जेसी307778ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पीताम्बरन पीएस	01.08.2010
127	जेसी307438एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर पलानी	01.03.2010
128	जेसी307598एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रन वी	01.04.2010
129	जेसी307422एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चामु राव पाटिल	01.02.2010
130	जेसी308218ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सदाशिव जोशी	01.05.2010
131	जेसी306803एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजयाकुमार के जी.	01.02.2010
132	जेसी307638एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वाइ अब्दुल वाहब	01.02.2010

बंगाल इंजीनियर समूह

133	जेसी325273एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अतुल चेतिया	01.04.2010
134	जेसी326718ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भूपेंद्र सिंह	01.06.2010
135	जेसी326166एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बृज भूषण चंद्रा	01.05.2010
136	जेसी327502एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गंगा सहाय	01.02.2010
137	जेसी327948ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोधा राम	01.04.2010
138	जेसी325723वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी चन्द	01.03.2010
139	जेसी327020डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी दत्त जोशी	01.07.2010
140	जेसी326949डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलबीर सिंह	01.07.2010
141	जेसी326989एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेश चंद्र	01.08.2010
142	जेसी325343ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पी सुब्रमनिअन	01.05.2010
143	जेसी326899डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज पाल सिंह	01.05.2010
144	जेसी325261एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रेनू पाडा दास	01.03.2010
145	जेसी328925एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भागिन चंद्रा नाथ	01.02.2010
146	जेसी328384पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवेन्द्र सिंह	01.03.2010
147	जेसी328668वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीवान सिंह	01.05.2010
148	जेसी328562एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश सिंह	01.03.2010
149	जेसी329012डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरनाम सिंह	01.08.2010
150	जेसी328908एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरे कुर्णा मोहंती	01.02.2010
151	जेसी329207एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय राम सिंह	01.05.2010

152	जेसी328958डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह	01.03.2010
153	जेसी328961डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माधो सिंह	01.04.2010
154	जेसी328395एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निर्मल सिंह	01.03.2010
155	जेसी329238एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शम्भू नाथ कुंवर	01.06.2010
156	जेसी328947के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम सिंह	01.03.2010
157	जेसी329136एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुदर्शन सिंह	01.04.2010
158	जेसी329036ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुशान्ता कुमार पौल	01.04.2010
159	जेसी328963एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा सिंह	01.04.2010
160	जेसी328695एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोचन सिंह	01.08.2010
161	जेसी328484ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीजेन्द्र कुमार वर्मा	01.03.2010
<b><u>बोम्बे इंजीनियर समूह</u></b>				
162	जेसी347889ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर सिंह	01.08.2010
163	जेसी347332एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दस्तगीर मियां	01.08.2010
164	जेसी347721एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गेयुर अहमद खान	01.03.2010
165	जेसी347432वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हंस नाथ सिंह	01.03.2010
166	जेसी347874एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरिओम सिंह	01.06.2010
167	जेसी347333डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह संधू	01.06.2010
168	जेसी347244एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार	01.04.2010
169	जेसी348778पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आशीश कुमार शर्मा	01.02.2010
170	जेसी348166एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चरण सिंह	01.02.2010

171	जेसी349068के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरभजन सिंह	01.07.2010
172	जेसी349067एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरचरन सिंह	01.05.2010
173	जेसी349535डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईशान खान	01.08.2010
174	जेसी348919वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कोकिथार सूर्यकांत लक्ष्मन	01.02.2010
175	जेसी349080एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद मुरसेलीन	01.05.2010
176	जेसी349533एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद मुनीर	01.07.2010
177	जेसी347945एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज सिंह ढल्लों	01.03.2010
178	जेसी348591एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुधाकरन ए	01.07.2010
179	जेसी349030ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुख बीर सिंह	01.02.2010

#### सिग्नल्स कोर

180	जेसी370602के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अदुरती आर के पी सत्यनारायना	01.03.2010
181	जेसी370599पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन बेहेरा	01.02.2010
182	जेसी369941एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशवनी कुमार श्रीवास्तव	01.02.2010
183	जेसी367256एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ब्रजलाल प्रसाद	01.08.2010
184	जेसी368116एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छोटा प्रसाद	01.05.2010
185	जेसी370470एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धर्म पाल	01.02.2010
186	जेसी368512के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमेल सिंह	01.04.2010
187	जेसी368434एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जयप्रकश के एम	01.06.2010
188	जेसी370651एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मिसाल सहाजी गोविंद	01.04.2010

189	जेसी370582एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मिथलेश्वर चौधरी	01.02.2010
190	जेसी370593एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नबीन कुमार अम्बस्था	01.02.2010
191	जेसी370687एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघबीर सिंह	01.06.2010
192	जेसी130070एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम नाथ मिश्रा	01.04.2010
193	जेसी124891एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमा कांत द्विवेदी	01.03.2010
194	जेसी370615एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्याम सुंदर	01.05.2010
195	जेसी367097एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.05.2010
196	जेसी372899पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए शानमुगा सुंदरम	01.02.2010
197	जेसी374178के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिधि सिंह राना	01.04.2010
198	जेसी374888एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिजेन्द्र सिंह	01.03.2010
199	जेसी374963ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दयाराम प्रसाद	01.05.2010
200	जेसी371698के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हवा सिंह नेहरा	01.07.2010
201	जेसी374570के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगन नाथ रौय	01.03.2010
202	जेसी374198एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के बाबू	01.06.2010
203	जेसी372972एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काशी नाथ सिंह	01.03.2010
204	जेसी374527एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काशी नाथ सिंह	01.02.2010
205	जेसी371648वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा मिश्रा	01.03.2010
206	जेसी375106एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान मोहन सिंह	01.02.2010
207	जेसी374585एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहीउद्दीन अजमेरी	01.04.2010
208	जेसी373521पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुकुल चंद्रा शुक्ला बैद्य	01.04.2010

209	जेसी374761वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेश कुमार	01.06.2010
210	जेसी374334एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परिमल डे	01.04.2010
211	जेसी373164एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रफुल्ल कुमार दास	01.03.2010
212	जेसी374281पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पुसपेन्द्रर कुमार	01.03.2010
213	जेसी373499पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा कुमार राना	01.04.2010
214	जेसी372981के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेश कुमार सिंह	01.03.2010
215	जेसी374222एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर सिंह	01.03.2010
216	जेसी372552एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम गोपाल द्विवेदी	01.07.2010
217	जेसी371866एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नरेश कुमार	01.02.2010
218	जेसी372087एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्रन आर	01.04.2010
219	जेसी372735वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शलेश कुमार	01.05.2010
220	जेसी368442डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम नाथ तिवारी	01.04.2010
221	जेसी371649एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुब्बुराज ए	01.08.2010
222	जेसी372926एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुलेन्द्र सिंह बरवाल	01.04.2010
223	जेसी375165वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरज दीप सिंह	01.04.2010

गार्डस

224	जेसी402211पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.03.2010
225	जेसी402503एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनिरुध दुबे	01.02.2010
226	जेसी402035एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ध्यान सिंह	01.07.2010
227	जेसी402460एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम औतार सिंह चौहान	01.07.2010



228	जेसी402594एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शेश नाथ सिंह	01.02.2010
229	जेसी402658एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विनोद कुमार	01.06.2010
230	जेसी403341कै	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिपुल कुमार गोगोई	01.04.2010
231	जेसी403411एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दान सिंह	01.03.2010
232	जेसी403302एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी कष्णन	01.05.2010
233	जेसी403528डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह मेहरा	01.06.2010
234	जेसी403395एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम पाल	01.07.2010
235	जेसी402938ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामाश्रया यादव	01.04.2010

### पैराशूट रेजीमेन्ट

236	जेसी412210ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलीप सिंह	01.06.2010
237	जेसी412127एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जग राम	01.08.2010
238	जेसी412841एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलकार सिंह	01.08.2010
239	जेसी412513पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगमोहन सिंह, एससी	01.08.2010
240	जेसी412743एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय राम सिंह	01.07.2010
241	जेसी412733वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जशपाल सिंह	01.03.2010
242	जेसी412947पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पेमा राम	01.04.2010
243	जेसी412678एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रदीपन पीसी	01.06.2010
244	जेसी412979एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम किशन लक्ष्मन शिंदे	01.06.2010
245	जेसी412805एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	01.02.2010
246	जेसी412765एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश राम	01.03.2010

भैकनाइजड पैदल सेना रेजीमेन्ट

247	जेसी216441के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहानन पिल्लई	01.04.2010
248	जेसी418583के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पुशकर सिंह कंधारी	01.07.2010
249	जेसी418539ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार	01.06.2010
250	जेसी418653एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सिरताज सिंह	01.08.2010
251	जेसी419186एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धीर सिंह	01.02.2010
252	जेसी419296एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय कष्णन	01.07.2010
253	जेसी419719पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.08.2010
254	जेसी419813वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खजान सिंह	01.04.2010
255	जेसी419119एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महीपाल सिंह	01.06.2010
256	जेसी418553एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सरूप	01.02.2010
257	जेसी419540एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2010

पंजाब रेजीमेन्ट

258	जेसी428689के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जायशी राम	01.03.2010
259	जेसी428555एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसविन्दर सिंह	01.06.2010
260	जेसी428690वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लखविन्दर सिंह	01.08.2010
261	जेसी428769एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र कुमार	01.05.2010
262	जेसी113694वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वासु देव शर्मा	01.02.2010
263	जेसी429386एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाल कष्णन	01.08.2010
264	जेसी429954एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.08.2010

265	जेसी429541एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिशन दास	01.08.2010
266	जेसी429408पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलबीर सिंह	01.05.2010
267	जेसी429911एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुर्गा दास	01.04.2010
268	जेसी428837के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुलाब सिंह	01.05.2010
269	जेसी429669एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमेज सिंह	01.04.2010
270	जेसी429481एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरभजन सिंह	01.06.2010
271	जेसी429743वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.08.2010
272	जेसी429401एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केहर सिंह	01.05.2010
273	जेसी430050एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लोक राज	01.04.2010
274	जेसी429419एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन गोपाल	01.08.2010
275	जेसी429627डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राय सिंह	01.05.2010
276	जेसी429587ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर कुमार	01.08.2010
277	जेसी429612एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजू राम	01.04.2010
278	जेसी429728के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन चन्द	01.04.2010
279	जेसी429445एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतीश कुमार राना	01.04.2010
280	जेसी429362एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाम सिंह	01.04.2010
281	जेसी429507एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सहोत्रा	01.02.2010
282	जेसी429392पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.04.2010

**मद्रास रेजीमेन्ट**

283	जेसी438183वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए वासुदेवन	01.03.2010
-----	---------------	---------------------------------	------------	------------

284	जेसी438483ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम वासुदेवन	01.02.2010
285	जेसी438456डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	थामस बेनादिक्त	01.04.2010
286	जेसी112814ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वल्लाभान के वी	01.05.2010
287	जेसी438766एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बसवराज वाली	01.06.2010
288	जेसी439240एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जी. रमन	01.06.2010
289	जेसी438428के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आइ अरुल सामी	01.02.2010
290	जेसी438693ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कटारी सत्य राव	01.05.2010
291	जेसी439516एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम सुन्दरा राज	01.07.2010
292	जेसी439351वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम येशुपथम	01.03.2010
293	जेसी438989वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मायिनकुट्टी के	01.08.2010
294	जेसी438313डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नलिनाकशन एम	01.05.2010
295	जेसी439078पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एनएस विवेकानन्द	01.04.2010
296	जेसी439070एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रभाकरण डब्ल्यू	01.08.2010
297	जेसी439253वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजन के.डी.	01.08.2010
298	जेसी438826एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजन केके, एसएम	01.07.2010
299	जेसी438933एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस पाथिएनाथन	01.02.2010
300	जेसी438512के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस राधाकृष्ण	01.05.2010
301	जेसी438553एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शशि कुमार के	01.08.2010
302	जेसी438931एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ससिधरन नायर जी.	01.08.2010
303	जेसी439075एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उन्नीर्कशन्न के	01.07.2010

ग्रेनेडियर्स

304	जेसी114242एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल रहमान ठाकुर	01.06.2010
305	जेसी448884एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अख्तर अली	01.07.2010
306	जेसी216747एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कासम अली कायम खानी	01.03.2010
307	जेसी448504वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मंगेश सिंह	01.06.2010
308	जेसी449906एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू लाल	01.05.2010
309	जेसी449542एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृज लाल मीना	01.04.2010
310	जेसी449497ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फतेह चन्द मीना	01.04.2010
311	जेसी449982पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह भारद्वाज	01.04.2010
312	जेसी449845डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह	01.04.2010
313	जेसी449745एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कुंवर मीना	01.05.2010
314	जेसी449560के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.04.2010
315	जेसी449842एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामनाथ सिंह	01.05.2010
316	जेसी449834के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सब्बीर अली	01.04.2010
317	जेसी449670वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संकथा प्रसाद सिंह	01.07.2010

मराठा लघु सेना

318	जेसी458150पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन मलप्पा थम्बुलुन्दे	01.02.2010
319	जेसी212545एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाबू डागु जाधव	01.05.2010
320	जेसी222660एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालासाहेब बाबू कटाकर	01.08.2010
321	जेसी458510ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भबकर प्रकाश गणपति	01.06.2010

322	जेसी216492एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बोरकर सुरेश एकनाथ	01.03.2010
323	जेसी222658के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बुद्धप्पा निंगप्पा बेनी	01.06.2010
324	जेसी458261एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोकाशी सरदारसाहिब अल्लीसाहिब	01.06.2010
325	जेसी458182एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पाटिल भारामाना लक्ष्मन	01.08.2010
326	जेसी201832एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सूर्यवंशी विलास सोपानराव	01.04.2010
327	जेसी458019एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वरल विठल आनंदा	01.05.2010
328	जेसी458958ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमब्रे युवराज तानाजी	01.05.2010
329	जेसी458913ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन सिदू अम्बेवादकर	01.06.2010
330	जेसी458093वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बडके भीमा दशरथ	01.08.2010
331	जेसी458429एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बीलासाब	01.05.2010
332	जेसी459077एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काकडे दयान्देओ मुरलीधर	01.08.2010
333	जेसी458779ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमीनासे गोवर्धन विठल	01.03.2010
334	जेसी459425के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण मारुति पाटिल	01.04.2010
335	जेसी459258वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पवार विथल भीका	01.06.2010
336	जेसी458915एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रहलाद	01.08.2010
337	जेसी458487एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम	01.02.2010
338	जेसी458651पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा नागोराव सालुंके	01.02.2010
339	जेसी459390वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रूपनेवार बापू बी	01.04.2010
340	जेसी458887के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उतेकार सूर्यकांत दादा	01.08.2010

राजपूताना राईफल्स

341	जेसी468300एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भूपेंद्र सिंह	01.06.2010
342	जेसी468323पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रहलाद सिंह	01.07.2010
343	जेसी468295एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	साधु सिंह	01.04.2010
344	जेसी469057एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजय कुमार	01.02.2010
345	जेसी469754एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अख्तर खान, एसएम.	01.04.2010
346	जेसी469056एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.04.2010
347	जेसी469460ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम सिंह	01.04.2010
348	जेसी469493एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	डूंगर मल	01.06.2010
349	जेसी469498के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोविंद सिंह	01.04.2010
350	जेसी469838एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरपाल सिंह	01.05.2010
351	जेसी469844पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जबार सिंह	01.07.2010
352	जेसी469678एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन कुमार	01.04.2010
353	जेसी469142डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लून सिंह	01.05.2010
354	जेसी469779ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोती राम	01.04.2010
355	जेसी469476एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम सिंह	01.04.2010
356	जेसी469518एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम फूल सिंह	01.04.2010
357	जेसी469182एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य पाल	01.08.2010
358	जेसी469748पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन सिंह	01.04.2010
359	जेसी469736एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजेन्द्र कुमार	01.04.2010

राजपूत रेजीमेन्ट

360	जेसी478608पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अजीत सिंह	01.02.2010
361	जेसी478668के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भरत सिंह	01.02.2010
362	जेसी478377के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.07.2010
363	जेसी479209एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अंग्रेज सिंह	01.05.2010
364	जेसी479437ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	घान श्याम सिंह	01.08.2010
365	जेसी479004एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद गूजर	01.04.2010
366	जेसी479034ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयपान सिंह	01.03.2010
367	जेसी479166एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कैलाश चन्द	01.02.2010
368	जेसी478920एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कंवर सिंह	01.02.2010
369	जेसी479514एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन सिंह	01.02.2010
370	जेसी479286एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महाबल सिंह	01.04.2010
371	जेसी479480एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुजफर खान	01.04.2010
372	जेसी479146ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओमकार सिंह	01.02.2010
373	जेसी479530एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजबीर	01.06.2010
374	जेसी479397के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा कुमार शर्मा	01.07.2010
375	जेसी479489डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम मेहर	01.02.2010
376	जेसी479313एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निहोर सिंह	01.04.2010
377	जेसी478881के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शीश राम गुर्जर	01.02.2010
378	जेसी479087वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव राम सिंह तनवर	01.06.2010



379	जेसी478775एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	स्वाई सिंह	01.07.2010
<b>जाट रेजीमेन्ट</b>				
380	जेसी111751डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अजब लाल शर्मा	01.07.2010
381	जेसी488442एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलबीर सिंह	01.07.2010
382	जेसी488338वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जयबीर सिंह	01.04.2010
383	जेसी488325एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लाल सिंह	01.04.2010
384	जेसी488268एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.08.2010
385	जेसी489116डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चांदी राम	01.02.2010
386	जेसी489260एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवी राम	01.04.2010
387	जेसी489613ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मबीर	01.04.2010
388	जेसी489847के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह	01.04.2010
389	जेसी489445एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पाले राम	01.07.2010
390	जेसी489338एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा कुमार	01.05.2010
391	जेसी489363के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह सिद्धू	01.04.2010
392	जेसी489347एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर लाल	01.02.2010
393	जेसी489404एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री कर्णन	01.07.2010
394	जेसी489744एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुख लाल	01.05.2010
<b>सिख रेजीमेन्ट</b>				
395	जेसी498583पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीदार सिंह	01.02.2010
396	जेसी498347एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गनेश कुमार	01.04.2010

397	जेसी498259एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रूरह सिंह	01.03.2010
398	जेसी499006पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.05.2010
399	जेसी499066के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भुपिन्द्र सिंह	01.08.2010
400	जेसी499128वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान सिंह	01.06.2010
401	जेसी499415एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशन सिंह	01.07.2010
402	जेसी498854एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	01.06.2010
403	जेसी499072एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सबेग सिंह	01.05.2010
404	जेसी498399के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतपाल सिंह	01.04.2010

### सिख लघु पैदल सेना

405	जेसी508466ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनजीत सिंह	01.04.2010
406	जेसी508464पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	परमजीत सिंह	01.04.2010
407	जेसी508509के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम सिंह	01.06.2010
408	जेसी509002पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.06.2010
409	जेसी509032एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.04.2010
410	जेसी509240एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	01.04.2010
411	जेसी509056डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बावा सिंह	01.03.2010
412	जेसी508672के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह	01.04.2010
413	जेसी508549एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरबंस सिंह	01.03.2010
414	जेसी508179डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह	01.03.2010
415	जेसी508518एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.05.2010

416	जेसी509281एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसविन्दर सिंह	01.08.2010
417	जेसी508409वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कर्मजीत सिंह	01.02.2010
418	जेसी508611एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्खा सिंह	01.03.2010
419	जेसी508447पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखविन्दर सिंह	01.03.2010

डोगरा रेजीमेन्ट

420	जेसी519085वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह	01.03.2010
421	जेसी118400के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बृज मोहन शर्मा	01.04.2010
422	जेसी518590पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दामोदर दत्ता शर्मा	01.06.2010
423	जेसी519213एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दर्शन सिंह	01.06.2010
424	जेसी518657एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	केवल सिंह धीमान	01.08.2010
425	जेसी519165डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	स्मिथर सिंह गौदल	01.08.2010
426	जेसी519154के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुख राम	01.03.2010
427	जेसी519743ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.04.2010
428	जेसी520246एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.04.2010
429	जेसी520138वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.04.2010
430	जेसी520276ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बंसी लाल	01.04.2010
431	जेसी519818एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चेत राम	01.02.2010
432	जेसी519915के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	होशियार सिंह	01.04.2010
433	जेसी520301एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	01.04.2010
434	जेसी520313एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.05.2010

435	जेसी519949एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.03.2010
436	जेसी520156एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश सिंह	01.03.2010
437	जेसी520164ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र कुमार	01.04.2010
438	जेसी520229एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष चन्द	01.04.2010
439	जेसी519778डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरफी लाल	01.04.2010
440	जेसी519785एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार राना	01.02.2010
441	जेसी519897एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलक राज	01.02.2010

#### गढवाल राईफल्स

442	जेसी528820एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीवान सिंह	01.04.2010
443	जेसी528470के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हयात सिंह	01.08.2010
444	जेसी528417वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कलाम सिंह	01.02.2010
445	जेसी528650एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2010
446	जेसी529854एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंद सिंह	01.04.2010
447	जेसी529979एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.04.2010
448	जेसी529803एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भरत सिंह नेगी	01.04.2010
449	जेसी529576एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिमल सिंह	01.07.2010
450	जेसी530353एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दान सिंह	01.05.2010
451	जेसी529546एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म पाल सिंह	01.03.2010
452	जेसी529651एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हर्ष मनी	01.06.2010
453	जेसी529411के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखपत सिंह	01.04.2010

454	जेसी529240एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.05.2010
455	जेसी528905एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन सिंह	01.04.2010
456	जेसी529846एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राकेश राउथान	01.05.2010
457	जेसी529637पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शर्बेश्वर प्रसाद	01.07.2010
458	जेसी529433एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री कष्णन	01.06.2010
459	जेसी529565डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेशा नन्द	01.05.2010
460	जेसी529757एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.04.2010

### कुमाँउ रेजीमेन्ट

461	जेसी538182एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह	01.04.2010
462	जेसी538691के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीवानी राम	01.04.2010
463	जेसी538112एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खुशाल सिंह गरिया	01.04.2010
464	जेसी538545के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह दिअप्पा	01.04.2010
465	जेसी539033के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पदम सिंह	01.03.2010
466	जेसी538654एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	01.04.2010
467	जेसी539635एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अभेय सिंह यादव	01.02.2010
468	जेसी540007पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन सिंह काकी	01.05.2010
469	जेसी539726एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मदेर कुमार	01.05.2010
470	जेसी539644वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोर्धन सिंह राठोर	01.05.2010
471	जेसी539512एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी भगवान	01.04.2010
472	जेसी539609डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केशर सिंह	01.08.2010

473	जेसी539441पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशन सिंह	01.02.2010
474	जेसी539864एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.04.2010
475	जेसी539396एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.05.2010
476	जेसी539426ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.02.2010
477	जेसी539410पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम	01.02.2010
478	जेसी538872पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सरन	01.02.2010
479	जेसी539494एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य नारायण	01.02.2010
480	जेसी539391पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शंकर सिंह चूफाल	01.04.2010
481	जेसी539791एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर सिंह कापकोटी	01.04.2010

#### आसाम रेजीमेन्ट

482	जेसी548255ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बुधेश्वर सिन्हा	01.02.2010
483	जेसी130065एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खुम्लो जेन्सन अनल	01.03.2010
484	जेसी548286ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मदन मोहन सिंह	01.03.2010
485	जेसी114063एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रतन चन्द शर्मा	01.05.2010
486	जेसी548322ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उपअनंदा मुखर्जी	01.05.2010
487	जेसी548788एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अन्नेसवर सेकिआ	01.08.2010
488	जेसी548939डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरका बहादुर दारजी	01.05.2010
489	जेसी548893वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के.एच सनोथोम्बा सिंह	01.02.2010
490	जेसी549182एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लालेंगजउवा	01.04.2010
491	जेसी549058के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन कुमार श्रेष्ठा	01.02.2010

492	जेसी548838एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन पीडी बोराह	01.08.2010
493	जेसी548803एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर कुनवर	01.08.2010
494	जेसी549180ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजु कुमार सिंघा	01.06.2010
495	जेसी548789एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन ठाकुरिया	01.05.2010
496	जेसी548805एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तुलन च. दास	01.03.2010

बिहार रेजीमेन्ट

497	जेसी558458एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंदेश्वर सिंह	01.08.2010
498	जेसी558392एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृस्टोफर लकरा	01.05.2010
499	जेसी558546एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोबरधन सिंह	01.02.2010
500	जेसी558561एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लव कुमार	01.02.2010
501	जेसी558257वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज नाथ गिरि	01.08.2010
502	जेसी558411एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राकेश चंद्रा ढोंडियाल	01.08.2010
503	जेसी558385डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम लगन महाले	01.07.2010
504	जेसी558467वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राना विजय सिंह	01.03.2010
505	जेसी558468एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सरयुग यादव	01.03.2010
506	जेसी558692एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्र कुजुर	01.08.2010
507	जेसी558299एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तुराम पूर्ति	01.06.2010
508	जेसी558387एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उपेंद्र प्रसाद महतो	01.05.2010
509	जेसी558647एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी राम भगत	01.03.2010
510	जेसी559247एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जग मोहन सिंह	01.03.2010

511	जेसी559255ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुंज बिहारी किसान	01.04.2010
512	जेसी559000ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश प्रसाद	01.03.2010
513	जेसी559270पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश राय	01.03.2010
514	जेसी558973के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमानंद यादव	01.07.2010
515	जेसी559234के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम पुकार साह	01.02.2010
516	जेसी559002एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव शंकर दयाल	01.03.2010
517	जेसी558887वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश यादव	01.02.2010
518	जेसी559324एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तेज नारायन सिंह	01.03.2010

#### महार रेजीमेन्ट

519	जेसी568504पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिजेन्द्र सिंह	01.08.2010
520	जेसी568593वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चव्हाण सुरेश गोविंद	01.08.2010
521	जेसी568580एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोरा	01.04.2010
522	जेसी568303डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.08.2010
523	जेसी568090एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम नारायण	01.08.2010
524	जेसी568401डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम चंद्र	01.07.2010
525	जेसी568489एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.06.2010
526	जेसी568379डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोहताश सिंह यादव	01.03.2010
527	जेसी569331पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आलम सिंह	01.03.2010
528	जेसी568929एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह	01.04.2010
529	जेसी569415एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.04.2010



530	जेसी569718एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चेत राम	01.05.2010
531	जेसी569644एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दरवान सिंह	01.06.2010
532	जेसी569595डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयराज भट्ट	01.06.2010
533	जेसी569199ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चन्द्र यादव	01.03.2010
534	जेसी569400ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा	01.04.2010
535	जेसी569721एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.04.2010
536	जेसी568762पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र प्रसाद	01.02.2010
537	जेसी568757के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तपन कुमार साहा	01.04.2010

**जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स**

538	जेसी578488डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर	01.08.2010
539	जेसी578571एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हंस राज	01.07.2010
540	जेसी578815डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगोर सिंह	01.05.2010
541	जेसी578887ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	01.08.2010
542	जेसी578851एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रनबीर सिंह	01.07.2010
543	जेसी578788एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तीरथ राम	01.04.2010
544	जेसी579885एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अभिलाश चन्द	01.06.2010
545	जेसी580185ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजीत सिंह	01.04.2010
546	जेसी579692एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.03.2010
547	जेसी579744एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक सिंह	01.06.2010
548	जेसी579976एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाली राम	01.08.2010

549	जेसी580056ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्र मोहन	01.04.2010
550	जेसी580068पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवी दिक्ता	01.05.2010
551	जेसी579817एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीवान चन्द	01.02.2010
552	जेसी580221ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरधारी लाल	01.04.2010
553	जेसी580342एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरु प्रसाद शर्मा	01.08.2010
554	जेसी579894एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हंस राज थ्यल, एसएम	01.04.2010
555	जेसी579776पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काबुल सिंह	01.06.2010
556	जेसी580005एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन कुमार	01.08.2010
557	जेसी579963एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेहर सिंह	01.08.2010
558	जेसी579861एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद आयूब	01.06.2010
559	जेसी579761एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद सलीम	01.06.2010
560	जेसी579786वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चन्द	01.04.2010
561	जेसी579767एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रभु राम	01.03.2010
562	जेसी579829एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम कुमार राय	01.07.2010
563	जेसी580169एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज पौल	01.05.2010
564	जेसी580071पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम पौल	01.07.2010
565	जेसी579816एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द	01.02.2010
566	जेसी579852डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार	01.08.2010
567	जेसी580103एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोमेश चंद्र	01.04.2010
568	जेसी579664पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोमेश लाल	01.02.2010

569	जेसी579741वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुदर्शन कुमार	01.06.2010
570	जेसी580186एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	01.04.2010
571	जेसी579759पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उत्तातम चन्द	01.03.2010
<u>लधदाख स्काउट</u>				
572	जेसी588041एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	क्षेवांग दोर्जे	01.07.2010
573	जेसी224503एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रिगजिन जोरगियास	01.05.2010
574	जेसी588138एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छेरिंग वंगेल	01.03.2010
<u>नागा रेजीमेन्ट</u>				
575	जेसी218034ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	डब्ल्यू एस लुंगथा अनल	01.02.2010
576	जेसी590145एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार गुरंग	01.04.2010
<u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल</u>				
577	जेसी592178डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छंकर सिंह, एसएम	01.04.2010
578	जेसी592196वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोवर्धन सिंह	01.05.2010
579	जेसी592068एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रिथीपाल सिंह	01.03.2010
580	जेसी592884एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल जब्बार सोफी	01.08.2010
581	जेसी592437एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल रशीद वाणी	01.05.2010
582	जेसी593034ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अंचल सिंह	01.05.2010
583	जेसी593046पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चुनी लाल	01.07.2010
584	जेसी593238एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चुनी लाल	01.05.2010
585	जेसी592976के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दर्शन कुमार	01.05.2010

586	जेसी592834एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह चेदी	01.05.2010
587	जेसी592957वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरबंस लाल	01.04.2010
588	जेसी592947पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन लाल	01.05.2010
589	जेसी593019एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन लाल	01.06.2010
590	जेसी592430के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.07.2010
591	जेसी592860एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद बशीर	01.02.2010
592	जेसी592768पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पवन सिंह	01.08.2010
593	जेसी593029पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फूल कुमार	01.06.2010
594	जेसी592773ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन लाल	01.05.2010
595	जेसी592804पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन लाल	01.07.2010
596	जेसी593190के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन लाल	01.04.2010
597	जेसी592794डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन सिंह	01.05.2010
598	जेसी592836एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाम लाल शर्मा	01.08.2010
599	जेसी592697वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यश पौल	01.05.2010

### 1 गोरखा राईफल्स

600	जेसी602154एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर गुरंग	01.05.2010
601	जेसी602169एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मिन बहादुर बुराथोकी	01.05.2010
602	जेसी602542ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश प्रसाद गुरंग	01.05.2010
603	जेसी602513एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नीमा शिरिंग लामा	01.04.2010

**3 गोरखा राईफल्स**

604	जेसी607321एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गीर बहादुर थापा	01.06.2010
605	जेसी607247एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मान बीर गुरंग	01.04.2010
606	जेसी607136के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम प्रसाद पासी	01.05.2010

**4 गोरखा राईफल्स**

607	जेसी612054एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र बहादुर थापा	01.06.2010
608	जेसी612228ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धन बहादुर पुन	01.07.2010
609	जेसी612134एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कलाम सिंह गुरंग	01.04.2010
610	जेसी211402एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह थापा	01.04.2010

**5 गोरखा राईफल्स**

611	जेसी617162वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भागवान चंद्रा मिश्रा	01.07.2010
612	जेसी617160एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गंगा धर सुदरियाल	01.05.2010
613	जेसी617583एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईके. बहादुर थापा	01.03.2010
614	जेसी617595डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूर्या बहादुर गुरंग	01.05.2010

**8 गोरखा राईफल्स**

615	जेसी623074वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लाल जंग गुरंग	01.02.2010
616	जेसी623379वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगया कुमार राजपूत	01.06.2010
617	जेसी623634ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर श्रेष्ठा	01.05.2010
618	जेसी623618एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रेशम बहादुर थापा	01.05.2010
619	जेसी623346एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तेज बहादुर सिन्जापती	01.05.2010

620	जेसी623496के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योग बहादुर गुरंग	01.07.2010
<b>9 गोरखा राईफल्स</b>				
621	जेसी629511के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मिन बहादुर खत्री	01.02.2010
622	जेसी629700एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेश बहादुर छत्री	01.06.2010
<b>11 गोरखा राईफल्स</b>				
623	जेसी634075एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धन बहादुर लिम्बू एसएम	01.04.2010
624	जेसी634166एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनी राय	01.05.2010
625	जेसी634533एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गम बहादुर राय	01.05.2010
626	जेसी634490एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मछिन्द्र कुमार राय	01.04.2010
627	जेसी634697एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम प्रसाद लिम्बू	01.08.2010
<b>सेना सेवा कोर दक्षिण</b>				
628	जेसी221399ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बन्दगर ततोबा पटेलू	01.06.2010
629	जेसी640778वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भाग्याधर मंडल	01.02.2010
630	जेसी640917एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीकम सिंह	01.03.2010
631	जेसी661213एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिदेश्वरी सिंह	01.04.2010
632	जेसी640440एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दामोदर बेहेरा	01.05.2010
633	जेसी661241एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोरांगा राना बिजुली	01.05.2010
634	जेसी661234एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह	01.05.2010
635	जेसी661574ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हंस राज यादव	01.04.2010
636	जेसी640676एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हवा सिंह मेहला	01.05.2010

637	जेसी661106ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोखू प्रसाद	01.02.2010
638	जेसी661151एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनजीत सिंह	01.02.2010
639	जेसी641001पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	निरंजन दाश	01.06.2010
640	जेसी215536एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रन पी	01.06.2010
641	जेसी661829पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रनबीर सिंह	01.05.2010
642	जेसी642799एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बालासुब्रामन्यन आर	01.07.2010
643	जेसी643140एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर नाथ	01.06.2010
644	जेसी663871एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिनेस्वर रौय	01.04.2010
645	जेसी662705एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चैन सिंह	01.02.2010
646	जेसी663578पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दामोदर प्रसाद	01.08.2010
647	जेसी642832ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईन्द्रावीर सिंह	01.02.2010
648	जेसी662697वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जागर नाथ	01.02.2010
649	जेसी662821पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश सिंह	01.08.2010
650	जेसी662758एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जवाहर सिंह	01.04.2010
651	जेसी662785पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयसी राम	01.04.2010
652	जेसी662950पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जैयन लाल	01.04.2010
653	जेसी641288एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुंवर बहादुर सिंह	01.04.2010
654	जेसी662790ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महीपाल सिंह	01.05.2010
655	जेसी642703ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मंगला प्रसाद	01.07.2010
656	जेसी663338एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोती लाल	01.03.2010

657	जेसी663762ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम डी.	01.02.2010
658	जेसी642491ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम शंकर शुक्ला	01.05.2010
659	जेसी662795वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर सिंह यादव	01.05.2010
660	जेसी144220वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शीतला प्रसाद शुक्ला	01.08.2010
661	जेसी642868वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री कृष्णा शर्मा	01.02.2010
662	जेसी662842एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री तहसील्दार	01.04.2010
663	जेसी662949ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय बहादुर	01.03.2010

### सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

664	जेसी680281के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जनक शर्मा	01.04.2010
665	जेसी680926एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	भूपेन च. दास	01.04.2010
666	जेसी680786ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	लज़ार सी	01.04.2010
667	जेसी680662एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य प्रकाश	01.05.2010
668	जेसी680747एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	शिव मुनि राम	01.02.2010
669	जेसी680749एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन सिंह	01.05.2010
670	जेसी680748के	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	वेद पाल	01.05.2010

### सेना चिकित्सा कोर

671	जेसी690394ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालचन्द्रन नायर के	01.04.2010
672	जेसी690894एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ब्रमा राम शर्मा	01.06.2010
673	जेसी217327वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जबार सिंह इनडे	01.07.2010
674	जेसी690426एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आर पलानीवल	01.02.2010



675	जेसी692907एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रम्मन राम	01.04.2010
676	जेसी214874एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुखेन्दु कुमार कर्माकर	01.03.2010
677	जेसी692339एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	स्वप्न कुमार विश्वास	01.02.2010
678	जेसी691500ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजीत सिंह	01.06.2010
679	जेसी695008एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.07.2010
680	जेसी692615ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धानधेल्या चितहार भाई भवानी शंकर	01.08.2010
681	जेसी695152एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जाधव मोहन तुकाराम	01.07.2010
682	जेसी694537एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जया चंद्रन बी	01.05.2010
683	जेसी694038एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ख्याली राम	01.04.2010
684	जेसी694968वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पाटिल अनिल सदासिव	01.06.2010
685	जेसी695190एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रभाकर दलापती	01.07.2010
686	जेसी694448एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन सिंह शाही	01.06.2010
687	जेसी695191ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज बाली सिंह	01.08.2010
688	जेसी694686ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साहब सिंह	01.04.2010
689	जेसी693298डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव लखन सिंह	01.02.2010
690	जेसी692152डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र कुमार	01.03.2010
691	जेसी693031एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	01.04.2010
692	जेसी693800ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश के	01.03.2010
693	जेसी693262एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार वी एन	01.06.2010

सेना आयुध कोर

694	जेसी723215एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र प्रकाश तिवारी	01.04.2010
695	जेसी723081के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा भूषण सिंह	01.05.2010
696	जेसी722783डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कोले लक्ष्मन यलप्पा	01.06.2010
697	जेसी723292एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजवीर सिंह मान	01.06.2010
698	जेसी723248एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामपाल शर्मा	01.05.2010
699	जेसी723200पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.04.2010
700	जेसी724195एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	औरंग जेडईबी	01.05.2010
701	जेसी724958एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चरण सिंह सैनी	01.02.2010
702	जेसी724096वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फ्रांसेस डी.	01.07.2010
703	जेसी724095डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रताप सिंह	01.07.2010
704	जेसी723383डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल कांत जोशी	01.03.2010
705	जेसी723874एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.02.2010
706	जेसी724476एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.03.2010
707	जेसी724091ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश चंद्र	01.04.2010
708	जेसी722786के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माता प्रसाद	01.04.2010
709	जेसी724633वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कृष्णापाल सिंह यादव	01.08.2010
710	जेसी723023ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम लखन रौय	01.02.2010
711	जेसी724202एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामचन्द्रन के के	01.08.2010
712	जेसी723236एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द्र	01.04.2010

713	जेसी725127ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यापाल मलिक	01.04.2010
714	जेसी723824एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेष नाथ पांडे	01.02.2010
715	जेसी725163एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सीवागुन्दप्पा सुल्लेगट्टी	01.04.2010
<b>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</b>				
716	जेसी749563डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देवेन्द्र सिंह	01.03.2010
717	जेसी749046वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलीप कुमार दास	01.02.2010
718	जेसी749044एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद शर्मा	01.02.2010
719	जेसी749358पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जॉन एम जी.	01.03.2010
720	जेसी747128एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कल्याण चकर्बती	01.08.2010
721	जेसी749390के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	माधवन कुट्टी एन	01.03.2010
722	जेसी747067डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नत्था राम कुदेल	01.04.2010
723	जेसी749739डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश नगर	01.04.2010
724	जेसी748828एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चन्द	01.02.2010
725	जेसी753420एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम गोपाल यादव	01.04.2010
726	जेसी750116वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम नरेश सिंह	01.08.2010
727	जेसी753715के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.04.2010
728	जेसी747944वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम राज पांडे	01.02.2010
729	जेसी747069एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्र यादव	01.04.2010
730	जेसी748835वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	समन्द्र सिंह	01.05.2010
731	जेसी747121वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संत कुमार	01.05.2010

732	जेसी749375पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतीश कुमार	01.03.2010
733	जेसी749385वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्यामपाल सिंह	01.05.2010
734	जेसी754967एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर सिंह	01.02.2010
735	जेसी751348के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उधया भानु के	01.04.2010
736	जेसी751486एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अएनुल हक	01.07.2010
737	जेसी752862ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनबाजागन वी	01.02.2010
738	जेसी753381ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनूस दिलीप लक्ष्मन	01.06.2010
739	जेसी751607एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार शर्मा	01.02.2010
740	जेसी753532एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिश्वनाथ मोन्डल	01.07.2010
741	जेसी759125एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रन टी एन	01.06.2010
742	जेसी753486के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलबीर सिंह सरावत	01.04.2010
743	जेसी754360डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह	01.06.2010
744	जेसी754923एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश प्रसाद	01.07.2010
745	जेसी752278एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश प्रसाद चौधरी	01.08.2010
746	जेसी757399एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जॉन आनंद डंगडंग	01.05.2010
747	जेसी759508एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जॉय गोपाल मंडल	01.07.2010
748	जेसी753348एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखम सिंह	01.04.2010
749	जेसी755433के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल शर्मा	01.04.2010
750	जेसी759507एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश चंद्रा शर्मा	01.07.2010
751	जेसी751367पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माईराज अहमद	01.03.2010

752	जेसी753747एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर	01.07.2010
753	जेसी753350ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेश चंद्रा शाक्य	01.04.2010
754	जेसी758240पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश वर्मा	01.08.2010
755	जेसी750888डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पबि कुमार बोरगोहैन	01.05.2010
756	जेसी753414ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	01.02.2010
757	जेसी753612एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फूल चन्द सैनी	01.04.2010
758	जेसी750595एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रसांत बरुआ	01.04.2010
759	जेसी756778एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	01.03.2010
760	जेसी758399ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम चंद्रा	01.04.2010
761	जेसी755404पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रबीन्द्र कुमार बेहेरा	01.07.2010
762	जेसी753917एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राकेश कुमार गुप्ता	01.02.2010
763	जेसी753610ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नरेश	01.08.2010
764	जेसी753234एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामजी तिवारी	01.08.2010
765	जेसी751616एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साजन सिंह	01.08.2010
766	जेसी758962एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यावरत शर्मा	01.04.2010
767	जेसी760483वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सिंह जनार्दन पंचु	01.02.2010
768	जेसी753565वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार प्रजापति	01.05.2010
769	जेसी754100एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह अंटल	01.04.2010
770	जेसी755836के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2010
771	जेसी754188ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तपन चंदा	01.04.2010

772	जेसी755817वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तुसााकान्ती बिशवाल	01.05.2010
773	जेसी760747पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमा शंकर पांडे	01.07.2010
774	जेसी751515पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यशपाल सिंह	01.04.2010
<b>सेना शिक्षा कोर</b>				
775	जेसी802027एक्स	सुबेदार-मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रमा प्रसाद तिवारी	01.07.2010
776	जेसी216999वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर सिंह	01.04.2010
777	जेसी802240एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्यवान यादव	01.08.2010
778	जेसी216193वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह रावत	01.04.2010
779	जेसी802450एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम सिंह	01.04.2010
780	जेसी802718के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ज्ञानेश्वर धर्वाल	01.06.2010
781	जेसी802862वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन मोहन शर्मा	01.04.2010
782	जेसी802686एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश शर्मा	01.08.2010
783	जेसी802487वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव मूर्ती तिवारी	01.06.2010
<b>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</b>				
784	जेसी797181के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बनवारी लाल हरिजन	01.06.2010
785	जेसी797066के	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	हरीशंकर राय	01.03.2010
<b>आसुचना कोर</b>				
786	जेसी217177एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरबंस सिंह	01.03.2010
787	जेसी223464एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी कष्णन शर्मा	01.04.2010
788	जेसी810028पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेत राम	01.08.2010

789	जेसी810008एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगत पौल भारद्वाज	01.06.2010
790	जेसी223463एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह रमोला	01.03.2010
791	जेसी810320के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.02.2010
792	जेसी810316एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा सिंह	01.08.2010
793	जेसी810300डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल देव शर्मा	01.04.2010
794	जेसी810376डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	01.05.2010
795	जेसी810292एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.04.2010
796	जेसी810081ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन चन्द	01.02.2010
<b>सेना पुलिस कोर.</b>				
797	जेसी818385एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दशरथ सिंह	01.04.2010
798	जेसी818389एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम पाल	01.07.2010
799	जेसी818134एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वी लक्ष्मना पेरुमल	01.02.2010
800	जेसी818836एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार शर्मा	01.04.2010
801	जेसी818923पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर पौल	01.04.2010
<b>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</b>				
802	जेसी826061डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रफुल्ल खाखलरि	01.03.2010
<b>पायोनियर कोर.</b>				
803	जेसी829031के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सूरत सिंह	01.05.2010
804	जेसी829298वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम जीवन सिंह	01.03.2010
805	जेसी829319के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विशम्बर सिंह	01.04.2010

रक्षा सुरक्षा कोर

806	जेसी841309एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीगामबर सिंह	01.06.2010
807	जेसी840611वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुरियाकोस एम के	01.03.2010
808	जेसी841354वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन सिंह	01.03.2010
809	जेसी841437के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.08.2010

प्रदेशिक सेना

810	टिजे3196के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोनी मोहन सिंघा	01.02.2010
811	टिजे3339वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दया चन्द	01.05.2010
812	टिजे3964ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देबा कांता दलाई	01.02.2010
813	टिजे4135वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन सिंह	01.04.2010
814	टिजे4033एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के अरुणाचलम	01.04.2010
815	टिजे4262एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेघ सिंह राठौर	01.08.2010
816	टिजे4000एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रासानका चंद्रा देब	01.03.2010
817	टिजे4118वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नारायण राम	01.07.2010
818	टिजे3783पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवि सिंह	01.08.2010
819	टिजे4216वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम चन्द	01.06.2010
820	टिजे4138एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजया कुमार सी.	01.03.2010



अवैतनिक लेफिटनेन्ट के रूप में17 होर्स

1 जेसी238647एफ रिसालदार मेजर महावीर सिंह तनवर 01.07.2010  
3 केवेलरी

2 जेसी238272एन रिसालदार मेजर मन्न राम 01.07.2010  
61 केवेलरी

3 जेसी236015एक्स रिसालदार मेजर मुकारब खान 01.02.2010  
86 आर्मड रेजीमेंट

4 जेसी237989एच रिसालदार मेजर शिव पाल 01.07.2010  
90 आर्मड रेजीमेंट

5 जेसी238390एफ रिसालदार मेजर परमिन्दर सिंह 01.02.2010  
10 आर्मड रेजीमेंट

6 जेसी236959वाइ रिसालदार मेजर राम मूर्ती 01.07.2010  
50 आर्मड रेजीमेंट

7 जेसी237475एल रिसालदार मेजर पुरुषाथम राम 01.02.2010  
आर्मड कोर

8 जेसी152323एम रिसालदार मेजर चंद्रा शेखर मिश्रा 01.08.2010

9 जेसी237089वाइ रिसालदार मेजर राजा राम 01.04.2010

10 जेसी116062वाइ रिसालदार मेजर राजेंद्र कौशिक 01.04.2010

11 जेसी152316डब्ल्यू रिसालदार मेजर श्री राजवीर शर्मा 01.08.2010

आर्टिलरी रेजीमेंट

12 जेसी256870एन सुबेदार मेजर ए अंगामुथू एसएम 01.04.2010

13 जेसी255701ए सुबेदार मेजर अमर सिंह 01.04.2010

14 जेसी225940ए सुबेदार मेजर बी बासप्पा 01.07.2010

15 जेसी225373एच सुबेदार मेजर बलबीर सिंह 01.05.2010

16 जेसी260817ए सुबेदार मेजर बलदेव सिंह 01.06.2010

17 जेसी259618ए सुबेदार मेजर बूटा सिंह 01.05.2010

18 जेसी260936डब्ल्यू सुबेदार मेजर चरण सिंह 01.07.2010

19 जेसी258577पी सुबेदार मेजर हनुमान प्रसाद 01.06.2010

20 जेसी259218एन सुबेदार मेजर होरेन्द्रा सिंघा 01.06.2010

21	जेसी255362एल	सुबेदार मेजर	हुकम सिंह	01.06.2010
22	जेसी257696वाइ	सुबेदार मेजर	इन्द्रा सेन	01.05.2010
23	जेसी266505एक्स	सुबेदार मेजर	जयपाल सिंह	01.05.2010
24	जेसी258383एम	सुबेदार मेजर	जोहर सिंह	01.04.2010
25	जेसी258452एक्स	सुबेदार मेजर	के मुथु रमन	01.07.2010
26	जेसी203608के	सुबेदार मेजर	कमलजीत सिंह	01.03.2010
27	जेसी256891के	सुबेदार मेजर	कवेरप्पा पी. एम	01.06.2010
28	जेसी258722एफ	सुबेदार मेजर	किशोरी लाल नाथ	01.04.2010
29	जेसी256703ए	सुबेदार मेजर	एल एम सिंघा	01.06.2010
30	जेसी258144एक्स	सुबेदार मेजर	महाबीर प्रसाद	01.06.2010
31	जेसी257867ए	सुबेदार मेजर	मित्तर पाल	01.05.2010
32	जेसी259418के	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह	01.07.2010
33	जेसी259864एल	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	01.06.2010
34	जेसी258888एच	सुबेदार मेजर	पाटिल नारायण कृष्णाष्णा	01.04.2010
35	जेसी259268वाइ	सुबेदार मेजर	राज सिंह	01.02.2010
36	जेसी260636पी	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार	01.08.2010
37	जेसी258064ए	सुबेदार मेजर	राम कुमार कुंवर	01.06.2010
38	जेसी257579एन	सुबेदार मेजर	राम फल	01.05.2010
39	जेसी259435के	सुबेदार मेजर	रति राम सैनी	01.05.2010
40	जेसी257254ए	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र सिंह चौहान	01.02.2010
41	जेसी118179डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सदानन्द जोशी	01.08.2010
42	जेसी255704एन	सुबेदार मेजर	साही राम सिंह यादव	01.07.2010
43	जेसी257272एच	सुबेदार मेजर	संतोख सिंह	01.06.2010
44	जेसी118177एल	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार दीक्षित	01.07.2010
45	जेसी255305के	सुबेदार मेजर	शोक मेस्टन	01.03.2010
46	जेसी257256एल	सुबेदार मेजर	सूबे सिंह मान	01.04.2010
47	जेसी256423के	सुबेदार मेजर	तपन कुमार घोष	01.04.2010
48	जेसी256201पी	सुबेदार मेजर	तेज प्रकाश	01.04.2010
49	जेसी225535एच	सुबेदार मेजर	ठाकर दास	01.04.2010
50	जेसी259678पी	सुबेदार मेजर	थंकाचन्न पी. एक्स	01.04.2010
51	जेसी256205एल	सुबेदार मेजर	उदय नारायण शुक्ला	01.08.2010
52	जेसी130080एम	सुबेदार मेजर	उमा दत्ता पांडे	01.04.2010
53	जेसी258172के	सुबेदार मेजर	विरपाल सिंह	01.06.2010

### सेना वायु सुरक्षा

54	जेसी142719एच	सुबेदार मेजर	बृज किशोर शुक्ला	01.08.2010
55	जेसी296151एक्स	सुबेदार मेजर	चंद्रपाल सिंह	01.07.2010
56	जेसी297130एन	सुबेदार मेजर	जरनैल सिंह	01.08.2010
57	जेसी296179एक्स	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन चन्द	01.07.2010
58	जेसी296777पी	सुबेदार मेजर	राम पाल सिंह	01.02.2010

95	जेसी326143डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दीना नाथ त्रिपाठी	01.06.2010
96	जेसी328215एन	सुबेदार मेजर	दिनेश चंद्रा	01.04.2010
97	जेसी326675डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दिनेश सिंह	01.02.2010
98	जेसी326796एक्स	सुबेदार मेजर	दोलक बहादुर माल	01.03.2010
99	जेसी327435एल	सुबेदार मेजर	गजे सिंह	01.03.2010
100	जेसी120468के	सुबेदार मेजर	गुरनेक सिंह	01.06.2010
101	जेसी327514ए	सुबेदार मेजर	ज्ञान सिंह	01.02.2010
102	जेसी327317एक्स	सुबेदार मेजर	हरबंस सिंह	01.04.2010
103	जेसी327189एल	सुबेदार मेजर	हरभजन सिंह	01.03.2010
104	जेसी327623एम	सुबेदार मेजर	जय कृष्णा प्रसाद यादव	01.06.2010
105	जेसी327595एल	सुबेदार मेजर	जलाधर प्रमाणिक	01.03.2010
106	जेसी140765वाइ	सुबेदार मेजर	जोसफ पीके	01.03.2010
107	जेसी327279एम	सुबेदार मेजर	काबल सिंह	01.04.2010
108	जेसी326435वाइ	सुबेदार मेजर	कवादे दिलाराम तारामन	01.04.2010
109	जेसी137362एन	सुबेदार मेजर	किरन कुमार मारिआ	01.03.2010
110	जेसी327602डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कष्णन कुमार	01.04.2010
111	जेसी325137डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कृष्णा मोनी सिंघा	01.07.2010
112	जेसी325309ए	सुबेदार मेजर	कुदन सिंह नेगी	01.05.2010
113	जेसी325354एम	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह देव	01.06.2010
114	जेसी191539के	सुबेदार मेजर	माकन सिंह	01.05.2010
115	जेसी326167ए	सुबेदार मेजर	मंगल सिंह सैनी	01.05.2010
116	जेसी326452वाइ	सुबेदार मेजर	मोहम्मद समसूर जमन	01.02.2010
117	जेसी224853ए	सुबेदार मेजर	मोहम्मद हनीफ	01.03.2010
118	जेसी328108डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मुकेश कुमार रावत	01.04.2010
119	जेसी325333डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नारायण दत्त जोशी	01.04.2010
120	जेसी325909एच	सुबेदार मेजर	नारायणन कुट्टी के	01.07.2010
121	जेसी327411एफ	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	01.03.2010
122	जेसी174757एम	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश जंगीर	01.05.2010
123	जेसी325735एन	सुबेदार मेजर	प्रकाश चंद्रा	01.08.2010
124	जेसी326266एच	सुबेदार मेजर	प्रसांत मैती	01.06.2010
125	जेसी325358एच	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह रावत	01.06.2010
126	जेसी327499डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पुरुषोत्तमन ओ	01.04.2010
127	जेसी326344पी	सुबेदार मेजर	रत्नाकरन ई	01.03.2010
128	जेसी219549एम	सुबेदार मेजर	एस एब्रायिम साथीराज	01.04.2010
129	जेसी326160डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	साजन सिंह	01.05.2010
130	जेसी327527एक्स	सुबेदार मेजर	शिव प्रकाश दीक्षित	01.04.2010
131	जेसी326986के	सुबेदार मेजर	शेर सिंह	01.07.2010
132	जेसी177186के	सुबेदार मेजर	सोमासुन्दरन सी सी	01.06.2010
133	जेसी174796एल	सुबेदार मेजर	सुरेश पाल	01.03.2010
134	जेसी325540एच	सुबेदार मेजर	सुवासीश गांगुली	01.08.2010

135	जेसी328216डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	स्वरूप माजी	01.06.2010
136	जेसी325515के	सुबेदार	मेजर	उमेश चंद्र शर्मा	01.02.2010
137	जेसी207610वाइ	सुबेदार	मेजर	उमेश चंद्रा राय	01.05.2010
138	जेसी325192एम	सुबेदार	मेजर	विजय नारायन सिंह	01.03.2010
139	जेसी326196पी	सुबेदार	मेजर	वीरेंद्र कुमार	01.08.2010
140	जेसी122931वाइ	सुबेदार	मेजर	विवेक कुमार सिंघल	01.02.2010
141	जेसी328114ए	सुबेदार	मेजर	योगेंद्र सिंह	01.02.2010

### बोम्बे इंजीनियर समूह

142	जेसी347487एच	सुबेदार	मेजर	बल्ला राम	01.03.2010
143	जेसी347008डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	दिवाकर सिंह	01.04.2010
144	जेसी347271एफ	सुबेदार	मेजर	एल पेरूमल	01.02.2010
145	जेसी347036एच	सुबेदार	मेजर	महेश चन्द	01.03.2010
146	जेसी347755एफ	सुबेदार	मेजर	पाटिल तानाजी अप्पाजी	01.04.2010
147	जेसी347003एक्स	सुबेदार	मेजर	एस गुलाब किसान	01.05.2010
148	जेसी347291पी	सुबेदार	मेजर	उपेंद्र नाथ राय	01.08.2010

### सिग्नल्स कोर

149	जेसी370689डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	अब्दुल्लाह के बी	01.06.2010
150	जेसी367254एच	सुबेदार	मेजर	अमर सिंह	01.08.2010
151	जेसी368930वाइ	सुबेदार	मेजर	आशीम कुमार सिन्हा	01.08.2010
152	जेसी368115एल	सुबेदार	मेजर	अशोक कुमार	01.03.2010
153	जेसी369838एम	सुबेदार	मेजर	बाना बिहारी मिश्रा	01.02.2010
154	जेसी369982एफ	सुबेदार	मेजर	भरत सिंह	01.02.2010
155	जेसी369778एच	सुबेदार	मेजर	बिमल मजूमडेर	01.05.2010
156	जेसी370701एम	सुबेदार	मेजर	ब्रज किशोर सिंघा	01.08.2010
157	जेसी367121एम	सुबेदार	मेजर	चिरंजी प्रसाद सकलानी	01.05.2010
158	जेसी369519ए	सुबेदार	मेजर	दोलत सिंह कलान	01.04.2010
159	जेसी370608एल	सुबेदार	मेजर	धर्मबीर सिंह	01.04.2010
160	जेसी367093एल	सुबेदार	मेजर	गोविंद सिंह चौहान	01.03.2010
161	जेसी370682एम	सुबेदार	मेजर	एच राजा	01.05.2010
162	जेसी370585पी	सुबेदार	मेजर	हरदेव सिंह	01.03.2010
163	जेसी367110ए	सुबेदार	मेजर	हिसामुद्दीन खान	01.05.2010
164	जेसी225341ए	सुबेदार	मेजर	हुकम चन्द शर्मा	01.02.2010
165	जेसी370613डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	जनक सिंह	01.03.2010
166	जेसी369473एच	सुबेदार	मेजर	जयनथान एम	01.08.2010
167	जेसी829026वाइ	सुबेदार	मेजर	जयदेव सरकार	01.04.2010
168	जेसी370681के	सुबेदार	मेजर	कोशी बी	01.06.2010
169	जेसी370691एन	सुबेदार	मेजर	कुलदीप चन्द शर्मा	01.06.2010
170	जेसी367102एफ	सुबेदार	मेजर	लक्षमन सिंह	01.05.2010

59	जेसी296740एन	सुबेदार मेजर	सत पाल	01.05.2010
<b>मद्रास इंजीनियर समूह</b>				
60	जेसी305700डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अरमुथू डी.	01.08.2010
61	जेसी305722पी	सुबेदार मेजर	अरुण बोलिशट्टी	01.08.2010
62	जेसी305515एच	सुबेदार मेजर	चलाट उन्नीर्कशन्न	01.04.2010
63	जेसी305238एच	सुबेदार मेजर	के मुनीयां	01.04.2010
64	जेसी305603वाइ	सुबेदार मेजर	के संकरा नारायना रेडी	01.06.2010
65	जेसी305318ए	सुबेदार मेजर	कोशी एम के	01.04.2010
66	जेसी305271ए	सुबेदार मेजर	मधुसुधन करनावेर आर	01.05.2010
67	जेसी305462पी	सुबेदार मेजर	राजू एनआर	01.07.2010
68	जेसी224795एफ	सुबेदार मेजर	रमा मूर्ती टी	01.03.2010
69	जेसी305891डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रामराज	01.02.2010
70	जेसी305889वाइ	सुबेदार मेजर	एस फक्कूदीन	01.08.2010
71	जेसी305209एन	सुबेदार मेजर	एस कसबार	01.06.2010
72	जेसी305557पी	सुबेदार मेजर	शिवशंकर जत्ती	01.06.2010
73	जेसी306122वाइ	सुबेदार मेजर	थिम्मैया एम के	01.02.2010
74	जेसी305745डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वी रामु	01.08.2010
75	जेसी219388पी	सुबेदार मेजर	वेनुनाधन पिल्लई आर	01.03.2010
76	जेसी305694एन	सुबेदार मेजर	विस्वनाधन सी वी	01.07.2010

**बंगाल इंजीनियर समूह**

77	जेसी327182एफ	सुबेदार मेजर	अब्दुल गफूर मंसूरी	01.06.2010
78	जेसी219566एम	सुबेदार मेजर	अजीत कुमार आरसी	01.02.2010
79	जेसी165082डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	आनंद सिंह सिजवाली	01.02.2010
80	जेसी219587एच	सुबेदार मेजर	अनिल जॉर्ज	01.04.2010
81	जेसी325342एक्स	सुबेदार मेजर	बेबी एम	01.05.2010
82	जेसी327322एच	सुबेदार मेजर	बचन सिंह	01.02.2010
83	जेसी327487एफ	सुबेदार मेजर	बाईलोचन दाश	01.03.2010
84	जेसी216078वाइ	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	01.03.2010
85	जेसी326170ए	सुबेदार मेजर	बलदेवन पी	01.05.2010
86	जेसी325291पी	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह	01.07.2010
87	जेसी325506एच	सुबेदार मेजर	बेचन चौधरी	01.06.2010
88	जेसी328211एक्स	सुबेदार मेजर	भीमसेन मल्लिक	01.04.2010
89	जेसी203004एल	सुबेदार मेजर	बिपिन चंद्रा डालाकोटी	01.04.2010
90	जेसी325315एन	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्र प्रसाद सिंह	01.06.2010
91	जेसी327614एल	सुबेदार मेजर	बिशवाजीत घोष	01.06.2010
92	जेसी146195के	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह	01.02.2010
93	जेसी122941एच	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र सिंह	01.05.2010
94	जेसी174690वाइ	सुबेदार मेजर	धर्म पाल	01.02.2010

171	जेसी367389एफ	सुबेदार मेजर	लिला राम	01.07.2010
172	जेसी370456पी	सुबेदार मेजर	महेंद्र प्रताप सिंह राठोर	01.03.2010
173	जेसी370655एच	सुबेदार मेजर	मोहम्मद अब्दुल वाहब अखान	01.05.2010
174	जेसी368617एन	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा कुमार शर्मा	01.04.2010
175	जेसी367115वाइ	सुबेदार मेजर	परमेश्वरा एच के	01.06.2010
176	जेसी220469एफ	सुबेदार मेजर	प्रफुल्ल कुमार जैना	01.02.2010
177	जेसी368920पी	सुबेदार मेजर	पुथी लाल	01.02.2010
178	जेसी370436एफ	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा प्रसाद चौधरी	01.02.2010
179	जेसी224682वाइ	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह	01.03.2010
180	जेसी370685ए	सुबेदार मेजर	राम नारायण सैनी	01.06.2010
181	जेसी368509के	सुबेदार मेजर	ऋषि प्रकाश	01.04.2010
182	जेसी370677एफ	सुबेदार मेजर	शेखर महता	01.04.2010
183	जेसी367106एक्स	सुबेदार मेजर	सेतुमाधवन ए पी	01.06.2010
184	जेसी367249एक्स	सुबेदार मेजर	सिया नन्द	01.04.2010
185	जेसी223786एन	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्र कुमार	01.02.2010
186	जेसी367253ए	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रन डी.	01.07.2010
187	जेसी367888वाइ	सुबेदार मेजर	तन्नीरु श्रीनिवास राव	01.02.2010
188	जेसी367111एच	सुबेदार मेजर	विद्या सागर पांडे	01.06.2010
189	जेसी370692डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	विजय शंकर ओझा	01.07.2010

गार्डस

190	जेसी402205एफ	सुबेदार मेजर	बिअंत राम	01.07.2010
191	जेसी402308ए	सुबेदार मेजर	कालाधारी	01.06.2010

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

192	जेसी226947डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नछेतर सिंह	01.03.2010
-----	-------------------	--------------	------------	------------

पंजाब रेजीमेन्ट

193	जेसी428812एक्स	सुबेदार मेजर	दीदार सिंह	01.05.2010
194	जेसी428917एफ	सुबेदार मेजर	रतन चन्द ठाकुर	01.06.2010

मद्रास रेजीमेन्ट

195	जेसी438910एल	सुबेदार मेजर	पी पी	01.04.2010
-----	--------------	--------------	-------	------------

ग्रेनेडियर्स

196	जेसी448573पी	सुबेदार मेजर	अल्ली हुसैन	01.06.2010
197	जेसी193678एम	सुबेदार मेजर	एकराम अली अंसारी	01.02.2010
198	जेसी220907वाइ	सुबेदार मेजर	मोती राम	01.02.2010
199	जेसी448945पी	सुबेदार मेजर	संत राम	01.06.2010
200	जेसी448455एफ	सुबेदार मेजर	श्री राम सिंह	01.07.2010

201 जेसी448207एल सुबेदार मेजर वेद पाल सिंह पुंदीर 01.02.2010  
जाट रेजीमेन्ट

202 जेसी488315एक्स सुबेदार मेजर बलवान सिंह 01.04.2010  
203 जेसी488310वाइ सुबेदार मेजर हुकमी चन्द 01.08.2010  
204 जेसी488229एम सुबेदार मेजर महेंद्र सिंह 01.07.2010  
205 जेसी488047वाइ सुबेदार मेजर ओम प्रकाश 01.02.2010  
206 जेसी438507वाइ सुबेदार मेजर रामेश्वर लाल 01.08.2010

सिख लघु पैदल सेना

207 जेसी508436एच सुबेदार मेजर सोम सिंह बैस 01.08.2010  
डोगरा रेजीमेन्ट

208 जेसी518764के सुबेदार मेजर चेत्रर सिंह ठाकुर 01.02.2010  
209 जेसी518968डब्ल्यू सुबेदार मेजर धर्म पाल 01.08.2010  
210 जेसी518839डब्ल्यू सुबेदार मेजर सतीश चन्द 01.06.2010

गढवाल राईफल्स

211 जेसी529004एफ सुबेदार मेजर चन्दन सिंह 01.04.2010  
212 जेसी528789के सुबेदार मेजर चित्रा सिंह 01.05.2010  
213 जेसी528342एम सुबेदार मेजर मदन मोहन मिश्रा 01.07.2010  
214 जेसी528396एन सुबेदार मेजर नंदन सिंह 01.07.2010

कुमाँउ रेजीमेन्ट

215 जेसी538354पी सुबेदार मेजर दलीप सिंह 01.02.2010  
216 जेसी538156के सुबेदार मेजर कमला पाती भट्ट 01.04.2010  
217 जेसी538536एच सुबेदार मेजर रमा शंकर यादव 01.03.2010

आसाम रेजीमेन्ट

218 जेसी548136के सुबेदार मेजर धीरेन्द्र चंद्रा डेका 01.02.2010  
219 जेसी548231एन सुबेदार मेजर आर के बिनोदे सेना सिंघा 01.06.2010

बिहार रेजीमेन्ट

220 जेसी558130डब्ल्यू सुबेदार मेजर ईश्वर चंद्रा नाइक 01.04.2010  
221 जेसी558465एन सुबेदार मेजर प्रादिप्त कुमार बारिक 01.04.2010

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

222 जेसी579100एम सुबेदार मेजर रोमेश सिंह 01.07.2010

लघ्दाख स्काउट

223	जेसी588018वाइ	सुबेदार मेजर	रिगजिन नौरफल	01.06.2010
<u>4 गोरखा राईफल्स</u>				
224	जेसी612168डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	युंग पांग राय	01.07.2010
<u>8 गोरखा राईफल्स</u>				
225	जेसी623218डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चंद्रा बहादुर राना	01.07.2010
<u>9 गोरखा राईफल्स</u>				
226	जेसी629414एम	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह	01.02.2010
227	जेसी629262डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मुख राम यादव	01.07.2010
<u>11 गोरखा राईफल्स</u>				
228	जेसी634103एच	सुबेदार मेजर	दावा दोरजय तमंग	01.07.2010
229	जेसी634155वाइ	सुबेदार मेजर	मधीम बहादुर राय	01.05.2010
<u>सेना सेवा कोर दक्षिण</u>				
230	जेसी661354डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बाबू लाल	01.06.2010
231	जेसी640190एक्स	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह	01.04.2010
232	जेसी215489एल	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह राठोर	01.04.2010
233	जेसी661414ए	सुबेदार मेजर	चंद्रा पाल	01.06.2010
234	जेसी661449डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गनेश प्रसाद	01.08.2010
235	जेसी215520एम	सुबेदार मेजर	घान श्याम सिंह	01.04.2010
236	जेसी661251एक्स	सुबेदार मेजर	गोपाल दास	01.05.2010
237	जेसी661226वाइ	सुबेदार मेजर	गोपी चन्द	01.04.2010
238	जेसी661170एक्स	सुबेदार मेजर	गुलज़ार सिंह	01.02.2010
239	जेसी640670एफ	सुबेदार मेजर	ईक्युलाख मोहम्मद	01.04.2010
240	जेसी640936एच	सुबेदार मेजर	जाधव गोपाल गोविंद	01.06.2010
241	जेसी661225डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मदन लाल	01.04.2010
242	जेसी640149एफ	सुबेदार मेजर	महोब्त मलिक	01.04.2010
243	जेसी640688एक्स	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह	01.08.2010
244	जेसी661245के	सुबेदार मेजर	नारायण राम सुतार	01.04.2010
245	जेसी661012एच	सुबेदार मेजर	नारायणा आर	01.03.2010
246	जेसी661306डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नर्सा राम जाट	01.08.2010
247	जेसी640624एम	सुबेदार मेजर	पी एलांगुवान	01.02.2010
248	जेसी215550के	सुबेदार मेजर	प्रेम प्रकाश	01.07.2010
249	जेसी215515एफ	सुबेदार मेजर	पुरखा राम खाती	01.04.2010
250	जेसी661290डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पुर्षोतम सिंह	01.05.2010



251	जेसी661287डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम प्रसाद राम	01.05.2010
252	जेसी640826एन	सुबेदार मेजर	शारदा प्रसाद	01.03.2010
253	जेसी213846के	सुबेदार मेजर	सुबाष	01.03.2010
254	जेसी215496एफ	सुबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह संधू	01.03.2010
255	जेसी661340डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वरधा राजन कन्दाला	01.08.2010
256	जेसी640694एल	सुबेदार मेजर	योगेंद्र कुमार वालिआ	01.02.2010

**सेना चिकित्सा कोर**

257	जेसी214875एल	सुबेदार मेजर	हरी किशन शर्मा	01.07.2010
258	जेसी691254ए	सुबेदार मेजर	नारायणन के	01.03.2010
259	जेसी690356के	सुबेदार मेजर	वरिंदर सिंह	01.05.2010

**सेना आयुध कोर**

260	जेसी722870के	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह	01.08.2010
261	जेसी723251एच	सुबेदार मेजर	भुपिन्दरजीत सिंह बाजवा	01.06.2010
262	जेसी130310पी	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद शर्मा	01.08.2010
263	जेसी723410पी	सुबेदार मेजर	कमेर चन्द राना	01.08.2010
264	जेसी723354एफ	सुबेदार मेजर	मन्तईया गुरुपादईया बेल्लद	01.02.2010
265	जेसी723164पी	सुबेदार मेजर	पाटिल अशोक लक्ष्मन	01.08.2010
266	जेसी722770वाइ	सुबेदार मेजर	प्रदीप चंद्रा बरुआ	01.04.2010
267	जेसी723186एन	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा प्रसाद सिंह यादव	01.02.2010
268	जेसी723773वाइ	सुबेदार मेजर	राम सुंदर	01.08.2010
269	जेसी723246एक्स	सुबेदार मेजर	रामेश्वर सिंह	01.06.2010
270	जेसी723154एल	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा नाथ महंता	01.07.2010
271	जेसी723596के	सुबेदार मेजर	विनोद कुमार पारीक	01.08.2010

**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स**

272	जेसी749748एक्स	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	01.03.2010
273	जेसी747050एच	सुबेदार मेजर	अर्जुन सिंह लिगवाल	01.02.2010
274	जेसी749422एफ	सुबेदार मेजर	भोसले शिवाजी मारुति	01.04.2010
275	जेसी748409एल	सुबेदार मेजर	गोपाल प्रसाद देव	01.02.2010
276	जेसी752796एच	सुबेदार मेजर	हरीश कुमार पनवर	01.02.2010
277	जेसी749715एम	सुबेदार मेजर	जगतार सिंह सरन	01.04.2010
278	जेसी748867एफ	सुबेदार मेजर	के सुंदरास्वरण नायर	01.02.2010
279	जेसी749430ए	सुबेदार मेजर	ओंकार सिंह	01.03.2010
280	जेसी749744एफ	सुबेदार मेजर	परमानन्द मलिक	01.02.2010
281	जेसी752914एल	सुबेदार मेजर	परमात्मा सिंह	01.08.2010
282	जेसी749159एफ	सुबेदार मेजर	प्रेम चंद्रा	01.03.2010
283	जेसी749421वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा कुमार मोर	01.03.2010
284	जेसी749734एक्स	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार नायर पी पी	01.06.2010

285	जेसी133312एल	सुबेदार मेजर	तेज सिंह	01.06.2010
<u>सेना शिक्षा कोर</u>				
286	जेसी216214के	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र कुमार शर्मा	01.03.2010
287	जेसी216213एफ	सुबेदार मेजर	रघुनाथ मुकुट	01.03.2010
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				
288	जेसी797110एच	रिसालदार मेजर	प्रमोद कुमार बराल	01.03.2010
<u>आसुचना कोर</u>				
289	जेसी217178डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कमल सिंह	01.03.2010
290	जेसी810423एच	सुबेदार मेजर	नवीन कुमार जोशी	01.03.2010
291	जेसी221346एफ	सुबेदार मेजर	सूरम सिंह	01.04.2010
<u>सेना पुलिस कोर</u>				
292	जेसी818324पी	सुबेदार मेजर	मोहित चंद्रा कर्माकर	01.02.2010
293	जेसी818351वाइ	सुबेदार मेजर	नार सिंह राय	01.04.2010
294	जेसी818386पी	सुबेदार मेजर	उपेंद्र कुमार	01.04.2010
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				
295	जेसी826054ए	सुबेदार मेजर	सर्वजीत सिंह	01.02.2010
<u>पायोनियर कोर</u>				
296	जेसी829005एच	सुबेदार मेजर	अनिरुध प्रसाद वर्मा	01.03.2010
297	जेसी198916एक्स	सुबेदार मेजर	राधेश्याम तिवारी	01.02.2010
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
298	जेसी840510एल	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह	01.07.2010
299	जेसी840036एच	सुबेदार मेजर	राम हेत	01.06.2010
<u>प्रदेशिक सेना</u>				
300	टिजे3910वाइ	सुबेदार मेजर	कष्णन कुमार	01.07.2010
301	टिजे3399एन	सुबेदार मेजर	एस धर्मन	01.06.2010

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में16 केवेलरी

1	जेसी240441एच	रिसालदार	श्रीन्वासा जी.	01.04.2010
2	जेसी240461डब्ल्यू	रिसालदार	वालमीक कोली	01.04.2010

7 केवेलरी

3	जेसी241330एक्स	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
4	जेसी241717ए	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.04.2010
5	जेसी241452एफ	रिसालदार	मोकम सिंह	01.04.2010
6	जेसी241660डब्ल्यू	रिसालदार	शीश राम	01.06.2010

8 केवेलरी

7	जेसी240982के	रिसालदार	जसविन्दर सिंह	01.04.2010
8	जेसी241111डब्ल्यू	रिसालदार	सरबजीत सिंह	01.06.2010
9	जेसी241483एफ	रिसालदार	शिशु पाल सिंह	01.08.2010

1 होर्स

10	जेसी241066पी	रिसालदार	अमरजीत सिंह	01.05.2010
11	जेसी240624वाइ	रिसालदार	बेला सिंह	01.04.2010
12	जेसी239796एफ	रिसालदार	धन सिंह	01.06.2010
13	जेसी240771एफ	रिसालदार	हरदेव सिंह	01.05.2010
14	जेसी241187डब्ल्यू	रिसालदार	एन सिंह	01.05.2010
15	जेसी240256पी	रिसालदार	रतन सिंह	01.04.2010

2 लानर्सस

16	जेसी241751ए	रिसालदार	बजरंग सिंह	01.07.2010
17	जेसी241760एफ	रिसालदार	जबार सिंह उदावत	01.08.2010
18	जेसी240374एच	रिसालदार	लखन सिंह	01.03.2010
19	जेसी240798वाइ	रिसालदार	महावीर प्रसाद	01.04.2010
20	जेसी239699के	रिसालदार	रघुनाथ सिंह	01.03.2010
21	जेसी240094पी	रिसालदार	सुल्तान सिंह	01.04.2010
22	जेसी239708ए	रिसालदार	सुर्ता राम	01.07.2010

17 होर्स

23	जेसी239651डब्ल्यू	रिसालदार	बछाना राम	01.05.2010
----	-------------------	----------	-----------	------------

9 होर्स

24	जेसी239833के	रिसालदार	काबल सिंह	01.04.2010
----	--------------	----------	-----------	------------

25	जेसी240003ए	रिसालदार	महावीर सिंह	01.04.2010
26	जेसी240100एक्स	रिसालदार	ओम प्रकाश	01.05.2010
<b>14 होर्स</b>				
27	जेसी240629एक्स	रिसालदार	अवतार सिंह	01.04.2010
28	जेसी240873एक्स	रिसालदार	दर्शन सिंह	01.04.2010
29	जेसी241612डब्ल्यू	रिसालदार	कश्मीर सिंह	01.08.2010
30	जेसी239240एक्स	रिसालदार	केवल सिंह	01.04.2010
31	जेसी240906एक्स	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.04.2010
32	जेसी241106एल	रिसालदार	कुलवंत सिंह	01.04.2010
33	जेसी240810पी	रिसालदार	कुनान सिंह	01.07.2010
34	जेसी241611एन	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	01.06.2010
35	जेसी241260के	रिसालदार	समरजीत सिंह	01.05.2010
<b>3 केवेलरी</b>				
36	जेसी239767एम	रिसालदार	बजरंग सिंह	01.04.2010
37	जेसी240475डब्ल्यू	रिसालदार	बलवान सिंह	01.04.2010
38	जेसी240632एक्स	रिसालदार	प्रेम नारायण सिंह चौहान	01.04.2010
39	जेसी239858डब्ल्यू	रिसालदार	प्रेम नाथ सिंह	01.04.2010
40	जेसी240488एन	रिसालदार	साजन सिंह सांगवान	01.04.2010
41	जेसी239834एम	रिसालदार	संजय कुमार बदोरिया	01.08.2010
<b>18 केवेलरी</b>				
42	जेसी240329डब्ल्यू	रिसालदार	दया चन्द गोदारा	01.08.2010
43	जेसी239793एन	रिसालदार	गिरधारी राम	01.05.2010
44	जेसी240186एफ	रिसालदार	हनुमान सिंह	01.05.2010
45	जेसी240350वाइ	रिसालदार	जगबीर	01.08.2010
46	जेसी239921ए	रिसालदार	नरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
47	जेसी239878के	रिसालदार	नरेश सिंह	01.02.2010
48	जेसी240225पी	रिसालदार	राज बहोरन सिंह	01.07.2010
49	जेसी239795वाइ	रिसालदार	रोहतास कुमार	01.05.2010
<b>4 होर्स</b>				
50	जेसी240397के	रिसालदार	गुरजीत सिंह	01.04.2010
51	जेसी240398एम	रिसालदार	गुरनाम सिंह	01.04.2010
52	जेसी240888ए	रिसालदार	जरनैल सिंह	01.04.2010
53	जेसी240677एक्स	रिसालदार	लखविन्दर सिंह	01.04.2010
54	जेसी241569ए	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	01.06.2010

**केन्द्रीय भारत अश्व**

55	जेसी240268के	रिसालदार	अक्कालवर कवाद् उधाउ	01.04.2010
56	जेसी240509वाइ	रिसालदार	मुन्ना लाल	01.06.2010
57	जेसी240508डब्ल्यू	रिसालदार	नागो राव पवार	01.06.2010
58	जेसी239593एक्स	रिसालदार	शत्रुघन यादव	01.04.2010

**62 केवेलरी**

59	जेसी241116पी	रिसालदार	बदारी दास	01.07.2010
60	जेसी240200एच	रिसालदार	भग्गू राम जाट	01.07.2010
61	जेसी240018एच	रिसालदार	दलजीत सिंह	01.04.2010
62	जेसी241114के	रिसालदार	जगदीश चन्द	01.06.2010
63	जेसी240499ए	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.08.2010
64	जेसी241022एक्स	रिसालदार	प्रकाश चन्द	01.05.2010
65	जेसी240402के	रिसालदार	राजकरण सिंह	01.04.2010
66	जेसी240127पी	रिसालदार	रमन लाल	01.04.2010
67	जेसी241014वाइ	रिसालदार	सुख राम	01.04.2010

**20 लार्न्सिस**

68	जेसी239207ए	रिसालदार	अमर सिंह	01.04.2010
69	जेसी240792एक्स	रिसालदार	बीर सिंह	01.08.2010
70	जेसी240653एन	रिसालदार	हरदम सिंह	01.07.2010
71	जेसी241059वाइ	रिसालदार	हरी बाबू	01.05.2010
72	जेसी241337एफ	रिसालदार	सतेंद्र पाल सिंह	01.08.2010

**63 केवेलरी**

73	जेसी240391एच	रिसालदार	अमरजीत सिंह	01.04.2010
74	जेसी241381एल	रिसालदार	भूदेव सिंह	01.08.2010
75	जेसी241339एम	रिसालदार	दलपत सिंह	01.08.2010
76	जेसी240865वाइ	रिसालदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
77	जेसी240692एम	रिसालदार	ओम प्रकाश	01.06.2010
78	जेसी240442एल	रिसालदार	शीश पाल	01.04.2010
79	जेसी241443ए	रिसालदार	सुशील कुमार	01.08.2010
80	जेसी241013डब्ल्यू	रिसालदार	विजय पाल सिंह	01.05.2010

**61 केवेलरी**

81	जेसी239253पी	रिसालदार	पोपट पांडुरंग जाधव	01.04.2010
----	--------------	----------	--------------------	------------

**45 केवेलरी**

82	जेसी241193के	रिसालदार	अर्विन्द कुमार उपाध्याय	01.04.2010
----	--------------	----------	-------------------------	------------

83	जेसी240547पी	रिसालदार	सी विजयन	01.05.2010
84	जेसी240518ए	रिसालदार	जयन के वी	01.05.2010
85	जेसी241250ए	रिसालदार	नाले शिवाजी सदा शिव	01.07.2010
86	जेसी241704एच	रिसालदार	ओम प्रकाश वर्मा	01.08.2010
87	जेसी240070एल	रिसालदार	प्रकाश कट्टी	01.04.2010
88	जेसी240521ए	रिसालदार	श्याम लाल	01.04.2010
89	जेसी241242एफ	रिसालदार	एस श्रीराम जयराम	01.06.2010
<b>64 केवेलरी</b>				
90	जेसी240627एम	रिसालदार	धिसु सिंह राठोर	01.06.2010
91	जेसी240118एन	रिसालदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
92	जेसी240121एन	रिसालदार	हरदीप सिंह	01.05.2010
93	जेसी240001पी	रिसालदार	इश्वर सिंह	01.06.2010
94	जेसी240117एल	रिसालदार	कर्म चन्द	01.07.2010
95	जेसी240875एच	रिसालदार	राजेंद्रा सिंह बघेल	01.08.2010
96	जेसी239909वाइ	रिसालदार	सत्य पाल सिंह	01.04.2010
97	जेसी239454एन	रिसालदार	सुनील सिंह	01.04.2010
<b>65 आर्मड रेजीमेंट</b>				
98	जेसी240753वाइ	रिसालदार	राम चंद्र	01.05.2010
99	जेसी239827डब्ल्यू	रिसालदार	ऋषि राम	01.04.2010
<b>66 आर्मड रेजीमेंट</b>				
100	जेसी241113एफ	रिसालदार	बसावा राज अब्बी	01.05.2010
101	जेसी240933एफ	रिसालदार	हसबे अनील राजाराम	01.04.2010
102	जेसी241102पी	रिसालदार	कदम एस आउदुम्बर	01.05.2010
103	जेसी241489एच	रिसालदार	के शंकरा बाबू	01.08.2010
104	जेसी241355के	रिसालदार	शिंदे हनुमंत विथोवा	01.08.2010
105	जेसी240937एक्स	रिसालदार	उन्नी कृष्णन नायर आर	01.04.2010
106	जेसी241327एक्स	रिसालदार	वी सेलवा राजन	01.06.2010
<b>67 आर्मड रेजीमेंट</b>				
107	जेसी239944एफ	रिसालदार	बाजेरंग लाल नेहरा	01.06.2010
108	जेसी239201वाइ	रिसालदार	बिशन दास	01.04.2010
109	जेसी240663एक्स	रिसालदार	सुखदेव सिंह	01.06.2010
<b>68 आर्मड रेजीमेंट</b>				
110	जेसी240664ए	रिसालदार	घतर सिंह	01.04.2010
111	जेसी240673एफ	रिसालदार	गोर्धन लाल गूजर	01.04.2010
112	जेसी241166ए	रिसालदार	कोलकर तुकाराम एकेए राम	01.06.2010

113	जेसी240901वाइ	रिसालदार	महेंद्र पाल सिंह	01.04.2010
<b>69 आर्मड रेजीमेंट</b>				
114	जेसी241239एफ	रिसालदार	गुमादी श्रीनिवास	01.06.2010
115	जेसी237976एल	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.07.2010
<b>70 आर्मड रेजीमेंट</b>				
116	जेसी241785एन	रिसालदार	कप्तान सिंह	01.08.2010
117	जेसी241561एन	रिसालदार	रुकमानन्द	01.04.2010
118	जेसी241663के	रिसालदार	सुखवीर सिंह	01.05.2010
119	जेसी241716एक्स	रिसालदार	वाघले बालू सोपना	01.06.2010
<b>71 आर्मड रेजीमेंट</b>				
120	जेसी241397डब्ल्यू	रिसालदार	गोविंद सिंह	01.07.2010
121	जेसी240943एल	रिसालदार	खेम चन्द	01.07.2010
122	जेसी240945डब्ल्यू	रिसालदार	मेवा राम	01.08.2010
123	जेसी240474एन	रिसालदार	नारायणा पिल्लई जी.	01.07.2010
124	जेसी240554एल	रिसालदार	रवीन्द्रन नेल्लियातन	01.07.2010
125	जेसी240947एफ	रिसालदार	सतबीर सिंह	01.08.2010
<b>72 आर्मड रेजीमेंट</b>				
126	जेसी240953पी	रिसालदार	अक्शी कुमार	01.05.2010
127	जेसी239989एफ	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
128	जेसी239754पी	रिसालदार	हिम्मत सिंह मरतिया	01.04.2010
129	जेसी239900के	रिसालदार	जबार सिंह	01.08.2010
130	जेसी240812ए	रिसालदार	राम उग्रय सिंह	01.04.2010
131	जेसी240097एच	रिसालदार	योगेंद्र सिंह	01.04.2010
<b>73 आर्मड रेजीमेंट</b>				
132	जेसी238722ए	रिसालदार	दलीप सिंह	01.04.2010
133	जेसी239349एक्स	रिसालदार	हरपाल सिंह	01.06.2010
134	जेसी240035एच	रिसालदार	कश्मीर सिंह	01.04.2010
<b>74 आर्मड रेजीमेंट</b>				
135	जेसी240071एन	रिसालदार	अमरीक सिंह	01.07.2010
136	जेसी239313वाइ	रिसालदार	भजन सिंह	01.07.2010
137	जेसी239667एफ	रिसालदार	एम प्रताप सिंह यादव	01.04.2010
138	जेसी239021डब्ल्यू	रिसालदार	प्रताप सिंह	01.04.2010
139	जेसी239591एम	रिसालदार	राजेश कुमार	01.04.2010
140	जेसी239748एफ	रिसालदार	सत्य राम	01.05.2010

**75 आर्मड रेजीमेंट**

141	जेसी240806एम	रिसालदार	ध्रुव सिंह चौहान	01.04.2010
142	जेसी240020ए	रिसालदार	इश्वर सिंह	01.04.2010
143	जेसी240154वाइ	रिसालदार	जयपाल सिंह	01.04.2010
144	जेसी241914एच	रिसालदार	मेशो कुमार	01.08.2010
145	जेसी239916पी	रिसालदार	रघुनाथ	01.04.2010
146	जेसी240968एक्स	रिसालदार	राम बाबू कासानी	01.06.2010
147	जेसी240868एम	रिसालदार	रविन्द्र कुमार सिंह	01.04.2010
148	जेसी240340पी	रिसालदार	सत्यवान सिंह	01.08.2010
149	जेसी240869पी	रिसालदार	सुख राम पाल चौहान	01.04.2010
150	जेसी240482एम	रिसालदार	सुमेर सिंह सांगवान	01.08.2010
151	जेसी240854एम	रिसालदार	वेलू डी.	01.04.2010

**76 आर्मड रेजीमेंट**

152	जेसी240211पी	रिसालदार	सी गिरिधर तुलसी राम	01.06.2010
153	जेसी240169एफ	रिसालदार	नीला कांथ येशू नाइक	01.04.2010
154	जेसी240403एम	रिसालदार	पीतम सिंह	01.05.2010
155	जेसी239590के	रिसालदार	रतन लाल	01.04.2010

**81 आर्मड रेजीमेंट**

156	जेसी241414एल	रिसालदार	हरेन्द्र कुमार राय	01.04.2010
157	जेसी241351एन	रिसालदार	विजय कुमार	01.04.2010

**82 आर्मड रेजीमेंट**

158	जेसी241241वाइ	रिसालदार	गुलाब चंद्रा मोरिया	01.05.2010
-----	---------------	----------	---------------------	------------

**83 आर्मड रेजीमेंट**

159	जेसी239889डब्ल्यू	रिसालदार	जयवीर सिंह	01.07.2010
160	जेसी239844डब्ल्यू	रिसालदार	राम किशन	01.07.2010
161	जेसी242055पी	रिसालदार	सोलन कुमार	01.06.2010
162	जेसी239766के	रिसालदार	वी कुमार	01.06.2010

**84 आर्मड रेजीमेंट**

163	जेसी240684एन	रिसालदार	देगदुत दत्ताता	01.06.2010
164	जेसी240685डब्ल्यू	रिसालदार	हरन चंद्रा साहा	01.06.2010
165	जेसी240369एक्स	रिसालदार	इन्द्रा मोहन सेकिआ	01.04.2010
166	जेसी240332डब्ल्यू	रिसालदार	जय प्रकाश सिंह	01.04.2010
167	जेसी240216एन	रिसालदार	मोहम्मद अनोवर पाशा	01.04.2010
168	जेसी240574वाइ	रिसालदार	रबीन्द्र प्रसाद सिंह	01.04.2010



169	जेसी240588वाइ	रिसालदार	राम अवातर ममोलर्य	01.04.2010
<b>86 आर्मड रेजीमेंट</b>				
170	जेसी239673पी	रिसालदार	ईन्गोले रमेश बलीरामजी	01.06.2010
171	जेसी240473एल	रिसालदार	महाराज सिंह	01.07.2010
172	जेसी239675ए	रिसालदार	नार सिंह प्रसाद	01.06.2010
<b>87 आर्मड रेजीमेंट</b>				
173	जेसी241604एक्स	रिसालदार	बी पी वेंकटेश्वर राव	01.08.2010
174	जेसी241451वाइ	रिसालदार	बिपिन बिहारी ठाकुर	01.05.2010
175	जेसी241595एफ	रिसालदार	राम दर्शन सिंह	01.06.2010
176	जेसी241602एम	रिसालदार	श्यामल चातेजी	01.06.2010
177	जेसी241603पी	रिसालदार	उन्नी कृष्णा पिल्लई एस	01.06.2010
<b>88 आर्मड रेजीमेंट</b>				
178	जेसी241204एल	रिसालदार	दिलीप कुमार कर	01.06.2010
179	जेसी240702एल	रिसालदार	नीला कांथ मिरागी	01.06.2010
180	जेसी240560वाइ	रिसालदार	राम बरन	01.04.2010
181	जेसी241199एल	रिसालदार	सुरेश प्रसाद	01.08.2010
182	जेसी240548एक्स	रिसालदार	तपेश्वर सिंह	01.04.2010
<b>89 आर्मड रेजीमेंट</b>				
183	जेसी241273एफ	रिसालदार	रघु नाथ सिंह	01.04.2010
<b>90 आर्मड रेजीमेंट</b>				
184	जेसी241662एफ	रिसालदार	खरत नन्द कुमार यशवन्त	01.05.2010
<b>41 आर्मड रेजीमेंट</b>				
185	जेसी239906एल	रिसालदार	राजेंद्र सिंह सामंत	01.05.2010
<b>42 आर्मड रेजीमेंट</b>				
186	जेसी240807पी	रिसालदार	अजीत सेकिआ	01.06.2010
187	जेसी239995पी	रिसालदार	राम पाल वर्मा	01.05.2010
<b>43 आर्मड रेजीमेंट</b>				
188	जेसी239633एन	रिसालदार	चीरदे शिवाजी पीराजी	01.03.2010
189	जेसी241379एन	रिसालदार	गुलाब शंकर मोर्या	01.05.2010
190	जेसी239811एल	रिसालदार	राम अवतार शर्मा	01.08.2010
191	जेसी241664एम	रिसालदार	राम पाल	01.05.2010
192	जेसी241384वाइ	रिसालदार	एस ब्रज गोपाल सिंघा	01.06.2010

193	जेसी241530एन	रिसालदार	सुभाष नामदेव जमनिक	01.04.2010
<b>44 आर्मड रेजीमेंट</b>				
194	जेसी241153एच	रिसालदार	अनूप सिंह	01.04.2010
195	जेसी240468ए	रिसालदार	अतची पोली रेडी	01.08.2010
196	जेसी241514डब्ल्यू	रिसालदार	चंदेश्वर सिंह	01.05.2010
197	जेसी238522के	रिसालदार	लल्लन प्रसाद विश्वा कर्मा	01.06.2010
198	जेसी241584पी	रिसालदार	विद्या रत्ना द्विवेदी	01.04.2010
<b>46 आर्मड रेजीमेंट</b>				
199	जेसी241219एन	रिसालदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.05.2010
<b>47 आर्मड रेजीमेंट</b>				
200	जेसी241360पी	रिसालदार	जोगेश सिंह गयारी	01.04.2010
201	जेसी241320एन	रिसालदार	रमाकांत	01.04.2010
202	जेसी240899एम	रिसालदार	सिवा रमा कृष्णा कटरा गद्दा	01.04.2010
203	जेसी241695एम	रिसालदार	वीरेश महाराज पीईटी	01.08.2010
<b>48 आर्मड रेजीमेंट</b>				
204	जेसी240557वाइ	रिसालदार	अरविन्दाक्षन वी	01.04.2010
205	जेसी240907ए	रिसालदार	अवधेश कुमार सिंह	01.04.2010
206	जेसी241426ए	रिसालदार	बिनोए कृष्णा मेधी	01.04.2010
207	जेसी241253एन	रिसालदार	घान श्याम	01.04.2010
208	जेसी241726एफ	रिसालदार	राम आसरे प्रजा पाती	01.08.2010
209	जेसी240909एल	रिसालदार	राम भूवन	01.04.2010
210	जेसी238946ए	रिसालदार	रामपत	01.03.2010
<b>49 आर्मड रेजीमेंट</b>				
211	जेसी240701एच	रिसालदार	अजय	01.08.2010
212	जेसी239401पी	रिसालदार	गजानन उत्तातम राव टी	01.06.2010
213	जेसी239216एफ	रिसालदार	मानिक चंद्रा कलिता	01.03.2010
214	जेसी240660के	रिसालदार	आर जयराज	01.08.2010
<b>5 आर्मड रेजीमेंट</b>				
215	जेसी239443एफ	रिसालदार	अशवनी कुमार तिवारी	01.05.2010
216	जेसी240053एल	रिसालदार	गंगा धरन पीके	01.07.2010
217	जेसी240919पी	रिसालदार	जादव सरमा	01.08.2010
218	जेसी240368पी	रिसालदार	के सन्थानम	01.08.2010
219	जेसी239399एच	रिसालदार	किशन लाल	01.04.2010
220	जेसी239299एक्स	रिसालदार	कृष्णा पाल सिंह	01.04.2010

221	जेसी240628पी	रिसालदार	राजपूत आर एन	01.08.2010
222	जेसी241073एल	रिसालदार	सचिदा नन्द पांडे	01.08.2010
223	जेसी240925एच	रिसालदार	शमशेर बहादुर थापा	01.08.2010
224	जेसी240215एल	रिसालदार	वेनकप्पा	01.07.2010
<b>6 आर्मड रेजीमेंट</b>				
225	जेसी241322वाइ	रिसालदार	पाला राम	01.04.2010
<b>10 आर्मड रेजीमेंट</b>				
226	जेसी238478एल	रिसालदार	कैम्पईया माथापती	01.06.2010
227	जेसी241163एम	रिसालदार	राम किशोर	01.08.2010
228	जेसी240672वाइ	रिसालदार	राम पाती राम	01.04.2010
229	जेसी240594एम	रिसालदार	रवींद्र सिंह	01.04.2010
<b>11 आर्मड रेजीमेंट</b>				
230	जेसी239025एम	रिसालदार	अब्दुल मालेक्यु	01.04.2010
231	जेसी239380के	रिसालदार	सतबीर	01.04.2010
<b>12 आर्मड रेजीमेंट</b>				
232	जेसी240421पी	रिसालदार	अखिलेश्वर सिंह	01.04.2010
233	जेसी240011वाइ	रिसालदार	फूल सिंह	01.04.2010
<b>13 आर्मड रेजीमेंट</b>				
234	जेसी238886डब्ल्यू	रिसालदार	केमपन्न सत्तेप्पा एस	01.08.2010
235	जेसी238534वाइ	रिसालदार	कुलवंत सिंह	01.04.2010
236	जेसी239856एल	रिसालदार	राम अनुज सिंह	01.04.2010
237	जेसी238898एल	रिसालदार	रंजीत सिंह	01.08.2010
<b>15 आर्मड रेजीमेंट</b>				
238	जेसी239321एक्स	रिसालदार	दलजीत सिंह	01.05.2010
239	जेसी239886एच	रिसालदार	लाल आर देव	01.08.2010
240	जेसी240033एक्स	रिसालदार	मुन्ना खान	01.04.2010
241	जेसी239320पी	रिसालदार	नन्द राम	01.05.2010
242	जेसी239648डब्ल्यू	रिसालदार	नरेश पाल	01.06.2010
243	जेसी240532एम	रिसालदार	नूर जमन एसके.	01.05.2010
244	जेसी239872एच	रिसालदार	शेक माहमेद इब्राहिम	01.06.2010
<b>19 आर्मड रेजीमेंट</b>				
245	जेसी239697वाइ	रिसालदार	बोद्धा अगस्ती	01.06.2010
246	जेसी239571वाइ	रिसालदार	चोखे लाल	01.05.2010

247	जेसी239703एफ	रिसालदार	करमबीर सिंह	01.07.2010
248	जेसी239223एक्स	रिसालदार	रामागया यादव	01.04.2010
<b>50 आर्मड रेजीमेंट</b>				
249	जेसी240567एच	रिसालदार	दामोर भूरा भाई सामजी भाई	01.08.2010
250	जेसी241058डब्ल्यू	रिसालदार	करतार सिंह राना	01.04.2010
251	जेसी239381एम	रिसालदार	प्रताप सिंह	01.04.2010
252	जेसी240631पी	रिसालदार	प्रसांत चकर्वती	01.08.2010
253	जेसी239262डब्ल्यू	रिसालदार	रामेश्वर	01.04.2010
254	जेसी240135एन	रिसालदार	रवीन्द्रन नायर पीएस	01.04.2010
<b>51 आर्मड रेजीमेंट</b>				
255	जेसी240137वाइ	रिसालदार	हरबंस सिंह	01.04.2010
256	जेसी239396पी	रिसालदार	नरेन्द्रा सिंह	01.07.2010
<b>52 आर्मड रेजीमेंट</b>				
257	जेसी240152एन	रिसालदार	मदन लाल	01.08.2010
258	जेसी239770एम	रिसालदार	राम किशोर	01.04.2010
<b>53 आर्मड रेजीमेंट</b>				
259	जेसी240562के	रिसालदार	बाल देव सिंह	01.07.2010
260	जेसी240552ए	रिसालदार	छीतर मल	01.04.2010
261	जेसी240410एच	रिसालदार	दान सिंह	01.07.2010
262	जेसी241226के	रिसालदार	कष्णन गोपाल तिवारी	01.08.2010
263	जेसी239539के	रिसालदार	मोहिन्दर पाल सिंह	01.06.2010
264	जेसी240644एम	रिसालदार	सोम राज	01.07.2010
<b>आर्मड कोर</b>				
265	जेसी238617के	रिसालदार	अशोक कुमार शर्मा	01.03.2010
266	जेसी237607एन	रिसालदार	बिश्वनाथ राम	01.03.2010
267	जेसी240195एच	रिसालदार	चमन सिंह	01.05.2010
268	जेसी239924एन	रिसालदार	दिनेश चंद्रा	01.08.2010
269	जेसी239980एम	रिसालदार	दीवान सिंह रावत	01.08.2010
270	जेसी164323वाइ	रिसालदार	दिरिन्दर सिंह	01.02.2010
271	जेसी240120एल	रिसालदार	ईश्वरी प्रसाद	01.06.2010
272	जेसी241822डब्ल्यू	रिसालदार	हवा सिंह	01.07.2010
273	जेसी240163ए	रिसालदार	जयंत कुमार साहू	01.08.2010
274	जेसी239415पी	रिसालदार	कालिका दत्ता उपाध्याय	01.07.2010
275	जेसी240325ए	रिसालदार	कष्णन कुमार	01.04.2010
276	जेसी239717एफ	रिसालदार	लक्ष्मीनारायण अदका	01.03.2010

277	जेसी240412एन	रिसालदार	मलकीत सिंह	01.04.2010
278	जेसी240125के	रिसालदार	मोहन राम के	01.07.2010
279	जेसी240320एफ	रिसालदार	नरेश पाल	01.07.2010
280	जेसी239553डब्ल्यू	रिसालदार	राज कुमार	01.02.2010
281	जेसी237683ए	रिसालदार	राम अवतार चौधरी	01.03.2010
282	जेसी240695ए	रिसालदार	राम बीर	01.04.2010
283	जेसी239388डब्ल्यू	रिसालदार	रण सिंह	01.02.2010
284	जेसी240259एच	रिसालदार	रातुल चंद्रा बूरठाकुर	01.08.2010
285	जेसी239981पी	रिसालदार	सेल्वाराजन एन	01.07.2010
286	जेसी239238ए	रिसालदार	एस बालकृशना गोविन्द	01.04.2010
287	जेसी239566एन	रिसालदार	सुखविंदर सिंह	01.04.2010
288	जेसी239413के	रिसालदार	सुवेन्द्रा सिंह सैंगर	01.07.2010
289	जेसी239718के	रिसालदार	विजयन जी.	01.06.2010
290	जेसी239760एच	रिसालदार	विरेन्द्र सिंह	01.07.2010
291	जेसी239893वाइ	रिसालदार	योगराज राना	01.04.2010

आर्टिलरी रेजीमेंट

292	जेसी265025के	सुबेदार	ए मुरुगा राज	01.04.2010
293	जेसी268225एल	सुबेदार	ए नैल्सन	01.08.2010
294	जेसी266111एफ	सुबेदार	अब्दुल मालेक्यु	01.04.2010
295	जेसी267734एक्स	सुबेदार	अजायब सिंह	01.04.2010
296	जेसी262727एक्स	सुबेदार	अजीत राज शर्मा	01.04.2010
297	जेसी265835एम	सुबेदार	अजीत सिंह	01.06.2010
298	जेसी265094ए	सुबेदार	अजय कुमार बासु	01.06.2010
299	जेसी267349के	सुबेदार	ए चतुर्वेदी	01.04.2010
300	जेसी259973एक्स	सुबेदार	अली हुसैन अहमद	01.02.2010
301	जेसी266870एफ	सुबेदार	अमर बहादुर	01.04.2010
302	जेसी267129के	सुबेदार	अमबेसवर ज्ञान	01.07.2010
303	जेसी267216एक्स	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.05.2010
304	जेसी267226एफ	सुबेदार	अनूप सिंह यादव	01.07.2010
305	जेसी262721डब्ल्यू	सुबेदार	अरुण कुमार शर्मा	01.03.2010
306	जेसी266992एल	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2010
307	जेसी268593ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.07.2010
308	जेसी266817डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार पौल	01.06.2010
309	जेसी265000एक्स	सुबेदार	अशवनी कुमार	01.06.2010
310	जेसी266293ए	सुबेदार	आत्मा राम	01.04.2010
311	जेसी266144एम	सुबेदार	अवध बिहारी सिंह	01.06.2010
312	जेसी266463वाइ	सुबेदार	बब्बन सिंह	01.03.2010
313	जेसी265382एम	सुबेदार	बाबू लाल यादव	01.02.2010
314	जेसी262780एच	सुबेदार	बाबू राम	01.04.2010

315	जेसी263955एम	सुबेदार	बाबू सिंघा	01.07.2010
316	जेसी267466वाइ	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.07.2010
317	जेसी266217एन	सुबेदार	बाल बहादुर बसनत	01.07.2010
318	जेसी266154डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
319	जेसी266234एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.03.2010
320	जेसी267065के	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.02.2010
321	जेसी267740एल	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
322	जेसी269918पी	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
323	जेसी263804एन	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.04.2010
324	जेसी262704डब्ल्यू	सुबेदार	बलदेव सिंह जसवाल	01.03.2010
325	जेसी266246एच	सुबेदार	बाली राज सिंह	01.04.2010
326	जेसी266078पी	सुबेदार	बालाकृष्ण शर्मा	01.06.2010
327	जेसी264070के	सुबेदार	बलराम सिंह	01.08.2010
328	जेसी266218डब्ल्यू	सुबेदार	बलवान सिंह	01.08.2010
329	जेसी269706के	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
330	जेसी257325डब्ल्यू	सुबेदार	बांका राम शर्मा	01.07.2010
331	जेसी268464ए	सुबेदार	बराहम दत्ता	01.04.2010
332	जेसी266831एच	सुबेदार	बासप्पा के	01.07.2010
333	जेसी267855वाइ	सुबेदार	बसाएया माथापती	01.07.2010
334	जेसी266131पी	सुबेदार	भागीरथी महाराना	01.07.2010
335	जेसी266285एफ	सुबेदार	भंवर सिंह	01.02.2010
336	जेसी261206एक्स	सुबेदार	भापाकर दिनाकर सदाशिव	01.02.2010
337	जेसी268765के	सुबेदार	भासकरण पी	01.04.2010
338	जेसी269235एफ	सुबेदार	भवर सिंह शेखावत	01.04.2010
339	जेसी258575के	सुबेदार	भीमा नाइक	01.04.2010
340	जेसी269112पी	सुबेदार	भूप सिंह यादव	01.06.2010
341	जेसी260349एल	सुबेदार	भूतेशवर दाश	01.05.2010
342	जेसी262364वाइ	सुबेदार	बिजेंद्र प्रसाद गिरि	01.08.2010
343	जेसी255139पी	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.07.2010
344	जेसी267642एल	सुबेदार	बिपिन सिंह	01.02.2010
345	जेसी264551डब्ल्यू	सुबेदार	बिप्लब भट्टाचारजी	01.04.2010
346	जेसी264001एन	सुबेदार	बीर सिंह	01.04.2010
347	जेसी265096एल	सुबेदार	बीर सिंह	01.07.2010
348	जेसी266770डब्ल्यू	सुबेदार	बीर सिंह	01.03.2010
349	जेसी269245एल	सुबेदार	बीरेंद्र सिंह बिष्ट	01.06.2010
350	जेसी269583एच	सुबेदार	बिरेन्द्रा नाथ घोष	01.07.2010
351	जेसी267247एक्स	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
352	जेसी266994डब्ल्यू	सुबेदार	बिशम्बर सिंह राना	01.04.2010
353	जेसी267515डब्ल्यू	सुबेदार	बोध राज	01.04.2010
354	जेसी261232वाइ	सुबेदार	ब्रम चन्द	01.04.2010

355	जेसी260257वाइ	सुबेदार	ब्रज मोहन	01.04.2010
356	जेसी261781वाइ	सुबेदार	बुद्धि नाथ झा	01.05.2010
357	जेसी262877एन	सुबेदार	सी नारायना रेडी	01.06.2010
358	जेसी265561एम	सुबेदार	सी रमा कृष्णन	01.06.2010
359	जेसी269593एम	सुबेदार	चमकौर सिंह	01.04.2010
360	जेसी263707डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा भान	01.03.2010
361	जेसी265535एल	सुबेदार	चंद्रा भान यादव	01.02.2010
362	जेसी265695एल	सुबेदार	चंद्रा शेखर मिश्रा	01.04.2010
363	जेसी260759एफ	सुबेदार	चान्द्राहास सिंघा	01.04.2010
364	जेसी262072ए	सुबेदार	चत्तर सिंह	01.05.2010
365	जेसी265037वाइ	सुबेदार	छोब सिंह	01.02.2010
366	जेसी266219वाइ	सुबेदार	चुनी लाल	01.07.2010
367	जेसी268681डब्ल्यू	सुबेदार	डी. शण्मुगमै.	01.04.2010
368	जेसी266540एच	सुबेदार	दल बहादुर छेर्ते	01.08.2010
369	जेसी266767डब्ल्यू	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.04.2010
370	जेसी266461एन	सुबेदार	दलीप सिंह	01.07.2010
371	जेसी264318एच	सुबेदार	दलीप कुमार	01.05.2010
372	जेसी266560डब्ल्यू	सुबेदार	दलीप कुमार मंगल	01.04.2010
373	जेसी260973के	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.07.2010
374	जेसी259893ए	सुबेदार	दया नन्द	01.05.2010
375	जेसी257361एफ	सुबेदार	दया राम	01.08.2010
376	जेसी267648एम	सुबेदार	दया राम	01.02.2010
377	जेसी259436एम	सुबेदार	देयोकरण सिंह	01.07.2010
378	जेसी264817एक्स	सुबेदार	देसे दिलीप सिन्हा सरखाराम	01.02.2010
379	जेसी262397के	सुबेदार	देव राज	01.02.2010
380	जेसी269822एम	सुबेदार	देवेंदर कुमार	01.06.2010
381	जेसी260689एन	सुबेदार	देवेन्द्र बहादुर सिंह	01.07.2010
382	जेसी266676एम	सुबेदार	देवी सिंह	01.07.2010
383	जेसी269439एन	सुबेदार	देविन्द्र सिंह	01.04.2010
384	जेसी267514एन	सुबेदार	धनेश कुमार त्यागी	01.02.2010
385	जेसी267437के	सुबेदार	धर्म लाल सिंह	01.07.2010
386	जेसी263861पी	सुबेदार	धरनी धर डेका	01.03.2010
387	जेसी257688ए	सुबेदार	धर्मेश्वर सी	01.04.2010
388	जेसी259930एच	सुबेदार	दिल बहादुर सिंह	01.08.2010
389	जेसी265291एच	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.03.2010
390	जेसी267419एफ	सुबेदार	दिलीप कुमार भौमिक	01.02.2010
391	जेसी262710के	सुबेदार	दिलीप सालुंखे	01.06.2010
392	जेसी259223वाइ	सुबेदार	दीना नाथ	01.05.2010
393	जेसी265562पी	सुबेदार	दिनेश चंद्रा शर्मा	01.08.2010
394	जेसी267594डब्ल्यू	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.07.2010

395	जेसी268133वाइ	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.05.2010
396	जेसी263915एल	सुबेदार	फ्रांसेस अरुल धनपाल एस	01.07.2010
397	जेसी264986वाइ	सुबेदार	जी. वरगिस	01.02.2010
398	जेसी268390डब्ल्यू	सुबेदार	गाधव वसंत सखाराम	01.07.2010
399	जेसी265290ए	सुबेदार	गगन चंद्रा दास	01.02.2010
400	जेसी267205एल	सुबेदार	गंगा प्रसाद	01.03.2010
401	जेसी266107वाइ	सुबेदार	गर्जामन राय	01.03.2010
402	जेसी266670एल	सुबेदार	गोरी शंकर राय	01.02.2010
403	जेसी267255डब्ल्यू	सुबेदार	घना कांता गयारी	01.04.2010
404	जेसी267575एल	सुबेदार	गिरीश चंद्रा	01.06.2010
405	जेसी264491एम	सुबेदार	गोकुल सिंह शेखावत	01.07.2010
406	जेसी259514वाइ	सुबेदार	गोलपा चंद्रा नाइक	01.02.2010
407	जेसी263934डब्ल्यू	सुबेदार	गोवर्धन प्रसाद	01.07.2010
408	जेसी266836एफ	सुबेदार	गुलाब सिंह राठौर	01.04.2010
409	जेसी265960डब्ल्यू	सुबेदार	गुरबचन सिंह	01.06.2010
410	जेसी264645एन	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.04.2010
411	जेसी268060एक्स	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.04.2010
412	जेसी269759एच	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.07.2010
413	जेसी260377एक्स	सुबेदार	गुरमेज सिंह	01.04.2010
414	जेसी269334के	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.05.2010
415	जेसी264549वाइ	सुबेदार	हंस राज वर्मा	01.04.2010
416	जेसी266534पी	सुबेदार	हन्साराज जाट	01.02.2010
417	जेसी267612एन	सुबेदार	हर चन्द	01.03.2010
418	जेसी267812के	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.07.2010
419	जेसी265610के	सुबेदार	हरबीर सिंह	01.07.2010
420	जेसी267645वाइ	सुबेदार	हरबीर सिंह यादव	01.06.2010
421	जेसी260025ए	सुबेदार	हरी दास कच्छी	01.03.2010
422	जेसी265831डब्ल्यू	सुबेदार	हरी किशन	01.03.2010
423	जेसी264140एक्स	सुबेदार	हरी नंदन शर्मा	01.07.2010
424	जेसी266346एन	सुबेदार	हरी नारायनन वी	01.08.2010
425	जेसी263413एच	सुबेदार	हरी नाथ सिंह	01.04.2010
426	जेसी267504के	सुबेदार	हरी सिंह यादव	01.08.2010
427	जेसी266637एन	सुबेदार	हरीश चंद्र	01.05.2010
428	जेसी266722डब्ल्यू	सुबेदार	हरनाम सिंह राना	01.02.2010
429	जेसी266110वाइ	सुबेदार	हज़रत अली अहमद	01.04.2010
430	जेसी268463एक्स	सुबेदार	हेत राम बिश्नोई	01.04.2010
431	जेसी267233एक्स	सुबेदार	हिमल सिंह	01.03.2010
432	जेसी266884एफ	सुबेदार	हुबलाल तिवारी	01.07.2010
433	जेसी266179एच	सुबेदार	इंद्र प्रकाश	01.02.2010
434	जेसी266175एम	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.05.2010



435	जेसी268585एफ	सुबेदार	इन्द्रा पाल	01.04.2010
436	जेसी266899के	सुबेदार	इकबाल सिंह	01.07.2010
437	जेसी269118डब्ल्यू	सुबेदार	इराप्पा वान्नूर	01.07.2010
438	जेसी265497ए	सुबेदार	इश्वर	01.07.2010
439	जेसी259159एम	सुबेदार	इश्वर चंद्रा यादव	01.02.2010
440	जेसी263658वाइ	सुबेदार	इश्वर दास शर्मा	01.04.2010
441	जेसी267243एफ	सुबेदार	जगभान सिंह	01.07.2010
442	जेसी265847एफ	सुबेदार	जगदेव	01.07.2010
443	जेसी267119ए	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.07.2010
444	जेसी264942एफ	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.07.2010
445	जेसी266957एच	सुबेदार	जागीर सिंह	01.06.2010
446	जेसी268213डब्ल्यू	सुबेदार	जगजीतन ठाकुर	01.04.2010
447	जेसी267500एन	सुबेदार	जगरूप सिंह	01.07.2010
448	जेसी266788एम	सुबेदार	जगतार सिंह	01.04.2010
449	जेसी268080एल	सुबेदार	जगतार सिंह	01.08.2010
450	जेसी267907के	सुबेदार	जय करन बाबू	01.04.2010
451	जेसी269029एक्स	सुबेदार	जय किशोर झा	01.04.2010
452	जेसी255299एफ	सुबेदार	जय लाल	01.04.2010
453	जेसी266345एल	सुबेदार	जय सिंह	01.04.2010
454	जेसी268808एन	सुबेदार	जय सिंह	01.04.2010
455	जेसी268729वाइ	सुबेदार	जंगली राम	01.04.2010
456	जेसी266061एफ	सुबेदार	जानकर सिंह	01.02.2010
457	जेसी266233एल	सुबेदार	जसवंत सिंह यादव	01.02.2010
458	जेसी268494एक्स	सुबेदार	जयराम प्रधान	01.04.2010
459	जेसी266810एम	सुबेदार	जयपाल यादव	01.06.2010
460	जेसी264967एन	सुबेदार	जीत सिंह	01.04.2010
461	जेसी268076एच	सुबेदार	जीत सिंह	01.08.2010
462	जेसी267141एल	सुबेदार	जोगिंदर नाथ	01.07.2010
463	जेसी262713एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2010
464	जेसी269356एच	सुबेदार	के महारुब शा	01.08.2010
465	जेसी266742के	सुबेदार	कालिका प्रसाद यादव	01.04.2010
466	जेसी266703एल	सुबेदार	काला महा लक्ष्मी	01.08.2010
467	जेसी266194एक्स	सुबेदार	कल्लप्पा धामनेकर	01.05.2010
468	जेसी270053ए	सुबेदार	कल्याण सिंह	01.05.2010
469	जेसी260457पी	सुबेदार	कमलेश चंद्रा शुक्ला	01.04.2010
470	जेसी265484एच	सुबेदार	कांशी राम सुमन	01.04.2010
471	जेसी258183डब्ल्यू	सुबेदार	कंवर सिंह	01.05.2010
472	जेसी268043एक्स	सुबेदार	करन सिंह	01.06.2010
473	जेसी268658एच	सुबेदार	कृज सिंह	01.05.2010
474	जेसी267230के	सुबेदार	करतार चन्द	01.06.2010

475	जेसी265435ए	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.04.2010
476	जेसी266245ए	सुबेदार	कोशलेन्द्र सिंह चौहान	01.05.2010
477	जेसी265459के	सुबेदार	खान्दे बी के बाबूराव	01.04.2010
478	जेसी269044एम	सुबेदार	खेम राज	01.07.2010
479	जेसी267630डब्ल्यू	सुबेदार	खेम सिंह	01.08.2010
480	जेसी265984ए	सुबेदार	खोट सुकदेव दशरथ	01.04.2010
481	जेसी267123एच	सुबेदार	कृष्णापाल सिंह	01.07.2010
482	जेसी267135एक्स	सुबेदार	कृष्णन लाल	01.08.2010
483	जेसी267371वाइ	सुबेदार	कृष्णन सिंह	01.06.2010
484	जेसी267160डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णाराओ पुन्दलिकराव शिंदे	01.05.2010
485	जेसी264615डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा पिल्लई पी सी	01.04.2010
486	जेसी263988एक्स	सुबेदार	कृष्णा सिंह पाल	01.06.2010
487	जेसी266404एम	सुबेदार	कृष्णन ए	01.03.2010
488	जेसी263144एफ	सुबेदार	कृष्णन कुट्टी नायर बी	01.04.2010
489	जेसी266497एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.07.2010
490	जेसी264572एम	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.02.2010
491	जेसी268148एफ	सुबेदार	कुमार शिर्के प्रताप शंकर राव	01.02.2010
492	जेसी263886एफ	सुबेदार	कुंदन लाल	01.04.2010
493	जेसी266183एल	सुबेदार	कुन्जो बिहारी सिंघा	01.07.2010
494	जेसी268280एफ	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.07.2010
495	जेसी267576एन	सुबेदार	लाल चन्द	01.07.2010
496	जेसी268066वाइ	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.04.2010
497	जेसी266909एच	सुबेदार	लक्ष्मी नारायण	01.02.2010
498	जेसी267237एन	सुबेदार	लिला कांता नाथ	01.05.2010
499	जेसी260549एफ	सुबेदार	लिला किशन	01.03.2010
500	जेसी267954एफ	सुबेदार	लिलाधार	01.06.2010
501	जेसी267979एन	सुबेदार	लोहीथाकशन सी के	01.05.2010
502	जेसी265996पी	सुबेदार	एम अन्नामलाई	01.08.2010
503	जेसी266612एफ	सुबेदार	एम के प्रदीप कुमार	01.03.2010
504	जेसी265968एच	सुबेदार	एम कालिदास	01.06.2010
505	जेसी268589एक्स	सुबेदार	एम पाकीरी सामी	01.05.2010
506	जेसी264474एम	सुबेदार	एम रमा मूर्ती	01.06.2010
507	जेसी267545एन	सुबेदार	मदन लाल	01.08.2010
508	जेसी268563एच	सुबेदार	मदन लाल	01.06.2010
509	जेसी256476एच	सुबेदार	मदन पाल सिंह	01.02.2010
510	जेसी266570ए	सुबेदार	मदप्पा पी एस	01.06.2010
511	जेसी264361के	सुबेदार	माधो सिंह राजपुरोहित	01.07.2010
512	जेसी265704एफ	सुबेदार	महाबीर शर्मा	01.03.2010
513	जेसी266012वाइ	सुबेदार	महादेव पाटिल	01.07.2010
514	जेसी263790वाइ	सुबेदार	महादेव तुकाराम जगदाले	01.04.2010

515	जेसी266457एल	सुबेदार	महावीर सिंह	01.03.2010
516	जेसी270049एक्स	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.08.2010
517	जेसी265708एक्स	सुबेदार	महेंद्र नाथ राय	01.03.2010
518	जेसी265369एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.04.2010
519	जेसी265992वाइ	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.04.2010
520	जेसी266305के	सुबेदार	मनाई राम	01.06.2010
521	जेसी267836एन	सुबेदार	माने मुरलीधर भानुदास	01.07.2010
522	जेसी269434पी	सुबेदार	मनी नारायण प्रधान	01.08.2010
523	जेसी262209एक्स	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.07.2010
524	जेसी267390के	सुबेदार	मानकर वासूदेव रामजी	01.08.2010
525	जेसी268883एक्स	सुबेदार	मनोहर लाल	01.08.2010
526	जेसी261966ए	सुबेदार	मनोहर प्रसाद सिंह	01.07.2010
527	जेसी266707एफ	सुबेदार	मिलाप चन्द	01.06.2010
528	जेसी265287ए	सुबेदार	मिलाप सिंह	01.06.2010
529	जेसी265730एच	सुबेदार	मिथलेश कुमार यादव	01.02.2010
530	जेसी267512एच	सुबेदार	मिथलेश कुमार यागिक	01.07.2010
531	जेसी262870के	सुबेदार	मिथलेश सिंह	01.02.2010
532	जेसी266132एक्स	सुबेदार	मोहन लाल	01.08.2010
533	जेसी268759डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन लाल मीना	01.04.2010
534	जेसी260363एक्स	सुबेदार	मोहन सिंह	01.02.2010
535	जेसी267082के	सुबेदार	मोहम्मद सामी	01.06.2010
536	जेसी264999डब्ल्यू	सुबेदार	मोहेश्वर कोनवर	01.04.2010
537	जेसी264681वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2010
538	जेसी267830एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.06.2010
539	जेसी267759के	सुबेदार	मुंशी खान	01.04.2010
540	जेसी268855एल	सुबेदार	मुरलीधरन ए	01.04.2010
541	जेसी268661एच	सुबेदार	मुसाफिर राम	01.03.2010
542	जेसी257294एफ	सुबेदार	मुतची गोपाल राव	01.03.2010
543	जेसी266295एल	सुबेदार	एन गोपाल स्वामी	01.08.2010
544	जेसी267443एक्स	सुबेदार	एन सिवानन्दम	01.04.2010
545	जेसी266959एन	सुबेदार	नफे सिंह	01.07.2010
546	जेसी265080ए	सुबेदार	नागेश सिंह	01.04.2010
547	जेसी268301एम	सुबेदार	नायब सिंह	01.05.2010
548	जेसी267940एफ	सुबेदार	नकुल चंद्रा घोष	01.04.2010
549	जेसी267189वाइ	सुबेदार	नार सिंह	01.07.2010
550	जेसी266462डब्ल्यू	सुबेदार	नारायन सिंह	01.02.2010
551	जेसी266601पी	सुबेदार	नारायनन के	01.04.2010
552	जेसी269252एफ	सुबेदार	नरेन्द्रा प्रसाद तिवारी	01.08.2010
553	जेसी261200डब्ल्यू	सुबेदार	नरेश कुमार	01.05.2010
554	जेसी267615एफ	सुबेदार	नरेश कुमार	01.08.2010

555	जेसी266559एफ	सुबेदार	नरेश सिंह	01.04.2010
556	जेसी267900ए	सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.03.2010
557	जेसी268748के	सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.04.2010
558	जेसी265920पी	सुबेदार	नवाब सिंह	01.08.2010
559	जेसी265018एन	सुबेदार	निहाल सिंह	01.07.2010
560	जेसी263195पी	सुबेदार	निरबीर सिंह	01.03.2010
561	जेसी263730के	सुबेदार	निर्मल हाजरा	01.04.2010
562	जेसी266141वाइ	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.07.2010
563	जेसी266748एल	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.06.2010
564	जेसी264949एल	सुबेदार	निशान सिंह	01.06.2010
565	जेसी267919वाइ	सुबेदार	नूकारापू सन्धासी नायडू	01.04.2010
566	जेसी268011पी	सुबेदार	नूरुल हुक लश्कर	01.07.2010
567	जेसी261532ए	सुबेदार	ओम दत्ता	01.08.2010
568	जेसी263885वाइ	सुबेदार	ओम नाथ	01.04.2010
569	जेसी264035एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2010
570	जेसी266709एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.08.2010
571	जेसी262379एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश पांडे	01.02.2010
572	जेसी264137एक्स	सुबेदार	पी गणेशन	01.08.2010
573	जेसी268807एल	सुबेदार	पी कसीविस्वानाधम	01.05.2010
574	जेसी266995वाइ	सुबेदार	पी मरियप्पन	01.04.2010
575	जेसी266349एफ	सुबेदार	पी मोहानन	01.03.2010
576	जेसी265692एक्स	सुबेदार	पी रंगा सामी	01.02.2010
577	जेसी265358डब्ल्यू	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.05.2010
578	जेसी268967एल	सुबेदार	परमा नन्द	01.04.2010
579	जेसी267753एच	सुबेदार	परनाम सिंह	01.04.2010
580	जेसी268860डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप चन्द	01.08.2010
581	जेसी264735पी	सुबेदार	पवार, देवीदास धोन्दीराम	01.07.2010
582	जेसी266853एफ	सुबेदार	पीएन वेलू	01.06.2010
583	जेसी266533एम	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार एस	01.05.2010
584	जेसी266032एम	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.03.2010
585	जेसी266744पी	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह	01.04.2010
586	जेसी267384डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम सिंह राना	01.04.2010
587	जेसी264653एम	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.04.2010
588	जेसी267295एक्स	सुबेदार	पूरन चन्द	01.08.2010
589	जेसी261253पी	सुबेदार	पूरन चंद्रा	01.03.2010
590	जेसी266998एम	सुबेदार	पूरन सिंह	01.06.2010
591	जेसी259552पी	सुबेदार	आर बाला कृष्णन	01.02.2010
592	जेसी266347डब्ल्यू	सुबेदार	आर विकटर येसुदसन	01.02.2010
593	जेसी268663एन	सुबेदार	राधा कृष्णान नायर	01.04.2010
594	जेसी268078एन	सुबेदार	राधाकृष्ण वी	01.07.2010

595	जेसी149768एन	सुबेदार	राधे श्याम पाठक	01.03.2010
596	जेसी265518एल	सुबेदार	राधे श्याम शर्मा	01.07.2010
597	जेसी268858एक्स	सुबेदार	राज हर्ष	01.04.2010
598	जेसी265155एम	सुबेदार	राज करन यादव	01.06.2010
599	जेसी264550एन	सुबेदार	राज कुमार	01.04.2010
600	जेसी266070एच	सुबेदार	राज कुमार	01.04.2010
601	जेसी267520एफ	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.04.2010
602	जेसी266313एच	सुबेदार	राज नाथ तिवारी	01.07.2010
603	जेसी265253एम	सुबेदार	राजा राम यादव	01.02.2010
604	जेसी265278वाइ	सुबेदार	राजप्पन सी आर	01.05.2010
605	जेसी257324एन	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.04.2010
606	जेसी265093एक्स	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद यादव	01.03.2010
607	जेसी261514एफ	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.08.2010
608	जेसी265646एच	सुबेदार	राजेन्द्रन प्रिल्लई एम आर	01.04.2010
609	जेसी266185डब्ल्यू	सुबेदार	राजेश कुमार	01.04.2010
610	जेसी268260एन	सुबेदार	राजिन्दर कुमार	01.04.2010
611	जेसी267929एच	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.03.2010
612	जेसी262911एच	सुबेदार	राजपाल सिंह भादौरिया	01.04.2010
613	जेसी268571एफ	सुबेदार	राकेश कुमार	01.04.2010
614	जेसी268158एल	सुबेदार	राकेश कुमार उपाध्याय	01.02.2010
615	जेसी269154एफ	सुबेदार	राकेश पांडे	01.04.2010
616	जेसी265156पी	सुबेदार	राम अवतार सिंह	01.07.2010
617	जेसी261408वाइ	सुबेदार	राम बहादुर	01.06.2010
618	जेसी263929एल	सुबेदार	राम करन	01.04.2010
619	जेसी265861एन	सुबेदार	राम किशन	01.07.2010
620	जेसी266855एम	सुबेदार	राम किशन	01.04.2010
621	जेसी266126के	सुबेदार	राम नंदन कनोजिया	01.04.2010
622	जेसी269996एम	सुबेदार	राम नाथ	01.08.2010
623	जेसी263967एफ	सुबेदार	राम निवास	01.07.2010
624	जेसी266031के	सुबेदार	राम निवास	01.03.2010
625	जेसी268527एक्स	सुबेदार	राम निवास सिंह	01.04.2010
626	जेसी266581एम	सुबेदार	राम फल	01.04.2010
627	जेसी268576ए	सुबेदार	राम सेवक	01.07.2010
628	जेसी263308एम	सुबेदार	राम सिंह	01.08.2010
629	जेसी262881डब्ल्यू	सुबेदार	रमाकांत राम	01.07.2010
630	जेसी266173एफ	सुबेदार	रामेहर सिंह मलिक	01.04.2010
631	जेसी263993एच	सुबेदार	रमेश चन्द चौधरी	01.02.2010
632	जेसी264968डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चन्द ठाकुर	01.03.2010
633	जेसी267656एल	सुबेदार	रमेश कुमार	01.08.2010
634	जेसी263480एन	सुबेदार	रमिंद्र सिंह	01.08.2010

635	जेसी266257पी	सुबेदार	रामवीर सिंह	01.04.2010
636	जेसी260390एफ	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.07.2010
637	जेसी263610एल	सुबेदार	रणधीर सिंह यादव	01.04.2010
638	जेसी267253एल	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2010
639	जेसी263598पी	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2010
640	जेसी268607पी	सुबेदार	राश पाल सिंह	01.04.2010
641	जेसी267883एल	सुबेदार	रतन राम	01.08.2010
642	जेसी266549एक्स	सुबेदार	रवि शंकर मिश्रा	01.03.2010
643	जेसी269237एम	सुबेदार	रविन्द्रन विके	01.04.2010
644	जेसी266983के	सुबेदार	ऋषि केश	01.04.2010
645	जेसी257260एन	सुबेदार	ऋषि पाल सिंह	01.04.2010
646	जेसी266451के	सुबेदार	रोहिताश यादव	01.07.2010
647	जेसी262729एच	सुबेदार	राहिताश्व यादव	01.04.2010
648	जेसी267912पी	सुबेदार	रोमेश लाल शर्मा	01.07.2010
649	जेसी266964वाइ	सुबेदार	रूप चन्द यादव	01.07.2010
650	जेसी269708पी	सुबेदार	रूप लाल	01.04.2010
651	जेसी266247एल	सुबेदार	रोशन लाल	01.03.2010
652	जेसी268014एच	सुबेदार	एस एंथोनी कुरुज	01.07.2010
653	जेसी266557एन	सुबेदार	सच्चिदानंद पांडे	01.06.2010
654	जेसी266572एल	सुबेदार	साधु राम	01.04.2010
655	जेसी268332एम	सुबेदार	संग्राम सिंह	01.07.2010
656	जेसी266745एक्स	सुबेदार	संकरन के	01.07.2010
657	जेसी261882एम	सुबेदार	संतोष कुमार सिंह	01.08.2010
658	जेसी260255एन	सुबेदार	संतोष कुमार त्यागी	01.05.2010
659	जेसी266822एफ	सुबेदार	सरदार सिंह शेखावत	01.07.2010
660	जेसी266062के	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.03.2010
661	जेसी267162एफ	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.08.2010
662	जेसी267104एक्स	सुबेदार	संतपाल सिंह	01.08.2010
663	जेसी267408पी	सुबेदार	सत्य नाथ भूमीज	01.08.2010
664	जेसी267586एक्स	सुबेदार	शेक महाबू सुभानी	01.04.2010
665	जेसी267911एम	सुबेदार	शाजी पी के	01.07.2010
666	जेसी263709एफ	सुबेदार	शशि पाल भंगालिया	01.05.2010
667	जेसी266262ए	सुबेदार	शीश राम	01.02.2010
668	जेसी261785पी	सुबेदार	शियो मुनि द्विवेदी	01.07.2010
669	जेसी268183के	सुबेदार	शिरोमणि सिंह	01.04.2010
670	जेसी263532वाइ	सुबेदार	शिव बहादुर	01.04.2010
671	जेसी263860एम	सुबेदार	शिव चरण सिंह	01.03.2010
672	जेसी268634वाइ	सुबेदार	शिव कुमार चतुर्वेदी	01.07.2010
673	जेसी269085डब्ल्यू	सुबेदार	शिव नारायण सिंह	01.04.2010
674	जेसी267522एम	सुबेदार	शिव राज सिंह	01.03.2010

675	जेसी262446एफ	सुबेदार	शिव शंकर भारद्वाज	01.05.2010
676	जेसी260300पी	सुबेदार	शिवभान सिंह	01.02.2010
677	जेसी268659एल	सुबेदार	शिवनाथ सिंह	01.04.2010
678	जेसी268884ए	सुबेदार	शियोरामा राम	01.06.2010
679	जेसी267725डब्ल्यू	सुबेदार	श्री भगवान यादव	01.05.2010
680	जेसी266658के	सुबेदार	श्री केवल सिंह यादव	01.07.2010
681	जेसी266692के	सुबेदार	सिद्धाविरप्पा	01.04.2010
682	जेसी262934के	सुबेदार	सिद्ध नाथ दुबे	01.03.2010
683	जेसी264559एच	सुबेदार	साइमन पी पी	01.08.2010
684	जेसी269414एफ	सुबेदार	शिवदासन सी	01.04.2010
685	जेसी266640एन	सुबेदार	सोबरन सिंह	01.03.2010
686	जेसी267047एफ	सुबेदार	सोहन सिंह राठौर	01.03.2010
687	जेसी267231एम	सुबेदार	सोमन के	01.08.2010
688	जेसी265715एन	सुबेदार	सोमन पी के	01.04.2010
689	जेसी268291एन	सुबेदार	सामराज सिंह	01.02.2010
690	जेसी265735एफ	सुबेदार	सुब्बे गोड	01.04.2010
691	जेसी266930एल	सुबेदार	सूबे सिंह	01.07.2010
692	जेसी264724एच	सुबेदार	सुख राम सिंह	01.06.2010
693	जेसी265099वाइ	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.03.2010
694	जेसी267086ए	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.06.2010
695	जेसी268859एफ	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.04.2010
696	जेसी262543वाइ	सुबेदार	सुकुमार सरकार	01.07.2010
697	जेसी267555एल	सुबेदार	सुलखान सिंह	01.06.2010
698	जेसी266390एक्स	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.03.2010
699	जेसी262193एक्स	सुबेदार	सुमित नारायण	01.03.2010
700	जेसी268603वाइ	सुबेदार	सुनील कुमार	01.05.2010
701	जेसी263059वाइ	सुबेदार	सुनीत चन्द मन्हास	01.04.2010
702	जेसी268270एक्स	सुबेदार	सुरा गुरुवा रेडी	01.06.2010
703	जेसी264751एम	सुबेदार	सूरज मल	01.04.2010
704	जेसी264108एच	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2010
705	जेसी262738के	सुबेदार	सुरेन्द्रा पाल सिंह	01.04.2010
706	जेसी261894एफ	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.04.2010
707	जेसी266432वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.02.2010
708	जेसी829012वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार आर	01.04.2010
709	जेसी266380एन	सुबेदार	सुरजन सिंह	01.04.2010
710	जेसी265301एफ	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.06.2010
711	जेसी269005एन	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.04.2010
712	जेसी266176पी	सुबेदार	सूर्या कुमार	01.02.2010
713	जेसी268735एम	सुबेदार	सुशील चंद्र शर्मा	01.02.2010
714	जेसी261217के	सुबेदार	सुशील कुमार अवस्थी	01.04.2010

715	जेसी270498एम	सुबेदार	सुशील कुमार सिंह	01.04.2010
716	जेसी265331वाइ	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.07.2010
717	जेसी257976एम	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.06.2010
718	जेसी265998ए	सुबेदार	तारा दास गांगुली	01.06.2010
719	जेसी267566के	सुबेदार	थोमाचन वी जे	01.08.2010
720	जेसी266108एफ	सुबेदार	त्रिलोक भारद्वाज	01.03.2010
721	जेसी269164एल	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	01.05.2010
722	जेसी265693ए	सुबेदार	तुलसी दास रेना	01.03.2010
723	जेसी264907वाइ	सुबेदार	टीयूएन टीयूएन मिश्रा	01.03.2010
724	जेसी269326एल	सुबेदार	उदय चन्द्र	01.04.2010
725	जेसी259949एफ	सुबेदार	उमा कांत	01.03.2010
726	जेसी267472एम	सुबेदार	उमा शंकर प्रसाद	01.07.2010
727	जेसी264779एम	सुबेदार	उमेश शर्मा	01.02.2010
728	जेसी267138एल	सुबेदार	उन्नी कृष्णन के	01.04.2010
729	जेसी268352ए	सुबेदार	उन्नीकनन्न टी के	01.04.2010
730	जेसी265956एन	सुबेदार	उन्नीर्कशन्न के के	01.04.2010
731	जेसी267697पी	सुबेदार	वी दुरई स्वामी	01.07.2010
732	जेसी266100पी	सुबेदार	वजीर सिंह	01.06.2010
733	जेसी263865एल	सुबेदार	वासुदेवन एन	01.04.2010
734	जेसी267376एक्स	सुबेदार	वावाचन बी	01.07.2010
735	जेसी268283पी	सुबेदार	वेंकटेश्वर राव वी	01.04.2010
736	जेसी269855एक्स	सुबेदार	वेनुगोपाल एस	01.04.2010
737	जेसी265637एफ	सुबेदार	विजय शंकर मिश्रा	01.03.2010
738	जेसी268730एन	सुबेदार	विजय सिंह	01.07.2010
739	जेसी265888एल	सुबेदार	विनसेट एम	01.02.2010
740	जेसी269114ए	सुबेदार	वीर पाल	01.07.2010
741	जेसी265934पी	सुबेदार	वीरेंद्र पाल सिंह	01.02.2010
742	जेसी268689एल	सुबेदार	वीरेंद्र प्रसाद राय	01.06.2010
743	जेसी268536वाइ	सुबेदार	वी सूर्यनारायण	01.05.2010
744	जेसी267329ए	सुबेदार	विरपाल सिंह	01.02.2010
745	जेसी260402एल	सुबेदार	विस्वनाथन एम पी	01.02.2010
746	जेसी266462के	सुबेदार	वजीर सिंह	01.04.2010
747	जेसी267766ए	सुबेदार	यादव जलिनंदर पार्वती	01.07.2010
748	जेसी266216एल	सुबेदार	यज्ञा दत्त	01.04.2010
749	जेसी264242एन	सुबेदार	यलप्पा कमातागी	01.07.2010
750	जेसी265065एल	सुबेदार	यतिन्द्र नाथ	01.03.2010
<b>सेना वायू सुरक्षा</b>				
751	जेसी298406एल	सुबेदार	ए वेंकटेश्वर रेडी	01.04.2010
752	जेसी298255एक्स	सुबेदार	अजीत सिंह	01.07.2010



753	जेसी298466ए	सुबेदार	आनंद पेरकाश सिंह मलिक	01.08.2010
754	जेसी297257डब्ल्यू	सुबेदार	आनंद सिंह मलिक	01.05.2010
755	जेसी298311एल	सुबेदार	आनंद स्वरूप गर्ग	01.07.2010
756	जेसी298280डब्ल्यू	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.04.2010
757	जेसी299137डब्ल्यू	सुबेदार	अरुण कुमार तिवारी	01.05.2010
758	जेसी298173पी	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2010
759	जेसी297050डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार घोष	01.05.2010
760	जेसी298028एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार नैन	01.04.2010
761	जेसी298037वाइ	सुबेदार	अशोकन के	01.05.2010
762	जेसी296278ए	सुबेदार	बख्शी राम	01.02.2010
763	जेसी298438एन	सुबेदार	बलविन्दर कुमार	01.04.2010
764	जेसी297136पी	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.07.2010
765	जेसी296604एक्स	सुबेदार	बनशीदर यादव	01.07.2010
766	जेसी298185के	सुबेदार	बासदेव शर्मा	01.08.2010
767	जेसी297721पी	सुबेदार	बीर सिंह	01.08.2010
768	जेसी298713एच	सुबेदार	बी राम यादव	01.06.2010
769	जेसी297910वाइ	सुबेदार	भूप सिंह	01.03.2010
770	जेसी298982पी	सुबेदार	भुपेन्द्र नाथ सिंह	01.06.2010
771	जेसी299131पी	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.07.2010
772	जेसी299157के	सुबेदार	ब्रम देव प्रसाद सिंह	01.02.2010
773	जेसी299230एक्स	सुबेदार	ब्रिजेश कुमार	01.08.2010
774	जेसी299210के	सुबेदार	बुद्धि प्रकाश वर्मा	01.04.2010
775	जेसी298842एच	सुबेदार	बुध सिंह	01.06.2010
776	जेसी298864एफ	सुबेदार	सी एम विष्णु	01.04.2010
777	जेसी298781डब्ल्यू	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.04.2010
778	जेसी297900पी	सुबेदार	चंद्राजीत राम	01.07.2010
779	जेसी296100के	सुबेदार	चिरंजी लाल	01.06.2010
780	जेसी297031एल	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.07.2010
781	जेसी299329एन	सुबेदार	दलीप सिंह	01.08.2010
782	जेसी298608एम	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.07.2010
783	जेसी299381डब्ल्यू	सुबेदार	दसरथ सिंह यादव	01.04.2010
784	जेसी298509के	सुबेदार	देवेंद्र सिंह	01.07.2010
785	जेसी299836एफ	सुबेदार	धीरेंद्र कुमार सिंह	01.06.2010
786	जेसी297623पी	सुबेदार	धूम सिंह	01.07.2010
787	जेसी297037एम	सुबेदार	दिनेश सिंह	01.06.2010
788	जेसी256337वाइ	सुबेदार	दिनेश सिंह रावत	01.08.2010
789	जेसी298333के	सुबेदार	दिवाकरण पीएस	01.07.2010
790	जेसी298616एल	सुबेदार	ऐशावन्त	01.08.2010
791	जेसी298314वाइ	सुबेदार	जी. एलांगुवान	01.04.2010
792	जेसी298721एफ	सुबेदार	गजानन्दा एकजीरासागर	01.07.2010

793	जेसी297629डब्ल्यू सुबेदार	गणेशन एस	01.07.2010
794	जेसी297486एफ सुबेदार	गंगा राम	01.02.2010
795	जेसी298968एच सुबेदार	गंगाधर मोवर	01.04.2010
796	जेसी297394पी सुबेदार	घनशाम	01.07.2010
797	जेसी298374एन सुबेदार	घनशाम लाल मीना	01.08.2010
798	जेसी297732एफ सुबेदार	गोपी नाथन के एस	01.03.2010
799	जेसी297618के सुबेदार	हरक सिंह शाह	01.04.2010
800	जेसी297297एक्स सुबेदार	हरी सिंह	01.05.2010
801	जेसी298252के सुबेदार	हरी सिंह	01.03.2010
802	जेसी297733के सुबेदार	हेम राज	01.04.2010
803	जेसी298298एम सुबेदार	हिम्मत् सिंह	01.04.2010
804	जेसी297529एल सुबेदार	इंद्र सैन	01.08.2010
805	जेसी215375ए सुबेदार	इश्वर दास	01.04.2010
806	जेसी298662ए सुबेदार	जाधव तानाजी चिमनराव	01.07.2010
807	जेसी297953एन सुबेदार	जगदीश राज	01.07.2010
808	जेसी298836पी सुबेदार	जेम्स कुट्टी वी वी	01.07.2010
809	जेसी299067एच सुबेदार	जनक राज	01.04.2010
810	जेसी298403एक्स सुबेदार	जसवंत सिंह	01.07.2010
811	जेसी298304पी सुबेदार	जॉय देव दास	01.04.2010
812	जेसी298358डब्ल्यू सुबेदार	जुगेन्द्र सिंह	01.08.2010
813	जेसी298642एम सुबेदार	के महेन्द्रन	01.08.2010
814	जेसी297751एम सुबेदार	कधारे मगन नागो	01.06.2010
815	जेसी296910एम सुबेदार	कमला नाथन सी	01.07.2010
816	जेसी298225ए सुबेदार	कमलेशवर सिंह	01.07.2010
817	जेसी297784एक्स सुबेदार	कपूर सिंह	01.04.2010
818	जेसी297049एफ सुबेदार	कर्म चन्द	01.04.2010
819	जेसी297773एल सुबेदार	केदार नाथ द्विवेदी	01.07.2010
820	जेसी298629एच सुबेदार	केवल सिंह नारानिया	01.07.2010
821	जेसी256740एल सुबेदार	कीरत पाल	01.04.2010
822	जेसी296088एन सुबेदार	किशोरी लाल	01.06.2010
823	जेसी299152एल सुबेदार	कष्णन लाल	01.08.2010
824	जेसी299339एक्स सुबेदार	लाल सिंह	01.04.2010
825	जेसी296847एच सुबेदार	लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा	01.06.2010
826	जेसी296231पी सुबेदार	मदन लाल	01.06.2010
827	जेसी298139पी सुबेदार	मधु सूदन बेहेरा	01.04.2010
828	जेसी298230एल सुबेदार	महाबीर सिंह	01.04.2010
829	जेसी299141वाइ सुबेदार	महेश साहनी	01.06.2010
830	जेसी296420वाइ सुबेदार	मलप्पा गनचारी	01.07.2010
831	जेसी297952एल सुबेदार	मोहम्मद जाह्द अली	01.08.2010
832	जेसी298558एम सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.07.2010

833	जेसी298285पी	सुबेदार	मोरे भीम राव भाउदू	01.05.2010
834	जेसी297852ए	सुबेदार	मुंधे रामकिशन संदीपन	01.03.2010
835	जेसी298258एल	सुबेदार	नगेन्द्रा सिंह	01.07.2010
836	जेसी298494एम	सुबेदार	नारायण सिंह शर्मा	01.05.2010
837	जेसी299186वाइ	सुबेदार	निरंजन सेकिआ	01.07.2010
838	जेसी297828के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2010
839	जेसी298852एम	सुबेदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.07.2010
840	जेसी298813एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2010
841	जेसी298654एफ	सुबेदार	पी वीराशेखरन	01.02.2010
842	जेसी298776एल	सुबेदार	पटेल बाबू भाई हिराजी	01.05.2010
843	जेसी258884एम	सुबेदार	पवार विलासराव रामचंद्र	01.04.2010
844	जेसी298325एल	सुबेदार	प्रभु	01.04.2010
845	जेसी298353एक्स	सुबेदार	प्रकाश पी बी	01.07.2010
846	जेसी297491एम	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.07.2010
847	जेसी298701एन	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2010
848	जेसी299021ए	सुबेदार	राधा कष्णन	01.08.2010
849	जेसी298860एल	सुबेदार	रघबीर सिंह	01.07.2010
850	जेसी297056एक्स	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.02.2010
851	जेसी298628ए	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.06.2010
852	जेसी297807एन	सुबेदार	राजेन्द्रियन टी	01.06.2010
853	जेसी298693ए	सुबेदार	राजेंद्रा प्रताप सिंह	01.04.2010
854	जेसी297457एम	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.03.2010
855	जेसी298557के	सुबेदार	राजेश कुमार	01.04.2010
856	जेसी297848एक्स	सुबेदार	राजनाथ शर्मा	01.02.2010
857	जेसी296853डब्ल्यू	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.08.2010
858	जेसी299109के	सुबेदार	राकेश बाबू गुप्ता	01.08.2010
859	जेसी298428के	सुबेदार	राम बचन राम	01.04.2010
860	जेसी298589एम	सुबेदार	राम दर्शन राम	01.07.2010
861	जेसी296913ए	सुबेदार	राम दरेश महतो	01.07.2010
862	जेसी296671एच	सुबेदार	राम किशन शर्मा	01.04.2010
863	जेसी298399ए	सुबेदार	राम कुमार	01.07.2010
864	जेसी296460ए	सुबेदार	राम पाल	01.04.2010
865	जेसी297855एन	सुबेदार	राम सूरत	01.06.2010
866	जेसी298355एच	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.07.2010
867	जेसी298524वाइ	सुबेदार	रामदीन राम	01.07.2010
868	जेसी297745वाइ	सुबेदार	रमेश चन्द	01.07.2010
869	जेसी298361डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.07.2010
870	जेसी256733पी	सुबेदार	रमेश चंद्र सिंह	01.07.2010
871	जेसी297321एच	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.07.2010
872	जेसी297811डब्ल्यू	सुबेदार	रामजी राम	01.08.2010

873	जेसी297643एच	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.04.2010
874	जेसी298042के	सुबेदार	रतन लाल	01.07.2010
875	जेसी297678वाइ	सुबेदार	रवीन्द्र मोहन भट्ट	01.08.2010
876	जेसी298744एच	सुबेदार	सदाशिवन चेरिया परमभट्ट	01.07.2010
877	जेसी299074वाइ	सुबेदार	साहब सिंह	01.07.2010
878	जेसी298215डब्ल्यू	सुबेदार	साजन कुमार सिंह	01.04.2010
879	जेसी299533एम	सुबेदार	सम्पथ कुमार के	01.08.2010
880	जेसी298443वाइ	सुबेदार	सतबीर	01.07.2010
881	जेसी299383एफ	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2010
882	जेसी297411के	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.07.2010
883	जेसी298807ए	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.07.2010
884	जेसी299001एम	सुबेदार	शिव नाथ भारती	01.06.2010
885	जेसी298299पी	सुबेदार	श्री नारायण मंडल	01.07.2010
886	जेसी297427पी	सुबेदार	श्री नरिंदर पाल	01.02.2010
887	जेसी298831डब्ल्यू	सुबेदार	श्री सिंह यादव	01.07.2010
888	जेसी296659एफ	सुबेदार	श्याम नाथ चौबे	01.08.2010
889	जेसी298957डब्ल्यू	सुबेदार	श्याम सिंह	01.07.2010
890	जेसी299480वाइ	सुबेदार	एस पिल्लई टी	01.07.2010
891	जेसी297962पी	सुबेदार	सोम दत्त शर्मा	01.06.2010
892	जेसी296587एच	सुबेदार	सोमानाथन नायर बी	01.04.2010
893	जेसी297822एच	सुबेदार	सुब्रता कोनर	01.04.2010
894	जेसी298621डब्ल्यू	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.04.2010
895	जेसी298006वाइ	सुबेदार	सुखेंद्र प्रसाद	01.07.2010
896	जेसी298368ए	सुबेदार	सुंदरेशन बी	01.05.2010
897	जेसी297467डब्ल्यू	सुबेदार	सुंदर सिंह	01.07.2010
898	जेसी298729एन	सुबेदार	सुनील कुमार कोटक्कान्दी	01.04.2010
899	जेसी297258वाइ	सुबेदार	तबीबुर रहमान	01.06.2010
900	जेसी299177एक्स	सुबेदार	तारा चन्द	01.04.2010
901	जेसी298440एल	सुबेदार	टी एस पिल्लई बी	01.04.2010
902	जेसी297320ए	सुबेदार	तिका राम	01.06.2010
903	जेसी296914एच	सुबेदार	उदयवीर सिंह	01.04.2010
904	जेसी298386एच	सुबेदार	उत्तातम कुमार डे	01.04.2010
905	जेसी299279एन	सुबेदार	वासुदेवन बी	01.06.2010
906	जेसी298010एफ	सुबेदार	विश्वनाथ सिंह	01.06.2010

मद्रास इंजीनियर समूह

907	जेसी307558डब्ल्यू	सुबेदार	ए दसाराथन	01.02.2010
908	जेसी307221एन	सुबेदार	ए वेलाउधन	01.02.2010
909	जेसी305384एच	सुबेदार	एंड्रयु बोबोला सीएल	01.02.2010
910	जेसी307735एल	सुबेदार	अनटोनी के वी	01.04.2010

911	जेसी308027एल	सुबेदार	एरे वीरा रेडी	01.04.2010
912	जेसी306943एन	सुबेदार	अशोकन के वी	01.05.2010
913	जेसी307514वाइ	सुबेदार	अईयासामी एम	01.08.2010
914	जेसी307323के	सुबेदार	बाबू राजन ए	01.04.2010
915	जेसी308441के	सुबेदार	बाबू वी वी	01.06.2010
916	जेसी306428एफ	सुबेदार	बदिजर विट्टल	01.05.2010
917	जेसी307831ए	सुबेदार	बालकृष्णा कुरुप पी	01.04.2010
918	जेसी307551एम	सुबेदार	भिमाप्पा उप्पर	01.05.2010
919	जेसी305997एच	सुबेदार	बाकजप्पा एमसी	01.02.2010
920	जेसी306648एल	सुबेदार	सी नागराज	01.05.2010
921	जेसी307987एक्स	सुबेदार	चंद्रन के	01.04.2010
922	जेसी307971एम	सुबेदार	छैंगप्पा सी के	01.04.2010
923	जेसी307686एन	सुबेदार	डी. इल्लाप्पन	01.05.2010
924	जेसी307955पी	सुबेदार	डी. जयकुमार	01.07.2010
925	जेसी305556एम	सुबेदार	दयानन्द बी	01.08.2010
926	जेसी307982वाइ	सुबेदार	धर्मराज एम	01.06.2010
927	जेसी307729एक्स	सुबेदार	धसराधान यू	01.05.2010
928	जेसी307351डब्ल्यू	सुबेदार	जी. चंद्रन	01.06.2010
929	जेसी307767एन	सुबेदार	जी. महेंद्रन	01.04.2010
930	जेसी308094डब्ल्यू	सुबेदार	जी. मणिकम	01.06.2010
931	जेसी307835डब्ल्यू	सुबेदार	जी. मनोगरन	01.06.2010
932	जेसी307640एल	सुबेदार	जी. नारायणप्पा	01.05.2010
933	जेसी308008ए	सुबेदार	जी. सूर्या कुमार	01.04.2010
934	जेसी307578के	सुबेदार	गणेशन पी	01.05.2010
935	जेसी307057डब्ल्यू	सुबेदार	गंगाधरन के	01.07.2010
936	जेसी307150एक्स	सुबेदार	गोविंद	01.05.2010
937	जेसी305834पी	सुबेदार	गोविंदस्वामी एस	01.05.2010
938	जेसी305724ए	सुबेदार	इकबाल ए एम	01.07.2010
939	जेसी308030एल	सुबेदार	जैकब टी टी	01.04.2010
940	जेसी307926ए	सुबेदार	जॉनसन पीजे	01.04.2010
941	जेसी307226एम	सुबेदार	जोसफ एम टी	01.06.2010
942	जेसी306684डब्ल्यू	सुबेदार	के चेल्लप्पन पिल्लई	01.05.2010
943	जेसी308321एल	सुबेदार	के गिरि	01.06.2010
944	जेसी307978डब्ल्यू	सुबेदार	के गोपाल	01.06.2010
945	जेसी307223वाइ	सुबेदार	के लोगन	01.05.2010
946	जेसी305309वाइ	सुबेदार	के राजेन्द्रन	01.04.2010
947	जेसी307518पी	सुबेदार	एम अल्बर्ट	01.05.2010
948	जेसी307728पी	सुबेदार	एम अरुनाचल रेडी	01.05.2010
949	जेसी307505एक्स	सुबेदार	एम एलुमलाई	01.04.2010
950	जेसी308220एक्स	सुबेदार	एम सम्पथ	01.06.2010

951	जेसी307765एच	सुबेदार	एम सारंगपाणि	01.03.2010
952	जेसी307953के	सुबेदार	मधुसुधाना आर डी.	01.05.2010
953	जेसी305567वाइ	सुबेदार	मक्कारु सी एम	01.02.2010
954	जेसी307143एफ	सुबेदार	मोहानन सी	01.02.2010
955	जेसी307574एन	सुबेदार	मुरलीधरन पिल्लई जी.	01.07.2010
956	जेसी307513डब्ल्यू	सुबेदार	मुरुगेशन ए	01.06.2010
957	जेसी308093एन	सुबेदार	पी वैकिटेशन	01.06.2010
958	जेसी307659के	सुबेदार	पकियम	01.02.2010
959	जेसी305619के	सुबेदार	पद्मा कुमार एस	01.06.2010
960	जेसी307974ए	सुबेदार	फिलिपोस टी	01.04.2010
961	जेसी306799के	सुबेदार	पुरुशं पीवी	01.02.2010
962	जेसी307342पी	सुबेदार	आर मूर्ती	01.05.2010
963	जेसी307437पी	सुबेदार	आर राजेन्द्रन	01.04.2010
964	जेसी305334एक्स	सुबेदार	राधाकृष्ण के	01.08.2010
965	जेसी307783एल	सुबेदार	रघु कुमार सीआर	01.08.2010
966	जेसी307510एच	सुबेदार	राजन के	01.02.2010
967	जेसी306649एन	सुबेदार	राजन पुथुक्कुदी	01.03.2010
968	जेसी307766एल	सुबेदार	राजप्पन	01.04.2010
969	जेसी307486एक्स	सुबेदार	राजेन्द्रन एम	01.04.2010
970	जेसी307730एम	सुबेदार	एस दिनकरन	01.05.2010
971	जेसी308411एम	सुबेदार	एस मलाईछाभी	01.06.2010
972	जेसी305787एच	सुबेदार	एस सुब्बियह	01.04.2010
973	जेसी307247एच	सुबेदार	सदानंदन पी	01.04.2010
974	जेसी307627एफ	सुबेदार	सैमुअल के	01.02.2010
975	जेसी306915एफ	सुबेदार	सन्थानम के	01.04.2010
976	जेसी307350एन	सुबेदार	सतीसन यू एम	01.05.2010
977	जेसी305499डब्ल्यू	सुबेदार	शेक अब्दुल खादर	01.02.2010
978	जेसी306750एन	सुबेदार	शेक सुब्बानी	01.02.2010
979	जेसी307444एल	सुबेदार	शाली मोहम्मद	01.04.2010
980	जेसी307660वाइ	सुबेदार	सिवानन्दम ए	01.04.2010
981	जेसी308028एन	सुबेदार	सिवाप्राकासम पी	01.04.2010
982	जेसी307353एफ	सुबेदार	सोपान धोले	01.08.2010
983	जेसी305858वाइ	सुबेदार	श्रीधरण थोरोठ	01.04.2010
984	जेसी307195एक्स	सुबेदार	सुधाकरन पिल्लई आर	01.02.2010
985	जेसी307929एन	सुबेदार	सुंदरन के	01.04.2010
986	जेसी307854एफ	सुबेदार	सुंदरेशन वी	01.05.2010
987	जेसी305324एन	सुबेदार	तिरुपता राव येनुमुला	01.05.2010
988	जेसी307093एफ	सुबेदार	उथमन केपी	01.03.2010
989	जेसी306860एच	सुबेदार	वी मूर्ती	01.05.2010
990	जेसी307603एक्स	सुबेदार	वी उलागनाथन	01.04.2010

991	जेसी307396डब्ल्यू	सुबेदार	वेनुगोपालन सी	01.07.2010
992	जेसी305500ए	सुबेदार	विजया कृष्णन के	01.02.2010
993	जेसी307602पी	सुबेदार	विजयन एवी	01.04.2010
994	जेसी305913के	सुबेदार	विजयन पीआर	01.06.2010
995	जेसी307338एम	सुबेदार	वीएम सुब्रमण्यम	01.02.2010
<b>बंगाल इंजीनियर समूह</b>				
996	जेसी327316पी	सुबेदार	अजीतकुमार आर	01.07.2010
997	जेसी328773पी	सुबेदार	अमर सिंह	01.04.2010
998	जेसी159417एम	सुबेदार	अमरजीत सिंह बुठर	01.04.2010
999	जेसी328554एन	सुबेदार	अम्बरीश कुमार सिंह	01.04.2010
1000	जेसी329161के	सुबेदार	अमरेश कुमार झा	01.06.2010
1001	जेसी328644पी	सुबेदार	आनंद सिंह	01.05.2010
1002	जेसी325870एफ	सुबेदार	आनंद सिंह खत्री	01.03.2010
1003	जेसी329005ए	सुबेदार	अनन्त कुमार	01.06.2010
1004	जेसी328962वाइ	सुबेदार	अरुण कुमार चौधरी	01.07.2010
1005	जेसी325523एच	सुबेदार	असीसबरन कोल्या	01.02.2010
1006	जेसी126977वाइ	सुबेदार	बी बी चंद्रन	01.04.2010
1007	जेसी330356एफ	सुबेदार	बाबू राम गुप्ता	01.02.2010
1008	जेसी328808ए	सुबेदार	बजरंग नंदन कुमार	01.07.2010
1009	जेसी328643एम	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2010
1010	जेसी328693एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2010
1011	जेसी328335एम	सुबेदार	बलकार सिंह	01.02.2010
1012	जेसी330671एक्स	सुबेदार	बसंत बल्लभ भट्ट	01.08.2010
1013	जेसी328910एच	सुबेदार	बसंत कुमार साहनी	01.02.2010
1014	जेसी328586डब्ल्यू	सुबेदार	भरत सिंह	01.04.2010
1015	जेसी328912एन	सुबेदार	भरपुर सिंह	01.02.2010
1016	जेसी329041एल	सुबेदार	भीम बहादुर थापा	01.06.2010
1017	जेसी329043डब्ल्यू	सुबेदार	भीशमा नारायण सिंह	01.08.2010
1018	जेसी328959वाइ	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.03.2010
1019	जेसी325741एफ	सुबेदार	भूवन चंद्रा जोशी	01.03.2010
1020	जेसी328924एच	सुबेदार	बिजया कुमार बेहेरा	01.02.2010
1021	जेसी329293एक्स	सुबेदार	बिनोदा नन्द झा	01.07.2010
1022	जेसी328830एल	सुबेदार	बीर बहादुर सिंह	01.04.2010
1023	जेसी328854पी	सुबेदार	बीरबल सिंह	01.04.2010
1024	जेसी328928वाइ	सुबेदार	बिश्नु कुमार सिंह	01.03.2010
1025	जेसी328919एक्स	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.06.2010
1026	जेसी329038एल	सुबेदार	दीप चन्द	01.06.2010
1027	जेसी328016ए	सुबेदार	देश राम	01.03.2010
1028	जेसी325604एच	सुबेदार	देवाराज शर्मा	01.02.2010

1029	जेसी326148पी	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.02.2010
1030	जेसी327200वाइ	सुबेदार	धन सिंह दसिला	01.02.2010
1031	जेसी327882पी	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.02.2010
1032	जेसी328913डब्ल्यू	सुबेदार	दिनेश कुमार नामदेव	01.02.2010
1033	जेसी327787एच	सुबेदार	ई पांडु रंग सावंत	01.08.2010
1034	जेसी329006एच	सुबेदार	गजेन्द्र कुमार चौधरी	01.06.2010
1035	जेसी140784के	सुबेदार	गजेन्द्र पाल सिंह	01.07.2010
1036	जेसी329013वाइ	सुबेदार	गनेश सिंह	01.08.2010
1037	जेसी329000एफ	सुबेदार	गोरी शंकर यादव	01.05.2010
1038	जेसी326752ए	सुबेदार	गिरीश चंद्रा	01.02.2010
1039	जेसी328699वाइ	सुबेदार	गोलक बिहारी पैकरे	01.02.2010
1040	जेसी328667डब्ल्यू	सुबेदार	गोपाल दत्त पंत	01.05.2010
1041	जेसी328926एन	सुबेदार	हाकम सिंह	01.02.2010
1042	जेसी328635एन	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.03.2010
1043	जेसी325743एम	सुबेदार	हरी दास सी के	01.07.2010
1044	जेसी216066के	सुबेदार	हरिदोसन वी	01.03.2010
1045	जेसी328957एन	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.03.2010
1046	जेसी328929एफ	सुबेदार	हयात राम	01.03.2010
1047	जेसी328421एक्स	सुबेदार	हयात सिंह	01.03.2010
1048	जेसी328945वाइ	सुबेदार	इन्द्रा स्वरूप वर्मा	01.04.2010
1049	जेसी328645एक्स	सुबेदार	जगदीश चंद्रा उप्रेती	01.05.2010
1050	जेसी328923ए	सुबेदार	जगवीर सिंह	01.02.2010
1051	जेसी328489वाइ	सुबेदार	जयबल सिंह	01.03.2010
1052	जेसी328964के	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.03.2010
1053	जेसी329133एक्स	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.07.2010
1054	जेसी326666पी	सुबेदार	जयराम बारिक	01.02.2010
1055	जेसी325995वाइ	सुबेदार	जितेन्द्रा प्रसाद पांडे	01.07.2010
1056	जेसी328451पी	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.02.2010
1057	जेसी330569पी	सुबेदार	कदम शाहाराम मुरलीधर	01.03.2010
1058	जेसी327890एन	सुबेदार	कामिकर सिंह	01.05.2010
1059	जेसी325792पी	सुबेदार	कश्यप तिवारी	01.04.2010
1060	जेसी329007एल	सुबेदार	कीमत सिंह	01.07.2010
1061	जेसी328967वाइ	सुबेदार	किशोर कुमार	01.05.2010
1062	जेसी329169डब्ल्यू	सुबेदार	कष्णन कुमार सिंह	01.07.2010
1063	जेसी325570ए	सुबेदार	कृष्णा कुमार	01.04.2010
1064	जेसी325733एच	सुबेदार	कुंजू मोने वाइ	01.05.2010
1065	जेसी160403वाइ	सुबेदार	लालजी पांडे	01.08.2010
1066	जेसी330088एच	सुबेदार	एम राठिनास्वामी	01.04.2010
1067	जेसी329053ए	सुबेदार	महावीर सिंह	01.08.2010
1068	जेसी328588एफ	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.04.2010



1069	जेसी328993वाइ	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.04.2010
1070	जेसी328427वाइ	सुबेदार	मनी मोहन सिन्हा	01.05.2010
1071	जेसी328819एम	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.07.2010
1072	जेसी325362एल	सुबेदार	मानी पी	01.04.2010
1073	जेसी328397एम	सुबेदार	मिलाप सिंह	01.03.2010
1074	जेसी328911एल	सुबेदार	मीनाकेतन प्रधान	01.02.2010
1075	जेसी327062एच	सुबेदार	मुनीश चंद्रा दीक्षित	01.05.2010
1076	जेसी325390एक्स	सुबेदार	मुरलीधरन पिल्लई ए	01.05.2010
1077	जेसी329008एन	सुबेदार	नैन सिंह	01.07.2010
1078	जेसी329045एफ	सुबेदार	नंदा बल्लभ सलवासी	01.08.2010
1079	जेसी328345डब्ल्यू	सुबेदार	नंदा वल्लभ	01.02.2010
1080	जेसी328968ए	सुबेदार	नारायण सिंह	01.05.2010
1081	जेसी328659एक्स	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.06.2010
1082	जेसी330065एफ	सुबेदार	पी काली	01.04.2010
1083	जेसी325810एम	सुबेदार	पदम सिंह	01.03.2010
1084	जेसी325311एक्स	सुबेदार	पद्मनाभन पी टी	01.07.2010
1085	जेसी328931वाइ	सुबेदार	पारस नाथ सिंह	01.03.2010
1086	जेसी330176वाइ	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.03.2010
1087	जेसी326630डब्ल्यू	सुबेदार	पुतुल बोरगोहैन	01.03.2010
1088	जेसी329168एन	सुबेदार	रबीन्द्र सिंह	01.07.2010
1089	जेसी330174ए	सुबेदार	रघुबीर सिंह नेगी	01.02.2010
1090	जेसी328744ए	सुबेदार	राज कुमार	01.03.2010
1091	जेसी327930के	सुबेदार	राज कुमार सेतिया	01.03.2010
1092	जेसी325512डब्ल्यू	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.02.2010
1093	जेसी329131एम	सुबेदार	राजिन्द्र कुमार थापा	01.05.2010
1094	जेसी328955एच	सुबेदार	राम कुमार	01.07.2010
1095	जेसी328992डब्ल्यू	सुबेदार	राम कुमार	01.04.2010
1096	जेसी328398पी	सुबेदार	राम सिंह	01.03.2010
1097	जेसी328725पी	सुबेदार	राम सिंह	01.03.2010
1098	जेसी328552एच	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.04.2010
1099	जेसी328748डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार	01.07.2010
1100	जेसी330150के	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.04.2010
1101	जेसी329166एच	सुबेदार	रणवीर सिंह	01.05.2010
1102	जेसी137458डब्ल्यू	सुबेदार	रेवाशंकर	01.07.2010
1103	जेसी327515ए	सुबेदार	एस कानन्न	01.07.2010
1104	जेसी325980डब्ल्यू	सुबेदार	साजन सिंह सांगवान	01.07.2010
1105	जेसी329240वाइ	सुबेदार	सालगु राम	01.07.2010
1106	जेसी328653डब्ल्यू	सुबेदार	संतोख सिंह	01.07.2010
1107	जेसी325717एल	सुबेदार	संतोष कुमार	01.08.2010
1108	जेसी328632ए	सुबेदार	सरदूल सिंह	01.06.2010

1109	जेसी329003पी	सुबेदार	सते सिंह	01.04.2010
1110	जेसी328942एल	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.03.2010
1111	जेसी328965एम	सुबेदार	सत्य राम	01.05.2010
1112	जेसी328483एक्स	सुबेदार	सविता प्रसाद	01.03.2010
1113	जेसी327907डब्ल्यू	सुबेदार	शैलेश कुमार तिवारी	01.02.2010
1114	जेसी328519एल	सुबेदार	शशि कांत पांडे	01.03.2010
1115	जेसी330070एम	सुबेदार	शेर सिंह	01.03.2010
1116	जेसी328686एफ	सुबेदार	श्री राम मिश्रा	01.08.2010
1117	जेसी327900एम	सुबेदार	श्याम कुमार सिंह	01.03.2010
1118	जेसी328943एन	सुबेदार	श्रीकान्त सेठी	01.02.2010
1119	जेसी326175वाइ	सुबेदार	सुब्बैयन के	01.07.2010
1120	जेसी326386एफ	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.04.2010
1121	जेसी325289एक्स	सुबेदार	सुदर्शन चन्द कटोच	01.04.2010
1122	जेसी328664एच	सुबेदार	सुखवंत सिंह	01.08.2010
1123	जेसी329130के	सुबेदार	सुमेर चन्द	01.03.2010
1124	जेसी329009डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र राम	01.07.2010
1125	जेसी328396के	सुबेदार	सुरेश चंद्र	01.03.2010
1126	जेसी327555के	सुबेदार	सुरेश कुमार के टी	01.07.2010
1127	जेसी329010एल	सुबेदार	सुरेश पाल सिंह	01.07.2010
1128	जेसी325317वाइ	सुबेदार	सुशील कुमार बत्रा	01.08.2010
1129	जेसी327726एल	सुबेदार	टी कुप्पू सामी	01.08.2010
1130	जेसी325487एच	सुबेदार	तपन कुमार मोन्डल	01.02.2010
1131	जेसी328946एफ	सुबेदार	तापस कुमार मोन्डल	01.04.2010
1132	जेसी330376पी	सुबेदार	उदय पाल सिंह परिहार	01.02.2010
1133	जेसी330582वाइ	सुबेदार	वासुदेवन एस	01.04.2010
1134	जेसी328704वाइ	सुबेदार	विद्या सागर भट्ट	01.08.2010
1135	जेसी328909एन	सुबेदार	विजय सिंह बेनी	01.02.2010
1136	जेसी328991एन	सुबेदार	वीर सिंह	01.03.2010
1137	जेसी325799वाइ	सुबेदार	योगेन्द्रानाथ राय	01.07.2010

### बोम्बे इंजीनियर समूह

1138	जेसी349056पी	सुबेदार	अब्दुल सलीम	01.06.2010
1139	जेसी349453एन	सुबेदार	अजायब सिंह	01.02.2010
1140	जेसी349945एम	सुबेदार	स मिरासी	01.05.2010
1141	जेसी349232एफ	सुबेदार	ऐश मोहम्मद खान	01.04.2010
1142	जेसी349545ए	सुबेदार	बाबू सिंह	01.04.2010
1143	जेसी348530एल	सुबेदार	बहादुर सिंह चौधरी	01.04.2010
1144	जेसी347904के	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
1145	जेसी349473एफ	सुबेदार	बाली मोहम्मद	01.02.2010
1146	जेसी349467एन	सुबेदार	बलकार सिंह	01.04.2010

1147	जेसी348190एन	सुबेदार	बनी सिंह	01.07.2010
1148	जेसी349394एम	सुबेदार	बसंत सिंह	01.05.2010
1149	जेसी349432एक्स	सुबेदार	भरत आत्माराम येरूनकर	01.04.2010
1150	जेसी349047एन	सुबेदार	भवार विजय भीमराव	01.03.2010
1151	जेसी349749एम	सुबेदार	बी बाबा ज्ञान राव	01.04.2010
1152	जेसी349279एम	सुबेदार	दलीप सिंह	01.03.2010
1153	जेसी349857डब्ल्यू	सुबेदार	दयाल सिंह	01.04.2010
1154	जेसी349327एफ	सुबेदार	देव करन सिंह	01.07.2010
1155	जेसी349117एफ	सुबेदार	देवी सहाय दीक्षित	01.05.2010
1156	जेसी349120एफ	सुबेदार	दिवाते पांडुरंग राम चंद्रा	01.03.2010
1157	जेसी349515एच	सुबेदार	दन्यानदेव विथोवा पाटिल	01.05.2010
1158	जेसी348445एच	सुबेदार	दुसान्दा सिंह	01.06.2010
1159	जेसी349454डब्ल्यू	सुबेदार	फराक्ते बाबासाहेब दयानदेव	01.03.2010
1160	जेसी348964एल	सुबेदार	गायकवाड रवीन्द्र श्रीरंग	01.03.2010
1161	जेसी348884एन	सुबेदार	गोले एवाबा खशाबा	01.02.2010
1162	जेसी349113एल	सुबेदार	गोपाल तुकाराम पाटिल	01.03.2010
1163	जेसी349177डब्ल्यू	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.06.2010
1164	जेसी348953वाइ	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.02.2010
1165	जेसी349944के	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
1166	जेसी349390डब्ल्यू	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.08.2010
1167	जेसी349265एम	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.08.2010
1168	जेसी347269के	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.02.2010
1169	जेसी348720एक्स	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.07.2010
1170	जेसी348298एल	सुबेदार	जय प्रकाश	01.03.2010
1171	जेसी349175एल	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.07.2010
1172	जेसी348961एक्स	सुबेदार	जज सिंह	01.05.2010
1173	जेसी349057एक्स	सुबेदार	कदम हनमंत गोविंद राव	01.06.2010
1174	जेसी349064एन	सुबेदार	कदम वसंत नामदेव	01.04.2010
1175	जेसी349258डब्ल्यू	सुबेदार	कोलकर बाबाजी धुंदु	01.06.2010
1176	जेसी349403एच	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.05.2010
1177	जेसी349600एल	सुबेदार	मधुकर	01.07.2010
1178	जेसी349155एक्स	सुबेदार	महादेव	01.02.2010
1179	जेसी349192एल	सुबेदार	मंगल सिंह	01.06.2010
1180	जेसी348966डब्ल्यू	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.07.2010
1181	जेसी349341एन	सुबेदार	माते सूर्यभान श्रीरंग	01.04.2010
1182	जेसी349433ए	सुबेदार	मोहम्मद इस्लाम	01.04.2010
1183	जेसी349598वाइ	सुबेदार	मोहम्मद नसीर	01.02.2010
1184	जेसी349074एक्स	सुबेदार	मोहम्मद याकिल खान	01.05.2010
1185	जेसी348454के	सुबेदार	मोहन लाल डोगरा	01.06.2010
1186	जेसी349160एच	सुबेदार	मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी	01.02.2010

1187	जेसी349164वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2010
1188	जेसी349009एक्स	सुबेदार	मोहित गजानन लालासाहिब	01.02.2010
1189	जेसी349876एफ	सुबेदार	मोमीन खान	01.04.2010
1190	जेसी349133वाइ	सुबेदार	मुनाजीर हासन	01.02.2010
1191	जेसी349412के	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.02.2010
1192	जेसी348723एल	सुबेदार	पर्गत सिंह	01.02.2010
1193	जेसी349190ए	सुबेदार	परमिन्दर सिंह	01.03.2010
1194	जेसी349540एफ	सुबेदार	पट्टे बाबा बापूराव	01.04.2010
1195	जेसी349189एल	सुबेदार	प्यारा सिंह	01.03.2010
1196	जेसी349167एम	सुबेदार	प्यारे लाल	01.04.2010
1197	जेसी349321ए	सुबेदार	प्रकाश मारुति राव कराले	01.08.2010
1198	जेसी348918डब्ल्यू	सुबेदार	प्रीतपाल सिंह	01.03.2010
1199	जेसी349356डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन	01.02.2010
1200	जेसी349121के	सुबेदार	राधा मोहन ठाकुर	01.03.2010
1201	जेसी349153एम	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.02.2010
1202	जेसी349519वाइ	सुबेदार	रघुनाथ गंगाराम जाधव	01.07.2010
1203	जेसी349052वाइ	सुबेदार	राकेश	01.04.2010
1204	जेसी349126एच	सुबेदार	राम किशोर	01.07.2010
1205	जेसी347476डब्ल्यू	सुबेदार	राम फल सिंह सहारन	01.02.2010
1206	जेसी349013ए	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.02.2010
1207	जेसी349202के	सुबेदार	रण सिंह	01.05.2010
1208	जेसी349422एन	सुबेदार	रशीद खान	01.06.2010
1209	जेसी349176एन	सुबेदार	रौसो गणपति भोसले	01.03.2010
1210	जेसी349066वाइ	सुबेदार	एस अमीर बाशा	01.04.2010
1211	जेसी348867वाइ	सुबेदार	साबिर खान	01.04.2010
1212	जेसी349507के	सुबेदार	संतोख सिंह	01.04.2010
1213	जेसी349402ए	सुबेदार	सवर्न सिंह	01.04.2010
1214	जेसी349458एम	सुबेदार	शेखर नारायण गोपाल	01.07.2010
1215	जेसी349152के	सुबेदार	शेखर सुरेश मारुति	01.02.2010
1216	जेसी349012एक्स	सुबेदार	शिंदे विथल जय सिंह	01.02.2010
1217	जेसी349475एम	सुबेदार	शिवाजी पांडुरंग टोडकर	01.04.2010
1218	जेसी349505वाइ	सुबेदार	सोमारू शाह	01.03.2010
1219	जेसी349241एच	सुबेदार	सुलखान सिंह	01.06.2010
1220	जेसी349162एन	सुबेदार	तुफेल अहमद खान	01.06.2010
1221	जेसी348628वाइ	सुबेदार	उमा शंकर राम	01.08.2010
1222	जेसी348958एक्स	सुबेदार	विजय कुमार दत्ताता	01.06.2010
1223	जेसी348722एच	सुबेदार	वीर भान सिंह अलियास वीर भान	01.03.2010
1224	जेसी349054के	सुबेदार	वाधे मछिन्दर भौसाहब	01.03.2010
1225	जेसी349340एल	सुबेदार	वाधमोदे बालकृशना जगन्नाथ	01.04.2010
1226	जेसी349518डब्ल्यू	सुबेदार	वाली मोहम्मद	01.04.2010

सिग्नल्स कोर

1227	जेसी374386वाइ	सुबेदार	ए स्वामी	01.07.2010
1228	जेसी375304एक्स	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.05.2010
1229	जेसी370910के	सुबेदार	अमर सिंह	01.07.2010
1230	जेसी373200एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	01.08.2010
1231	जेसी374584के	सुबेदार	अम्बिका सुथान वी के, एसएम	01.07.2010
1232	जेसी374229एम	सुबेदार	अमिताव चंद्रा	01.04.2010
1233	जेसी375319ए	सुबेदार	आमोद कुमार दास	01.04.2010
1234	जेसी372747एन	सुबेदार	अम्रेन्द्रा कुमार सिंह	01.06.2010
1235	जेसी375349एक्स	सुबेदार	अमरेश कुमार सिंह	01.04.2010
1236	जेसी374845एम	सुबेदार	अनन्त राम	01.04.2010
1237	जेसी374193वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार	01.08.2010
1238	जेसी375217के	सुबेदार	अनिल कुमार गोस्वामी	01.05.2010
1239	जेसी374015डब्ल्यू	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.02.2010
1240	जेसी375118एफ	सुबेदार	अरुमुगम जे	01.06.2010
1241	जेसी376078एक्स	सुबेदार	अरुण कुमार सिन्हा	01.07.2010
1242	जेसी373770एन	सुबेदार	अरुनजय प्रसाद	01.07.2010
1243	जेसी375112ए	सुबेदार	अर्विन्द कुमार पांडे	01.08.2010
1244	जेसी374526ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2010
1245	जेसी371367एच	सुबेदार	अशोक कुमार शुक्ला	01.02.2010
1246	जेसी373651एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2010
1247	जेसी374262के	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.07.2010
1248	जेसी373916डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक सिंह	01.07.2010
1249	जेसी371922एल	सुबेदार	अशोकन के	01.04.2010
1250	जेसी372068डब्ल्यू	सुबेदार	आत्मा राम वर्मा	01.04.2010
1251	जेसी372266एफ	सुबेदार	अवधेश कुमार सिंह	01.03.2010
1252	जेसी373803एन	सुबेदार	बी रवि	01.04.2010
1253	जेसी370159एफ	सुबेदार	बाबू राम	01.03.2010
1254	जेसी375620डब्ल्यू	सुबेदार	बच्छा लाल	01.03.2010
1255	जेसी374078वाइ	सुबेदार	बाल राम सिंह	01.03.2010
1256	जेसी372780एल	सुबेदार	बाला सुब्रमनिअन के	01.02.2010
1257	जेसी371893एफ	सुबेदार	बल बीर चन्द वर्मा	01.03.2010
1258	जेसी375808एल	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.07.2010
1259	जेसी375995पी	सुबेदार	बाले राम	01.06.2010
1260	जेसी374887वाइ	सुबेदार	बालेन द्रा सिंह	01.04.2010
1261	जेसी371352ए	सुबेदार	बलजीत कौशिक	01.07.2010
1262	जेसी372994एफ	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.08.2010
1263	जेसी372989डब्ल्यू	सुबेदार	बाल्मीकि पण्डित	01.03.2010
1264	जेसी372077एक्स	सुबेदार	बरुण कुमार शर्मा	01.04.2010

1265	जेसी374227एफ	सुबेदार	भद्रापाल सिंह	01.04.2010
1266	जेसी372311एच	सुबेदार	भैरू लाल कुम्हार	01.08.2010
1267	जेसी372588एफ	सुबेदार	भजन कान्ति अथा	01.02.2010
1268	जेसी373492एल	सुबेदार	भान सिंह	01.03.2010
1269	जेसी372512एफ	सुबेदार	भारमा पदनेकर	01.04.2010
1270	जेसी375161एच	सुबेदार	भरपुर सिंह	01.03.2010
1271	जेसी374647एफ	सुबेदार	भोला प्रसाद सिखर	01.03.2010
1272	जेसी375470एल	सुबेदार	भूरा राम जांगीड	01.08.2010
1273	जेसी373479एफ	सुबेदार	भुवना चंद्रन नायर पी डी.	01.04.2010
1274	जेसी375391डब्ल्यू	सुबेदार	बिजय कुमार सिंह	01.04.2010
1275	जेसी370547वाइ	सुबेदार	बीर सिंह गोड	01.06.2010
1276	जेसी369262ए	सुबेदार	बिरांची नारायण मोहंती	01.03.2010
1277	जेसी372847वाइ	सुबेदार	बीरेंद्र सिंह	01.02.2010
1278	जेसी374575एच	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	01.03.2010
1279	जेसी371743एल	सुबेदार	बिशन दास	01.03.2010
1280	जेसी373579एम	सुबेदार	बोध राज	01.02.2010
1281	जेसी373583पी	सुबेदार	बोनू श्री रामुलु	01.05.2010
1282	जेसी373384एफ	सुबेदार	बूपालन पी	01.05.2010
1283	जेसी375900के	सुबेदार	बोयापति शेशागरि राव	01.06.2010
1284	जेसी374548वाइ	सुबेदार	ब्रज किशोर सिंह	01.07.2010
1285	जेसी374610ए	सुबेदार	बुध प्रकाश सिंह	01.03.2010
1286	जेसी375120वाइ	सुबेदार	चमन लाल	01.08.2010
1287	जेसी370157डब्ल्यू	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.08.2010
1288	जेसी372114ए	सुबेदार	चंदगी राम कुल्हाड़ी	01.08.2010
1289	जेसी375311एन	सुबेदार	चंद्रा भूषण पाडे	01.02.2010
1290	जेसी373708एफ	सुबेदार	चंद्रन एम वी.	01.08.2010
1291	जेसी370252एच	सुबेदार	चंद्रन पी	01.05.2010
1292	जेसी372062पी	सुबेदार	चत्तर सिंह	01.06.2010
1293	जेसी374084एम	सुबेदार	चेरियन के सैमुअल	01.05.2010
1294	जेसी368997एक्स	सुबेदार	छेदा लाल	01.04.2010
1295	जेसी215157एफ	सुबेदार	दलबीर चन्द रमोला	01.04.2010
1296	जेसी374819एल	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.06.2010
1297	जेसी374082एफ	सुबेदार	दलबीर सिंह तनवर	01.02.2010
1298	जेसी375552एन	सुबेदार	दलीप सिंह	01.08.2010
1299	जेसी374623एक्स	सुबेदार	दरकुंडे विनायक एकनाथ	01.03.2010
1300	जेसी372970एक्स	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.04.2010
1301	जेसी374300पी	सुबेदार	दोलत सिंह शेखावत	01.03.2010
1302	जेसी374751पी	सुबेदार	दीन दयाल	01.02.2010
1303	जेसी373236डब्ल्यू	सुबेदार	देस राज	01.05.2010
1304	जेसी372845एन	सुबेदार	देवासिया के सी	01.08.2010

1305	जेसी375306एच	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.08.2010
1306	जेसी375347एम	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.03.2010
1307	जेसी373489एल	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह सिरौही	01.08.2010
1308	जेसी371663एन	सुबेदार	धन्न लाल चामार	01.03.2010
1309	जेसी374717पी	सुबेदार	धर्म पाल	01.07.2010
1310	जेसी375302एम	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.08.2010
1311	जेसी374605पी	सुबेदार	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	01.04.2010
1312	जेसी371878एम	सुबेदार	धिमेशवर चन्द	01.02.2010
1313	जेसी374700एफ	सुबेदार	धुंधी भाउ आनंदा नरसाले	01.03.2010
1314	जेसी373161के	सुबेदार	दिलीप सिंह	01.08.2010
1315	जेसी375529ए	सुबेदार	डूंगर सिंह	01.07.2010
1316	जेसी374618एम	सुबेदार	द्वारिका प्रसाद सिंह	01.02.2010
1317	जेसी372202डब्ल्यू	सुबेदार	एस्सो ए जे	01.02.2010
1318	जेसी373544डब्ल्यू	सुबेदार	एमानुयल	01.07.2010
1319	जेसी374174एन	सुबेदार	फाल्गुनी राम	01.02.2010
1320	जेसी373562वाइ	सुबेदार	फतेह सिंह	01.05.2010
1321	जेसी373979वाइ	सुबेदार	गनेश चंद्रा घोष	01.07.2010
1322	जेसी374312के	सुबेदार	गनेश चंद्रा घोष	01.04.2010
1323	जेसी375535एन	सुबेदार	गोकुल सिंह	01.03.2010
1324	जेसी370843के	सुबेदार	गोल्ला एडी.आई नारायणा	01.08.2010
1325	जेसी374338वाइ	सुबेदार	गोपीनाथन नायर के	01.04.2010
1326	जेसी373978डब्ल्यू	सुबेदार	गोड़ कुमार कुंडू	01.08.2010
1327	जेसी369008डब्ल्यू	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.04.2010
1328	जेसी374701के	सुबेदार	गोविन्द मनदादी डी.	01.07.2010
1329	जेसी372824एक्स	सुबेदार	गुलाब सिंह	01.04.2010
1330	जेसी376140वाइ	सुबेदार	गुरभजन सिंह	01.07.2010
1331	जेसी373556एल	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.02.2010
1332	जेसी372283एफ	सुबेदार	गुरदेव सिंह बैस	01.04.2010
1333	जेसी372990एल	सुबेदार	हक्कीमुद्दीन	01.03.2010
1334	जेसी373222डब्ल्यू	सुबेदार	हंस राज	01.04.2010
1335	जेसी374732के	सुबेदार	हनुमान सिंह राव	01.05.2010
1336	जेसी374349एल	सुबेदार	एच एन सी	01.05.2010
1337	जेसी375273एच	सुबेदार	हरगोविंद मघवाल	01.04.2010
1338	जेसी373460एच	सुबेदार	हरी सिंह राजपूत	01.08.2010
1339	जेसी374912एम	सुबेदार	हरिदास सी एन	01.06.2010
1340	जेसी375532ए	सुबेदार	हरिद्रा प्रसाद चौबे	01.03.2010
1341	जेसी372612एम	सुबेदार	हरीश सिंह परिहार	01.08.2010
1342	जेसी375476एम	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.07.2010
1343	जेसी372901एफ	सुबेदार	हरफूल सिंह	01.04.2010
1344	जेसी372144एक्स	सुबेदार	हवा सिंह	01.03.2010

1345	जेसी373004एक्स	सुबेदार	हयात सिंह बशेरा	01.07.2010
1346	जेसी372124के	सुबेदार	हेम राज	01.04.2010
1347	जेसी375508के	सुबेदार	हिमांशु शेखर रथ	01.04.2010
1348	जेसी374244एफ	सुबेदार	हिरनमोय मोहंती	01.05.2010
1349	जेसी374852एच	सुबेदार	होन्नाप्पा बाना डब्ल्यू	01.04.2010
1350	जेसी374181के	सुबेदार	होशीयारा राम सैनी	01.05.2010
1351	जेसी373565एम	सुबेदार	इश्वर दास आज़ाद	01.02.2010
1352	जेसी374029डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.05.2010
1353	जेसी370945ए	सुबेदार	जगवीर सिंह दहिया	01.07.2010
1354	जेसी374708एन	सुबेदार	जय भगवान	01.04.2010
1355	जेसी374439एम	सुबेदार	जय भगवान शर्मा	01.06.2010
1356	जेसी374721एक्स	सुबेदार	जयबीर सिंह	01.07.2010
1357	जेसी374079एफ	सुबेदार	जनक राज	01.02.2010
1358	जेसी373517एम	सुबेदार	जसपाल सिंह डंगवाल	01.04.2010
1359	जेसी372549एच	सुबेदार	जसवीर सिंह बल्हारा	01.04.2010
1360	जेसी374182एम	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.06.2010
1361	जेसी372611के	सुबेदार	जया पालन बी	01.04.2010
1362	जेसी373317डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.07.2010
1363	जेसी374537एम	सुबेदार	जॉन बोसको ए	01.04.2010
1364	जेसी371528ए	सुबेदार	जोज जी.	01.08.2010
1365	जेसी374257वाइ	सुबेदार	जुगल किशोर	01.05.2010
1366	जेसी372525वाइ	सुबेदार	जुगमैल सिंह	01.03.2010
1367	जेसी375976के	सुबेदार	जुनस पूर्ति	01.06.2010
1368	जेसी374397एल	सुबेदार	के मायान्दे	01.02.2010
1369	जेसी369632पी	सुबेदार	कमला प्रसाद मिश्रा	01.04.2010
1370	जेसी373672एन	सुबेदार	कमलेश कुमार शर्मा	01.04.2010
1371	जेसी375729डब्ल्यू	सुबेदार	कन्हैया राय	01.04.2010
1372	जेसी369069एन	सुबेदार	कपिल देव झा	01.04.2010
1373	जेसी375477पी	सुबेदार	कर्म चन्द	01.08.2010
1374	जेसी372900वाइ	सुबेदार	कारंदे बंयाजी बाबू	01.03.2010
1375	जेसी372743एक्स	सुबेदार	करतार सिंह	01.03.2010
1376	जेसी372488डब्ल्यू	सुबेदार	काशिनाथ गुप्ता	01.03.2010
1377	जेसी374890वाइ	सुबेदार	कश्मीर चन्द	01.08.2010
1378	जेसी375351पी	सुबेदार	कश्मीरी लाल शर्मा	01.05.2010
1379	जेसी374809एफ	सुबेदार	कौसलेन्द्र कुमार	01.07.2010
1380	जेसी369062के	सुबेदार	काजल मित्रा	01.03.2010
1381	जेसी374889के	सुबेदार	केदार नाथ प्रजापति	01.03.2010
1382	जेसी371758एन	सुबेदार	कीर्ती सिंह	01.08.2010
1383	जेसी375048एन	सुबेदार	खेड़कर अर्जुन पांडुरंग	01.02.2010
1384	जेसी374284एच	सुबेदार	खेम राज सकलानी	01.08.2010



1385	जेसी372133एल	सुबेदार	किशोर कुमार	01.06.2010
1386	जेसी375763डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा गोपाल सी	01.06.2010
1387	जेसी371870ए	सुबेदार	क्षीतिश चंद्रा विश्वास	01.02.2010
1388	जेसी374625एच	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.04.2010
1389	जेसी373761एम	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.03.2010
1390	जेसी375387एन	सुबेदार	कुराडे बालू दत्तू	01.04.2010
1391	जेसी375252एम	सुबेदार	लखिन्दर दत्ता	01.03.2010
1392	जेसी369864एन	सुबेदार	लक्ष्मन महतो	01.08.2010
1393	जेसी375111एक्स	सुबेदार	लाल बिहारी साह	01.03.2010
1394	जेसी372539वाइ	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.02.2010
1395	जेसी374319एन	सुबेदार	लक्ष्मी कांथ कट्टी	01.04.2010
1396	जेसी371901पी	सुबेदार	लक्ष्मीधर नायक	01.04.2010
1397	जेसी376538एन	सुबेदार	एम सुब्रमनिअन	01.04.2010
1398	जेसी370666पी	सुबेदार	मदन मोहन दास	01.04.2010
1399	जेसी372782डब्ल्यू	सुबेदार	मदन सिंह शाही	01.08.2010
1400	जेसी372932एफ	सुबेदार	मदान्ण पिल्लई बी	01.04.2010
1401	जेसी375512एम	सुबेदार	माधव सिंह	01.05.2010
1402	जेसी374985वाइ	सुबेदार	मधु सुदान्न के	01.03.2010
1403	जेसी375190एक्स	सुबेदार	मगहर सिंह	01.08.2010
1404	जेसी371003डब्ल्यू	सुबेदार	महाबीर सिंह	01.02.2010
1405	जेसी372998एक्स	सुबेदार	महेंद्र प्रसाद	01.08.2010
1406	जेसी373943ए	सुबेदार	महेंद्र प्रताप सिंह	01.02.2010
1407	जेसी373178एक्स	सुबेदार	महेंद्र सिंह राठोर	01.02.2010
1408	जेसी375231डब्ल्यू	सुबेदार	महिबूब मखंदर	01.04.2010
1409	जेसी371740एक्स	सुबेदार	मल्लिकार्जुन बागेल्ली	01.04.2010
1410	जेसी374302ए	सुबेदार	मानन प्रसाद	01.04.2010
1411	जेसी371263एफ	सुबेदार	मंगल सिंह	01.04.2010
1412	जेसी370171एच	सुबेदार	मंगला प्रसाद विश्वाकर्मा	01.05.2010
1413	जेसी372123एफ	सुबेदार	मनी जी.	01.04.2010
1414	जेसी370574एच	सुबेदार	मनी राम	01.04.2010
1415	जेसी372818के	सुबेदार	मारुति मादर	01.04.2010
1416	जेसी373547के	सुबेदार	मेहर सूर्यम नीला	01.03.2010
1417	जेसी367901एक्स	सुबेदार	मीर सिंह	01.04.2010
1418	जेसी375551एल	सुबेदार	मोहन एम	01.08.2010
1419	जेसी373988ए	सुबेदार	मोहानन ए टी	01.04.2010
1420	जेसी372851एफ	सुबेदार	मोहानन पी	01.06.2010
1421	जेसी369861ए	सुबेदार	मोहम्मद अकबर	01.04.2010
1422	जेसी373614के	सुबेदार	मृणाल कान्ति चन्द	01.02.2010
1423	जेसी374115एफ	सुबेदार	मुन्ना लाल	01.03.2010
1424	जेसी372131ए	सुबेदार	मुरलीधरन पी	01.06.2010

1425	जेसी373636एच	सुबेदार	मुरुगन सी	01.04.2010
1426	जेसी371933एक्स	सुबेदार	मुथु मणिकम आर	01.06.2010
1427	जेसी375188ए	सुबेदार	नन्द किशोर पौखारिया	01.06.2010
1428	जेसी368533ए	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार जोशी	01.05.2010
1429	जेसी369045के	सुबेदार	एन शर्मा	01.06.2010
1430	जेसी369574डब्ल्यू	सुबेदार	नटराजन एस	01.07.2010
1431	जेसी374968वाइ	सुबेदार	निरंजन बेहेरा	01.03.2010
1432	जेसी372846डब्ल्यू	सुबेदार	निरंजन कुमार दास	01.07.2010
1433	जेसी374443पी	सुबेदार	नित्या नन्द	01.07.2010
1434	जेसी373458एल	सुबेदार	नोमुराम बोराह	01.07.2010
1435	जेसी369558वाइ	सुबेदार	एनपी मंडल	01.04.2010
1436	जेसी373718एल	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2010
1437	जेसी374369वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश जंगीर	01.08.2010
1438	जेसी374626एल	सुबेदार	ओम प्रकाश राम	01.06.2010
1439	जेसी373931एल	सुबेदार	पी वी रविन्द्रन	01.05.2010
1440	जेसी374817ए	सुबेदार	पालीवेला टी वेंकटेश्वर राव	01.03.2010
1441	जेसी373522एक्स	सुबेदार	परशु राम सिंह	01.05.2010
1442	जेसी376543वाइ	सुबेदार	प्रदीप कुमार	01.07.2010
1443	जेसी374195के	सुबेदार	पारित अन्नासाहिब बाबूराव	01.04.2010
1444	जेसी372966पी	सुबेदार	परमानंद महतोन	01.03.2010
1445	जेसी373529एफ	सुबेदार	पाटिल पुंदलिक रमा	01.07.2010
1446	जेसी372258एच	सुबेदार	पवार खण्डु हरी	01.02.2010
1447	जेसी373265एल	सुबेदार	पवार तुलसीदास बाबन राव	01.03.2010
1448	जेसी376153डब्ल्यू	सुबेदार	प्रभात कुमार साहू	01.08.2010
1449	जेसी374076एन	सुबेदार	प्रदीप कुमार चौहान	01.04.2010
1450	जेसी373771डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.03.2010
1451	जेसी371915पी	सुबेदार	प्रेम नाथ राय	01.02.2010
1452	जेसी375211एच	सुबेदार	प्रेम शंकर मिश्रा	01.07.2010
1453	जेसी372953एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.07.2010
1454	जेसी373494डब्ल्यू	सुबेदार	पुलिगट्टा नारायणा राव	01.02.2010
1455	जेसी374951एल	सुबेदार	रबीन्द्र कुमार नायक	01.08.2010
1456	जेसी374114वाइ	सुबेदार	राधाकृष्णा पिल्लई आर	01.04.2010
1457	जेसी374711एन	सुबेदार	राधे सिंह	01.05.2010
1458	जेसी375780डब्ल्यू	सुबेदार	राज देव वर्मा	01.03.2010
1459	जेसी371839एन	सुबेदार	राज कुमार	01.02.2010
1460	जेसी374396एच	सुबेदार	राज कुमार	01.02.2010
1461	जेसी373286एफ	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.02.2010
1462	जेसी374464एल	सुबेदार	राज नारायण	01.08.2010
1463	जेसी373539एल	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.05.2010
1464	जेसी373552पी	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.08.2010

1465	जेसी374377एक्स	सुबेदार	राजेंद्र वशिष्ट	01.06.2010
1466	जेसी372058एम	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार	01.07.2010
1467	जेसी372550एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.04.2010
1468	जेसी370437के	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद पटनायक	01.05.2010
1469	जेसी374489एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2010
1470	जेसी375151वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2010
1471	जेसी374352एल	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.04.2010
1472	जेसी373351डब्ल्यू	सुबेदार	राम अवध सिंह	01.07.2010
1473	जेसी369544वाइ	सुबेदार	राम बाबू सिंह	01.02.2010
1474	जेसी372979एम	सुबेदार	राम चंद्र वर्मा	01.06.2010
1475	जेसी375875डब्ल्यू	सुबेदार	राम चंद्रा दारा	01.04.2010
1476	जेसी371007एम	सुबेदार	राम धईरे यादव	01.03.2010
1477	जेसी372918पी	सुबेदार	राम जनम राम	01.07.2010
1478	जेसी376035एच	सुबेदार	राम जनम सिंह	01.05.2010
1479	जेसी368582एच	सुबेदार	राम कुमार	01.06.2010
1480	जेसी373016एम	सुबेदार	राम कुमार	01.03.2010
1481	जेसी375201वाइ	सुबेदार	राम ललन प्रसाद सिंह	01.05.2010
1482	जेसी375425वाइ	सुबेदार	राम निवास	01.03.2010
1483	जेसी369889ए	सुबेदार	राम प्रताप	01.07.2010
1484	जेसी374617के	सुबेदार	राम सकल सिंह	01.04.2010
1485	जेसी372733एन	सुबेदार	राम सिंह राठोर	01.08.2010
1486	जेसी374231के	सुबेदार	रमा कृष्णन टी	01.06.2010
1487	जेसी373666ए	सुबेदार	रामचंद्र राउत	01.05.2010
1488	जेसी375318एक्स	सुबेदार	रामआशीष प्रसाद	01.02.2010
1489	जेसी374297ए	सुबेदार	रामबीर	01.08.2010
1490	जेसी374944पी	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.03.2010
1491	जेसी371626ए	सुबेदार	रमेश कुमार	01.04.2010
1492	जेसी375479ए	सुबेदार	रमेश लाल	01.03.2010
1493	जेसी372313एन	सुबेदार	रमेश पी के	01.08.2010
1494	जेसी371271ए	सुबेदार	रामेश्वर दास	01.04.2010
1495	जेसी373481वाइ	सुबेदार	रामेश्वर सिन्हा	01.04.2010
1496	जेसी374735एक्स	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.04.2010
1497	जेसी375100एल	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.03.2010
1498	जेसी375812एन	सुबेदार	रंग लाल सिंह	01.06.2010
1499	जेसी375202एफ	सुबेदार	रणवीर सिंह	01.05.2010
1500	जेसी368993एफ	सुबेदार	रणवीर सिंह यादव	01.06.2010
1501	जेसी373461एल	सुबेदार	रनवीर सिंह	01.08.2010
1502	जेसी206897पी	सुबेदार	रतन सिंह यादव	01.04.2010
1503	जेसी372445एफ	सुबेदार	रेथना प्रकासन नल्लाकान्दी	01.05.2010
1504	जेसी376592एफ	सुबेदार	ऋषि मुनि शर्मा	01.06.2010

1505	जेसी374243वाइ	सुबेदार	ऋषि प्रकाश	01.06.2010
1506	जेसी371811एन	सुबेदार	राहिताश्व कुमार वर्मा	01.04.2010
1507	जेसी373553एक्स	सुबेदार	रूप लाल चौधरी	01.08.2010
1508	जेसी374743डब्ल्यू	सुबेदार	एस मुरुगेसन	01.02.2010
1509	जेसी371892वाइ	सुबेदार	सदानन्द सिंह	01.02.2010
1510	जेसी372885पी	सुबेदार	साधु राम	01.04.2010
1511	जेसी374283ए	सुबेदार	साही राम	01.03.2010
1512	जेसी374667पी	सुबेदार	सैवामणी वी	01.03.2010
1513	जेसी375390एन	सुबेदार	साजन लाल	01.02.2010
1514	जेसी373484एम	सुबेदार	शक्ति पाडा पांजा	01.02.2010
1515	जेसी375350एम	सुबेदार	सैमसन दलेल	01.04.2010
1516	जेसी374180एफ	सुबेदार	संगईया हीरामठ	01.05.2010
1517	जेसी374156एल	सुबेदार	संतोष कुमार शुक्ला	01.03.2010
1518	जेसी375114एल	सुबेदार	सरोज कुमार सिंह	01.06.2010
1519	जेसी374957एम	सुबेदार	सरु राम सेकिआ	01.08.2010
1520	जेसी373961एच	सुबेदार	शशि कुमार आर	01.08.2010
1521	जेसी375537वाइ	सुबेदार	ससिधरन नायर ए पी	01.03.2010
1522	जेसी368560के	सुबेदार	ससिधरन टी एम	01.06.2010
1523	जेसी370391एम	सुबेदार	सत्येन्द्र कुमार आर	01.03.2010
1524	जेसी372126पी	सुबेदार	सतवीर सिंह	01.05.2010
1525	जेसी375073एम	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.08.2010
1526	जेसी374234एक्स	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.08.2010
1527	जेसी372822एम	सुबेदार	शान्ति प्रकाश	01.04.2010
1528	जेसी372243ए	सुबेदार	शशि प्रभाकर मिश्रा	01.06.2010
1529	जेसी372746एल	सुबेदार	शत्रुघना प्रसाद सिंह	01.04.2010
1530	जेसी372828एन	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.04.2010
1531	जेसी375208एच	सुबेदार	शिव प्रसाद सिंह	01.08.2010
1532	जेसी371921एच	सुबेदार	शिव राज सिंह	01.06.2010
1533	जेसी374539एक्स	सुबेदार	श्रीधर प्रसाद सिंह	01.04.2010
1534	जेसी372749वाइ	सुबेदार	श्याम नंदन सिंह	01.05.2010
1535	जेसी369016पी	सुबेदार	श्याम वीर सिंह	01.07.2010
1536	जेसी373003पी	सुबेदार	सीता राम	01.08.2010
1537	जेसी374298एच	सुबेदार	सीता राम	01.08.2010
1538	जेसी374529एन	सुबेदार	शिवराजन एस	01.06.2010
1539	जेसी373502के	सुबेदार	सिया राम	01.04.2010
1540	जेसी374462ए	सुबेदार	स्मरोजीत सरकार	01.02.2010
1541	जेसी371879पी	सुबेदार	सोहन सिंह	01.02.2010
1542	जेसी374752एक्स	सुबेदार	सोमा सुंदरन बी	01.02.2010
1543	जेसी374495एल	सुबेदार	सोमीसेठी श्रीनिवासुलु	01.07.2010
1544	जेसी375754पी	सुबेदार	सोनतोक्के सूर्यकांत हरिभाऊ	01.07.2010

1545	जेसी375792एल	सुबेदार	श्रीनिवास राव जमपानी	01.07.2010
1546	जेसी374651के	सुबेदार	श्री निवास शर्मा	01.08.2010
1547	जेसी374344एम	सुबेदार	सुभा चन्द यादव	01.04.2010
1548	जेसी375205पी	सुबेदार	सुभान सिंह	01.02.2010
1549	जेसी375558पी	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.08.2010
1550	जेसी375359एफ	सुबेदार	सुभाष चंद्रा सिंह	01.04.2010
1551	जेसी375107पी	सुबेदार	सुब्रता कुमार कुंडू	01.03.2010
1552	जेसी371895एम	सुबेदार	सुदाम कुमार घोष	01.04.2010
1553	जेसी373662के	सुबेदार	सुधाकरन ए एन	01.02.2010
1554	जेसी372622डब्ल्यू	सुबेदार	सुखाम्यो दास	01.05.2010
1555	जेसी367744डब्ल्यू	सुबेदार	सूरजमल वशिष्ट	01.02.2010
1556	जेसी372839ए	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2010
1557	जेसी370992एक्स	सुबेदार	सुरेश कुमार चौधरी	01.02.2010
1558	जेसी373296एल	सुबेदार	सूरजा राम	01.08.2010
1559	जेसी374384एन	सुबेदार	स्वप्न कुमार दास	01.04.2010
1560	जेसी373017पी	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.07.2010
1561	जेसी374545एल	सुबेदार	तारित कुमार रौय चौधरी	01.04.2010
1562	जेसी374106ए	सुबेदार	तेज नारायण सिंह	01.05.2010
1563	जेसी375251के	सुबेदार	तेज पाल सिंह	01.03.2010
1564	जेसी374376पी	सुबेदार	तेजपाल सिंह	01.06.2010
1565	जेसी372991एन	सुबेदार	था धनी राम सिंघा	01.03.2010
1566	जेसी369857एक्स	सुबेदार	थामस टी जी.	01.06.2010
1567	जेसी373518पी	सुबेदार	तिलक राज	01.04.2010
1568	जेसी374688एल	सुबेदार	तुलसी सिंह	01.05.2010
1569	जेसी374177एफ	सुबेदार	उपेंद्र प्रसाद रौय	01.03.2010
1570	जेसी373762पी	सुबेदार	उपेंद्र यादव	01.03.2010
1571	जेसी373207एफ	सुबेदार	वी शिखावेल	01.03.2010
1572	जेसी375234के	सुबेदार	वरुधिस एम एम	01.02.2010
1573	जेसी375305ए	सुबेदार	वेलू जी.	01.06.2010
1574	जेसी374583एफ	सुबेदार	वेनुगोपालन आर	01.04.2010
1575	जेसी371733एफ	सुबेदार	वेनुगोपालन वी	01.02.2010
1576	जेसी375397एक्स	सुबेदार	वेनूकुटन नायर जी.	01.04.2010
1577	जेसी374679के	सुबेदार	विद्याधर	01.03.2010
1578	जेसी373203एल	सुबेदार	विजय कुमार	01.06.2010
1579	जेसी374311एफ	सुबेदार	विजय कुमार मिश्रा	01.07.2010
1580	जेसी375321एक्स	सुबेदार	विजय कुमार सिंह	01.02.2010
1581	जेसी374694वाइ	सुबेदार	विजय पाल सिंह गौड़	01.08.2010
1582	जेसी374697एम	सुबेदार	विजय शंकर शाह	01.08.2010
1583	जेसी372551ए	सुबेदार	विजय यादव	01.04.2010
1584	जेसी371732वाइ	सुबेदार	विजया कुमार	01.04.2010

1585	जेसी368516ए	सुबेदार	विजयन के टी	01.05.2010
1586	जेसी373344ए	सुबेदार	विजयन पीवी	01.04.2010
1587	जेसी374226वाइ	सुबेदार	विनोद कुमार	01.04.2010
1588	जेसी372582ए	सुबेदार	विशराम सिंह	01.04.2010
1589	जेसी223783ए	सुबेदार	वासन सिंह	01.04.2010
1590	जेसी373740डब्ल्यू	सुबेदार	यधूनन्दन ठाकुर	01.06.2010
1591	जेसी373526एन	सुबेदार	यशपाल सिंह	01.06.2010
1592	जेसी374164के	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.02.2010
1593	जेसी373000एफ	सुबेदार	योहानन कुट्टी जी.	01.07.2010

गार्ड्स

1594	जेसी403510ए	सुबेदार	बाल मुकुद	01.05.2010
1595	जेसी403131के	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.02.2010
1596	जेसी403041एच	सुबेदार	चनाबसप्पा हुदेद	01.06.2010
1597	जेसी403403वाइ	सुबेदार	चीना राम	01.05.2010
1598	जेसी403457ए	सुबेदार	चिंता मनी	01.04.2010
1599	जेसी403187डब्ल्यू	सुबेदार	दलवीर सिंह	01.04.2010
1600	जेसी402679एच	सुबेदार	देवेश कुमार	01.03.2010
1601	जेसी403094एफ	सुबेदार	धीरेंद्र कुमार	01.07.2010
1602	जेसी402737एफ	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2010
1603	जेसी403299डब्ल्यू	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01.08.2010
1604	जेसी403169एन	सुबेदार	जगदीश राय	01.08.2010
1605	जेसी403264ए	सुबेदार	जय नाथ राय	01.08.2010
1606	जेसी403513एन	सुबेदार	जिया लाल	01.05.2010
1607	जेसी403354एफ	सुबेदार	कनकादास बी	01.04.2010
1608	जेसी403218एल	सुबेदार	कप्तान सिंह कटारिया	01.05.2010
1609	जेसी403221एल	सुबेदार	खेम राज	01.05.2010
1610	जेसी402983एम	सुबेदार	लल्लन सिंह	01.06.2010
1611	जेसी403766एच	सुबेदार	लोबो अलफर्ड बर्नार्ड	01.05.2010
1612	जेसी402793ए	सुबेदार	मान सिंह दिअप्पा	01.06.2010
1613	जेसी402588वाइ	सुबेदार	मनी राम	01.04.2010
1614	जेसी403262पी	सुबेदार	मायाधर महानी	01.07.2010
1615	जेसी403445एल	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2010
1616	जेसी403786डब्ल्यू	सुबेदार	नारायण सिंह	01.08.2010
1617	जेसी402943एल	सुबेदार	नरेश	01.05.2010
1618	जेसी403674डब्ल्यू	सुबेदार	नेकराम सिंह सोगरवल	01.08.2010
1619	जेसी403414एल	सुबेदार	ओमपाल सिंह	01.04.2010
1620	जेसी403178पी	सुबेदार	पारस राम	01.03.2010
1621	जेसी403477एन	सुबेदार	पवन कुमार	01.08.2010
1622	जेसी403129एम	सुबेदार	प्रहलाद	01.02.2010

1623	जेसी403399एफ	सुबेदार	प्रमोद प्रसाद	01.07.2010
1624	जेसी402856एक्स	सुबेदार	राज मनी	01.02.2010
1625	जेसी403137एल	सुबेदार	राज सिंह	01.06.2010
1626	जेसी402885एम	सुबेदार	राम भूवन तिवारी	01.07.2010
1627	जेसी403086एच	सुबेदार	राम करन	01.03.2010
1628	जेसी403668एच	सुबेदार	राम नाथ सिंह	01.07.2010
1629	जेसी402884के	सुबेदार	रमा नन्द राय	01.06.2010
1630	जेसी403253एन	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.05.2010
1631	जेसी402890एक्स	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	01.05.2010
1632	जेसी403208एफ	सुबेदार	रोहिताश सिंह पूनिया	01.07.2010
1633	जेसी402857ए	सुबेदार	रूप राम	01.03.2010
1634	जेसी403132एम	सुबेदार	संकथा प्रसाद	01.03.2010
1635	जेसी403217एच	सुबेदार	शम्भू सिंह	01.03.2010
1636	जेसी402759ए	सुबेदार	शिव कुमार यादव	01.04.2010
1637	जेसी403082एम	सुबेदार	वीरेंद्र पाल सिंह	01.07.2010
1638	जेसी403388पी	सुबेदार	यशपाल सिंह	01.04.2010
1639	जेसी403310के	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.06.2010

पैराशूट रेजीमेन्ट

1640	जेसी412724एक्स	सुबेदार	बाबू राम	01.05.2010
1641	जेसी412792एल	सुबेदार	बुध सिंह	01.03.2010
1642	जेसी412807एच	सुबेदार	देव सिंह	01.03.2010
1643	जेसी412473वाइ	सुबेदार	गिरवर सिंह	01.04.2010
1644	जेसी413023एन	सुबेदार	गोपाल दत्त पंत	01.06.2010
1645	जेसी412677एल	सुबेदार	हंस राज	01.06.2010
1646	जेसी412499एन	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.05.2010
1647	जेसी412554वाइ	सुबेदार	जय पाल	01.07.2010
1648	जेसी412687पी	सुबेदार	जय सिंह	01.06.2010
1649	जेसी412808एल	सुबेदार	कैलाश चंद्र	01.07.2010
1650	जेसी412700एन	सुबेदार	मदन मोहन सिंह	01.07.2010
1651	जेसी412826एन	सुबेदार	मोहिन्दर लाल	01.06.2010
1652	जेसी412550एच	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.04.2010
1653	जेसी412602एन	सुबेदार	पीतम सिंह	01.04.2010
1654	जेसी412755एक्स	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.04.2010
1655	जेसी412577ए	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.07.2010
1656	जेसी412624एम	सुबेदार	राम सेवक	01.07.2010
1657	जेसी412601एल	सुबेदार	रमेश कुमार	01.04.2010
1658	जेसी412564एच	सुबेदार	सरदारा राम	01.04.2010
1659	जेसी412741एक्स	सुबेदार	श्री किशन	01.02.2010
1660	जेसी412391डब्ल्यू	सुबेदार	सोमेश चंद्रा धनसियाल	01.03.2010

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

1661	जेसी420004एल	सुबेदार	अमलेंदु बसाक	01.03.2010
1662	जेसी419347पी	सुबेदार	अनन्त देव प्रसाद	01.05.2010
1663	जेसी419839एन	सुबेदार	अन्ना सिंह	01.04.2010
1664	जेसी419556एम	सुबेदार	अर्जन सिंह	01.05.2010
1665	जेसी418785एल	सुबेदार	अशोक कुमार	01.06.2010
1666	जेसी419169एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार पुन	01.07.2010
1667	जेसी418784एच	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2010
1668	जेसी419757एल	सुबेदार	बचन सिंह	01.06.2010
1669	जेसी419712एल	सुबेदार	बहादुर राम	01.04.2010
1670	जेसी419091एक्स	सुबेदार	बारगे रामचंद्र शिवाजी	01.03.2010
1671	जेसी419751के	सुबेदार	बाटा कृष्णा स्वेन	01.06.2010
1672	जेसी419208एल	सुबेदार	बताने कान्तीलाल शिवप्पा	01.04.2010
1673	जेसी419265एम	सुबेदार	भोसले पांडुरंग राव साहेब	01.06.2010
1674	जेसी419980पी	सुबेदार	बिजय कुमार परीद	01.06.2010
1675	जेसी419972डब्ल्यू	सुबेदार	बीर बहादुर	01.04.2010
1676	जेसी419698के	सुबेदार	चंद्रा बल्लभ	01.04.2010
1677	जेसी419930के	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.04.2010
1678	जेसी419602डब्ल्यू	सुबेदार	दलीप चंद्रा नाथ	01.04.2010
1679	जेसी419185पी	सुबेदार	दया राम	01.07.2010
1680	जेसी419634वाइ	सुबेदार	देवी दास	01.04.2010
1681	जेसी419562ए	सुबेदार	देवी दत्ता पाठक	01.04.2010
1682	जेसी420001एक्स	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.04.2010
1683	जेसी420163एच	सुबेदार	धीरज पाल सिंह	01.06.2010
1684	जेसी419707ए	सुबेदार	दीना नाथ चौधरी	01.04.2010
1685	जेसी419381पी	सुबेदार	ईप्पन पीडी	01.04.2010
1686	जेसी420060के	सुबेदार	फकीरप्पा संगप्पा यू	01.04.2010
1687	जेसी419370एच	सुबेदार	गह्वाने भौसाहब बाबू राव	01.08.2010
1688	जेसी419775एन	सुबेदार	ज्ञान चन्द्र	01.04.2010
1689	जेसी420395एफ	सुबेदार	गुनेशवर मंडल	01.04.2010
1690	जेसी419841एल	सुबेदार	गुन्त रेडी रमा कृष्णा	01.08.2010
1691	जेसी420403पी	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.04.2010
1692	जेसी419276वाइ	सुबेदार	होरिसवार भराली	01.08.2010
1693	जेसी419737एक्स	सुबेदार	जय करन	01.04.2010
1694	जेसी420086वाइ	सुबेदार	जशवन्त सिंह	01.04.2010
1695	जेसी420245एल	सुबेदार	जतिन कुमार नाथ	01.08.2010
1696	जेसी419543पी	सुबेदार	झब्बु लाल	01.04.2010
1697	जेसी420190एम	सुबेदार	कैलाश चन्द्र	01.08.2010
1698	जेसी419838एल	सुबेदार	कपिल देव प्रसाद	01.08.2010



1699	जेसी419681डब्ल्यू सुबेदार	कपिल प्रसाद	01.04.2010
1700	जेसी420061एम सुबेदार	करतार सिंह	01.04.2010
1701	जेसी419346एम सुबेदार	खोकन चंद्रा रौय	01.03.2010
1702	जेसी420181एल सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.04.2010
1703	जेसी420042एफ सुबेदार	लेख राम	01.04.2010
1704	जेसी418555एक्स सुबेदार	मोहम्मद रेजौल हुक	01.04.2010
1705	जेसी419415एक्स सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.07.2010
1706	जेसी419099के सुबेदार	नंदन लाल शर्मा	01.04.2010
1707	जेसी419711एच सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2010
1708	जेसी419973वाइ सुबेदार	पारस नाथ शर्मा	01.04.2010
1709	जेसी419071के सुबेदार	पाटिल महादेव यशवन्त	01.02.2010
1710	जेसी419243एन सुबेदार	पवार लीलाधर राम चंद्रा	01.06.2010
1711	जेसी419166के सुबेदार	प्रेमन वीटी	01.04.2010
1712	जेसी419788एल सुबेदार	पुरुषोत्थम चुनी लाल के	01.04.2010
1713	जेसी420443डब्ल्यू सुबेदार	राधा कृष्णा पिल्लई टी	01.06.2010
1714	जेसी420162ए सुबेदार	राज कुमार शर्मा	01.04.2010
1715	जेसी419486वाइ सुबेदार	राम किशन	01.02.2010
1716	जेसी419883एक्स सुबेदार	सदानन्दा तमुली	01.04.2010
1717	जेसी419575एक्स सुबेदार	साजू डी.	01.04.2010
1718	जेसी419242एल सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.04.2010
1719	जेसी419902एक्स सुबेदार	शम्भू प्रसाद	01.08.2010
1720	जेसी419353एच सुबेदार	सिंगानपल्ली अप्पला नायडू	01.04.2010
1721	जेसी420185एफ सुबेदार	सोमप्पा चन्द्राप्पा वी	01.06.2010
1722	जेसी418991पी सुबेदार	सुभास सिन्हा	01.04.2010
1723	जेसी418895ए सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.04.2010
1724	जेसी419706एक्स सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
1725	जेसी419782के सुबेदार	सुरेश सिंह	01.04.2010
1726	जेसी419791एल सुबेदार	तरसेम सिंह	01.08.2010
1727	जेसी419842एन सुबेदार	तेगीमली महादेव एस	01.04.2010
1728	जेसी419817पी सुबेदार	थामस कुट्टी जे	01.04.2010
1729	जेसी419473एफ सुबेदार	वेनु एन	01.06.2010
1730	जेसी419836ए सुबेदार	विजय कुमार	01.02.2010
1731	जेसी418557एच सुबेदार	विजय सिंह भाटी	01.04.2010

**पंजाब रेजीमेंट**

1732	जेसी429498एफ सुबेदार	अमर सिंह	01.04.2010
1733	जेसी429082के सुबेदार	अवतार सिंह	01.07.2010
1734	जेसी429592एल सुबेदार	बलदेव सिंह	01.05.2010
1735	जेसी429384डब्ल्यू सुबेदार	चमेल सिंह चौहान	01.07.2010
1736	जेसी429565एफ सुबेदार	देव राज	01.05.2010

1737	जेसी429585पी	सुबेदार	गहारा सिंह	01.02.2010
1738	जेसी429390के	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.05.2010
1739	जेसी429742डब्ल्यू	सुबेदार	हरबंस लाल	01.07.2010
1740	जेसी428894एल	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.04.2010
1741	जेसी429346ए	सुबेदार	हरदीत सिंह	01.02.2010
1742	जेसी429704ए	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.04.2010
1743	जेसी430000एच	सुबेदार	जागीर सिंह	01.08.2010
1744	जेसी429136ए	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.02.2010
1745	जेसी429898एन	सुबेदार	जय करन मलिक	01.02.2010
1746	जेसी429313पी	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.04.2010
1747	जेसी429511ए	सुबेदार	करनैल सिंह	01.05.2010
1748	जेसी429734एक्स	सुबेदार	कश्मीर सिंह भारद्वाज	01.04.2010
1749	जेसी429054एक्स	सुबेदार	कश्मीर सिंह कहलन	01.05.2010
1750	जेसी429708डब्ल्यू	सुबेदार	कष्णन सिंह	01.04.2010
1751	जेसी429814पी	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.04.2010
1752	जेसी429636एक्स	सुबेदार	मस्त राम	01.08.2010
1753	जेसी429425पी	सुबेदार	मेस्टन सिंह	01.06.2010
1754	जेसी429714के	सुबेदार	नाहर सिंह	01.04.2010
1755	जेसी429266एच	सुबेदार	नशातर सिंह	01.04.2010
1756	जेसी429670एक्स	सुबेदार	निरंजन सिंह	01.08.2010
1757	जेसी429474एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2010
1758	जेसी429588एच	सुबेदार	ओंकार चन्द राना	01.07.2010
1759	जेसी429757वाइ	सुबेदार	ओंकार सिंह	01.05.2010
1760	जेसी429679एम	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.07.2010
1761	जेसी428805एफ	सुबेदार	प्यारा सिंह	01.08.2010
1762	जेसी429603एम	सुबेदार	प्रिथी सिंह	01.08.2010
1763	जेसी430080एल	सुबेदार	पुरुष्पथम सिंह	01.08.2010
1764	जेसी429385वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2010
1765	जेसी429643एन	सुबेदार	राम प्रकाश	01.05.2010
1766	जेसी429682एम	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.08.2010
1767	जेसी429613डब्ल्यू	सुबेदार	रोमेश लाल	01.04.2010
1768	जेसी429163के	सुबेदार	साहिब सिंह	01.04.2010
1769	जेसी429642एल	सुबेदार	सतपाल सिंह	01.03.2010
1770	जेसी429265ए	सुबेदार	शेर सिंह	01.04.2010
1771	जेसी429363ए	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.03.2010
1772	जेसी429749ए	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.04.2010
1773	जेसी429896एच	सुबेदार	सुखदेवे सिंह	01.07.2010
1774	जेसी429449वाइ	सुबेदार	सुनील सिंह	01.05.2010
1775	जेसी428819एफ	सुबेदार	सूरत सिंह	01.03.2010
1776	जेसी429634एम	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.05.2010

1777	जेसी429653एक्स	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.05.2010
1778	जेसी429732एम	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.04.2010
1779	जेसी429095एफ	सुबेदार	तीरथ सिंह	01.05.2010
<b>मद्रास रेजीमेन्ट</b>				
1780	जेसी438776एल	सुबेदार	ए चकरावती	01.08.2010
1781	जेसी438988डब्ल्यू	सुबेदार	अजीत कुमार वी	01.08.2010
1782	जेसी439025डब्ल्यू	सुबेदार	एंथोनी एआर	01.08.2010
1783	जेसी439571एच	सुबेदार	अशोकन सी	01.05.2010
1784	जेसी439331एल	सुबेदार	बाबू एमएम	01.08.2010
1785	जेसी438552एल	सुबेदार	बासप्पा कादेमानी	01.04.2010
1786	जेसी438252के	सुबेदार	सी अन्नादुराय	01.06.2010
1787	जेसी438895एफ	सुबेदार	ईसी सुब्बारामन	01.07.2010
1788	जेसी438453एच	सुबेदार	जी. जानकीरमन	01.04.2010
1789	जेसी439142एफ	सुबेदार	जोर्ज सी टी	01.08.2010
1790	जेसी438881एफ	सुबेदार	जोर्ज कुट्टी न	01.05.2010
1791	जेसी439262ए	सुबेदार	गुगन एम	01.04.2010
1792	जेसी438934पी	सुबेदार	के मरुथा मुथु	01.02.2010
1793	जेसी439352एफ	सुबेदार	के सेकार	01.08.2010
1794	जेसी438253एम	सुबेदार	केशवन जी.	01.05.2010
1795	जेसी438559पी	सुबेदार	केजी मुनीकृशना रेडी	01.05.2010
1796	जेसी438867पी	सुबेदार	एलएसआरकेएस प्रभाकरा राव	01.08.2010
1797	जेसी439251एन	सुबेदार	महेन्द्रन एम	01.07.2010
1798	जेसी438600ए	सुबेदार	मारुति सलामन्तापी	01.07.2010
1799	जेसी438597एल	सुबेदार	मेथ्यू ओमन	01.04.2010
1800	जेसी438906एच	सुबेदार	ओमकार रेडी	01.06.2010
1801	जेसी438795डब्ल्यू	सुबेदार	पलानी एन	01.07.2010
1802	जेसी439440एक्स	सुबेदार	पांडियाराज जी.	01.08.2010
1803	जेसी439380एन	सुबेदार	पंडीरा पोईना पोलू राजू	01.06.2010
1804	जेसी438972एल	सुबेदार	पीताम्बरन एम	01.04.2010
1805	जेसी438916एम	सुबेदार	प्रमाराजन पी	01.08.2010
1806	जेसी439066ए	सुबेदार	राजाशेखरन पी	01.07.2010
1807	जेसी438852एम	सुबेदार	राजेन्द्रन नायर एमएम	01.04.2010
1808	जेसी438725एक्स	सुबेदार	रमेशन कैपरथ	01.07.2010
1809	जेसी438761एच	सुबेदार	एस अथीमूला पेरूमल	01.04.2010
1810	जेसी438415एम	सुबेदार	एस कल्यानी	01.05.2010
1811	जेसी439327एच	सुबेदार	एस मारिआ एंथोनी	01.08.2010
1812	जेसी438956एन	सुबेदार	शेक मीरा साहेब	01.04.2010
1813	जेसी438905ए	सुबेदार	शण्मुगमै सी	01.04.2010
1814	जेसी438896के	सुबेदार	सुब्बियह देवराज	01.08.2010

1815	जेसी438780एन	सुबेदार	वी कनकराज	01.08.2010
1816	जेसी439433एफ	सुबेदार	वी मुनिरथनम	01.08.2010
1817	जेसी438743ए	सुबेदार	वी मुरुगानन्दम	01.05.2010
1818	जेसी438523डब्ल्यू	सुबेदार	विजयन के	01.04.2010
1819	जेसी439109के	सुबेदार	विसवोथामन वी	01.04.2010
1820	जेसी438053डब्ल्यू	सुबेदार	विलसन पीजे	01.03.2010

ग्रेनेडियर्स

1821	जेसी449825एच	सुबेदार	अभे सिंह	01.04.2010
1822	जेसी449769पी	सुबेदार	अजमेर सिंह भदोरिया	01.04.2010
1823	जेसी449275एल	सुबेदार	अनिरुध सिंह	01.06.2010
1824	जेसी449580एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2010
1825	जेसी449025के	सुबेदार	बाबू लाल	01.03.2010
1826	जेसी449699एफ	सुबेदार	बाबू लाल मीना	01.04.2010
1827	जेसी449478पी	सुबेदार	बच्चू सिंह तोमर	01.07.2010
1828	जेसी449439डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
1829	जेसी449697डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
1830	जेसी450090डब्ल्यू	सुबेदार	भनवारू खान	01.04.2010
1831	जेसी449261एल	सुबेदार	भूप सिंह	01.06.2010
1832	जेसी449626पी	सुबेदार	बिधि चन्द	01.04.2010
1833	जेसी449538वाइ	सुबेदार	बृज मोहन सिंह	01.03.2010
1834	जेसी449788ए	सुबेदार	बुआ दित्ता	01.07.2010
1835	जेसी449241एक्स	सुबेदार	छगन लाल मीना	01.04.2010
1836	जेसी450053एच	सुबेदार	देव राज	01.08.2010
1837	जेसी449824ए	सुबेदार	देव रतन	01.04.2010
1838	जेसी449513एम	सुबेदार	देवी सिंह	01.05.2010
1839	जेसी448345एम	सुबेदार	दोस्त मोहम्मद	01.02.2010
1840	जेसी449401एम	सुबेदार	फरीयाद	01.07.2010
1841	जेसी450071एल	सुबेदार	गजेन्दर सिंह सैंगर	01.04.2010
1842	जेसी449237पी	सुबेदार	हाफीज खान	01.08.2010
1843	जेसी449554डब्ल्यू	सुबेदार	हमीद खान	01.02.2010
1844	जेसी449779वाइ	सुबेदार	इकबाल खान	01.07.2010
1845	जेसी449987एन	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.06.2010
1846	जेसी450024एन	सुबेदार	जगपाल सिंह	01.04.2010
1847	जेसी449865के	सुबेदार	जय भगवान	01.04.2010
1848	जेसी450025डब्ल्यू	सुबेदार	जीवन लाल	01.08.2010
1849	जेसी449654एफ	सुबेदार	करनैल सिंह	01.06.2010
1850	जेसी449689एक्स	सुबेदार	केशर सिंह	01.05.2010
1851	जेसी449435ए	सुबेदार	खादिम हुसैन	01.07.2010
1852	जेसी450032एम	सुबेदार	कृष्णापाल सिंह	01.08.2010

1853	जेसी449565एच	सुबेदार	कुसल सिंह	01.04.2010
1854	जेसी449458एफ	सुबेदार	मदन सिंह	01.07.2010
1855	जेसी450062के	सुबेदार	महेंद्र सिंह राठोर	01.04.2010
1856	जेसी450115एक्स	सुबेदार	मोहम्मद इकबाल	01.05.2010
1857	जेसी449338एच	सुबेदार	मोहम्मद निजामुरदीन	01.04.2010
1858	जेसी449631ए	सुबेदार	नियाज मोहम्मद	01.04.2010
1859	जेसी450069एन	सुबेदार	नियाज मोहम्मद	01.07.2010
1860	जेसी450000के	सुबेदार	पदम सिंह चौहान	01.08.2010
1861	जेसी449195एन	सुबेदार	पागी राजू भाई माने भाई	01.04.2010
1862	जेसी449743ए	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.04.2010
1863	जेसी449222एम	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह	01.07.2010
1864	जेसी450067एच	सुबेदार	रहिमन अली	01.04.2010
1865	जेसी449333के	सुबेदार	राय सिंह गोड़	01.05.2010
1866	जेसी448881पी	सुबेदार	राज कुमार यादव	01.08.2010
1867	जेसी449770के	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह परिहार	01.05.2010
1868	जेसी449167एफ	सुबेदार	राजिन्दर प्रसाद जोशी	01.06.2010
1869	जेसी449526के	सुबेदार	राम गोपाल	01.06.2010
1870	जेसी449893डब्ल्यू	सुबेदार	राम लखन सिंह	01.05.2010
1871	जेसी449857एल	सुबेदार	राम निवास	01.06.2010
1872	जेसी449618डब्ल्यू	सुबेदार	राम पत	01.04.2010
1873	जेसी449912डब्ल्यू	सुबेदार	रमा शंकर सिंह	01.04.2010
1874	जेसी449729एन	सुबेदार	रामजी लाल	01.04.2010
1875	जेसी449886ए	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.04.2010
1876	जेसी449702डब्ल्यू	सुबेदार	राठोड़ प्रताप सिंह भागे सिंह	01.04.2010
1877	जेसी449801वाइ	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2010
1878	जेसी449836पी	सुबेदार	सत्येन्द्र सिंह	01.04.2010
1879	जेसी450063एम	सुबेदार	सत्यपाल सिंह चौहान	01.04.2010
1880	जेसी449548एच	सुबेदार	शेर बहादुर सिंह	01.04.2010
1881	जेसी448989एम	सुबेदार	शीश पाल	01.04.2010
1882	जेसी449259एन	सुबेदार	शिव पाल राम	01.04.2010
1883	जेसी450078पी	सुबेदार	शोकत खान	01.04.2010
1884	जेसी449584एन	सुबेदार	सूबे सिंह	01.05.2010
1885	जेसी449700एल	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2010
1886	जेसी449532एक्स	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.04.2010
1887	जेसी449894वाइ	सुबेदार	तेजपाल सिंह	01.04.2010
1888	जेसी449901के	सुबेदार	उस्मान अली	01.04.2010
1889	जेसी449913वाइ	सुबेदार	ज़ाफर अली खान	01.04.2010
1890	जेसी449934पी	सुबेदार	ज़ाकिर हुसैन	01.07.2010

मराठा लघु सेना

1891	जेसी458699एच	सुबेदार	अप्पा राव	01.05.2010
1892	जेसी458594वाइ	सुबेदार	अशोक रत्नाकर भंडारी	01.04.2010
1893	जेसी458383डब्ल्यू	सुबेदार	भास्कर निमबाजी पदधन	01.08.2010
1894	जेसी458558एन	सुबेदार	भोगले भीमराव चान्द्राकान्त	01.04.2010
1895	जेसी459020वाइ	सुबेदार	चव्हाण बालीराम जगन्नथ	01.08.2010
1896	जेसी458480एन	सुबेदार	चव्हाण प्रकाश मारुति	01.03.2010
1897	जेसी459301पी	सुबेदार	दत्ताजीराव अकरम शिंदे	01.06.2010
1898	जेसी459316एक्स	सुबेदार	दिलीप शंकरराव राउत	01.05.2010
1899	जेसी458546वाइ	सुबेदार	गोदासे बाजीराव गणपति	01.03.2010
1900	जेसी459378एक्स	सुबेदार	हुले गंगाराम तंयिप्पा	01.06.2010
1901	जेसी458979डब्ल्यू	सुबेदार	लसुने हमीद अलाउद्दीन	01.07.2010
1902	जेसी459023एम	सुबेदार	महादेव दादासो भोसले	01.07.2010
1903	जेसी216493ए	सुबेदार	मनोहर श्रीराम खेतले	01.02.2010
1904	जेसी459072पी	सुबेदार	मुंधे अभीमान वैकटराव	01.08.2010
1905	जेसी458740एन	सुबेदार	नूराअहमद भलदर	01.06.2010
1906	जेसी458495डब्ल्यू	सुबेदार	पांडुरंग रामचंद्र पाटिल	01.05.2010
1907	जेसी458181पी	सुबेदार	पराश्रम समभाजी चोगले	01.06.2010
1908	जेसी458793एम	सुबेदार	पाटिल सदासिव नागोजी	01.04.2010
1909	जेसी459385एन	सुबेदार	पाटिल विलास शामराव	01.04.2010
1910	जेसी458899वाइ	सुबेदार	पंवार गोरखनाथ जयावन्त	01.06.2010
1911	जेसी458590एच	सुबेदार	राणे प्रकाश बाबूराव	01.08.2010
1912	जेसी458470के	सुबेदार	राओसो बलकू नतकुके	01.03.2010
1913	जेसी459420एल	सुबेदार	सालवी दत्तत्रे रामचंद्र	01.07.2010
1914	जेसी459352एच	सुबेदार	सतपा महातरु गोरे	01.04.2010
1915	जेसी459098के	सुबेदार	शेख चौदबादशाह कासिम	01.08.2010
1916	जेसी458929एल	सुबेदार	शेलाखे भानुदास कुन्दालिक	01.07.2010
1917	जेसी458832ए	सुबेदार	शिगवान वसंत राओजी	01.05.2010
1918	जेसी459679एफ	सुबेदार	शिंदे दगादु रामचंद्र	01.08.2010
1919	जेसी458743एफ	सुबेदार	शिंदे हरिश्चंद्र दिवानजी	01.04.2010
1920	जेसी458968के	सुबेदार	शिव कुमार	01.06.2010
1921	जेसी459133एफ	सुबेदार	शिवाजी पाटिल	01.08.2010
1922	जेसी458928एच	सुबेदार	सुरेश महादेव जाओकर	01.05.2010
1923	जेसी458683एक्स	सुबेदार	उत्तातम कदम	01.08.2010
1924	जेसी458772डब्ल्यू	सुबेदार	वेन्कटेशा के	01.04.2010

राजपूताना राईफल्स

1925	जेसी469418एफ	सुबेदार	अजीत सिंह	01.04.2010
1926	जेसी469288के	सुबेदार	अमर सिंह	01.04.2010

1927	जेसी469342एम	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.04.2010
1928	जेसी469770एल	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.07.2010
1929	जेसी469776एम	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.02.2010
1930	जेसी469942पी	सुबेदार	बिजेन्दर सिंह	01.05.2010
1931	जेसी469737एन	सुबेदार	बीर सिंह	01.04.2010
1932	जेसी469755डब्ल्यू	सुबेदार	फल सिंह वर्मा	01.04.2010
1933	जेसी469777पी	सुबेदार	गिरधर सिंह	01.08.2010
1934	जेसी469379एन	सुबेदार	हनुमान सिंह	01.04.2010
1935	जेसी469528डब्ल्यू	सुबेदार	हरदेवा राम बजरोलिया	01.08.2010
1936	जेसी469411एक्स	सुबेदार	जय सिंह राजपूत	01.08.2010
1937	जेसी469423एम	सुबेदार	लाल सिंह	01.04.2010
1938	जेसी469577वाइ	सुबेदार	मंगल सिंह	01.04.2010
1939	जेसी469331ए	सुबेदार	मंगू सिंह	01.05.2010
1940	जेसी469241वाइ	सुबेदार	मनरूप सिंह	01.04.2010
1941	जेसी469169एन	सुबेदार	नारायण सिंह	01.04.2010
1942	जेसी469520के	सुबेदार	नरपत सिंह शेखावत	01.04.2010
1943	जेसी469445एल	सुबेदार	ओम प्रेमी	01.06.2010
1944	जेसी469566एम	सुबेदार	फूल चन्द जाट	01.04.2010
1945	जेसी468886पी	सुबेदार	राधे श्याम	01.08.2010
1946	जेसी469527एन	सुबेदार	राज कुमार	01.08.2010
1947	जेसी469703ए	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.04.2010
1948	जेसी469458एच	सुबेदार	राम निवास	01.04.2010
1949	जेसी468891ए	सुबेदार	रामवतार सिंह	01.03.2010
1950	जेसी469346एच	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.07.2010
1951	जेसी469697एक्स	सुबेदार	संग सिंह	01.05.2010
1952	जेसी469335डब्ल्यू	सुबेदार	सवाई सिंह	01.05.2010
1953	जेसी469513एन	सुबेदार	शेर सिंह	01.06.2010
1954	जेसी469521एम	सुबेदार	शिव दान सिंह	01.03.2010
1955	जेसी469451वाइ	सुबेदार	सोहन सिंह	01.08.2010
1956	जेसी469369के	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.05.2010
1957	जेसी469054ए	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार शर्मा	01.03.2010
1958	जेसी470024पी	सुबेदार	स्वरूप सिंह इनडे	01.07.2010

**राजपूत रेजीमेन्ट**

1959	जेसी479201एल	सुबेदार	अवधेश कुमार सिंह	01.08.2010
1960	जेसी479182के	सुबेदार	बजरंग लाल	01.04.2010
1961	जेसी479073वाइ	सुबेदार	धर्म वीर	01.05.2010
1962	जेसी479751एन	सुबेदार	हरकेश कुमार	01.04.2010
1963	जेसी479548एक्स	सुबेदार	काना राम जाखल	01.08.2010
1964	जेसी479765एन	सुबेदार	लभू राम	01.06.2010

1965	जेसी478982एक्स	सुबेदार	महाबीर सिंह	01.07.2010
1966	जेसी479350वाइ	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.02.2010
1967	जेसी479343एच	सुबेदार	प्यार सिंह योगी	01.07.2010
1968	जेसी479346डब्ल्यू	सुबेदार	रबी लाल सिंघा	01.08.2010
1969	जेसी479462वाइ	सुबेदार	राज पाल सिंह	01.04.2010
1970	जेसी478967एच	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.07.2010
1971	जेसी479706एफ	सुबेदार	राकेश कुमार	01.07.2010
1972	जेसी479293एच	सुबेदार	राम देव सिंह	01.04.2010
1973	जेसी478828वाइ	सुबेदार	रमेश चंद्र सिंह	01.08.2010
1974	जेसी479689एम	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.08.2010
1975	जेसी479162एक्स	सुबेदार	ऋषि राज	01.04.2010
1976	जेसी478818पी	सुबेदार	रूप चन्द	01.04.2010
1977	जेसी478983ए	सुबेदार	श्री कष्णन	01.08.2010
1978	जेसी479347वाइ	सुबेदार	सुंदर लाल मिश्रा	01.08.2010
1979	जेसी479515एल	सुबेदार	सुवा लाल	01.08.2010

**जाट रेजीमेन्ट**

1980	जेसी489380के	सुबेदार	अभे राम	01.08.2010
1981	जेसी489248के	सुबेदार	अनिल कुमार	01.02.2010
1982	जेसी489526एम	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2010
1983	जेसी489549एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2010
1984	जेसी489302एम	सुबेदार	बलवान चन्द	01.05.2010
1985	जेसी489456वाइ	सुबेदार	भनवारा राम	01.04.2010
1986	जेसी489710एक्स	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.05.2010
1987	जेसी489670एफ	सुबेदार	बिरमा राम	01.04.2010
1988	जेसी489034एन	सुबेदार	छत्तार सिंह शिवरन-	01.07.2010
1989	जेसी489303पी	सुबेदार	दीपा राम	01.02.2010
1990	जेसी489466एच	सुबेदार	देवी सिंह	01.05.2010
1991	जेसी489626एक्स	सुबेदार	धर्म पाल	01.04.2010
1992	जेसी489709एच	सुबेदार	धोकल राम	01.05.2010
1993	जेसी489713एल	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह	01.08.2010
1994	जेसी489459एम	सुबेदार	हरिद्रा सिंह	01.07.2010
1995	जेसी489290एच	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.04.2010
1996	जेसी489468एन	सुबेदार	जय सिंह	01.04.2010
1997	जेसी489187एक्स	सुबेदार	जयबीर सिंह	01.04.2010
1998	जेसी489556के	सुबेदार	जनकबीर सिंह	01.04.2010
1999	जेसी489503एल	सुबेदार	कर्म बीर	01.06.2010
2000	जेसी489723पी	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.05.2010
2001	जेसी489519डब्ल्यू	सुबेदार	नन्द कवर	01.08.2010
2002	जेसी489332के	सुबेदार	निहाल सिंह	01.07.2010



2003	जेसी489506वाइ	सुबेदार	राजबीर	01.08.2010
2004	जेसी489717एफ	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.04.2010
2005	जेसी489299एक्स	सुबेदार	राजबीर सिंह चहल	01.04.2010
2006	जेसी489494पी	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2010
2007	जेसी489354एच	सुबेदार	राम कुमार	01.04.2010
2008	जेसी489385एच	सुबेदार	राम निवास	01.05.2010
2009	जेसी489296के	सुबेदार	रामेश्वर दास	01.04.2010
2010	जेसी489714एन	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.08.2010
2011	जेसी489146एन	सुबेदार	रणधीर सिंह राठी	01.04.2010
2012	जेसी489719एम	सुबेदार	रंजीत सिंह जाट	01.04.2010
2013	जेसी489433एक्स	सुबेदार	सरदार सिंह	01.04.2010
2014	जेसी489496ए	सुबेदार	सीस्पल सिंह	01.07.2010
2015	जेसी489079एन	सुबेदार	सूबे सिंह	01.07.2010
2016	जेसी488895एक्स	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.05.2010
2017	जेसी489636एफ	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.04.2010
2018	जेसी488587एक्स	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.02.2010
2019	जेसी489471एन	सुबेदार	उमेद सिंह	01.04.2010
2020	जेसी489455डब्ल्यू	सुबेदार	विद्याधर सिंह	01.07.2010
2021	जेसी489454एन	सुबेदार	विजय पाल	01.07.2010

**सिख रेजीमेन्ट**

2022	जेसी499020एफ	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.08.2010
2023	जेसी498803एन	सुबेदार	गगन सिंह	01.07.2010
2024	जेसी498819वाइ	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
2025	जेसी498866डब्ल्यू	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.05.2010
2026	जेसी498876ए	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.05.2010
2027	जेसी499322एन	सुबेदार	हजूर सिंह	01.08.2010
2028	जेसी498926ए	सुबेदार	पलविन्दर सिंह	01.05.2010
2029	जेसी499189डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.07.2010
2030	जेसी498966एफ	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.04.2010
2031	जेसी499286एन	सुबेदार	रोमेश लाल	01.03.2010

**सिख लघु पैदल सेना**

2032	जेसी508551एच	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
2033	जेसी508527एम	सुबेदार	बलजिन्दर सिंह	01.03.2010
2034	जेसी509001एम	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.03.2010
2035	जेसी509028के	सुबेदार	बलकार सिंह	01.04.2010
2036	जेसी508513एम	सुबेदार	बलविन्दर पाल सिंह	01.05.2010
2037	जेसी509077एम	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.08.2010
2038	जेसी508763एन	सुबेदार	बुध सिंह	01.03.2010

2039	जेसी508472एन	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.08.2010
2040	जेसी508831डब्ल्यू	सुबेदार	धर्मपाल सिंह	01.03.2010
2041	जेसी508756एक्स	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.06.2010
2042	जेसी509012वाइ	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.08.2010
2043	जेसी508676ए	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.06.2010
2044	जेसी508939एन	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.04.2010
2045	जेसी508909डब्ल्यू	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.04.2010
2046	जेसी508435ए	सुबेदार	हरचंद सिंह	01.08.2010
2047	जेसी509079एक्स	सुबेदार	हरदेव सिंह	01.04.2010
2048	जेसी508937एच	सुबेदार	हरजिन्द्र पाल सिंह	01.06.2010
2049	जेसी509024एम	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.04.2010
2050	जेसी509228ए	सुबेदार	जागीर सिंह	01.04.2010
2051	जेसी509257पी	सुबेदार	जगरान्त सिंह	01.06.2010
2052	जेसी509194एक्स	सुबेदार	कर्मजीत सिंह	01.04.2010
2053	जेसी508577एक्स	सुबेदार	मंगल सिंह	01.03.2010
2054	जेसी508302के	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.03.2010
2055	जेसी508584एन	सुबेदार	नानक चन्द	01.06.2010
2056	जेसी508620एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.04.2010
2057	जेसी508426वाइ	सुबेदार	प्यारा सिंह	01.02.2010
2058	जेसी508613एक्स	सुबेदार	पूरन सिंह	01.04.2010
2059	जेसी509175एम	सुबेदार	पूरन सिंह	01.04.2010
2060	जेसी509151एच	सुबेदार	राम सिंह	01.07.2010
2061	जेसी509197एल	सुबेदार	सरूप सिंह	01.08.2010
2062	जेसी508713एच	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.04.2010
2063	जेसी509022एच	सुबेदार	जोरा सिंह	01.08.2010

डोगरा रेजीमेन्ट

2064	जेसी520057वाइ	सुबेदार	अमृत लाल	01.04.2010
2065	जेसी520242एम	सुबेदार	अनिल कुमार	01.05.2010
2066	जेसी520170एन	सुबेदार	अनिल सिंह	01.04.2010
2067	जेसी519937एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2010
2068	जेसी520197एल	सुबेदार	अशोक कुमार	01.07.2010
2069	जेसी520037एल	सुबेदार	बाबू राम	01.02.2010
2070	जेसी520214ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2010
2071	जेसी520125एफ	सुबेदार	बलदीप राज	01.04.2010
2072	जेसी520231ए	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
2073	जेसी519691पी	सुबेदार	बिहारी लाल	01.03.2010
2074	जेसी519867पी	सुबेदार	चमन लाल	01.02.2010
2075	जेसी520177एक्स	सुबेदार	दलजीत सिंह चानजोतिरा	01.04.2010
2076	जेसी520263एच	सुबेदार	देस राज	01.04.2010

2077	जेसी519809एल सुबेदार	देश राज चम्बियाल	01.03.2010
2078	जेसी519764डब्ल्यू सुबेदार	धर्म सिंह	01.03.2010
2079	जेसी520182एच सुबेदार	गोपाल सिंह	01.04.2010
2080	जेसी519780एन सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.02.2010
2081	जेसी520255के सुबेदार	हरबंस लाल	01.04.2010
2082	जेसी519806एक्स सुबेदार	हरबंस सिंह	01.07.2010
2083	जेसी519671एफ सुबेदार	इंद्र जीत	01.03.2010
2084	जेसी520249डब्ल्यू सुबेदार	जगदेव कुमार	01.05.2010
2085	जेसी519128एच सुबेदार	जग्गार नाथ ठाकुर	01.04.2010
2086	जेसी519782वाइ सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.02.2010
2087	जेसी520120एच सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2010
2088	जेसी520046एम सुबेदार	केशव दत्त	01.04.2010
2089	जेसी520243पी सुबेदार	कृष्णन पौल भाटिया	01.05.2010
2090	जेसी519201डब्ल्यू सुबेदार	कुलदीप चन्द कटोच	01.05.2010
2091	जेसी520344एच सुबेदार	मदन लाल	01.05.2010
2092	जेसी519553एन सुबेदार	मनोहर लाल	01.04.2010
2093	जेसी519884पी सुबेदार	मनोहर सिंह	01.04.2010
2094	जेसी519389डब्ल्यू सुबेदार	मोहन लाल शर्मा	01.06.2010
2095	जेसी519777एन सुबेदार	मोहन सिंह	01.07.2010
2096	जेसी520059के सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2010
2097	जेसी519751वाइ सुबेदार	निहाल सिंह	01.04.2010
2098	जेसी520199डब्ल्यू सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2010
2099	जेसी520312ए सुबेदार	ओंकार चन्द	01.04.2010
2100	जेसी519185के सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.03.2010
2101	जेसी520244एक्स सुबेदार	प्रकाश चन्द शर्मा	01.04.2010
2102	जेसी519886ए सुबेदार	प्यार चन्द	01.03.2010
2103	जेसी519811एच सुबेदार	प्रकाश चन्द ठाकुर	01.07.2010
2104	जेसी520196एच सुबेदार	राज कुमार	01.04.2010
2105	जेसी519960डब्ल्यू सुबेदार	राजेंद्र सिंह कैथ	01.05.2010
2106	जेसी520060वाइ सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2010
2107	जेसी520367के सुबेदार	राजू राम	01.04.2010
2108	जेसी520212पी सुबेदार	रक्षपाल सिंह	01.04.2010
2109	जेसी520187एफ सुबेदार	राम पौल	01.04.2010
2110	जेसी519794एन सुबेदार	राम सिंह	01.03.2010
2111	जेसी519845डब्ल्यू सुबेदार	रमेश चन्द	01.04.2010
2112	जेसी520053एच सुबेदार	रमेश चन्द	01.04.2010
2113	जेसी520250एल सुबेदार	रमेश लाल	01.05.2010
2114	जेसी519679एन सुबेदार	रामेश्वर कुमार	01.04.2010
2115	जेसी519941एल सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.04.2010
2116	जेसी520343ए सुबेदार	रूप लाल	01.04.2010

2117	जेसी520108एफ	सुबेदार	सत पौल	01.04.2010
2118	जेसी520232एच	सुबेदार	सतीश कुमार	01.04.2010
2119	जेसी520179एच	सुबेदार	शेर सिंह वर्मा	01.04.2010
2120	जेसी519789एच	सुबेदार	सीतल सिंह	01.04.2010
2121	जेसी520051एक्स	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.04.2010
2122	जेसी519327डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.05.2010
2123	जेसी520102ए	सुबेदार	सुभाष सिंह	01.04.2010
2124	जेसी519857एल	सुबेदार	सुदागर राम	01.06.2010
2125	जेसी519979पी	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.04.2010
2126	जेसी519279एफ	सुबेदार	तन सिंह	01.02.2010
2127	जेसी519749एफ	सुबेदार	तुलसी राम	01.04.2010
2128	जेसी520159पी	सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.04.2010
2129	जेसी520081पी	सुबेदार	विजय कुमार	01.04.2010
2130	जेसी519257एच	सुबेदार	विरेंद्र कुमार पठानिया	01.02.2010

**गढ़वाल राईफल्स**

2131	जेसी529952एल	सुबेदार	अब्बल सिंह	01.06.2010
2132	जेसी529471वाइ	सुबेदार	अजब सिंह	01.03.2010
2133	जेसी529866ए	सुबेदार	आनंद सिंह	01.02.2010
2134	जेसी529901एक्स	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
2135	जेसी529636एम	सुबेदार	भरत सिंह	01.03.2010
2136	जेसी530021एन	सुबेदार	भूपाल सिंह	01.06.2010
2137	जेसी529631एन	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.06.2010
2138	जेसी529286एल	सुबेदार	चमन सिंह	01.07.2010
2139	जेसी529596डब्ल्यू	सुबेदार	चमन सिंह	01.07.2010
2140	जेसी529610एक्स	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.04.2010
2141	जेसी529775डब्ल्यू	सुबेदार	चन्द्र सिंह	01.07.2010
2142	जेसी529761डब्ल्यू	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.04.2010
2143	जेसी529788एन	सुबेदार	दरवान सिंह	01.06.2010
2144	जेसी529329पी	सुबेदार	दया राम खोला	01.04.2010
2145	जेसी529518वाइ	सुबेदार	देवेंद्र सिंह	01.04.2010
2146	जेसी529955वाइ	सुबेदार	धर्म सिंह	01.06.2010
2147	जेसी529817एक्स	सुबेदार	गम्भीर सिंह	01.08.2010
2148	जेसी529853एच	सुबेदार	गंगा सिंह	01.06.2010
2149	जेसी529656ए	सुबेदार	गिरीश चंद्रा	01.08.2010
2150	जेसी529397एच	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.02.2010
2151	जेसी529991के	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.04.2010
2152	जेसी529573पी	सुबेदार	जगदम्बा प्रसाद	01.08.2010
2153	जेसी529472एफ	सुबेदार	जगेंद्र सिंह	01.03.2010
2154	जेसी529071एम	सुबेदार	जसमाल सिंह	01.04.2010

2155	जेसी529566वाइ सुबेदार	जोत सिंह पनवर	01.07.2010
2156	जेसी529906डब्ल्यू सुबेदार	केदार सिंह	01.08.2010
2157	जेसी529887डब्ल्यू सुबेदार	किष्णा नन्द	01.08.2010
2158	जेसी529899एल सुबेदार	कष्णन सिंह	01.04.2010
2159	जेसी529699पी सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.08.2010
2160	जेसी530301एफ सुबेदार	मदन लाल कुनीयाल	01.06.2010
2161	जेसी529579डब्ल्यू सुबेदार	मदन सिंह	01.06.2010
2162	जेसी529306एन सुबेदार	मानबार सिंह	01.03.2010
2163	जेसी529996एच सुबेदार	मिजान सिंह	01.05.2010
2164	जेसी529780एफ सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2010
2165	जेसी529913एम सुबेदार	मोहन सिंह	01.06.2010
2166	जेसी529582डब्ल्यू सुबेदार	ओम प्रकाश बराथवाल	01.04.2010
2167	जेसी529856डब्ल्यू सुबेदार	पदम सिंह	01.04.2010
2168	जेसी529624एक्स सुबेदार	प्रभु दयाल	01.05.2010
2169	जेसी529470डब्ल्यू सुबेदार	प्रेम नारायण गन्वार	01.08.2010
2170	जेसी529816पी सुबेदार	पुर्षोत्तम जोशी	01.04.2010
2171	जेसी529575ए सुबेदार	पुशकर सिंह	01.04.2010
2172	जेसी529995ए सुबेदार	पुशकर सिंह	01.04.2010
2173	जेसी529860वाइ सुबेदार	प्यारे लाल मैथानी	01.04.2010
2174	जेसी529767एक्स सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.05.2010
2175	जेसी529284ए सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.05.2010
2176	जेसी528680के सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.03.2010
2177	जेसी529936के सुबेदार	राजेश कुमार	01.05.2010
2178	जेसी529345एम सुबेदार	राजीव कुमार	01.03.2010
2179	जेसी529467डब्ल्यू सुबेदार	राम चन्द्र सिंह	01.08.2010
2180	जेसी529615डब्ल्यू सुबेदार	राम स्वरूप	01.04.2010
2181	जेसी529091ए सुबेदार	रमेश सिंह	01.04.2010
2182	जेसी529268एच सुबेदार	रंजीत सिंह	01.04.2010
2183	जेसी529954डब्ल्यू सुबेदार	सैन सिंह रावत	01.05.2010
2184	जेसी529486एफ सुबेदार	साजन सिंह नेगी	01.03.2010
2185	जेसी529443एम सुबेदार	सत्य पाल सिंह	01.07.2010
2186	जेसी529785ए सुबेदार	सुंदर लाल	01.04.2010
2187	जेसी529132वाइ सुबेदार	सूरत सिंह	01.07.2010
2188	जेसी529935एल सुबेदार	उमा प्रसाद	01.04.2010
2189	जेसी529537के सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.03.2010
2190	जेसी529783पी सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.05.2010
2191	जेसी529281एम सुबेदार	वेद प्रकाश शर्मा	01.04.2010

कुर्मीच. रेजिमेंट

2192	जेसी539611एन सुबेदार	भागवत सिंह	01.05.2010
------	----------------------	------------	------------

2193	जेसी539389एक्स	सुबेदार	ब्रम प्रकाश	01.07.2010
2194	जेसी539974एक्स	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.04.2010
2195	जेसी539613वाइ	सुबेदार	देव सिंह	01.02.2010
2196	जेसी539999के	सुबेदार	धर्म सिंह	01.08.2010
2197	जेसी539569ए	सुबेदार	धर्म वीर	01.07.2010
2198	जेसी539941एम	सुबेदार	दीवान सिंह	01.06.2010
2199	जेसी538958एन	सुबेदार	दीवान सिंह बोहरा	01.03.2010
2200	जेसी539197ए	सुबेदार	दुर्गा सिंह	01.08.2010
2201	जेसी539505पी	सुबेदार	गोविंद राम	01.06.2010
2202	जेसी539831एक्स	सुबेदार	हरीश चन्द	01.04.2010
2203	जेसी539600एफ	सुबेदार	हयात सिंह बिष्ट	01.05.2010
2204	जेसी539916एन	सुबेदार	हुकम सिंह	01.04.2010
2205	जेसी539079एम	सुबेदार	जगत सिंह	01.06.2010
2206	जेसी539875पी	सुबेदार	खुशाल सिंह	01.04.2010
2207	जेसी539788एफ	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.04.2010
2208	जेसी539519पी	सुबेदार	कुंवर सिंह	01.03.2010
2209	जेसी539694के	सुबेदार	लाल सिंह यादव	01.02.2010
2210	जेसी539234एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.07.2010
2211	जेसी538789एक्स	सुबेदार	मथाई वी आइ	01.03.2010
2212	जेसी539858पी	सुबेदार	मोहन चंद्रा	01.04.2010
2213	जेसी539832ए	सुबेदार	मोहन गिरि	01.04.2010
2214	जेसी539786डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2010
2215	जेसी539807एफ	सुबेदार	नारायण दत्त	01.04.2010
2216	जेसी539801ए	सुबेदार	नारायण सिंह	01.08.2010
2217	जेसी539394एच	सुबेदार	पिताम्बर दत्त पांडे	01.06.2010
2218	जेसी539015एफ	सुबेदार	राजा राम सिंह	01.03.2010
2219	जेसी539271डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.07.2010
2220	जेसी539285डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2010
2221	जेसी539419के	सुबेदार	रमाकांत सिंह यादव	01.06.2010
2222	जेसी539392एक्स	सुबेदार	रंग लाल	01.02.2010
2223	जेसी538831एल	सुबेदार	रवि कुमार भट्ट	01.05.2010
2224	जेसी539921वाइ	सुबेदार	श्याम सिंह	01.06.2010
2225	जेसी539544एन	सुबेदार	सूरज भान	01.03.2010
2226	जेसी539931एच	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
2227	जेसी539608एन	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.05.2010
2228	जेसी539016के	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.05.2010
2229	जेसी538871एम	सुबेदार	तारा दत्त जोशी	01.03.2010
2230	जेसी540034वाइ	सुबेदार	त्रिलोक सिंह जेठी	01.06.2010
2231	जेसी539475एच	सुबेदार	उत्तार कुमार	01.04.2010
2232	जेसी539387एम	सुबेदार	वजीर सिंह भाकेर	01.07.2010

**आसाम रेजीमेन्ट**

2233	जेसी549203डब्ल्यू सुबेदार	अमित कुमार नाथ	01.04.2010
2234	जेसी548469डब्ल्यू सुबेदार	बसन्ता केआर बरुयह	01.07.2010
2235	जेसी548834एम सुबेदार	गिनजापाउ	01.02.2010
2236	जेसी548942डब्ल्यू सुबेदार	होतोवी शिखू	01.04.2010
2237	जेसी548839एल सुबेदार	जोसफ एल बीओवाई	01.03.2010
2238	जेसी548977एम सुबेदार	कैचिनपाउ ज़ोयु	01.03.2010
2239	जेसी548696डब्ल्यू सुबेदार	कैईखौलेल	01.07.2010
2240	जेसी549178एच सुबेदार	कार्तिक सिन्हा	01.06.2010
2241	जेसी548628एच सुबेदार	महेन्द्र मोहन दास	01.02.2010
2242	जेसी549128एक्स सुबेदार	मनोहरी दास	01.04.2010
2243	जेसी548697वाइ सुबेदार	नबीन चंद्रा गोगोई	01.08.2010
2244	जेसी548950पी सुबेदार	निकुन्जा सिंघा	01.08.2010
2245	जेसी438272एक्स सुबेदार	प्रमोद च. दास	01.05.2010
2246	जेसी549210एम सुबेदार	सुखेंद्र सिन्हा	01.06.2010
2247	जेसी548861डब्ल्यू सुबेदार	सुकुर सिंग बसुमा	01.07.2010
2248	जेसी548794डब्ल्यू सुबेदार	स्वप्न कुमार सिंघा	01.08.2010
2249	जेसी548809एन सुबेदार	तनंग हैई	01.04.2010
2250	जेसी548916पी सुबेदार	तेज बहादुर गुरंग	01.08.2010
2251	जेसी548967एच सुबेदार	था बच्चा सिंघा	01.08.2010
2252	जेसी549194ए सुबेदार	यमखोपाओ	01.07.2010

**बिहार रेजीमेन्ट**

2253	जेसी559117वाइ सुबेदार	अब्राहम इक्का	01.02.2010
2254	जेसी559283एम सुबेदार	अशोक कुमार मिश्रा	01.02.2010
2255	जेसी559646एल सुबेदार	बाजित लाल	01.08.2010
2256	जेसी558801पी सुबेदार	बाली राम सिंह	01.03.2010
2257	जेसी558876एम सुबेदार	बसिष्ठ राय	01.07.2010
2258	जेसी559396पी सुबेदार	भीमसेन मुखी	01.05.2010
2259	जेसी558799एच सुबेदार	बिबेका नन्द दास	01.02.2010
2260	जेसी559570डब्ल्यू सुबेदार	बिक्रमा सिंह	01.07.2010
2261	जेसी559448ए सुबेदार	बिरेन्द्रा नाथ सिंह	01.05.2010
2262	जेसी559295एफ सुबेदार	ब्लेसियस माझी	01.05.2010
2263	जेसी559291एल सुबेदार	ब्रिन्दाबन बैग	01.08.2010
2264	जेसी558431ए सुबेदार	बुदन भगत	01.03.2010
2265	जेसी558833एक्स सुबेदार	बुरन सिंह बांदिया	01.08.2010
2266	जेसी558816एक्स सुबेदार	कारलुस एक्सालोक्सो	01.04.2010
2267	जेसी559305ए सुबेदार	कि्रिस्टोफर हेमरोम	01.08.2010
2268	जेसी558945एक्स सुबेदार	चिरिल होरो	01.04.2010

2269	जेसी559173एक्स	सुबेदार	बलेमेन्ट तिर्केई	01.04.2010
2270	जेसी558798ए	सुबेदार	दीना बंधु दाश	01.08.2010
2271	जेसी559417ए	सुबेदार	दोमिनिक केर्केट्टा	01.06.2010
2272	जेसी559379पी	सुबेदार	द्वारिका नाथ सिंह	01.07.2010
2273	जेसी559400एम	सुबेदार	गेरल्ड एम तिर्केई	01.04.2010
2274	जेसी559155पी	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह	01.03.2010
2275	जेसी559182वाइ	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह	01.03.2010
2276	जेसी559120वाइ	सुबेदार	हरी राम साह	01.04.2010
2277	जेसी559190एक्स	सुबेदार	हरिहर स्वेन	01.04.2010
2278	जेसी559347एम	सुबेदार	हेनरी इन्नेसेंट कुजुर	01.04.2010
2279	जेसी559329के	सुबेदार	जबियार तिर्केई	01.04.2010
2280	जेसी559301के	सुबेदार	जगत नारायण प्रसाद	01.03.2010
2281	जेसी559214डब्ल्यू	सुबेदार	जय नारायण प्रकाश सिंह	01.07.2010
2282	जेसी558934एल	सुबेदार	जोहन टोपनो	01.08.2010
2283	जेसी559367ए	सुबेदार	जोसफ कन्दूलाना	01.04.2010
2284	जेसी559409एफ	सुबेदार	कामता प्रसाद	01.04.2010
2285	जेसी559549एन	सुबेदार	लाख देव प्रसाद यादव	01.06.2010
2286	जेसी559309डब्ल्यू	सुबेदार	लल्लन साह	01.08.2010
2287	जेसी559220के	सुबेदार	लक्ष्मन प्रसाद	01.02.2010
2288	जेसी559481एक्स	सुबेदार	नानेया ओरान	01.04.2010
2289	जेसी559052डब्ल्यू	सुबेदार	नारायण परीद	01.04.2010
2290	जेसी559341एल	सुबेदार	निरंजन स्वेन	01.06.2010
2291	जेसी559517एल	सुबेदार	निर्मल इक्का	01.08.2010
2292	जेसी559206एक्स	सुबेदार	पंकज कुमार मेहता	01.03.2010
2293	जेसी559581एच	सुबेदार	राज कुमार चौहान	01.05.2010
2294	जेसी558883एच	सुबेदार	राम एनईएच सिंह	01.02.2010
2295	जेसी558990के	सुबेदार	राम सहाय	01.04.2010
2296	जेसी559231डब्ल्यू	सुबेदार	रंगजी सिंह	01.03.2010
2297	जेसी559405एल	सुबेदार	रंजीत कुमार ओझा	01.04.2010
2298	जेसी559011एम	सुबेदार	रातिया टोपनो	01.03.2010
2299	जेसी558884एल	सुबेदार	सहजेन्द्रा कुमार सिन्हा	01.03.2010
2300	जेसी559075एक्स	सुबेदार	सनीका टोपनो	01.04.2010
2301	जेसी559348पी	सुबेदार	शम्भू नाथ	01.06.2010
2302	जेसी559477पी	सुबेदार	शत्रुघन साह	01.04.2010
2303	जेसी559154एम	सुबेदार	श्यामजी उपाध्याय	01.04.2010
2304	जेसी559223एक्स	सुबेदार	सिलस बेन्ग्रा	01.06.2010
2305	जेसी559003एन	सुबेदार	सुबाष चंद्रा प्रधान	01.03.2010
2306	जेसी559271एक्स	सुबेदार	सुधीर तोप्पो	01.04.2010
2307	जेसी558982एल	सुबेदार	सोना राम सोरन	01.07.2010
2308	जेसी558936डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2010



2309	जेसी559085एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.03.2010
2310	जेसी559319ए	सुबेदार	तेज नारायण राय	01.07.2010
2311	जेसी559084वाइ	सुबेदार	विलियम काजूर	01.04.2010
<b>महार रेजीमेन्ट</b>				
2312	जेसी569476ए	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2010
2313	जेसी569674एल	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.07.2010
2314	जेसी569701के	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
2315	जेसी568785डब्ल्यू	सुबेदार	भीमराव गरीबा वाकोदे	01.07.2010
2316	जेसी569365एच	सुबेदार	बूटा सिंह	01.08.2010
2317	जेसी569363एक्स	सुबेदार	देवामोहन जनार्दन अम्भोरे	01.07.2010
2318	जेसी569416एल	सुबेदार	गोपाल राम	01.04.2010
2319	जेसी569640एक्स	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.08.2010
2320	जेसी569209वाइ	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.02.2010
2321	जेसी569632वाइ	सुबेदार	गुगन राम	01.04.2010
2322	जेसी569723एच	सुबेदार	गुरभेज सिंह	01.04.2010
2323	जेसी569668एक्स	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.04.2010
2324	जेसी569266ए	सुबेदार	जनार्दन शालिग्राम त्यादे	01.06.2010
2325	जेसी569313एम	सुबेदार	कमल भारद्वाज	01.04.2010
2326	जेसी569169एच	सुबेदार	केशो गनपत सोनोने	01.08.2010
2327	जेसी569491पी	सुबेदार	मोहन लाल	01.04.2010
2328	जेसी569566एफ	सुबेदार	नन्द लाल गुर्जर	01.06.2010
2329	जेसी569700एफ	सुबेदार	नेमी चन्द	01.04.2010
2330	जेसी569841डब्ल्यू	सुबेदार	नेत्र सिंह	01.08.2010
2331	जेसी569853एल	सुबेदार	प्रदीप कुमार	01.08.2010
2332	जेसी569770ए	सुबेदार	राज करन सिंह	01.05.2010
2333	जेसी569722ए	सुबेदार	राम सिंह चौहान	01.05.2010
2334	जेसी569592एच	सुबेदार	रामधन	01.04.2010
2335	जेसी569710एल	सुबेदार	रमेश चन्द	01.04.2010
2336	जेसी569455के	सुबेदार	रोहित कुमार राउत	01.08.2010
2337	जेसी569241एन	सुबेदार	संत राज	01.06.2010
2338	जेसी569696के	सुबेदार	शीश राम	01.04.2010
2339	जेसी569497डब्ल्यू	सुबेदार	शिव दयाल	01.07.2010
2340	जेसी569605पी	सुबेदार	विजय सिंह	01.04.2010
2341	जेसी569576एल	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.04.2010
2342	जेसी568917वाइ	सुबेदार	ज़चारिया केर्केट्टा	01.08.2010
2343	जेसी569210एन	सुबेदार	जाले सिंह	01.02.2010
<b>जम्मू एवं कश्मीर राईफल</b>				
2344	जेसी579689एफ	सुबेदार	अजीत सिंह	01.02.2010

2345	जेसी579956एक्स	सुबेदार	अरुण कुमार	01.03.2010
2346	जेसी580118पी	सुबेदार	बचन दास	01.05.2010
2347	जेसी580057एच	सुबेदार	बदारी नाथ	01.07.2010
2348	जेसी579728पी	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
2349	जेसी579884वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
2350	जेसी579701एक्स	सुबेदार	बलदेव दास शर्मा	01.02.2010
2351	जेसी580399डब्ल्यू	सुबेदार	बेनी चन्द	01.07.2010
2352	जेसी579735एल	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.08.2010
2353	जेसी579882एन	सुबेदार	भूप सिंह	01.05.2010
2354	जेसी580285एल	सुबेदार	बृज लाल	01.08.2010
2355	जेसी580008ए	सुबेदार	दर्शन लाल	01.04.2010
2356	जेसी579717एच	सुबेदार	दया सागर	01.02.2010
2357	जेसी579653एच	सुबेदार	देस राज	01.02.2010
2358	जेसी580016वाइ	सुबेदार	देस राज	01.06.2010
2359	जेसी580251एक्स	सुबेदार	देश राज	01.08.2010
2360	जेसी579452के	सुबेदार	देव बहादुर थापा	01.04.2010
2361	जेसी580078वाइ	सुबेदार	देवर्का नाथ	01.02.2010
2362	जेसी580168ए	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.08.2010
2363	जेसी579896एन	सुबेदार	हेम राज	01.08.2010
2364	जेसी580041एक्स	सुबेदार	होशियार सिंह	01.08.2010
2365	जेसी580319एन	सुबेदार	जसवंत सिंह, एसएम	01.08.2010
2366	जेसी580222एच	सुबेदार	कमलेश कुमार ठाकुर	01.08.2010
2367	जेसी579762पी	सुबेदार	लाल चन्द	01.02.2010
2368	जेसी580042ए	सुबेदार	लेख राज	01.08.2010
2369	जेसी580179एम	सुबेदार	मदन लाल	01.08.2010
2370	जेसी579468एम	सुबेदार	मनोहर सिंह सम्ब्याल	01.03.2010
2371	जेसी580119एक्स	सुबेदार	मोहन लाल	01.05.2010
2372	जेसी579881एल	सुबेदार	प्रेम सिंह मन्हास	01.08.2010
2373	जेसी580187एल	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.04.2010
2374	जेसी580140ए	सुबेदार	प्रीतम कुमार	01.05.2010
2375	जेसी580024एक्स	सुबेदार	रबींद्र नाथ	01.04.2010
2376	जेसी579879एन	सुबेदार	रच्चा पौल	01.05.2010
2377	जेसी579754डब्ल्यू	सुबेदार	राजू गुरंग	01.04.2010
2378	जेसी580228के	सुबेदार	राम कष्णन	01.06.2010
2379	जेसी579818डब्ल्यू	सुबेदार	सरदारी लाल	01.02.2010
2380	जेसी580144डब्ल्यू	सुबेदार	सर्व दयाल सिंह	01.04.2010
2381	जेसी579785डब्ल्यू	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.02.2010
2382	जेसी580006पी	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.08.2010
2383	जेसी579415डब्ल्यू	सुबेदार	टेक चन्द रेंना	01.03.2010
2384	जेसी579422एम	सुबेदार	उधम सिंह	01.08.2010

लद्दाख स्काउट

2385	जेसी588058ए	सुबेदार	अशोक कुमार कोल	01.03.2010
2386	जेसी588281के	सुबेदार	छेरिंग अंगचौक	01.03.2010
2387	जेसी588276वाइ	सुबेदार	छेरिंग जोरगियास	01.03.2010
2388	जेसी588139वाइ	सुबेदार	छेरिंग मुरुप	01.03.2010
2389	जेसी588142ए	सुबेदार	गुलाम कादिर, एसएम	01.04.2010
2390	जेसी588213डब्ल्यू	सुबेदार	फुनचोक नमगैल	01.08.2010
2391	जेसी588275डब्ल्यू	सुबेदार	रिगजिन अंगचौक	01.03.2010
2392	जेसी588126एच	सुबेदार	सोनम अंगदस	01.06.2010
2393	जेसी588241एच	सुबेदार	सोनम रिजचेन	01.03.2010
2394	जेसी588237ए	सुबेदार	तोनदुष अंगदस	01.03.2010

नागा रेजीमेन्ट

2395	जेसी590093एफ	सुबेदार	बी डी. थुमथुंग अनल	01.07.2010
2396	जेसी539742वाइ	सुबेदार	भूवन चन्द	01.04.2010
2397	जेसी590123एन	सुबेदार	मगन चन्द	01.03.2010
2398	जेसी590161के	सुबेदार	मान सिंह राना	01.03.2010
2399	जेसी538817वाइ	सुबेदार	नरेंदर सिंह	01.03.2010
2400	जेसी590144के	सुबेदार	राधे श्याम	01.06.2010
2401	जेसी539109वाइ	सुबेदार	राजिन्दर कुमार गोस्वामी	01.05.2010
2402	जेसी590183एच	सुबेदार	रजनीश कुमार थापा	01.04.2010
2403	जेसी590090एन	सुबेदार	राम बहादुर गुरंग	01.02.2010

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

2404	जेसी592523वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2010
2405	जेसी592960वाइ	सुबेदार	बिशन सिंह	01.08.2010
2406	जेसी593241एम	सुबेदार	चम्बल सिंह	01.05.2010
2407	जेसी592549एन	सुबेदार	होशियार सिंह	01.08.2010
2408	जेसी592841एच	सुबेदार	जंग बहादुर	01.08.2010
2409	जेसी592984एच	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.05.2010
2410	जेसी592845वाइ	सुबेदार	जीत राज	01.04.2010
2411	जेसी592443एफ	सुबेदार	महबूब अहमद रेना	01.04.2010
2412	जेसी592871ए	सुबेदार	रशपाल सिंह	01.05.2010
2413	जेसी593127पी	सुबेदार	रोमेश लाल	01.04.2010
2414	जेसी592585वाइ	सुबेदार	सरदार सिंह	01.08.2010
2415	जेसी592956डब्ल्यू	सुबेदार	स्वर्ण लाल	01.04.2010

1 गोरखा राईफल्स

2416	जेसी602347एच	सुबेदार	चंद्रा बहादुर पुन	01.04.2010
------	--------------	---------	-------------------	------------

2417	जेसी602152एक्स	सुबेदार	दान बहादुर सिंह	01.07.2010
2418	जेसी602544एल	सुबेदार	डी.ईजी. बहादुर थापा	01.06.2010
2419	जेसी602549के	सुबेदार	देवेंदर सिंह	01.06.2010
2420	जेसी602500एन	सुबेदार	हेम लाल राना	01.05.2010
2421	जेसी602505एम	सुबेदार	जय बहादुर गुरंग	01.07.2010
<b>3 गोरखा राईफल्स</b>				
2422	जेसी607518एन	सुबेदार	आनंद सिंह थापा	01.06.2010
2423	जेसी607541एफ	सुबेदार	भीम बहादुर थापा	01.05.2010
2424	जेसी607529ए	सुबेदार	बोम बहादुर गुरंग	01.08.2010
2425	जेसी607467एल	सुबेदार	दम बहादुर गुरंग	01.05.2010
2426	जेसी607548के	सुबेदार	घान बहादुर पुन	01.07.2010
2427	जेसी607526एम	सुबेदार	कुल बहादुर राना	01.06.2010
2428	जेसी607488एफ	सुबेदार	प्रेम बहादुर थापा	01.02.2010
2429	जेसी607497एच	सुबेदार	राम बहादुर गुरंग	01.07.2010
2430	जेसी607547एच	सुबेदार	राम बहादुर मगर	01.04.2010
2431	जेसी607226एल	सुबेदार	राम शंकर	01.02.2010
2432	जेसी607428एम	सुबेदार	रत्ना बहादुर छत्री	01.08.2010
2433	जेसी607514एक्स	सुबेदार	रुद्रा बहादुर गुरंग	01.06.2010
<b>4 गोरखा राईफल्स</b>				
2434	जेसी612345एल	सुबेदार	बलबीर सिंह रावत	01.08.2010
2435	जेसी612535एक्स	सुबेदार	भीम बहादुर थापा	01.02.2010
2436	जेसी612552एक्स	सुबेदार	दिल बहादुर पुन, एसएम	01.06.2010
2437	जेसी612521एक्स	सुबेदार	इमान सिंह राना	01.07.2010
2438	जेसी612523एच	सुबेदार	गुमान सिंह अले	01.07.2010
2439	जेसी612520पी	सुबेदार	हिम बहादुर थापा	01.02.2010
2440	जेसी612553ए	सुबेदार	कुल बहादुर गुरंग	01.08.2010
2441	जेसी612399एम	सुबेदार	नंदजी सिंह	01.08.2010
2442	जेसी612339एक्स	सुबेदार	सुग्रीम	01.07.2010
2443	जेसी612518एक्स	सुबेदार	तोप बहादुर थापा	01.02.2010
2444	जेसी612543डब्ल्यू	सुबेदार	उत्तार सिंह गुरंग	01.08.2010
<b>5 गोरखा राईफल्स</b>				
2445	जेसी617657एल	सुबेदार	अनिल कुमार	01.08.2010
2446	जेसी617680वाइ	सुबेदार	चाबी लाल थापा	01.08.2010
2447	जेसी617257वाइ	सुबेदार	चंद्रा कांत झा	01.04.2010
2448	जेसी617624ए	सुबेदार	दल बहादुर थापा	01.04.2010
2449	जेसी617458एक्स	सुबेदार	दीवान सिंह पुन	01.06.2010
2450	जेसी617424के	सुबेदार	गोविंद गुरंग	01.05.2010

2451	जेसी617655ए	सुबेदार	ज्ञान बहादुर दरलामी	01.04.2010
2452	जेसी617622पी	सुबेदार	हुम बहादुर थापा	01.02.2010
2453	जेसी617445ए	सुबेदार	जंग बहादुर पुन	01.05.2010
2454	जेसी617678एफ	सुबेदार	जया बहादुर गुस्स्य	01.04.2010
2455	जेसी617732के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	01.05.2010
2456	जेसी617775वाइ	सुबेदार	लाल बहादुर राना	01.04.2010
2457	जेसी617612एल	सुबेदार	मान बहादुर पुन	01.04.2010
2458	जेसी617599एम	सुबेदार	नार बहादुर गुरंग	01.05.2010
2459	जेसी617405वाइ	सुबेदार	पदम बहादुर राना	01.05.2010
2460	जेसी617597एफ	सुबेदार	पूर्णा बहादुर गुरंग	01.08.2010
2461	जेसी617443पी	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार थापा	01.04.2010
2462	जेसी617617के	सुबेदार	राम बहादुर गुरंग	01.08.2010
2463	जेसी617744वाइ	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.05.2010
2464	जेसी617620के	सुबेदार	रण बहादुर थापा	01.03.2010
2465	जेसी617656एच	सुबेदार	रिमन थापा	01.04.2010
2466	जेसी617584के	सुबेदार	साहा बीर राना	01.05.2010
2467	जेसी617589एच	सुबेदार	शिव बहादुर थापा	01.04.2010
2468	जेसी617609एल	सुबेदार	शिवा बहादुर थापा	01.04.2010
2469	जेसी617623एक्स	सुबेदार	तेज बहादुर थापा	01.04.2010

**8 गोरखा राईफल्स**

2470	जेसी623426एल	सुबेदार	बीर बहादुर थापा	01.05.2010
2471	जेसी623410ए	सुबेदार	गुप्ता बहादुर थापा	01.04.2010
2472	जेसी623280एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.03.2010
2473	जेसी623227एक्स	सुबेदार	पालदेन शेरपा	01.02.2010
2474	जेसी623670एल	सुबेदार	रत्ना बहादुर राना	01.07.2010
2475	जेसी623461एन	सुबेदार	टेक बहादुर थापा	01.03.2010

**9 गोरखा राईफल्स**

2476	जेसी629191ए	सुबेदार	बलकार सिंह ओलख	01.07.2010
2477	जेसी629559एक्स	सुबेदार	भीम बहादुर छत्री	01.08.2010
2478	जेसी629557एम	सुबेदार	भुपेन्द्र ठाकुरी	01.05.2010
2479	जेसी629699के	सुबेदार	बिशु बहादुर छत्री	01.05.2010
2480	जेसी629624एम	सुबेदार	दान बहादुर छत्री	01.08.2010
2481	जेसी629584डब्ल्यू	सुबेदार	धन बहादुर काकी	01.08.2010
2482	जेसी629595एच	सुबेदार	दिल्ली बिक्रम हमल	01.08.2010
2483	जेसी629589पी	सुबेदार	ईआईटी बहादुर कंवर	01.06.2010
2484	जेसी629572एफ	सुबेदार	फूल बहादुर मल्ला	01.05.2010
2485	जेसी629538एफ	सुबेदार	गोविन्द बहादुर छत्री	01.08.2010
2486	जेसी629597एन	सुबेदार	हरीश बहादुर साही	01.06.2010

2487	जेसी629623के	सुबेदार	हरका बहादुर भंडारी	01.05.2010
2488	जेसी629602एन	सुबेदार	हरका बहादुर छत्री	01.06.2010
2489	जेसी629592पी	सुबेदार	नार बहादुर भंडारी	01.06.2010
2490	जेसी629547एच	सुबेदार	नरेन्द्रा बहादुर मल्ला	01.05.2010
2491	जेसी629553डब्ल्यू	सुबेदार	नरेन्द्रा जंग शाही	01.08.2010
2492	जेसी629625पी	सुबेदार	पनू मल्ला	01.08.2010
2493	जेसी629579एल	सुबेदार	पिथा बहादुर थापा	01.06.2010
2494	जेसी629605एफ	सुबेदार	राम बहादुर शाई	01.08.2010
2495	जेसी629549एन	सुबेदार	टेक बहादुर छत्री	01.02.2010
2496	जेसी629598डब्ल्यू	सुबेदार	विजय सिंह	01.07.2010

### 11 गोरखा राईफल्स

2497	जेसी634567ए	सुबेदार	अएता बहादुर लिम्बू	01.02.2010
2498	जेसी634576एफ	सुबेदार	ऐश बहादुर राय	01.07.2010
2499	जेसी634593एफ	सुबेदार	भक्ता राज राय	01.04.2010
2500	जेसी634618एच	सुबेदार	चित्रा बहादुर गुरंग	01.03.2010
2501	जेसी634494वाइ	सुबेदार	दुर्गा प्रसाद लिम्बू	01.04.2010
2502	जेसी634239एम	सुबेदार	हरी राम काजला	01.07.2010
2503	जेसी634551पी	सुबेदार	लोक मान राय	01.03.2010
2504	जेसी634386पी	सुबेदार	मान बहादुर तमंग	01.04.2010
2505	जेसी634525एन	सुबेदार	प्रदीप कुमार राय	01.04.2010
2506	जेसी634602एक्स	सुबेदार	प्रोलाद राय	01.08.2010
2507	जेसी634221डब्ल्यू	सुबेदार	राम बीर केशवानियन	01.07.2010
2508	जेसी634569एल	सुबेदार	राम कुमार राय	01.08.2010
2509	जेसी634502एम	सुबेदार	रमेश कुमार राय	01.06.2010
2510	जेसी634504एक्स	सुबेदार	श्याम प्रकाश राय	01.08.2010

### सेना सेवा कोर दक्षिण

2511	जेसी642625एन	सुबेदार	अजास अहमद खान	01.03.2010
2512	जेसी662830डब्ल्यू	सुबेदार	अनंता कुमार घोष	01.08.2010
2513	जेसी641810पी	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2010
2514	जेसी662876वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार त्यागी	01.08.2010
2515	जेसी642690एन	सुबेदार	अपूर्व नाग	01.08.2010
2516	जेसी662893वाइ	सुबेदार	अरुण कुमार अवस्थी	01.02.2010
2517	जेसी663167डब्ल्यू	सुबेदार	आसन अली एसके	01.08.2010
2518	जेसी663105डब्ल्यू	सुबेदार	आसुतो गांगुली	01.04.2010
2519	जेसी641297वाइ	सुबेदार	अतर सिंह वर्मा	01.04.2010
2520	जेसी663242पी	सुबेदार	बाबर तानाजी कृष्णा देव	01.06.2010
2521	जेसी663289ए	सुबेदार	बाला चंद्रन के एन	01.06.2010
2522	जेसी662704के	सुबेदार	बलदेव रावत	01.02.2010

2523	जेसी641809ए	सुबेदार	बलवान सिंह	01.04.2010
2524	जेसी642660डब्ल्यू	सुबेदार	बलवान सिंह	01.08.2010
2525	जेसी662815एफ	सुबेदार	भगवती प्रसाद शर्मा	01.06.2010
2526	जेसी642076वाइ	सुबेदार	भगवती शरण वर्मा	01.03.2010
2527	जेसी663154वाइ	सुबेदार	भजन लाल	01.05.2010
2528	जेसी662802के	सुबेदार	भरत सिंह	01.07.2010
2529	जेसी641775एक्स	सुबेदार	भूप सिंह यादव	01.02.2010
2530	जेसी662765एफ	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह	01.05.2010
2531	जेसी641303एफ	सुबेदार	भूवन चंद्रा के	01.04.2010
2532	जेसी663243एक्स	सुबेदार	बिनश बारो	01.08.2010
2533	जेसी642642एन	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.05.2010
2534	जेसी663680एक्स	सुबेदार	ब्रजेन्द्र पांडे	01.04.2010
2535	जेसी662934एक्स	सुबेदार	बृज कुमार मिश्रा	01.04.2010
2536	जेसी642705एल	सुबेदार	बूटा सिंह भीरक	01.07.2010
2537	जेसी642106एल	सुबेदार	ब्यासदेव पाधी	01.02.2010
2538	जेसी662749के	सुबेदार	चंद्रा कांता बोराह	01.03.2010
2539	जेसी641278एन	सुबेदार	चंदू साहू	01.02.2010
2540	जेसी641514के	सुबेदार	चरण सिंह तोमर	01.02.2010
2541	जेसी642715पी	सुबेदार	दलबीर सिंह सहरावत	01.02.2010
2542	जेसी662807एच	सुबेदार	डांगे विश्वनाथ जगन्नाथ	01.08.2010
2543	जेसी662760एच	सुबेदार	देवेंद्र कुमार शर्मा	01.04.2010
2544	जेसी642706एन	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.08.2010
2545	जेसी641703एन	सुबेदार	धर्म बीर सिंह	01.04.2010
2546	जेसी662721के	सुबेदार	धुरन्धर राम	01.02.2010
2547	जेसी642861पी	सुबेदार	दिनेश चंद्रा त्रिपाठी	01.07.2010
2548	जेसी643106एक्स	सुबेदार	डोरी लाल	01.02.2010
2549	जेसी641372एक्स	सुबेदार	दुख हरन	01.07.2010
2550	जेसी663985एक्स	सुबेदार	द्वारका प्रसाद	01.08.2010
2551	जेसी642537एक्स	सुबेदार	गंगा प्रसाद यादव	01.02.2010
2552	जेसी642421एफ	सुबेदार	जोर्ज के	01.08.2010
2553	जेसी641794एच	सुबेदार	गुमान सिंह यादव	01.02.2010
2554	जेसी641292ए	सुबेदार	गुरबचन सिंह	01.07.2010
2555	जेसी662742ए	सुबेदार	गुरुचरण सिंह	01.04.2010
2556	जेसी662732डब्ल्यू	सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.02.2010
2557	जेसी662776एन	सुबेदार	हनुमान सिंह	01.03.2010
2558	जेसी642377एच	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.03.2010
2559	जेसी643144एन	सुबेदार	हरीश कुमार एम	01.07.2010
2560	जेसी641289ए	सुबेदार	हरिश्चंद्र सिंह यादव	01.04.2010
2561	जेसी662777डब्ल्यू	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.04.2010
2562	जेसी642342एम	सुबेदार	इराप्पा बीरादर	01.04.2010

2563	जेसी642990पी	सुबेदार	इश्वर दत्त शर्मा	01.02.2010
2564	जेसी642653ए	सुबेदार	जगदीश कुमार	01.07.2010
2565	जेसी663150एच	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.04.2010
2566	जेसी662717एफ	सुबेदार	जय चन्द	01.02.2010
2567	जेसी642700एम	सुबेदार	जयपाल सिंह	01.05.2010
2568	जेसी663426एन	सुबेदार	जय सिंह यादव	01.08.2010
2569	जेसी643066एफ	सुबेदार	जॉय चको	01.03.2010
2570	जेसी643010पी	सुबेदार	जॉय वी जी.	01.07.2010
2571	जेसी662734एफ	सुबेदार	कैलाश चंद्र जोगी	01.02.2010
2572	जेसी641295एन	सुबेदार	कमल राज शर्मा	01.07.2010
2573	जेसी641271के	सुबेदार	खेला नन्द मिश्रा	01.02.2010
2574	जेसी663354पी	सुबेदार	किशन चन्द	01.06.2010
2575	जेसी663698एन	सुबेदार	कृष्णा सुलेभाविकार	01.07.2010
2576	जेसी662722एम	सुबेदार	कुलभू शर्मा	01.03.2010
2577	जेसी642499एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.07.2010
2578	जेसी641349के	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.02.2010
2579	जेसी662812एन	सुबेदार	एलएडी. आनंद बंदू	01.04.2010
2580	जेसी643128डब्ल्यू	सुबेदार	लज्जा राम	01.04.2010
2581	जेसी642759एम	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2010
2582	जेसी662832एफ	सुबेदार	लव कुश तिवारी	01.04.2010
2583	जेसी640849पी	सुबेदार	लेख राज	01.07.2010
2584	जेसी640408वाइ	सुबेदार	एम पोनु स्वामी	01.06.2010
2585	जेसी662756ए	सुबेदार	मदन गोपाल	01.03.2010
2586	जेसी663133एच	सुबेदार	महेंद्र चौधरी	01.06.2010
2587	जेसी642624एल	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.02.2010
2588	जेसी662801एफ	सुबेदार	महेंद्र प्रताप प्रजापति	01.07.2010
2589	जेसी663178एच	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.03.2010
2590	जेसी662896एम	सुबेदार	मेमबार खान	01.06.2010
2591	जेसी641329डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद अलीम	01.08.2010
2592	जेसी663436एक्स	सुबेदार	मोहम्मद इकबाल	01.07.2010
2593	जेसी663240के	सुबेदार	मोहन बहादुर प्रधान	01.03.2010
2594	जेसी217838एच	सुबेदार	मुख्य लाल साहू	01.04.2010
2595	जेसी662799पी	सुबेदार	मुनीश कुमार	01.06.2010
2596	जेसी641426एन	सुबेदार	मुरलीधरन नायर के	01.07.2010
2597	जेसी663293एच	सुबेदार	नन्द किशोर	01.08.2010
2598	जेसी641326एच	सुबेदार	नरभेश्वर पांडे	01.04.2010
2599	जेसी642496वाइ	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.03.2010
2600	जेसी663858एच	सुबेदार	नरेश चंद्रा	01.05.2010
2601	जेसी662753एम	सुबेदार	नरेश कुमार	01.03.2010
2602	जेसी642668एच	सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.06.2010



2603	जेसी642813पी	सुबेदार	निगार कुरेशी	01.07.2010
2604	जेसी663241एम	सुबेदार	नित्या नंदा साहू	01.05.2010
2605	जेसी662820एम	सुबेदार	निजामुरदीन	01.08.2010
2606	जेसी662877एफ	सुबेदार	पलटन सिंह	01.03.2010
2607	जेसी662797के	सुबेदार	पंकज कुमार चकर्बती	01.05.2010
2608	जेसी662819एक्स	सुबेदार	पठान जब्बार खान सुभान खान	01.07.2010
2609	जेसी662891एन	सुबेदार	प्रमोद किशोर नायक	01.05.2010
2610	जेसी642692वाइ	सुबेदार	प्रणब कुमार नंदी	01.07.2010
2611	जेसी663535ए	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार एस	01.06.2010
2612	जेसी662889डब्ल्यू	सुबेदार	प्रतापिकुमार दत्ता	01.02.2010
2613	जेसी662759एन	सुबेदार	प्रताप सिंह गूजर	01.02.2010
2614	जेसी641460एम	सुबेदार	प्राथापन पिल्लई केआर	01.04.2010
2615	जेसी662710एक्स	सुबेदार	पूरन चंद्रा जोशी	01.02.2010
2616	जेसी640388डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन मल	01.04.2010
2617	जेसी662786एक्स	सुबेदार	पूरन सिंह	01.05.2010
2618	जेसी642830एफ	सुबेदार	राधा कृष्णा	01.08.2010
2619	जेसी663472एच	सुबेदार	राज किशोर सिंह	01.06.2010
2620	जेसी663763एच	सुबेदार	राज कुमार	01.03.2010
2621	जेसी642776एम	सुबेदार	राज कुमार सिंह चौहान	01.07.2010
2622	जेसी641919पी	सुबेदार	राजाराम सिंह	01.05.2010
2623	जेसी641437ए	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद खरवार	01.04.2010
2624	जेसी662750वाइ	सुबेदार	राजेंद्रा राम	01.03.2010
2625	जेसी662947पी	सुबेदार	राजेश कुमार शुक्ला	01.02.2010
2626	जेसी663267एफ	सुबेदार	राजिन्दर यादव	01.03.2010
2627	जेसी662828वाइ	सुबेदार	राम भरत झा	01.06.2010
2628	जेसी641137वाइ	सुबेदार	राम भवन यादव	01.07.2010
2629	जेसी642641एल	सुबेदार	राम चंद्र त्रिपाठी	01.03.2010
2630	जेसी662723पी	सुबेदार	राम कृष्णा	01.03.2010
2631	जेसी663586एन	सुबेदार	राम कुमार	01.06.2010
2632	जेसी662881के	सुबेदार	राम मेहर	01.06.2010
2633	जेसी641531के	सुबेदार	राम पाल यादव	01.07.2010
2634	जेसी662754पी	सुबेदार	राम प्रसाद	01.03.2010
2635	जेसी641281एन	सुबेदार	राम सरूप शर्मा	01.03.2010
2636	जेसी663307एक्स	सुबेदार	रामप्पा नवी	01.07.2010
2637	जेसी642086एच	सुबेदार	रमेशन टीके	01.04.2010
2638	जेसी642702एक्स	सुबेदार	रमेश कुमार	01.07.2010
2639	जेसी663187के	सुबेदार	रामफल ढल्लो	01.07.2010
2640	जेसी642194एम	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.05.2010
2641	जेसी643240एच	सुबेदार	रतन चन्द	01.04.2010
2642	जेसी641539डब्ल्यू	सुबेदार	रतन लाल	01.05.2010

2643	जेसी641925एच	सुबेदार	रतनासिंह	01.05.2010
2644	जेसी641320एफ	सुबेदार	रविन्द्रसिंह चौहान	01.07.2010
2645	जेसी641723एफ	सुबेदार	रविशंकर शुक्ला	01.02.2010
2646	जेसी642710डब्ल्यू	सुबेदार	रिसाल सिंह दोतासारा	01.06.2010
2647	जेसी642639एन	सुबेदार	रूप चन्द राम	01.03.2010
2648	जेसी663787एम	सुबेदार	सधनचंद्रा रौय	01.07.2010
2649	जेसी663290पी	सुबेदार	सजनीकांता दास	01.08.2010
2650	जेसी642538ए	सुबेदार	शक्ति पांडा बेनरजी	01.02.2010
2651	जेसी213431पी	सुबेदार	समर कुमार देब	01.02.2010
2652	जेसी641510एन	सुबेदार	सम्पत कुमार गौतम	01.02.2010
2653	जेसी662766के	सुबेदार	संकर कुमार मोन्डल	01.05.2010
2654	जेसी663165एल	सुबेदार	सारथा कुमार बिस्वाल	01.05.2010
2655	जेसी662879एम	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2010
2656	जेसी662894एफ	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.03.2010
2657	जेसी641323पी	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.03.2010
2658	जेसी662939डब्ल्यू	सुबेदार	शाजी कुमार के.बी	01.07.2010
2659	जेसी641269एम	सुबेदार	शंगारा सिंह	01.02.2010
2660	जेसी662780डब्ल्यू	सुबेदार	एस. त्रिपाठी	01.04.2010
2661	जेसी641290पी	सुबेदार	शिव चरण सिंह	01.06.2010
2662	जेसी641921एम	सुबेदार	शिवाशकुमार	01.05.2010
2663	जेसी662762एन	सुबेदार	शिवलालसिंह	01.04.2010
2664	जेसी642638एल	सुबेदार	श्रीमतीनाथकुमारदावा	01.03.2010
2665	जेसी642707डब्ल्यू	सुबेदार	श्रीलालसिंह	01.08.2010
2666	जेसी641387पी	सुबेदार	श्रीब्रभावाण	01.06.2010
2667	जेसी662761एल	सुबेदार	श्रीनकुमार	01.04.2010
2668	जेसी663156के	सुबेदार	श्यामा कौता अमास्ती	01.07.2010
2669	जेसी642077एफ	सुबेदार	सिधानलकुट्टी पीके	01.02.2010
2670	जेसी641905पी	सुबेदार	श्रीकान्तज नायस वी	01.03.2010
2671	जेसी642699एच	सुबेदार	श्रीरामाशर्मा	01.05.2010
2672	जेसी641270एफ	सुबेदार	स्टेलिनजी	01.02.2010
2673	जेसी642188वाइ	सुबेदार	सुबेद सिंह	01.03.2010
2674	जेसी662792एल	सुबेदार	सुभाष	01.05.2010
2675	जेसी662752के	सुबेदार	सुदामारपांडे	01.03.2010
2676	जेसी642536पी	सुबेदार	सुखवीरसिंह चहाउकर	01.02.2010
2677	जेसी642987पी	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.04.2010
2678	जेसी641520एक्स	सुबेदार	सूरज सिंह यादव	01.03.2010
2679	जेसी642693एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा नाथ मिश्रा	01.08.2010
2680	जेसी642772डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेन्द्रासिंह पाल	01.08.2010
2681	जेसी662763डब्ल्यू	सुबेदार	स्वामीशर्नईया कल्लईया	01.04.2010
2682	जेसी215538के	सुबेदार	स्वर्ण सिंह मन्हास	01.07.2010

2683	जेसी641452पी	सुबेदार	तापस कुमार देब	01.03.2010
2684	जेसी642542एच	सुबेदार	तरकेशवर सिंह	01.02.2010
2685	जेसी662818पी	सुबेदार	तेज नारायन सिंह	01.07.2010
2686	जेसी641918एम	सुबेदार	थंकप्पन ए जी.	01.02.2010
2687	जेसी641910ए	सुबेदार	तुक्काराम सी	01.04.2010
2688	जेसी642539एच	सुबेदार	उमेश सिंह	01.02.2010
2689	जेसी662706पी	सुबेदार	उत्तातम कुमार सिंघा	01.02.2010
2690	जेसी640735के	सुबेदार	वसंत दादू पाटिल	01.08.2010
2691	जेसी662813डब्ल्यू	सुबेदार	विजय सिंह	01.04.2010
2692	जेसी641276एच	सुबेदार	विक्रम सिंह यादव	01.02.2010
2693	जेसी642986एम	सुबेदार	विनोद कुमार	01.02.2010
2694	जेसी662782एफ	सुबेदार	यंकप्पा गोउदेर	01.04.2010
2695	जेसी641277एल	सुबेदार	योगराज सिंह	01.02.2010

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

2696	जेसी680792एन	रिसालदार	चरण सिंह	01.05.2010
2697	जेसी680801के	रिसालदार	जग राम गूजर	01.05.2010
2698	जेसी680871एच	रिसालदार	जॉय राम सेकिआ	01.05.2010
2699	जेसी680856एन	रिसालदार	महिंद्र सिंह	01.07.2010
2700	जेसी680740एक्स	रिसालदार	नरेन्द्रा नाथ दत्ताता	01.04.2010
2701	जेसी680704एम	रिसालदार	नरेश कुमार	01.08.2010
2702	जेसी680759डब्ल्यू	रिसालदार	रमेश प्रसाद सिन्हा	01.04.2010
2703	जेसी680794वाइ	रिसालदार	शेर सिंह	01.05.2010
2704	जेसी680818एक्स	रिसालदार	टी मरियप्पन	01.08.2010

सेना चिकित्सा कोर

2705	जेसी694594एन	सुबेदार	आदर्श मोहन	01.03.2010
2706	जेसी695022वाइ	सुबेदार	अफसर खान कासम खान	01.08.2010
2707	जेसी693965वाइ	सुबेदार	अहमद खान	01.02.2010
2708	जेसी693539एल	सुबेदार	अपूर्व कुमार घोष	01.03.2010
2709	जेसी694657एल	सुबेदार	अविन्द पाल सिंह	01.08.2010
2710	जेसी694684पी	सुबेदार	अवारी दत्तू सीता राम	01.04.2010
2711	जेसी691625एक्स	सुबेदार	भूप सिंह	01.08.2010
2712	जेसी694418डब्ल्यू	सुबेदार	बिश्वनाथ सिंह	01.04.2010
2713	जेसी694598के	सुबेदार	धर्म पाल	01.06.2010
2714	जेसी694074एच	सुबेदार	धर्मानंद पांडे	01.04.2010
2715	जेसी694656एच	सुबेदार	धीर सिंह	01.06.2010
2716	जेसी694443पी	सुबेदार	दिलीप चंद्रा दास	01.03.2010
2717	जेसी694802एक्स	सुबेदार	दिलीप कुमार साहू	01.04.2010
2718	जेसी694722ए	सुबेदार	दुमी राम यादव	01.07.2010

2719	जेसी694442एम	सुबेदार	गनेश चंद्रा नंदी	01.02.2010
2720	जेसी694367एन	सुबेदार	गनेशवरा सामल	01.03.2010
2721	जेसी695019वाइ	सुबेदार	गोपी नाथ विश्वास	01.08.2010
2722	जेसी694412पी	सुबेदार	गुप्ता राम अशरे लालजी	01.04.2010
2723	जेसी692684डब्ल्यू	सुबेदार	जय कष्णन जोशी	01.04.2010
2724	जेसी693129पी	सुबेदार	जमुना प्रसाद शर्मा	01.04.2010
2725	जेसी693579एम	सुबेदार	जनार्दनन पिल्लई के पी	01.04.2010
2726	जेसी694041एक्स	सुबेदार	काली प्रोशाद भट्टाचारजी	01.04.2010
2727	जेसी692512एफ	सुबेदार	कान्दे वासुदेव जनार्दन	01.06.2010
2728	जेसी694698पी	सुबेदार	कष्णन कुमार कपूर	01.06.2010
2729	जेसी691901पी	सुबेदार	कुलदीप कुमार शर्मा	01.08.2010
2730	जेसी694743डब्ल्यू	सुबेदार	लक्षमण पीडी चौबे	01.05.2010
2731	जेसी694660एल	सुबेदार	मधुसूधन्न वी	01.07.2010
2732	जेसी694677वाइ	सुबेदार	महाजन ताराचंद गंगाधर	01.04.2010
2733	जेसी694719ए	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.07.2010
2734	जेसी692645एक्स	सुबेदार	महेंद्र कुमार	01.08.2010
2735	जेसी693519एक्स	सुबेदार	महेश कुमार सिंह	01.07.2010
2736	जेसी694546एन	सुबेदार	मानदेव गाने शशिकान्त नरहर	01.04.2010
2737	जेसी694600डब्ल्यू	सुबेदार	मानिक चंद्रा घोष	01.08.2010
2738	जेसी694954वाइ	सुबेदार	मनोहर लाल	01.06.2010
2739	जेसी694588ए	सुबेदार	मोहन सिंह	01.02.2010
2740	जेसी694294एम	सुबेदार	मोहानन नायर एम आर	01.02.2010
2741	जेसी694531एल	सुबेदार	मोहम्मद हुसैन	01.03.2010
2742	जेसी691622के	सुबेदार	मुन्नी लाल ओझा	01.04.2010
2743	जेसी694186एच	सुबेदार	मुरलीधरन टी	01.06.2010
2744	जेसी692258एच	सुबेदार	नारायना राव जी.	01.08.2010
2745	जेसी691182एफ	सुबेदार	नेमा राम	01.02.2010
2746	जेसी694586पी	सुबेदार	निनाथोव खोम्बा सिंघा	01.02.2010
2747	जेसी690996एन	सुबेदार	पाटिल सुधाकर राम राव	01.07.2010
2748	जेसी695006एफ	सुबेदार	प्रसांत कुमार जैना	01.07.2010
2749	जेसी694540एम	सुबेदार	राधाकृष्णा पिल्लई पी	01.07.2010
2750	जेसी694147के	सुबेदार	राज बीर सिंह	01.06.2010
2751	जेसी694659डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार	01.08.2010
2752	जेसी694693डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद	01.08.2010
2753	जेसी223390के	सुबेदार	राजेन्द्रन पिल्लई टी के	01.05.2010
2754	जेसी691772ए	सुबेदार	राम चंद्रा प्रसाद	01.02.2010
2755	जेसी693242के	सुबेदार	राम मेहर सिंह	01.06.2010
2756	जेसी694037पी	सुबेदार	राम मोहन शर्मा	01.04.2010
2757	जेसी694692एन	सुबेदार	राम निवास	01.07.2010
2758	जेसी695072के	सुबेदार	राम निवास सिंह	01.08.2010

2759	जेसी694592एच	सुबेदार	राम फल	01.02.2010
2760	जेसी694685एक्स	सुबेदार	राम सिंह	01.04.2010
2761	जेसी694889के	सुबेदार	रणधीर गयार	01.08.2010
2762	जेसी694973के	सुबेदार	रतन चन्द शर्मा	01.06.2010
2763	जेसी695027एक्स	सुबेदार	रवीन्द्रन बी	01.08.2010
2764	जेसी693934वाइ	सुबेदार	रवीन्द्रन पिल्लई वी एन	01.02.2010
2765	जेसी694073ए	सुबेदार	रोहतास सिंह	01.04.2010
2766	जेसी691864एम	सुबेदार	रूप लाल भारद्वाज	01.08.2010
2767	जेसी694541पी	सुबेदार	सात्वै चिन्ना रंगा नयाकुलू	01.04.2010
2768	जेसी694421डब्ल्यू	सुबेदार	समर बहादुर मिश्रा	01.06.2010
2769	जेसी694324वाइ	सुबेदार	सनातन साहू	01.04.2010
2770	जेसी693232ए	सुबेदार	सत पाल	01.06.2010
2771	जेसी694597एफ	सुबेदार	सतेन्द्रन	01.06.2010
2772	जेसी694052के	सुबेदार	शकील अहमद खान	01.08.2010
2773	जेसी690565एफ	सुबेदार	श्रवण कुमार राय	01.06.2010
2774	जेसी695030एक्स	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.08.2010
2775	जेसी694658एन	सुबेदार	सुग्रीव सिंह जरयाल	01.08.2010
2776	जेसी694413एक्स	सुबेदार	सुंदरेशन टी डी.	01.04.2010
2777	जेसी694596वाइ	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.03.2010
2778	जेसी694039ए	सुबेदार	थंगवेल टी	01.04.2010
2779	जेसी694415एच	सुबेदार	त्रिलोकी प्रसाद	01.04.2010
2780	जेसी694691एल	सुबेदार	वरघेसे पीवी	01.07.2010
2781	जेसी694599एम	सुबेदार	वेद प्रकाश सिंह	01.07.2010
2782	जेसी694980ए	सुबेदार	वीरा भदरप्पा बारागुन्दी	01.06.2010
2783	जेसी691846के	सुबेदार	विक्रम सिंह रावत	01.02.2010
2784	जेसी691855एल	सुबेदार	विनोद कुमार त्रिपाठी	01.04.2010
2785	जेसी694827के	सुबेदार	विरांध कुमार	01.08.2010
2786	जेसी694416एल	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार ध्यानी	01.04.2010

सेना आयुध कोर

2787	जेसी724919एन	सुबेदार	अभे सिंह	01.03.2010
2788	जेसी725197वाइ	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.05.2010
2789	जेसी725192ए	सुबेदार	अजय कुमार यादव	01.02.2010
2790	जेसी725532एक्स	सुबेदार	अजायब चन्द	01.05.2010
2791	जेसी726837के	सुबेदार	एलबर्ट केर्कट्टा	01.08.2010
2792	जेसी725303एम	सुबेदार	अलोक कुमार मुखोपाध्या	01.03.2010
2793	जेसी724886एन	सुबेदार	अमरेन्द्रा नाथ पटनायक	01.02.2010
2794	जेसी725277डब्ल्यू	सुबेदार	अंतरजामी पध्य	01.05.2010
2795	जेसी725255एक्स	सुबेदार	अनूप सिंह राना	01.05.2010
2796	जेसी725284एम	सुबेदार	अरविन्दा कुमार नाथ	01.04.2010

2797	जेसी725088एम	सुबेदार	अर्जुन महतो	01.03.2010
2798	जेसी725164एन	सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2010
2799	जेसी726583एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार पांडे	01.06.2010
2800	जेसी725234एफ	सुबेदार	असीम कुमार घोष	01.04.2010
2801	जेसी724074ए	सुबेदार	अशोक मुखोपाध्याय	01.02.2010
2802	जेसी726633एक्स	सुबेदार	अतर सैयद फरीद	01.08.2010
2803	जेसी725998ए	सुबेदार	अविनाश चंद्रा	01.04.2010
2804	जेसी724093एल	सुबेदार	बी ऐशवरप्पा	01.05.2010
2805	जेसी724938वाइ	सुबेदार	बादल कुडू	01.03.2010
2806	जेसी726967एम	सुबेदार	बलवान सिंह	01.06.2010
2807	जेसी726815एल	सुबेदार	भंवर लाल सैनी	01.08.2010
2808	जेसी725497ए	सुबेदार	भरत चंद्रा सत्पथी	01.04.2010
2809	जेसी724194वाइ	सुबेदार	भरतपाल रावत	01.05.2010
2810	जेसी725198एफ	सुबेदार	भास्कर दत्ता जोशी	01.05.2010
2811	जेसी726965एफ	सुबेदार	भिककी राम	01.06.2010
2812	जेसी725420एक्स	सुबेदार	भोलानाथ लायक	01.03.2010
2813	जेसी724675एल	सुबेदार	भूप सिंह	01.05.2010
2814	जेसी724200एफ	सुबेदार	बिजय कुमार रौय	01.08.2010
2815	जेसी725110एम	सुबेदार	बिंदलेश शर्मा	01.03.2010
2816	जेसी726195ए	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	01.06.2010
2817	जेसी725272एक्स	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.03.2010
2818	जेसी724905एन	सुबेदार	बिश्नु मोहन पंडा	01.02.2010
2819	जेसी725200एन	सुबेदार	बिश्वजीत मजूमदार	01.05.2010
2820	जेसी724694डब्ल्यू	सुबेदार	चैन सिंह	01.06.2010
2821	जेसी722896वाइ	सुबेदार	चंद्रा नाथ मंडल	01.02.2010
2822	जेसी726374ए	सुबेदार	चंद्रा पाल	01.07.2010
2823	जेसी726618एच	सुबेदार	चान्देश उपाध्याय	01.08.2010
2824	जेसी725233वाइ	सुबेदार	चरण सिंह	01.02.2010
2825	जेसी726436पी	सुबेदार	छोटे लाल गुप्ता	01.08.2010
2826	जेसी724907वाइ	सुबेदार	दिनकरन एल	01.02.2010
2827	जेसी725293एन	सुबेदार	दूधनाथ यादव	01.08.2010
2828	जेसी724045एल	सुबेदार	जी. रवि	01.04.2010
2829	जेसी724455एफ	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.08.2010
2830	जेसी725139पी	सुबेदार	गनेश प्रसाद जैसवारा	01.04.2010
2831	जेसी725145एच	सुबेदार	गोरी शंकर तिवारी	01.04.2010
2832	जेसी725648एन	सुबेदार	गोरी शंकर त्रिपाठी	01.05.2010
2833	जेसी722710के	सुबेदार	गुरुशिदईया सोप्पीमाथ	01.03.2010
2834	जेसी725126एक्स	सुबेदार	हंस राज गूजर	01.04.2010
2835	जेसी724712एन	सुबेदार	हरदीप कुमार	01.04.2010
2836	जेसी725509के	सुबेदार	हरी लाल	01.06.2010

2837	जेसी725138एम	सुबेदार	हरी नारायण चोबे	01.04.2010
2838	जेसी724871एल	सुबेदार	हरी शंकर सिंह	01.02.2010
2839	जेसी724884एच	सुबेदार	हरिहर प्रसाद सिंह	01.02.2010
2840	जेसी725242ए	सुबेदार	हरिहर सरदार	01.07.2010
2841	जेसी724922एन	सुबेदार	हरनाम सिंह यादव	01.03.2010
2842	जेसी724348ए	सुबेदार	हेमंत कुमार जोशी	01.05.2010
2843	जेसी724090एक्स	सुबेदार	हीरानन्द	01.03.2010
2844	जेसी724284ए	सुबेदार	इंद्र जीत सिंह	01.03.2010
2845	जेसी725236एम	सुबेदार	इंद्र पाल	01.06.2010
2846	जेसी726689के	सुबेदार	इश्वर दत्त	01.06.2010
2847	जेसी724092एच	सुबेदार	जगादीश	01.05.2010
2848	जेसी726955एल	सुबेदार	जगताप बाबू जे राव	01.04.2010
2849	जेसी725268एक्स	सुबेदार	जगवीर सिंह	01.03.2010
2850	जेसी724025डब्ल्यू	सुबेदार	जय बहादुर सिंह	01.03.2010
2851	जेसी725665एन	सुबेदार	जय नारायण	01.04.2010
2852	जेसी725141एम	सुबेदार	जय विरेन्द्र सिंह	01.04.2010
2853	जेसी165605के	सुबेदार	जगदीश मिश्रा	01.02.2010
2854	जेसी725548एम	सुबेदार	जे आराम	01.05.2010
2855	जेसी725265पी	सुबेदार	केल्याण सिंह	01.06.2010
2856	जेसी724035वाइ	सुबेदार	कमला कांत त्रिपाठी	01.03.2010
2857	जेसी724005एम	सुबेदार	कर्म सिंह	01.03.2010
2858	जेसी726004एन	सुबेदार	खरत परशु राम बाबू	01.03.2010
2859	जेसी725089एम	सुबेदार	लाला राम	01.03.2010
2860	जेसी724457एल	सुबेदार	लक्ष्मण सिंह	01.03.2010
2861	जेसी725554डब्ल्यू	सुबेदार	लोकेश्वर सेकिआ	01.03.2010
2862	जेसी725713एच	सुबेदार	मधुसूदन अचार	01.03.2010
2863	जेसी724032एन	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01.03.2010
2864	जेसी726836एफ	सुबेदार	महेश चन्द	01.05.2010
2865	जेसी724010पी	सुबेदार	मलकियत सिंह	01.03.2010
2866	जेसी726615पी	सुबेदार	मनसुख लकरा	01.05.2010
2867	जेसी725927वाइ	सुबेदार	मेथ्यू पी पी	01.05.2010
2868	जेसी723951डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद असीरुद्दीन	01.02.2010
2869	जेसी724030एच	सुबेदार	मिलन कुमार सैन	01.03.2010
2870	जेसी723924एम	सुबेदार	मोहन सिंह	01.02.2010
2871	जेसी726761पी	सुबेदार	मोहानन नायर पी	01.06.2010
2872	जेसी725812एल	सुबेदार	मोहिनंदर सिंह	01.03.2010
2873	जेसी724917एच	सुबेदार	नागेश्वर प्रसाद शुक्ला	01.03.2010
2874	जेसी726556एन	सुबेदार	नवलकिशोर सिंह	01.06.2010
2875	जेसी724027एच	सुबेदार	निर्मल कुमार दास	01.03.2010
2876	जेसी723799एन	सुबेदार	पदमा चरण नायक	01.02.2010

2877	जेसी/25232डब्ल्यू	सुबेदार	पद्मनाभन पी वी	01.06.2010
2878	जेसी/23823वाइ	सुबेदार	पलविंदर सिंह	01.02.2010
2879	जेसी/27167ए	सुबेदार	पान सिंह अधिकारी	01.08.2010
2880	जेसी/26916वाइ	सुबेदार	पारस नाथ सिंह यादव	01.08.2010
2881	जेसी/24119पी	सुबेदार	पासी रामदेवा जगदेवा	01.03.2010
2882	जेसी/25292एल	सुबेदार	पिनाकि रंजन मैटी	01.07.2010
2883	जेसी/26532के	सुबेदार	पूना राम	01.07.2010
2884	जेसी/25124एम	सुबेदार	प्रदीप दत्ताता	01.03.2010
2885	जेसी/24517डब्ल्यू	सुबेदार	प्रफुल्ल च. चेतिया	01.08.2010
2886	जेसी/24705एक्स	सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.02.2010
2887	जेसी/24906डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद कुमार दाश	01.02.2010
2888	जेसी/25961वाइ	सुबेदार	प्रमोद राय	01.03.2010
2889	जेसी/26589वाइ	सुबेदार	प्रेम चमलिंग राय	01.05.2010
2890	जेसी/25678एल	सुबेदार	रागावेनदर सिंह यादव	01.02.2010
2891	जेसी/24745वाइ	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.06.2010
2892	जेसी/24211एन	सुबेदार	रघुराज सिंह	01.06.2010
2893	जेसी/26617ए	सुबेदार	राज किशोर प्रसाद वर्मा	01.08.2010
2894	जेसी/26885के	सुबेदार	राज कुमार प्रसाद	01.08.2010
2895	जेसी/25112एक्स	सुबेदार	राज कुमार शुक्ला	01.04.2010
2896	जेसी/22985एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद शर्मा	01.04.2010
2897	जेसी/24920एच	सुबेदार	रज्जन लाल पाल	01.03.2010
2898	जेसी/24124ए	सुबेदार	राकेश कुमार	01.04.2010
2899	जेसी/24654पी	सुबेदार	राकेश कुमार	01.08.2010
2900	जेसी/25185डब्ल्यू	सुबेदार	राकेश कुमार	01.04.2010
2901	जेसी/25628ए	सुबेदार	राकेश कुमार	01.03.2010
2902	जेसी/26647एक्स	सुबेदार	राम बरन शिवकरन सिंह दीक्षित	01.07.2010
2903	जेसी/22714एएफ	सुबेदार	राम कवल यादव	01.02.2010
2904	जेसी/24234पी	सुबेदार	राम पाल सिंह	01.08.2010
2905	जेसी/24028एल	सुबेदार	राम रक्षपाल शर्मा	01.03.2010
2906	जेसी/23175एफ	सुबेदार	राम शंकर साही	01.08.2010
2907	जेसी/26435एम	सुबेदार	राम उजागिर द्विवेदी	01.04.2010
2908	जेसी/24701एफ	सुबेदार	रमा शंकर राम	01.07.2010
2909	जेसी/24679एफ	सुबेदार	रामवतार शर्मा	01.06.2010
2910	जेसी/24064डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चन्द	01.03.2010
2911	जेसी/26164ए	सुबेदार	रमेश चन्द	01.03.2010
2912	जेसी/26773के	सुबेदार	रमेश कुमार	01.08.2010
2913	जेसी/24924वाइ	सुबेदार	रनबीर सिंह राना	01.05.2010
2914	जेसी/25603एच	सुबेदार	रत्नाकरन एम	01.04.2010
2915	जेसी/24724एच	सुबेदार	रवीन्द्र नाथ झा	01.08.2010
2916	जेसी/25320एम	सुबेदार	रवीन्द्र यादव	01.07.2010



2917	जेसी725549एल	सुबेदार	रोहतास	01.04.2010
2918	जेसी723923के	सुबेदार	सामी राम	01.02.2010
2919	जेसी725109एक्स	सुबेदार	समुद्रीन	01.03.2010
2920	जेसी724148के	सुबेदार	समसुल अली	01.03.2010
2921	जेसी726835वाइ	सुबेदार	संतोख चन्द	01.05.2010
2922	जेसी725291एच	सुबेदार	संतोष सिंह	01.07.2010
2923	जेसी724951एच	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.03.2010
2924	जेसी726884एफ	सुबेदार	सावल सिंह	01.07.2010
2925	जेसी726581एम	सुबेदार	एसईडब्ल्यू मुनि रौय	01.02.2010
2926	जेसी723572ए	सुबेदार	सैलेन वी आर	01.05.2010
2927	जेसी724149एम	सुबेदार	शंकर सिंह	01.02.2010
2928	जेसी726588डब्ल्यू	सुबेदार	शिव सहाय राय	01.04.2010
2929	जेसी724725एल	सुबेदार	शिव नाथ सिंह	01.03.2010
2930	जेसी724204एक्स	सुबेदार	श्याम वीर सिंह	01.08.2010
2931	जेसी724237एच	सुबेदार	सुबेदार नारायण तिवारी	01.07.2010
2932	जेसी723174वाइ	सुबेदार	सुदर्शनन पी आर	01.03.2010
2933	जेसी724248पी	सुबेदार	सुगुनन पी	01.08.2010
2934	जेसी725257एच	सुबेदार	सूरज भान सिंह	01.06.2010
2935	जेसी724952एल	सुबेदार	सूरत सिंह जगलान	01.03.2010
2936	जेसी725464पी	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.03.2010
2937	जेसी724615डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेन्द्रा किशोर	01.05.2010
2938	जेसी725162एच	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.04.2010
2939	जेसी726831एच	सुबेदार	सुरेश प्रसाद	01.06.2010
2940	जेसी723875पी	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.02.2010
2941	जेसी725295वाइ	सुबेदार	स्वप्न कुमार सिंघा	01.08.2010
2942	जेसी726536ए	सुबेदार	स्यामालन आर	01.06.2010
2943	जेसी725419एच	सुबेदार	तपन कुमार साहा	01.02.2010
2944	जेसी724029एन	सुबेदार	तारा सिंह	01.04.2010
2945	जेसी725533ए	सुबेदार	तुषार चकर्बती	01.04.2010
2946	जेसी726865डब्ल्यू	सुबेदार	उग्र सैन	01.07.2010
2947	जेसी724069पी	सुबेदार	उपाध्या सेकिआ	01.05.2010
2948	जेसी726810एम	सुबेदार	उत्तातम लाल शर्मा	01.06.2010
2949	जेसी726248एन	सुबेदार	वैबल चान्द्राकान्त बाबू राव	01.06.2010
2950	जेसी725446एम	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.02.2010
2951	जेसी724063एन	सुबेदार	वीजेन्द्र सिंह	01.02.2010
2952	जेसी723496वाइ	सुबेदार	विष्णु दत्त	01.08.2010
<b>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</b>				
2953	जेसी759251एन	सुबेदार	आथी नारायणन टी	01.03.2010
2954	जेसी751372ए	सुबेदार	अमल चंद्रा घोष	01.03.2010

2955	जेसी751053एन	सुबेदार	अमर सिंह पाल	01.06.2010
2956	जेसी756002के	सुबेदार	अनंता घोष	01.02.2010
2957	जेसी749161वाइ	सुबेदार	अनोवर हुसैन	01.04.2010
2958	जेसी752112एफ	सुबेदार	अरबिंद नाथ सिंह	01.02.2010
2959	जेसी753032डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2010
2960	जेसी751425एन	सुबेदार	अशोक कुमार केपी	01.08.2010
2961	जेसी758964एम	सुबेदार	अवनीश कुमार	01.05.2010
2962	जेसी752269एफ	सुबेदार	अवनीश कुमार गर्ग	01.07.2010
2963	जेसी755368पी	सुबेदार	बाबूजी पीपी	01.08.2010
2964	जेसी747042के	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.03.2010
2965	जेसी753597एफ	सुबेदार	बहादुर सिंह मंगत	01.06.2010
2966	जेसी759326ए	सुबेदार	बालकराम	01.05.2010
2967	जेसी757206एच	सुबेदार	बेनू सिंघा	01.08.2010
2968	जेसी752636एच	सुबेदार	भाग सिंह	01.07.2010
2969	जेसी753387एफ	सुबेदार	भरत जेआई प्रसाद	01.04.2010
2970	जेसी753518एफ	सुबेदार	भीम प्रसाद बिंद	01.08.2010
2971	जेसी752459एन	सुबेदार	भोलानाथ पांडे	01.07.2010
2972	जेसी750885डब्ल्यू	सुबेदार	भूरी सिंह	01.03.2010
2973	जेसी755315डब्ल्यू	सुबेदार	बिधि चन्द चौहान	01.05.2010
2974	जेसी754917एक्स	सुबेदार	बिजया चंद्रा साहू	01.07.2010
2975	जेसी753202पी	सुबेदार	बिक्रमजीत सिंह	01.07.2010
2976	जेसी748030एफ	सुबेदार	बिमल कुमार होता	01.06.2010
2977	जेसी753595डब्ल्यू	सुबेदार	बिंदु हेमब्रम	01.06.2010
2978	जेसी751304एम	सुबेदार	बिनोद कुमार महाराज	01.07.2010
2979	जेसी755810पी	सुबेदार	बिरेन्द्रा नाथ भौमिक	01.08.2010
2980	जेसी752437पी	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.08.2010
2981	जेसी754770एम	सुबेदार	बृज किशोर सिंह	01.07.2010
2982	जेसी759384के	सुबेदार	बृजेन्द्र कुमार पाल	01.07.2010
2983	जेसी754877एफ	सुबेदार	चांदी प्रसाद सरकार	01.06.2010
2984	जेसी751296वाइ	सुबेदार	चंद्रा भूषण दुबे	01.04.2010
2985	जेसी759256एम	सुबेदार	डी. एरोन	01.07.2010
2986	जेसी759438ए	सुबेदार	डी. रघुनाथ रेडी	01.05.2010
2987	जेसी759394एन	सुबेदार	दलजीत राय	01.07.2010
2988	जेसी751765डब्ल्यू	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.05.2010
2989	जेसी751955एच	सुबेदार	दामोदर दास ठाकुर	01.03.2010
2990	जेसी751375एन	सुबेदार	दशरथ सिंह सोमवंशी	01.04.2010
2991	जेसी760408पी	सुबेदार	दयानन्द	01.02.2010
2992	जेसी755634एच	सुबेदार	दीप कुमार चौधरी	01.05.2010
2993	जेसी752070ए	सुबेदार	दीपक कुमार वर्मा	01.04.2010
2994	जेसी752593वाइ	सुबेदार	दयोमुनी सिंह यादव	01.06.2010

2995	जेसी753867एल	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.04.2010
2996	जेसी754189एच	सुबेदार	देवेश कुमार शर्मा	01.07.2010
2997	जेसी755837एम	सुबेदार	धनेश नंदन सिंह	01.07.2010
2998	जेसी760431एच	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.05.2010
2999	जेसी759129एक्स	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.06.2010
3000	जेसी749028डब्ल्यू	सुबेदार	दिलीप बाईलुंग	01.04.2010
3001	जेसी755932वाइ	सुबेदार	दिलीप चंद्रा	01.03.2010
3002	जेसी754701डब्ल्यू	सुबेदार	दीना नाथ	01.07.2010
3003	जेसी758137के	सुबेदार	एसरारूल हक अंसारी	01.04.2010
3004	जेसी753233पी	सुबेदार	जी. गोविंद राज	01.08.2010
3005	जेसी754384ए	सुबेदार	जी. सुरेन्द्रानाथा रेडी	01.07.2010
3006	जेसी757050डब्ल्यू	सुबेदार	जोर्ज कुट्टी टी के	01.04.2010
3007	जेसी754097डब्ल्यू	सुबेदार	गिरीश पाल सिंह	01.08.2010
3008	जेसी758966एक्स	सुबेदार	हरदयाल सिंह	01.05.2010
3009	जेसी753813के	सुबेदार	हरी शंकर दीक्षित	01.08.2010
3010	जेसी753186एच	सुबेदार	हुल्लर यलप्पा गोड़ा	01.04.2010
3011	जेसी754079एन	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.04.2010
3012	जेसी753347ए	सुबेदार	इन्द्रा दत्ताता	01.04.2010
3013	जेसी755184डब्ल्यू	सुबेदार	इन्द्रा मनी सोनी	01.08.2010
3014	जेसी751541डब्ल्यू	सुबेदार	जगदयो चौधरी	01.02.2010
3015	जेसी753549एफ	सुबेदार	जगदीश	01.04.2010
3016	जेसी754706पी	सुबेदार	जगदीश चन्द्र	01.06.2010
3017	जेसी759380एन	सुबेदार	जयबीर सिंह	01.07.2010
3018	जेसी751358एन	सुबेदार	जानवी शंकर	01.02.2010
3019	जेसी759130एम	सुबेदार	जतिंद्र कुमार शर्मा	01.06.2010
3020	जेसी754477पी	सुबेदार	जॉन कुट्टी एम	01.06.2010
3021	जेसी759063एम	सुबेदार	जुगल किशोर पांडे	01.04.2010
3022	जेसी753936डब्ल्यू	सुबेदार	कदम वसंत शंकर	01.08.2010
3023	जेसी754258एन	सुबेदार	कालदाते रमेश सोपान राव	01.04.2010
3024	जेसी751940ए	सुबेदार	काले अनिल शंकर	01.04.2010
3025	जेसी754808एल	सुबेदार	कमला प्रसाद	01.07.2010
3026	जेसी755431वाइ	सुबेदार	कामेश्वर चौधरी	01.08.2010
3027	जेसी755633ए	सुबेदार	कमलेश चंद्रा शुक्ला	01.02.2010
3028	जेसी751364एफ	सुबेदार	कंवर बहादुर सिंह	01.02.2010
3029	जेसी752113के	सुबेदार	कार्तिक देब नाथ	01.02.2010
3030	जेसी759470पी	सुबेदार	के विजय कुमार रामदास	01.08.2010
3031	जेसी756431एल	सुबेदार	केहर दास	01.04.2010
3032	जेसी753926एन	सुबेदार	के श्रीकृष्णा बाका राम जेआई	01.08.2010
3033	जेसी755470एक्स	सुबेदार	के छगन दत्तू	01.05.2010
3034	जेसी755722वाइ	सुबेदार	कृष्णा कुमार	01.08.2010

3035	जेसी753114वाइ	सुबेदार	कृष्णा प्रकाश गौतम	01.05.2010
3036	जेसी754919एच	सुबेदार	एल पनीर सेलवम	01.08.2010
3037	जेसी750875वाइ	सुबेदार	लखन लाल मीना	01.04.2010
3038	जेसी753551वाइ	सुबेदार	लक्ष्मीकान्त दुबे	01.06.2010
3039	जेसी757395एक्स	सुबेदार	लुक्का रतौया	01.04.2010
3040	जेसी753132एफ	सुबेदार	एम अरविन्द कुमार	01.03.2010
3041	जेसी750813वाइ	सुबेदार	मदन लाल	01.03.2010
3042	जेसी753607ए	सुबेदार	माधव राय चाउरासिआ	01.05.2010
3043	जेसी751705एफ	सुबेदार	महेंद्र कुमार सिन्हा	01.03.2010
3044	जेसी753994ए	सुबेदार	महेश चंद्रा उपाध्याय	01.05.2010
3045	जेसी751310ए	सुबेदार	महेशवरईयाह एम	01.08.2010
3046	जेसी754698एफ	सुबेदार	मान सिंह सैनी	01.07.2010
3047	जेसी750814एफ	सुबेदार	मंगत राम	01.03.2010
3048	जेसी756517के	सुबेदार	मान सिंह चौहान	01.04.2010
3049	जेसी757365ए	सुबेदार	मैनुअल तूती	01.04.2010
3050	जेसी752635ए	सुबेदार	मेहर चन्द	01.08.2010
3051	जेसी759131पी	सुबेदार	मोहम्मद हैदर अली	01.06.2010
3052	जेसी755670एन	सुबेदार	मुधे समभाजी संजीवन राव	01.06.2010
3053	जेसी759381डब्ल्यू	सुबेदार	मुरली धर पाल	01.07.2010
3054	जेसी758965पी	सुबेदार	नाइक दीपक मनोहर	01.05.2010
3055	जेसी751716एन	सुबेदार	नन्देश्वर मजूमदार	01.04.2010
3056	जेसी753274वाइ	सुबेदार	नरहरी जैना	01.04.2010
3057	जेसी753473एम	सुबेदार	नरेन्द्रा बहादुर सिंह	01.06.2010
3058	जेसी759760एम	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार	01.04.2010
3059	जेसी757477ए	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार श्रीवास्तव	01.05.2010
3060	जेसी751317के	सुबेदार	निर्मल कुमार राय	01.02.2010
3061	जेसी758985एच	सुबेदार	निताइ चंद्रा घोष	01.08.2010
3062	जेसी755619एन	सुबेदार	नित्या नन्द	01.03.2010
3063	जेसी756422के	सुबेदार	ओ एस सुकुमारन	01.06.2010
3064	जेसी756004पी	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2010
3065	जेसी758396एम	सुबेदार	ओमबीर सिंह	01.06.2010
3066	जेसी759158वाइ	सुबेदार	पी रविचंद्रन	01.04.2010
3067	जेसी751490एन	सुबेदार	पी वेंकटशवरलु	01.08.2010
3068	जेसी754077एच	सुबेदार	पाले राम	01.04.2010
3069	जेसी752247एच	सुबेदार	परसुराम अंगूरभाई रथवा	01.04.2010
3070	जेसी754863एफ	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.04.2010
3071	जेसी748775पी	सुबेदार	परमात्मा गिरि	01.04.2010
3072	जेसी751895वाइ	सुबेदार	पारुचूरी नाग वेंकट राव	01.03.2010
3073	जेसी753552एफ	सुबेदार	पाटिल महावीर भुजगोन्दा	01.06.2010
3074	जेसी750879पी	सुबेदार	पवित्रं के.एस	01.04.2010

3075	जेसी759385एम	सुबेदार	फूल सिंह	01.08.2010
3076	जेसी753968वाइ	सुबेदार	प्रणब कुमार दास	01.07.2010
3077	जेसी754921ए	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.06.2010
3078	जेसी753934एल	सुबेदार	प्रेम कुमार सिंह	01.07.2010
3079	जेसी755185वाइ	सुबेदार	प्रेम राज	01.08.2010
3080	जेसी754204एम	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.03.2010
3081	जेसी755074एफ	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.07.2010
3082	जेसी757613एल	सुबेदार	पुतुल सेकिआ	01.04.2010
3083	जेसी751305पी	सुबेदार	आर संथाना गोपाल कृष्णन	01.08.2010
3084	जेसी758644एक्स	सुबेदार	राधाकृष्ण उन्नी जे	01.02.2010
3085	जेसी750886एल	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.04.2010
3086	जेसी755476वाइ	सुबेदार	रघुनाथ बेहेरा	01.04.2010
3087	जेसी758503एच	सुबेदार	राजाहन्स गजानन श्रीराम	01.02.2010
3088	जेसी749163के	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2010
3089	जेसी753903एल	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार चोबे	01.06.2010
3090	जेसी749234ए	सुबेदार	राजेन्द्रन पी	01.06.2010
3091	जेसी758302के	सुबेदार	राजी एस	01.06.2010
3092	जेसी758143एक्स	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2010
3093	जेसी760427ए	सुबेदार	राम अवतार	01.05.2010
3094	जेसी753483डब्ल्यू	सुबेदार	राम अवध	01.02.2010
3095	जेसी753746के	सुबेदार	राम बचन सिंह	01.02.2010
3096	जेसी756892पी	सुबेदार	राम फल शर्मा	01.08.2010
3097	जेसी757362एम	सुबेदार	राम प्रकाश मिश्रा	01.02.2010
3098	जेसी759064पी	सुबेदार	रमेश चन्द	01.05.2010
3099	जेसी754380के	सुबेदार	रत्ना बहादुर छेर्ते	01.05.2010
3100	जेसी754091पी	सुबेदार	एस अनटोनी सामी	01.02.2010
3101	जेसी757255एल	सुबेदार	एस प्रभाकर	01.08.2010
3102	जेसी754259डब्ल्यू	सुबेदार	सदानन्दा पलाइ	01.06.2010
3103	जेसी759503पी	सुबेदार	सहदेव भट्टाचारजी	01.07.2010
3104	जेसी757988के	सुबेदार	सैमन केसी	01.04.2010
3105	जेसी753771एच	सुबेदार	संत राम	01.02.2010
3106	जेसी757524एम	सुबेदार	ससिधरन के	01.06.2010
3107	जेसी753517वाइ	सुबेदार	सत्य नारायण सिंह	01.07.2010
3108	जेसी754282के	सुबेदार	सत्य प्रकाश कौशिक	01.04.2010
3109	जेसी753415एच	सुबेदार	सत्यपाल सिंह	01.07.2010
3110	जेसी753485एफ	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.04.2010
3111	जेसी754153के	सुबेदार	शेख कयूम	01.07.2010
3112	जेसी754092एक्स	सुबेदार	शेष राम शिंदे	01.03.2010
3113	जेसी755482एम	सुबेदार	शिबा प्रसाद अधिकारी	01.08.2010
3114	जेसी753625एच	सुबेदार	शिंदे देवीदास दामू	01.08.2010

3115	जेसी753931एक्स	सुबेदार	शियो शंकर सिंह	01.05.2010
3116	जेसी753608एच	सुबेदार	शिवाजी	01.05.2010
3117	जेसी753390एफ	सुबेदार	श्री भगवान प्रसाद	01.04.2010
3118	जेसी757161एन	सुबेदार	श्री शिव सत्य सिंह	01.08.2010
3119	जेसी753487एम	सुबेदार	श्यामा कांत पाठक	01.07.2010
3120	जेसी751779डब्ल्यू	सुबेदार	सिबनाथ चौधुरी	01.06.2010
3121	जेसी751373एच	सुबेदार	सुभाष चंद्र एम	01.03.2010
3122	जेसी754681एन	सुबेदार	सुदर्शन बेहेरा	01.07.2010
3123	जेसी758047एच	सुबेदार	सुदीप्ता कुमार रौय	01.08.2010
3124	जेसी754766के	सुबेदार	सुखजिंदर पाल सिंह	01.08.2010
3125	जेसी759387एक्स	सुबेदार	सुमेर सिंह यादव	01.06.2010
3126	जेसी751056एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा नारायण	01.08.2010
3127	जेसी754552एन	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
3128	जेसी747926डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश पाल	01.04.2010
3129	जेसी760505एम	सुबेदार	सुसील चंद्रा कोनाई	01.06.2010
3130	जेसी753990के	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	01.03.2010
3131	जेसी749172एल	सुबेदार	थामस एम	01.04.2010
3132	जेसी750755ए	सुबेदार	थोते चिमानजी राजाराम	01.07.2010
3133	जेसी753203एक्स	सुबेदार	त्रिभुवन नाथ भारती	01.05.2010
3134	जेसी751475वाइ	सुबेदार	तुलसी प्रसाद महाराना	01.02.2010
3135	जेसी759069एन	सुबेदार	उदया कुमार एस	01.08.2010
3136	जेसी753932ए	सुबेदार	उमादी कलप्पा निगप्पा	01.06.2010
3137	जेसी754080एच	सुबेदार	उमेश कुमार	01.06.2010
3138	जेसी753998डब्ल्यू	सुबेदार	उत्पल कान्ति दास	01.04.2010
3139	जेसी751777एल	सुबेदार	उतसब कुमार गुरिया	01.05.2010
3140	जेसी753474पी	सुबेदार	उत्तातम कुमार सरकार	01.06.2010
3141	जेसी758305एक्स	सुबेदार	वेद प्रकाश विश्वाकर्मा	01.06.2010
3142	जेसी751368एक्स	सुबेदार	वीर सिंह फारसवान	01.03.2010
3143	जेसी754393एफ	सुबेदार	विजय प्रकाश हरबोला	01.05.2010
3144	जेसी755636एन	सुबेदार	विजयन जी.	01.08.2010
3145	जेसी753353एन	सुबेदार	विनोद कुमार मिश्रा	01.06.2010
3146	जेसी754284पी	सुबेदार	विनोद कुमार शर्मा	01.05.2010
3147	जेसी754854पी	सुबेदार	विनोद कुमार सिंह	01.07.2010
3148	जेसी750302पी	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.03.2010
3149	जेसी754713एल	सुबेदार	जेड नज़र	01.08.2010

### सेना शिक्षा कोर

3150	जेसी802584डब्ल्यू	सुबेदार	अभे सिंह	01.04.2010
3151	जेसी802492के	सुबेदार	अभिमन्यु सिंह	01.05.2010
3152	जेसी802795वाइ	सुबेदार	ब्रज राज राय	01.02.2010

3153	जेसी802987डब्ल्यू सुबेदार	चौदरूप सिंह दहिया	01.07.2010
3154	जेसी802601एल सुबेदार	गनेश दत्ता त्रिपाठी	01.04.2010
3155	जेसी802489के सुबेदार	गिरीश चंद्रा उपाध्याय	01.07.2010
3156	जेसी802491एफ सुबेदार	गोविंद सिंह बिस्ट	01.07.2010
3157	जेसी802551एल सुबेदार	हरीश चंद्रा मिश्रा	01.04.2010
3158	जेसी803375एल सुबेदार	हरीश सिंह रौतेला	01.03.2010
3159	जेसी803232एल सुबेदार	जय लाल	01.06.2010
3160	जेसी803233एन सुबेदार	कैलाश चंद्रा शर्मा	01.06.2010
3161	जेसी803191एम सुबेदार	कैलाश प्रकाश	01.02.2010
3162	जेसी802593एक्स सुबेदार	कृष्णा नन्द	01.04.2010
3163	जेसी802758एल सुबेदार	कुलदीप कुमार	01.04.2010
3164	जेसी802484एल सुबेदार	कुदन सिंह कोटलिया	01.05.2010
3165	जेसी803217डब्ल्यू सुबेदार	मदन सिंह	01.02.2010
3166	जेसी802560एम सुबेदार	महेश चंद्रा शर्मा	01.02.2010
3167	जेसी802391डब्ल्यू सुबेदार	नवीन चंद्रा पंत	01.03.2010
3168	जेसी803097एच सुबेदार	पद्मा दत्त	01.02.2010
3169	जेसी802485एन सुबेदार	प्रमोद कुमार दीक्षित	01.05.2010
3170	जेसी802918ए सुबेदार	परमोदा कुमार साहू	01.04.2010
3171	जेसी802479ए सुबेदार	राजेंद्रा कुमार तिवारी	01.02.2010
3172	जेसी803211पी सुबेदार	राम निवास	01.04.2010
3173	जेसी802478एक्स सुबेदार	राम सिंह	01.02.2010
3174	जेसी802402एक्स सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.08.2010
3175	जेसी802482ए सुबेदार	ऋषि पाल सिंह	01.02.2010
3176	जेसी803173के सुबेदार	रूपक रंजन दास	01.03.2010
3177	जेसी802494पी सुबेदार	शम्भू सिंह उदावत	01.08.2010
3178	जेसी802477पी सुबेदार	श्रवण कुमार	01.02.2010
3179	जेसी803213ए सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.06.2010
3180	जेसी802616एन सुबेदार	शिव शंकर पांडे	01.04.2010
3181	जेसी802684एफ सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.06.2010
3182	जेसी802603डब्ल्यू सुबेदार	सुरेश चंद्र	01.04.2010
3183	जेसी802497एच सुबेदार	सुरेश चंद्रा पाठक	01.07.2010
3184	जेसी803318के सुबेदार	विनोद कुमार	01.04.2010
3185	जेसी803335के सुबेदार	वीरेंद्र सिंह दराल्ल	01.08.2010
<b>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</b>			
3186	जेसी797199ए रिसालदार	अखिलेश कुमार पांडे	01.03.2010
3187	जेसी797210एन रिसालदार	दिलशाद खान	01.04.2010
3188	जेसी797271एल रिसालदार	दीन मोहम्मद	01.04.2010
3189	जेसी797286एन रिसालदार	कुन्ही रमन	01.06.2010
3190	जेसी797206एल रिसालदार	कुशाल केआर नाथ	01.03.2010

3191	जेसी797285एल	रिसालदार	मेश्यू टीबी	01.03.2010
3192	जेसी797361एम	रिसालदार	मोहम्मद अशफाक आलम	01.05.2010
3193	जेसी797221ए	रिसालदार	मोहन राम	01.08.2010
3194	जेसी797127डब्ल्यू	रिसालदार	राधे श्याम तिवारी	01.04.2010
3195	जेसी797323डब्ल्यू	रिसालदार	शिव रतन	01.02.2010
<b>आसुचना कोर</b>				
3196	जेसी810092एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2010
3197	जेसी810433एम	सुबेदार	बसंत बल्लभ पांडे	01.02.2010
3198	जेसी810200एल	सुबेदार	बीर सिंह	01.03.2010
3199	जेसी810091के	सुबेदार	चानन सिंह	01.03.2010
3200	जेसी810580पी	सुबेदार	चंद्र मोहन सिंह	01.05.2010
3201	जेसी810375एन	सुबेदार	चंद्रा मोहन	01.04.2010
3202	जेसी810771के	सुबेदार	दलबीर सिंह खेन्ची	01.07.2010
3203	जेसी810310ए	सुबेदार	देविन्द्र कुमार	01.06.2010
3204	जेसी810672एफ	सुबेदार	धनी चन्द	01.06.2010
3205	जेसी810469एल	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.07.2010
3206	जेसी810282वाइ	सुबेदार	गाबार सिंह	01.03.2010
3207	जेसी810378एफ	सुबेदार	गनेश चन्द	01.06.2010
3208	जेसी810505एल	सुबेदार	हरी नारायण वीर	01.04.2010
3209	जेसी810694ए	सुबेदार	हरी राम भारद्वाज	01.06.2010
3210	जेसी810270के	सुबेदार	जैत सिंह	01.02.2010
3211	जेसी810214एल	सुबेदार	कर्म चन्द	01.03.2010
3212	जेसी810484ए	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.05.2010
3213	जेसी810288ए	सुबेदार	कृष्णा बल्लभ	01.03.2010
3214	जेसी810279वाइ	सुबेदार	कुशला नन्द	01.02.2010
3215	जेसी810639के	सुबेदार	लालू राम चौधरी	01.04.2010
3216	जेसी810358एन	सुबेदार	मल्लिकार्जुन भिमाप्पा गुन्की	01.04.2010
3217	जेसी200277एच	सुबेदार	मरीयानस इक्का	01.07.2010
3218	जेसी810381एफ	सुबेदार	मुखाराम जंगीर	01.07.2010
3219	जेसी810284के	सुबेदार	नंदन सिंह	01.03.2010
3220	जेसी810298के	सुबेदार	नारायण सिंह	01.02.2010
3221	जेसी810318एम	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	01.08.2010
3222	जेसी810274ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.02.2010
3223	जेसी810187एम	सुबेदार	पी मोलाली खान	01.05.2010
3224	जेसी810301वाइ	सुबेदार	पवन कुमार	01.04.2010
3225	जेसी810229एन	सुबेदार	पृथ्वी सिंह	01.03.2010
3226	जेसी810317एफ	सुबेदार	पुजारी संजीवा राव	01.08.2010
3227	जेसी810309एल	सुबेदार	राजन डब्ल्यू	01.06.2010
3228	जेसी810278डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.02.2010



3229	जेसी810190एम	सुबेदार	राम निवास यादव	01.08.2010
3230	जेसी810382के	सुबेदार	राम पाल	01.07.2010
3231	जेसी810583एच	सुबेदार	राम प्रकाश शर्मा	01.07.2010
3232	जेसी810305पी	सुबेदार	राम सागर	01.05.2010
3233	जेसी810538डब्ल्यू	सुबेदार	राम स्वरूप	01.07.2010
3234	जेसी810315वाइ	सुबेदार	रामवतर	01.07.2010
3235	जेसी218730एक्स	सुबेदार	राना प्रताप सिंह	01.03.2010
3236	जेसी810537एन	सुबेदार	रनवीर सिंह	01.07.2010
3237	जेसी810299एम	सुबेदार	साहेन्द्रा सिंह	01.03.2010
3238	जेसी810322पी	सुबेदार	सनातन दास	01.08.2010
3239	जेसी810642के	सुबेदार	संजय छत्री	01.04.2010
3240	जेसी810388एल	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार सोनी	01.08.2010
3241	जेसी810645एक्स	सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.04.2010
3242	जेसी810532पी	सुबेदार	वी रेंगा राजन	01.04.2010

**सेना पुलिस कोर**

3243	जेसी818846एल	सुबेदार	अजया कुमार परीद	01.05.2010
3244	जेसी818451के	सुबेदार	अनुज कुमार श्रीवास्तव	01.04.2010
3245	जेसी818608वाइ	सुबेदार	अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी	01.05.2010
3246	जेसी818908ए	सुबेदार	बाबन प्रसाद	01.03.2010
3247	जेसी818890पी	सुबेदार	बाबू राम	01.04.2010
3248	जेसी818852वाइ	सुबेदार	बदारी नाथ ओझा	01.04.2010
3249	जेसी818853एफ	सुबेदार	बाहा उद्दीन चौधुरी	01.02.2010
3250	जेसी818843एक्स	सुबेदार	बलवान सिंह	01.05.2010
3251	जेसी819046वाइ	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2010
3252	जेसी818847एन	सुबेदार	भरत सिंह	01.06.2010
3253	जेसी818787के	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.03.2010
3254	जेसी818812एक्स	सुबेदार	चंद्र भान	01.03.2010
3255	जेसी818823के	सुबेदार	चंद्रा भूषण प्रसाद सिंह	01.04.2010
3256	जेसी818790के	सुबेदार	धर बाड़ा सिंह नैन	01.03.2010
3257	जेसी818841एम	सुबेदार	धर्म चन्द	01.04.2010
3258	जेसी818859एच	सुबेदार	दिलीप कुमार दास	01.05.2010
3259	जेसी818813ए	सुबेदार	हरी शंकर भारती	01.03.2010
3260	जेसी818782एल	सुबेदार	हवा सिंह	01.03.2010
3261	जेसी818855एम	सुबेदार	इंद्र देव प्रसाद	01.04.2010
3262	जेसी818785वाइ	सुबेदार	जे अमल राज	01.02.2010
3263	जेसी818943एच	सुबेदार	जगपाल सिंह	01.07.2010
3264	जेसी818396वाइ	सुबेदार	जय नंदन मिश्रा	01.04.2010
3265	जेसी818856पी	सुबेदार	जयवीर सिंह	01.04.2010
3266	जेसी818835वाइ	सुबेदार	कैलाश राज	01.04.2010

3267	जेसी818888एक्स	सुबेदार	कामेश्वर ठाकुर	01.04.2010
3268	जेसी818820डब्ल्यू	सुबेदार	कानू मालांकर	01.03.2010
3269	जेसी818860एक्स	सुबेदार	करतार सिंह	01.07.2010
3270	जेसी818821वाइ	सुबेदार	केके कोमालन पिल्लई	01.04.2010
3271	जेसी818868के	सुबेदार	कृष्णन पाल	01.08.2010
3272	जेसी818777ए	सुबेदार	कृष्णा कुमार एम डी.	01.02.2010
3273	जेसी818832एल	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.04.2010
3274	जेसी818825पी	सुबेदार	लखबीर सिंह	01.04.2010
3275	जेसी818854के	सुबेदार	एम ईश्वरन	01.04.2010
3276	जेसी818889ए	सुबेदार	एम सेकार	01.07.2010
3277	जेसी818826एक्स	सुबेदार	एम शौकत अली	01.04.2010
3278	जेसी818871के	सुबेदार	मेथ्यू जॉन	01.04.2010
3279	जेसी818817डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद शौकती अली	01.04.2010
3280	जेसी818863एल	सुबेदार	मोहाकम सिंह	01.07.2010
3281	जेसी818944एल	सुबेदार	मुरुकेसन एम	01.05.2010
3282	जेसी818839पी	सुबेदार	नरेश कुमार पांडे	01.04.2010
3283	जेसी818539एन	सुबेदार	नरेश कुमार शर्मा	01.06.2010
3284	जेसी818927एल	सुबेदार	पन्नेर सेलवम एम	01.08.2010
3285	जेसी818844ए	सुबेदार	पिरथी सिंह	01.05.2010
3286	जेसी818450एफ	सुबेदार	प्रदीप कुमार राना	01.05.2010
3287	जेसी818837के	सुबेदार	प्रताप चरण बेउरा	01.04.2010
3288	जेसी818937पी	सुबेदार	राधे श्याम	01.04.2010
3289	जेसी818840के	सुबेदार	रघु नंदन प्रसाद	01.04.2010
3290	जेसी818549एक्स	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.07.2010
3291	जेसी818784डब्ल्यू	सुबेदार	राज नाथ यादव	01.02.2010
3292	जेसी818833एन	सुबेदार	राज पाल सिंह चौहान	01.04.2010
3293	जेसी818818वाइ	सुबेदार	राजेन्द्रा यादव	01.04.2010
3294	जेसी818775पी	सुबेदार	राकेश	01.02.2010
3295	जेसी818466एम	सुबेदार	राम किशन	01.07.2010
3296	जेसी818824एम	सुबेदार	राम कुमार	01.04.2010
3297	जेसी818831एच	सुबेदार	राम फल मलिक	01.04.2010
3298	जेसी818780ए	सुबेदार	रमा चंद्रन कैईथा पुरथ	01.08.2010
3299	जेसी818815एल	सुबेदार	रमा कृष्णन के	01.04.2010
3300	जेसी818848डब्ल्यू	सुबेदार	रनवीर सिंह दलाल	01.04.2010
3301	जेसी818442एच	सुबेदार	रोहितअश्व कुमार	01.04.2010
3302	जेसी818926एच	सुबेदार	एस थिरुनावुकारसु	01.04.2010
3303	जेसी818783एन	सुबेदार	सैल विलास सखा राम	01.02.2010
3304	जेसी818810एम	सुबेदार	सतपाल	01.03.2010
3305	जेसी818776एक्स	सुबेदार	सत्य पाल सिंह	01.02.2010
3306	जेसी818827ए	सुबेदार	सव्वीर खान	01.04.2010

3307	जेसी818906पी	सुबेदार	शिव सागर पांडे	01.02.2010
3308	जेसी818443एल	सुबेदार	सुबाष चन्द शर्मा	01.04.2010
3309	जेसी818799वाइ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह वर्मा	01.04.2010
3310	जेसी818845एच	सुबेदार	उदय प्रताप सिंह	01.05.2010
3311	जेसी818814एच	सुबेदार	उदयवीर सिंह	01.04.2010
3312	जेसी818834डब्ल्यू	सुबेदार	उमेश चंद्रा मिश्रा	01.04.2010
3313	जेसी818382वाइ	सुबेदार	उमेश कुमार सिंह	01.04.2010
3314	जेसी818861ए	सुबेदार	उपेंद्र सिंह यादव	01.08.2010
3315	जेसी818822एफ	सुबेदार	विजय कुमार राम	01.04.2010
3316	जेसी818774एम	सुबेदार	विजय पाल सिंह	01.02.2010
3317	जेसी818862एच	सुबेदार	विजयन मानीयेरी	01.05.2010
3318	जेसी818858ए	सुबेदार	विलसन ई ओ	01.02.2010

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

3319	जेसी826094एफ	सुबेदार	बासु देव	01.02.2010
3320	जेसी826116पी	सुबेदार	धोके पांडुरंग जायरू	01.02.2010
3321	जेसी826100के	सुबेदार	केशव रामचंद्र एलएडी.	01.04.2010
3322	जेसी826107एन	सुबेदार	लोक बहादुर सरु	01.02.2010
3323	जेसी826108डब्ल्यू	सुबेदार	मांदवे परमेशवर दशरथ	01.07.2010
3324	जेसी826136एच	सुबेदार	मनोहर बाबू दुब्लल	01.08.2010
3325	जेसी826112वाइ	सुबेदार	एस राजप्पा	01.05.2010
3326	जेसी826103एक्स	सुबेदार	येदे दत्तात्रे बाबासाहेब	01.08.2010

पायोनियर कोर

3327	जेसी829308एक्स	सुबेदार	बादल कुमार साहा	01.05.2010
3328	जेसी829293ए	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह	01.02.2010
3329	जेसी829302डब्ल्यू	सुबेदार	राधे रमन	01.08.2010
3330	जेसी829345एल	सुबेदार	राजबीर	01.04.2010
3331	जेसी829206एफ	सुबेदार	सत्यदेव सिंह	01.02.2010

रक्षा सुरक्षा कोर

3332	जेसी841796एक्स	सुबेदार	बचित्तर सिंह	01.06.2010
3333	जेसी841404वाइ	सुबेदार	बिशन सिंह साही	01.05.2010
3334	जेसी841454के	सुबेदार	बिश्व नाथ त्रिपाठी	01.02.2010
3335	जेसी840694पी	सुबेदार	ब्रज बाबू सिंघा	01.07.2010
3336	जेसी841351एल	सुबेदार	सीडी. जोज	01.03.2010
3337	जेसी841789एफ	सुबेदार	दया राम	01.07.2010
3338	जेसी840796एल	सुबेदार	फोजदार सिंह	01.08.2010
3339	जेसी840867एफ	सुबेदार	गिरान्द सिंह	01.08.2010
3340	जेसी840696ए	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.03.2010

3341	जेसी841201पी	सुबेदार	जे सिंह	01.07.2010
3342	जेसी841657एन	सुबेदार	कुल बहादुर पुरंग	01.07.2010
3343	जेसी841019पी	सुबेदार	लक्षमन दास	01.05.2010
3344	जेसी840899के	सुबेदार	लाल चन्द शर्मा	01.08.2010
3345	जेसी840662एम	सुबेदार	पार्स राम	01.06.2010
3346	जेसी841639एल	सुबेदार	पीपी मोहनादासन	01.04.2010
3347	जेसी840591डब्ल्यू	सुबेदार	राम नरेश सिंह	01.02.2010
3348	जेसी841389पी	सुबेदार	एसडी. सिबूस्टियन	01.06.2010
3349	जेसी840802एन	सुबेदार	शिव राम	01.07.2010
3350	जेसी841337वाइ	सुबेदार	सुदामा सिंह	01.07.2010
3351	जेसी840753डब्ल्यू	सुबेदार	यू ई	01.05.2010
3352	जेसी840542एन	सुबेदार	यशपाल सिंह	01.07.2010

प्रदेशिक सेना

3353	टिजे4341एच	सुबेदार	हर्मन चन्द	01.08.2010
3354	टिजे4639एम	सुबेदार	एच लाल	01.05.2010
3355	टिजे4090के	सुबेदार	लक्ष्मीनारायण	01.02.2010
3356	टिजे3800के	सुबेदार	एस स्वरूप शर्मा	01.08.2010
3357	टिजे3994डब्ल्यू	सुबेदार	यशवंत	01.07.2010

अवैतनिक रिसालदार / सुबेदार के रूप में8 केवेलरी

1	जेसी242242एन	नायब रिसालदार	वीजेन्द्र पाल सिंह	01.06.2010
---	--------------	---------------	--------------------	------------

20 लानर्सस

2	जेसी242772एच	नायब रिसालदार	चन्दन सिंह	01.02.2010
---	--------------	---------------	------------	------------

64 केवेलरी

3	जेसी242856डब्ल्यू	नायब रिसालदार	धीर सिंह भदोरिया	01.05.2010
---	-------------------	---------------	------------------	------------

4	जेसी242990एफ	नायब रिसालदार	सुखविंदर सिंह	01.07.2010
---	--------------	---------------	---------------	------------

76 आर्मड रेजीमेंट

5	जेसी242872एन	नायब रिसालदार	बलराज सिंह कौंदल	01.05.2010
---	--------------	---------------	------------------	------------

6	जेसी242706ए	नायब रिसालदार	बेग सिंह	01.05.2010
---	-------------	---------------	----------	------------

7	जेसी242241एल	नायब रिसालदार	हनुमाना राम	01.04.2010
---	--------------	---------------	-------------	------------

47 आर्मड रेजीमेंट

8	जेसी242915एक्स	नायब रिसालदार	अमर नाथ	01.08.2010
---	----------------	---------------	---------	------------

50 आर्मड रेजीमेंट

9	जेसी242985डब्ल्यू	नायब रिसालदार	हरजीत सिंह	01.06.2010
---	-------------------	---------------	------------	------------

**51 आर्मड रेजीमेंट**

10	जेसी243240पी	नायब रिसालदार	गुरजीत सिंह	01.04.2010
41	जेसी242810एन	नायब रिसालदार	रमेश चन्द	01.06.2010
12	जेसी242682एफ	नायब रिसालदार	सुंबा सिंह	01.03.2010

**52 आर्मड रेजीमेंट**

13	जेसी242494ए	नायब रिसालदार	दिवाकर सिंह	01.07.2010
14	जेसी242145डब्ल्यू	नायब रिसालदार	खेम चन्द	01.06.2010
15	जेसी242352एच	नायब रिसालदार	मोहन सिंह	01.07.2010

**आर्मड कोर**

16	जेसी242637पी	नायब रिसालदार	अरविन्द कुमार सिंह	01.06.2010
17	जेसी242898एच	नायब रिसालदार	बाबू लाल	01.08.2010
18	जेसी242192एन	नायब रिसालदार	भीम सिंह	01.05.2010
19	जेसी242730डब्ल्यू	नायब रिसालदार	देवेंद्र सिंह राना	01.03.2010
20	जेसी242619एम	नायब रिसालदार	गुरदेव सिंह	01.02.2010
21	जेसी242968डब्ल्यू	नायब रिसालदार	जगदीश प्रसाद	01.06.2010
22	जेसी242239एन	नायब रिसालदार	जसवंत सिंह	01.06.2010
23	जेसी243455एन	नायब रिसालदार	जोगिंदर सिंह	01.05.2010
24	जेसी242707एच	नायब रिसालदार	लछी राम	01.03.2010
25	जेसी242155ए	नायब रिसालदार	मल्कीत सिंह	01.05.2010
26	जेसी242284ए	नायब रिसालदार	मनजीत सिंह	01.04.2010
27	जेसी242855एन	नायब रिसालदार	प्रताप सिंह	01.04.2010
28	जेसी242196के	नायब रिसालदार	राजीव कुमार	01.06.2010
29	जेसी242751एम	नायब रिसालदार	राजपाल सिंह	01.03.2010
30	जेसी242777एफ	नायब रिसालदार	रामेश्वर दास	01.06.2010
31	जेसी242154एक्स	नायब रिसालदार	एस सिंह	01.02.2010
32	जेसी241566एम	नायब रिसालदार	संतोख सिंह	01.02.2010
33	जेसी241129एम	नायब रिसालदार	सरजीत सिंह चौहान	01.04.2010
34	जेसी242748एम	नायब रिसालदार	शमशेर सिंह	01.08.2010
35	जेसी241428एल	नायब रिसालदार	सुख देव सिंह	01.04.2010
36	जेसी242484डब्ल्यू	नायब रिसालदार	सुखवीर सिंह	01.03.2010
37	जेसी241983वाइ	नायब रिसालदार	तेजवीर सिंह	01.04.2010

**आर्टिलरी रेजीमेंट**

38	जेसी273176एक्स	नायब सुबेदार	ए पलानी सामी	01.08.2010
39	जेसी271187एल	नायब सुबेदार	अनिल कांत	01.07.2010
40	जेसी270835डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अनिल कुमार	01.05.2010
41	जेसी270661एफ	नायब सुबेदार	अरुण कुमार शर्मा	01.04.2010
42	जेसी273603एच	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2010
43	जेसी271256डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अतुल कुमार सिंह	01.07.2010
44	जेसी271023पी	नायब सुबेदार	अवतार सिंह	01.05.2010
45	जेसी270048पी	नायब सुबेदार	बहादुर सिंह	01.03.2010
46	जेसी271855डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बलवीर सिंह	01.05.2010

47	जेसी272509एम	नायब सुबेदार	बलकार सिंह	01.05.2010
48	जेसी271611एम्	नायब सुबेदार	बसावा राज टी	01.07.2010
49	जेसी270551एम	नायब सुबेदार	बी देवीदास अर्जुन राव	01.02.2010
50	जेसी269151एन	नायब सुबेदार	बीर चंद्रा सिन्हा	01.04.2010
51	जेसी271680वाइ	नायब सुबेदार	बिशम्बर लाल	01.08.2010
52	जेसी270942एक्स	नायब सुबेदार	चंद्र पाल सिंह	01.05.2010
53	जेसी271593एल	नायब सुबेदार	चेत राम	01.02.2010
54	जेसी272009पी	नायब सुबेदार	सी सिन्हाचलम	01.08.2010
55	जेसी267918डब्ल्यू	नायब सुबेदार	दयानन्द सिंह	01.03.2010
56	जेसी268385एल	नायब सुबेदार	दीन दयाल शर्मा	01.03.2010
57	जेसी270126एफ	नायब सुबेदार	धर्म वीर सिंह	01.02.2010
58	जेसी270674वाइ	नायब सुबेदार	घारगे दत्ता तुकाराम	01.05.2010
59	जेसी271340डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गिरीश कुमार ए	01.02.2010
60	जेसी271573एक्स	नायब सुबेदार	जी. एन	01.05.2010
61	जेसी271361एम	नायब सुबेदार	गोपाल सिंह	01.02.2010
62	जेसी271741एल	नायब सुबेदार	गोपीनाथ कुरुप बी	01.08.2010
63	जेसी270485पी	नायब सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.02.2010
64	जेसी270466के	नायब सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.03.2010
65	जेसी273125के	नायब सुबेदार	इंद्र सिंह	01.05.2010
66	जेसी271269एन	नायब सुबेदार	जय सिंह	01.06.2010
67	जेसी270844एक्स	नायब सुबेदार	जयवीर सिंह	01.06.2010
68	जेसी270317डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जे कुमार	01.03.2010
69	जेसी270190वाइ	नायब सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.04.2010
70	जेसी271199ए	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा पी डी. सिंह	01.05.2010
71	जेसी268732वाइ	नायब सुबेदार	के एस सिंघा	01.07.2010
72	जेसी271909एम	नायब सुबेदार	कैलाश चंद्र	01.07.2010
73	जेसी269262एल	नायब सुबेदार	कमल किशोर	01.04.2010
74	जेसी271236एच	नायब सुबेदार	कन्हैया नाथ उपाध्याय	01.08.2010
75	जेसी272194एन	नायब सुबेदार	कंवर सिंह यादव	01.03.2010
76	जेसी271209वाइ	नायब सुबेदार	कप्तान सिंह	01.03.2010
77	जेसी268947एक्स	नायब सुबेदार	कर्म चन्द	01.04.2010
78	जेसी268939वाइ	नायब सुबेदार	कृष्णा पाटिल	01.04.2010
79	जेसी271402एल	नायब सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.04.2010
80	जेसी270586एच	नायब सुबेदार	लल्लन लाल यादव	01.06.2010
81	जेसी272659एच	नायब सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2010
82	जेसी270762पी	नायब सुबेदार	महाबीर सिंह	01.07.2010
83	जेसी270670एच	नायब सुबेदार	महावीर प्रसाद यादव	01.04.2010
84	जेसी268667के	नायब सुबेदार	मलप्पा सुतार	01.03.2010
85	जेसी271836एल	नायब सुबेदार	मैनेजर सिंह	01.02.2010
86	जेसी271151एम	नायब सुबेदार	मनी चंद्रा झा	01.03.2010
87	जेसी271408एम	नायब सुबेदार	मनजीत सिंह	01.03.2010
88	जेसी270140एन	नायब सुबेदार	मोहन लाल	01.07.2010
89	जेसी271784ए	नायब सुबेदार	मुरलीधरन नायर डी.	01.08.2010
90	जेसी271898एल	नायब सुबेदार	नन्द लाल	01.07.2010
91	जेसी269800एन	नायब सुबेदार	नार सिंह दास	01.04.2010

92	जेसी271257वाइ	नायब सुबेदार	निर्मल मंडल	01.07.2010
93	जेसी270529एफ	नायब सुबेदार	ओम पाल सिंह	01.08.2010
94	जेसी269230एच	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2010
95	जेसी270999एम	नायब सुबेदार	पी कुप्पू सामी	01.08.2010
96	जेसी273503एक्स	नायब सुबेदार	पी मनोगरन	01.02.2010
97	जेसी271047वाइ	नायब सुबेदार	पी एस विनायक नायडू	01.02.2010
98	जेसी270160एफ	नायब सुबेदार	पाटिल महादेव भगवान	01.08.2010
99	जेसी269185एफ	नायब सुबेदार	पी अंकुश दत्तत्रे	01.04.2010
100	जेसी271219एच	नायब सुबेदार	पोखारकर रामदास भाउ	01.05.2010
101	जेसी273538एन	नायब सुबेदार	प्रदीप कुमार दुबे	01.03.2010
102	जेसी270175के	नायब सुबेदार	पी कुमावत	01.08.2010
103	जेसी271063डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रेम कुमार ए	01.03.2010
104	जेसी271390एफ	नायब सुबेदार	प्रीतम सिंह	11.02.2010
105	जेसी267617एम	नायब सुबेदार	रघुनाथ सिंह बी	01.03.2010
106	जेसी273186एफ	नायब सुबेदार	राजेन्द्र सिंह	01.05.2010
107	जेसी271455के	नायब सुबेदार	राजेंद्रा	01.03.2010
108	जेसी271951एल	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह चौहान	01.04.2010
109	जेसी271719ए	नायब सुबेदार	राकेश कुमार	01.08.2010
110	जेसी272629एल	नायब सुबेदार	राम आधार सिंह	01.05.2010
111	जेसी270626वाइ	नायब सुबेदार	राम दास सिंह	01.06.2010
112	जेसी271338वाइ	नायब सुबेदार	राम लखन सिंह	01.02.2010
113	जेसी269890ए	नायब सुबेदार	राम नारायण शर्मा	01.03.2010
114	जेसी272757एच	नायब सुबेदार	राम पत	01.05.2010
115	जेसी269937ए	नायब सुबेदार	राम फल	01.04.2010
116	जेसी272300एफ	नायब सुबेदार	राम सिंह	01.06.2010
117	जेसी273083एच	नायब सुबेदार	रमेश सिंह	01.05.2010
118	जेसी270059एफ	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2010
119	जेसी271075एल	नायब सुबेदार	राव साहेब राणाडिव	01.08.2010
120	जेसी270704एल	नायब सुबेदार	रविचंद्रन आर	01.02.2010
121	जेसी271956के	नायब सुबेदार	आर नाथ	01.05.2010
122	जेसी271406एफ	नायब सुबेदार	एस चेल्लम आइ	01.08.2010
123	जेसी271880पी	नायब सुबेदार	एस वेन्कटेश्वरलु	01.04.2010
124	जेसी271925के	नायब सुबेदार	सैंडी मनी दुन्दपा	01.07.2010
125	जेसी271120एम	नायब सुबेदार	संजीव कुमार डी.	01.08.2010
126	जेसी272148वाइ	नायब सुबेदार	संतोष कुमार शुक्ला	01.03.2010
127	जेसी271475एक्स	नायब सुबेदार	सतीश कुमार	01.04.2010
128	जेसी271017एफ	नायब सुबेदार	सतवीन्द्र सिंह	01.03.2010
129	जेसी269096एच	नायब सुबेदार	सत्य देव यादव	01.02.2010
130	जेसी269927डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सत्य नारायण	01.02.2010
131	जेसी271319एन	नायब सुबेदार	सेवा सिंह	01.07.2010
132	जेसी271825वाइ	नायब सुबेदार	शैलेंद्र कुमार दुबे	01.06.2010
133	जेसी271493ए	नायब सुबेदार	शिरीष कुमार	01.03.2010
134	जेसी271357के	नायब सुबेदार	शिशुपाल सिंह	01.08.2010
135	जेसी271626एल	नायब सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.08.2010

136	जेसी272063एच	नायब सुबेदार	श्री भगवान	01.06.2010
137	जेसी270212एम	नायब सुबेदार	शिशिर कुमार दाल्यु	01.03.2010
138	जेसी270158के	नायब सुबेदार	सोमन पी	01.05.2010
139	जेसी269881वाइ	नायब सुबेदार	श्रीनिवासन एके.	01.02.2010
140	जेसी271537एम	नायब सुबेदार	सूबे सिंह	01.08.2010
141	जेसी270730एम	नायब सुबेदार	सुदेश सिंह	01.04.2010
142	जेसी271173एल	नायब सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.03.2010
143	जेसी270814ए	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.02.2010
144	जेसी268750एफ	नायब सुबेदार	सुरेश चंद्र यादव	01.04.2010
145	जेसी271348एच	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.07.2010
146	जेसी271431ए	नायब सुबेदार	सुरेश पी	01.08.2010
147	जेसी270252एन	नायब सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.04.2010
148	जेसी269014पी	नायब सुबेदार	तिलक राज	01.04.2010
149	जेसी272201वाइ	नायब सुबेदार	वी सम्पथ	01.04.2010
150	जेसी270593वाइ	नायब सुबेदार	विजय सिंह	01.04.2010
151	जेसी270667एच	नायब सुबेदार	विजेन्द्र सिंह	01.04.2010
152	जेसी270836वाइ	नायब सुबेदार	विनोद कुमार सिंह	01.05.2010
153	जेसी269919एक्स	नायब सुबेदार	वी सिंह	01.05.2010
154	जेसी270914एल	नायब सुबेदार	यादव सूर्यकांत बाबासाहेब	01.08.2010

#### सेना वायु सुरक्षा

155	जेसी299553ए	नायब सुबेदार	अमरेन्द्रा चौधुरी	01.02.2010
156	जेसी300325एम	नायब सुबेदार	धर्म राज टी	01.02.2010
157	जेसी299978वाइ	नायब सुबेदार	गजेन्द्र कुमार सिंह	01.02.2010
158	जेसी300035पी	नायब सुबेदार	जगन् नाथ	01.08.2010
159	जेसी299608वाइ	नायब सुबेदार	जय सिंह	01.05.2010
160	जेसी300072एच	नायब सुबेदार	जोज टी के	01.02.2010
161	जेसी300611एन	नायब सुबेदार	के सुरेश कुमार	01.08.2010
162	जेसी300111डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कुलबीर सिंह	01.03.2010
163	जेसी299597एक्स	नायब सुबेदार	कुंज बिहारी गुप्ता	01.04.2010
164	जेसी299491एल	नायब सुबेदार	लाल बाबू प्रसाद	01.04.2010
165	जेसी299982एफ	नायब सुबेदार	एम सिंह	01.05.2010
166	जेसी299609एफ	नायब सुबेदार	मोहानन पी	01.04.2010
167	जेसी300249एल	नायब सुबेदार	मुरलीधर सिंह के	01.03.2010
168	जेसी299626एफ	नायब सुबेदार	नीलमणि सिंघा	01.06.2010
169	जेसी300729पी	नायब सुबेदार	पार्थन एस	01.08.2010
170	जेसी300729पी	नायब सुबेदार	पार्थन एस	01.08.2010
171	जेसी299596पी	नायब सुबेदार	पवाले बाबू वी	01.04.2010
172	जेसी300328ए	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.02.2010
173	जेसी300115एम	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार पाल	01.05.2010
174	जेसी300114के	नायब सुबेदार	रबीन्द्र नाथ सिंह यादव	01.05.2010
175	जेसी300180एम	नायब सुबेदार	राज बहादुर	01.05.2010
176	जेसी300461एच	नायब सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2010



177	जेसी299981वाइ	नायब सुबेदार	रजनेश कुमार	01.02.2010
178	जेसी300509एल	नायब सुबेदार	राकेश कुमार रावत	01.03.2010
179	जेसी300218एल	नायब सुबेदार	रविन्द्रन आर	01.03.2010
180	जेसी300395एल	नायब सुबेदार	एस सथीया मूर्ती	01.07.2010
181	जेसी299441ए	नायब सुबेदार	संबाजी एस	01.04.2010
182	जेसी300483एफ	नायब सुबेदार	संतोष सिन्हा	01.06.2010
183	जेसी299710एफ	नायब सुबेदार	सावंत मगदुम	01.05.2010
184	जेसी299908ए	नायब सुबेदार	सुदामा शर्मा	01.04.2010
185	जेसी299820डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.02.2010
186	जेसी299840के	नायब सुबेदार	सुनील कुमार किस्कु	01.07.2010
187	जेसी300475एच	नायब सुबेदार	सुनील सिंह	01.04.2010
188	जेसी299968पी	नायब सुबेदार	सूरज सिंह यादव	01.06.2010
189	जेसी299992एल	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रताप सिंह	01.06.2010
190	जेसी299485एक्स	नायब सुबेदार	स्वामी नाथ	01.04.2010
191	जेसी300411एक्स	नायब सुबेदार	उमेश कुमार सिंह	01.07.2010
192	जेसी300389एक्स	नायब सुबेदार	वलसान केसी	01.03.2010
193	जेसी299209पी	नायब सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.04.2010

**मद्रास इंजीनियर समूह**

194	जेसी309115एन	नायब सुबेदार	अंग्रेज सिंह	01.06.2010
195	जेसी309080एच	नायब सुबेदार	अशोकन के.एस	01.05.2010
196	जेसी308721एक्स	नायब सुबेदार	जी. आर	01.04.2010
197	जेसी309076ए	नायब सुबेदार	जया प्रकाश के	01.02.2010
198	जेसी308877पी	नायब सुबेदार	जॉन पिंटो	01.04.2010
199	जेसी309267पी	नायब सुबेदार	के विस्वनाथन	01.06.2010
200	जेसी308905डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एम सूर्यनारायण मूर्ती	01.03.2010
201	जेसी308737एच	नायब सुबेदार	मोहम्मद सत्रार	01.02.2010
202	जेसी309228डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मुनिरथनम ए	01.02.2010
203	जेसी309233एफ	नायब सुबेदार	एन कलईवान्न	01.03.2010
204	जेसी309265के	नायब सुबेदार	राजू एन	01.05.2010
205	जेसी309259डब्ल्यू	नायब सुबेदार	तिरुमलई एन	01.05.2010
206	जेसी309192एच	नायब सुबेदार	वी के छामी	01.04.2010
207	जेसी308270एच	नायब सुबेदार	यलप्पा पाटिल	01.06.2010

**बंगाल इंजीनियर समूह**

208	जेसी338244डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अभे कुमार सिंह	01.08.2010
209	जेसी338090पी	नायब सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.04.2010
210	जेसी327041एम	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2010
211	जेसी329022ए	नायब सुबेदार	अतीराज सिंह यादव	01.07.2010
212	जेसी338156ए	नायब सुबेदार	बहादुर सिंह	01.03.2010

213	जेसी338084एफ	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
214	जेसी338268ए	नायब सुबेदार	बलकार सिंह	01.05.2010
215	जेसी338378पी	नायब सुबेदार	भुनेश्वर सिंह	01.06.2010
216	जेसी338012एक्स	नायब सुबेदार	चरणजीत सिंह	01.04.2010
217	जेसी338153एम	नायब सुबेदार	डंडी नाथ कलिता	01.04.2010
218	जेसी330329के	नायब सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद	01.04.2010
219	जेसी338011पी	नायब सुबेदार	धर्म पाल शर्मा	01.04.2010
220	जेसी338015एल	नायब सुबेदार	गजा नन्द	01.05.2010
221	जेसी338036एफ	नायब सुबेदार	घना राम	01.04.2010
222	जेसी338137पी	नायब सुबेदार	हरदीप सिंह	01.02.2010
223	जेसी338093एच	नायब सुबेदार	हरवेल सिंह	01.05.2010
224	जेसी329872के	नायब सुबेदार	जसपाल सिंह	01.07.2010
225	जेसी338434एच	नायब सुबेदार	जसवंत सिंह	01.08.2010
226	जेसी338294एफ	नायब सुबेदार	कान्हू चरण पंडा	01.04.2010
227	जेसी338039पी	नायब सुबेदार	के सी सिन्हा	01.04.2010
228	जेसी338013ए	नायब सुबेदार	कष्णन पाल भार्गव	01.05.2010
229	जेसी338033एन	नायब सुबेदार	लच्छी राम प्रसाद राम	01.04.2010
230	जेसी338431पी	नायब सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.05.2010
231	जेसी338215एफ	नायब सुबेदार	मदन पाल	01.04.2010
232	जेसी328915एफ	नायब सुबेदार	महेन्द्र नाथ रौय	01.08.2010
233	जेसी338190ए	नायब सुबेदार	महीपाल सिंह	01.04.2010
234	जेसी338066वाइ	नायब सुबेदार	मोहन चंद्रा नाथ	01.04.2010
235	जेसी338269एच	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा प्रसाद	01.06.2010
236	जेसी338014एच	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह मेहता	01.07.2010
237	जेसी338170एम	नायब सुबेदार	नीलकंठ कमल मोन्डल	01.04.2010
238	जेसी338076एच	नायब सुबेदार	प्रादयुत कुमार मंडल	01.02.2010
239	जेसी328938एच	नायब सुबेदार	प्रवीन चन्द	01.06.2010
240	जेसी330695एफ	नायब सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.05.2010
241	जेसी338369एन	नायब सुबेदार	राज नारायण ममोलर्य	01.02.2010
242	जेसी338038एम	नायब सुबेदार	राजेंद्रा कुमार जुयाल	01.04.2010
243	जेसी338040के	नायब सुबेदार	राम बाबू साह	01.04.2010
244	जेसी330863पी	नायब सुबेदार	रमेश सिंह	01.06.2010
245	जेसी330852एच	नायब सुबेदार	एस चंद्रा शेखरन	01.07.2010
246	जेसी328309एल	नायब सुबेदार	सरजीत सिंह	01.05.2010
247	जेसी328608के	नायब सुबेदार	सतेश कुमार	01.03.2010
248	जेसी329820एन	नायब सुबेदार	सतपाल सिंह	01.03.2010
249	जेसी329025एन	नायब सुबेदार	सत्येंद्र नाथ रावत	01.03.2010
250	जेसी338041एम	नायब सुबेदार	सिध नाथ	01.04.2010
251	जेसी338154पी	नायब सुबेदार	सोहन सिंह	01.04.2010
252	जेसी327168पी	नायब सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.07.2010

253	जेसी338413एम	नायब सुबेदार	सुशील विश्वास	01.07.2010
254	जेसी329981डब्ल्यू	नायब सुबेदार	उपेंद्र कुमार स्वेन	01.04.2010
<b>बोम्बे इंजीनियर समूह</b>				
255	जेसी350638एफ	नायब सुबेदार	बलकार सिंह	01.04.2010
256	जेसी350263एन	नायब सुबेदार	कासर अंकुश	01.04.2010
257	जेसी350411एन	नायब सुबेदार	मोहम्मद हसनैन खान	01.02.2010
258	जेसी350597एच	नायब सुबेदार	मेवा सिंह	01.06.2010
259	जेसी350448पी	नायब सुबेदार	एम शुक्ला	01.04.2010
260	जेसी350494के	नायब सुबेदार	नानक सिंह	01.04.2010
261	जेसी350435एक्स	नायब सुबेदार	निजामुरदीन	01.04.2010
262	जेसी350907एच	नायब सुबेदार	साबिर अली	01.08.2010
263	जेसी350496पी	नायब सुबेदार	सत्यपाल सिंह	01.05.2010
264	जेसी350441एल	नायब सुबेदार	शिंदे शिवाजी सुकदेव	01.04.2010
265	जेसी350742पी	नायब सुबेदार	शिंदे वसंत शिवाजी	01.08.2010
266	जेसी350560एफ	नायब सुबेदार	सुखदेव सिंह गिल	01.06.2010
267	जेसी350857एच	नायब सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.06.2010
268	जेसी350439डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.04.2010
269	जेसी350561के	नायब सुबेदार	तरसेम सिंह	01.07.2010
270	जेसी350664एच	नायब सुबेदार	विजय पाटिल	01.04.2010

**सिग्नल्स कोर**

271	जेसी378389के	नायब सुबेदार	अवधेश प्रसाद	01.04.2010
272	जेसी378195एफ	नायब सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.07.2010
273	जेसी376996के	नायब सुबेदार	भोला नाथ विश्वास	01.04.2010
274	जेसी376958एन	नायब सुबेदार	बिपुल चंद्रा निओग	01.03.2010
275	जेसी377005एक्स	नायब सुबेदार	दीप चन्द	01.07.2010
276	जेसी377578एफ	नायब सुबेदार	हरी कुमार सिंह	01.04.2010
277	जेसी377444एच	नायब सुबेदार	हरी मोहन झा	01.06.2010
278	जेसी375866पी	नायब सुबेदार	जोसफ राज डी.	01.07.2010
279	जेसी376688के	नायब सुबेदार	जोसफ वीयू	01.07.2010
280	जेसी376635एल	नायब सुबेदार	कन्हैया लाल	01.04.2010
281	जेसी375909वाइ	नायब सुबेदार	काशी नाथ राम	01.07.2010
282	जेसी377121ए	नायब सुबेदार	कष्णन चंद्र	01.04.2010
283	जेसी378365ए	नायब सुबेदार	नबीन बोराह	01.03.2010
284	जेसी378081डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एनसी प्रमाणिक	01.07.2010
285	जेसी376831एल	नायब सुबेदार	निरंजन साहू	01.07.2010
286	जेसी378637पी	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2010
287	जेसी376677एक्स	नायब सुबेदार	पारस साह	01.04.2010
288	जेसी376843ए	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार मिश्रा	01.03.2010

289	जेसी377409ए	नायब सुबेदार	राना प्रताप सिंह	01.02.2010
290	जेसी377913ए	नायब सुबेदार	सरोज सिंह	01.04.2010
291	जेसी378627एल	नायब सुबेदार	सत्यन सी	01.08.2010
292	जेसी378063एन	नायब सुबेदार	सैयद एस अली	01.08.2010
293	जेसी376695ए	नायब सुबेदार	शेर सिंह खेदर	01.04.2010
294	जेसी377384वाइ	नायब सुबेदार	श्याम धनी प्रसाद गुप्ता	01.05.2010
295	जेसी374398एन	नायब सुबेदार	सोमबीर	01.03.2010
296	जेसी378178एफ	नायब सुबेदार	एसएस सिंह यादव	01.08.2010
297	जेसी377932एल	नायब सुबेदार	सुब्रता अधिकारी	01.05.2010
298	जेसी376878डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एस कुमार मुखर्जी	01.04.2010
299	जेसी377359ए	नायब सुबेदार	वेद प्रकाश	01.02.2010
300	जेसी376995एफ	नायब सुबेदार	वीर सिंह यादव	01.02.2010

**गार्ड्स**

301	जेसी404075एच	नायब सुबेदार	अमल कुमार आर्य	01.05.2010
302	जेसी404104एम	नायब सुबेदार	अमरीक सिंह	01.05.2010
303	जेसी404061एच	नायब सुबेदार	बी डी किसान	01.05.2010
304	जेसी404130एन	नायब सुबेदार	जी. सिंह	01.08.2010
305	जेसी404429ए	नायब सुबेदार	राजेश कुमार मिश्रा	01.06.2010
306	जेसी403191वाइ	नायब सुबेदार	सुनील प्रसाद	01.02.2010
307	जेसी403937के	नायब सुबेदार	त्रिभुवन उपमन्यु	01.05.2010

**मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट**

308	जेसी420766वाइ	नायब सुबेदार	आशीम चंद्रा सरकार	01.03.2010
309	जेसी420649एन	नायब सुबेदार	आशीम कुमार पौल	01.02.2010
310	जेसी420800एन	नायब सुबेदार	बृज मोहन राय	01.04.2010
311	जेसी420626एम	नायब सुबेदार	दया नन्द पांडे	01.04.2010
312	जेसी420682एल	नायब सुबेदार	लक्ष्मन सिंह धामी	01.07.2010
313	जेसी420837पी	नायब सुबेदार	मधु पी	01.02.2010
314	जेसी420599एन	नायब सुबेदार	एमबी भाई एम भाई	01.02.2010
315	जेसी421053ए	नायब सुबेदार	मोहन लाल गुज्जर	01.07.2010
316	जेसी420683एन	नायब सुबेदार	मोहन राम	01.07.2010
317	जेसी421001के	नायब सुबेदार	पी कांडा सामी	01.05.2010
318	जेसी420921पी	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.03.2010
319	जेसी420877डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.04.2010
320	जेसी420614एक्स	नायब सुबेदार	संतोष कुमार मोहंता	01.04.2010
321	जेसी420992डब्ल्यू	नायब सुबेदार	संतोष कुमार सिंह	01.02.2010
322	जेसी420485एच	नायब सुबेदार	उम्मेद सिंह गुर्जर	01.04.2010

मद्रास रेजीमेन्ट

323	जेसी439708के <u>ग्रेनेडियर्स</u>	नायब सुबेदार	पी देवराज	01.06.2010
324	जेसी449796वाइ	नायब सुबेदार	दयानन्द	01.07.2010
325	जेसी450444एन	नायब सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.06.2010
326	जेसी450475एन	नायब सुबेदार	कष्णन सिंह	01.03.2010
327	जेसी450384के	नायब सुबेदार	राम शंकर	01.04.2010
328	जेसी450328एल	नायब सुबेदार	रमजान काथात	01.02.2010
329	जेसी450290एम	नायब सुबेदार	आरबीएस परिहार	01.08.2010
330	जेसी450375एच	नायब सुबेदार	सादिक मोहम्मद	01.04.2010
331	जेसी450527वाइ	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार यादव	01.02.2010

मराठा लघु सेना

332	जेसी459551डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जे त्रिम्बक एल	01.02.2010
333	जेसी459675एल	नायब सुबेदार	प्रेम प्रकाश शुक्ला	01.06.2010

राजपूताना राईफल्स

334	जेसी470253ए	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2010
335	जेसी470352एच	नायब सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.06.2010
336	जेसी470195एफ	नायब सुबेदार	धनी राम	01.04.2010
337	जेसी470183एम	नायब सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2010
338	जेसी470260डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गोविंद सिंह जाट	01.07.2010
339	जेसी469850एच	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा पाल सिंह शाक्य	01.04.2010
340	जेसी470568के	नायब सुबेदार	राम निवास चौहान	01.08.2010
341	जेसी470066एफ	नायब सुबेदार	श्री नाथ सिंह	01.02.2010

राजपूत रेजीमेन्ट

342	जेसी479889एच	नायब सुबेदार	रबीन्द्र नाथ शर्मा	01.06.2010
343	जेसी480366डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राम स्नेही	01.04.2010
344	जेसी479880एन	नायब सुबेदार	संत्यजीत सिन्हा	01.07.2010
345	जेसी479893एल	नायब सुबेदार	सेवा राम शर्मा	01.04.2010

जाट रेजीमेन्ट

346	जेसी490024डब्ल्यू	नायब सुबेदार	दामोदर लाल	01.03.2010
347	जेसी489996एक्स	नायब सुबेदार	डियु शरण	01.03.2010
348	जेसी490125के	नायब सुबेदार	पीपी सिंह चौहान	01.05.2010
349	जेसी490061के	नायब सुबेदार	राज कुमार	01.04.2010

सिख रेजीमेन्ट

350	जेसी499759एच	नायब सुबेदार	गंगा सिंह	01.07.2010
351	जेसी499678एफ	नायब सुबेदार	प्रधान सिंह	01.05.2010

सिख लघु पैदल सेना

352	जेसी509570ए	नायब सुबेदार	जरनैल सिंह	01.04.2010
-----	-------------	--------------	------------	------------

डोगरा रेजीमेन्ट

353	जेसी520780ए	नायब सुबेदार	इश्वर दास	01.06.2010
-----	-------------	--------------	-----------	------------

गढवाल राईफल्स

354	जेसी530390एल	नायब सुबेदार	महेंद्र पाल सिंह रावत	01.08.2010
355	जेसी530556एफ	नायब सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.08.2010
356	जेसी530405एच	नायब सुबेदार	राम प्रसाद	01.05.2010
357	जेसी530500पी	नायब सुबेदार	त्रिलोक सिंह नेगी	01.08.2010
358	जेसी530408डब्ल्यू	नायब सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.08.2010

कुर्माँउ रेजीमेन्ट

359	जेसी540237एच	नायब सुबेदार	किशन सिंह	01.03.2010
360	जेसी540460एम	नायब सुबेदार	कुंवर सिंह	01.07.2010
361	जेसी540385एन	नायब सुबेदार	माधो राम	01.06.2010
362	जेसी540188एल	नायब सुबेदार	राजवीर सिंह	01.04.2010
363	जेसी540421एन	नायब सुबेदार	राम सिंह	01.08.2010
364	जेसी540106एक्स	नायब सुबेदार	उमा संकेर सिंह	01.05.2010

आसाम रेजीमेन्ट

365	जेसी549542डब्ल्यू	नायब सुबेदार	संजोय डायमारे	01.03.2010
366	जेसी549280एल	नायब सुबेदार	एस डी.	01.04.2010
367	जेसी549531के	नायब सुबेदार	टी दम	01.03.2010

बिहार रेजीमेन्ट

368	जेसी559849पी	नायब सुबेदार	अलेक्जेंडर पूर्ति	01.02.2010
369	जेसी559543एम	नायब सुबेदार	दीनदयाल सिंह	01.05.2010
370	जेसी559819एक्स	नायब सुबेदार	प्रताप नारायण सिंह	01.02.2010
371	जेसी560032पी	नायब सुबेदार	आर शर्मा	01.07.2010

महार रेजीमेन्ट

372	जेसी570038के	नायब सुबेदार	अनिल एन गोखले	01.06.2010
373	जेसी569627एन	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.03.2010

374 जेसी569871एन नायब सुबेदार रमेश सिंह 01.07.2010  
जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

375 जेसी580577एन नायब सुबेदार जगरूप सिंह 01.02.2010

376 जेसी580593एल नायब सुबेदार कुलदीप सिंह 01.05.2010

1 गोरखा राईफल्स

377 जेसी602703एक्स नायब सुबेदार कुल बहादुर थापा 01.03.2010

378 जेसी602794एम नायब सुबेदार तिका राम थापा 01.08.2010

8 गोरखा राईफल्स

379 जेसी623817डब्ल्यू नायब सुबेदार करण बहादुर थापा 01.05.2010

9 गोरखा राईफल्स

380 जेसी629771पी नायब सुबेदार भीम बहादुर थापा 01.05.2010

381 जेसी629750वाइ नायब सुबेदार हीरा बहादुर छत्री 01.08.2010

382 जेसी629790ए नायब सुबेदार राम बहादुर गौतम खत्री 01.06.2010

सेना सेवा कोर दक्षिण

383 जेसी664765ए नायब सुबेदार अभे सिंह यादव 01.04.2010

384 जेसी665295एम नायब सुबेदार आनंद कुमार टी 01.06.2010

385 जेसी664955एम नायब सुबेदार अशोक कुमार 01.03.2010

386 जेसी665763एफ नायब सुबेदार अशोक कुमार दिवेदी 01.02.2010

387 जेसी664386के नायब सुबेदार भट्ट राकेश विजयेन्द्रा 01.05.2010

388 जेसी663898के नायब सुबेदार भीशम सिंह 01.04.2010

389 जेसी665370एल नायब सुबेदार बिजय कुमार खान 01.08.2010

390 जेसी664925पी नायब सुबेदार बिनोद कुमार गुप्ता 01.04.2010

391 जेसी664767एल नायब सुबेदार बृजपाल सिंह एस 01.06.2010

392 जेसी642880ए नायब सुबेदार धर्म नाथ प्रसाद 01.04.2010

393 जेसी665549वाइ नायब सुबेदार दिलीप कुमार चंगमाई 01.08.2010

394 जेसी664900एच नायब सुबेदार ईबुंगो सिंघा 01.05.2010

395 जेसी664848एल नायब सुबेदार जागा बंधु विश्वास 01.08.2010

396 जेसी664761के नायब सुबेदार कमल किशोर सिंह 01.05.2010

397 जेसी663722वाइ नायब सुबेदार कोशल किशोरी गिरि 01.05.2010

398 जेसी664897एन नायब सुबेदार कष्णन दत्त 01.08.2010

399 जेसी664809एम नायब सुबेदार लीलू सिंह 01.05.2010

400 जेसी663812ए नायब सुबेदार महादेव हुन्द्रे 01.07.2010

401 जेसी664514डब्ल्यू नायब सुबेदार मंगरू भगत 01.03.2010

402 जेसी664376ए नायब सुबेदार मुकित नाथ पांडे 01.02.2010

403 जेसी663794एच नायब सुबेदार पटेल देवेन्द्र भाई हीरा भाई 01.05.2010

404	जेसी665477ए	नायब सुबेदार	पोरे रमेश तुकाराम	01.07.2010
405	जेसी663897एफ	नायब सुबेदार	प्रदीप सेकिआ	01.04.2010
406	जेसी663728ए	नायब सुबेदार	प्रकाशन पी	01.05.2010
407	जेसी664482वाइ	नायब सुबेदार	रबीन्द्र कुमार कर	01.06.2010
408	जेसी664516एफ	नायब सुबेदार	राधाकृष्णा पिल्लई आर	01.05.2010
409	जेसी665245एफ	नायब सुबेदार	रमेश प्रसाद	01.04.2010
410	जेसी664603पी	नायब सुबेदार	रामेश्वर पाल	01.05.2010
411	जेसी665373वाइ	नायब सुबेदार	रायवारपू वेंकट राव	01.08.2010
412	जेसी665887डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रोहिताश कुमार मीना	01.03.2010
413	जेसी665435एन	नायब सुबेदार	रूप लाल	01.07.2010
414	जेसी665106एक्स	नायब सुबेदार	एस भट्टाचारजी	01.03.2010
415	जेसी664530एन	नायब सुबेदार	सुब्रत पंडा	01.06.2010
416	जेसी664847एच	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2010
417	जेसी664764एक्स	नायब सुबेदार	विजय कुमार	01.08.2010
418	जेसी664151एक्स	नायब सुबेदार	विजय कुमार मिश्रा	01.06.2010
419	जेसी664505पी	नायब सुबेदार	विरेन्द्र मोहन मनोन	01.04.2010

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

420	जेसी680851पी	नायब रिसालदार	अमर नाथ सिंह	01.06.2010
421	जेसी681058एम	नायब रिसालदार	बाल बहादुर थापा	01.04.2010
422	जेसी680922एल	नायब रिसालदार	बिमल सिन्हा	01.04.2010
423	जेसी680784पी	नायब रिसालदार	देबा कांता मेधी	01.07.2010
424	जेसी680852एक्स	नायब रिसालदार	डी.आई.जी. विजय नारायण झा	01.07.2010
425	जेसी680847एम	नायब रिसालदार	गुरु शंकर	01.06.2010
426	जेसी681019एन	नायब रिसालदार	एच सिंह	01.02.2010
427	जेसी680834पी	नायब रिसालदार	कृष्णा बहादुर थापा	01.04.2010
428	जेसी681026के	नायब रिसालदार	कुलबीर सिंह	01.04.2010
429	जेसी681004एल	नायब रिसालदार	लखविन्दर सिंह	01.04.2010
430	जेसी680960एफ	नायब रिसालदार	मंसूर अहमद खान	01.04.2010
431	जेसी680837एच	नायब रिसालदार	मिथलेश कुमार चौधरी	01.05.2010
432	जेसी680956वाइ	नायब रिसालदार	नागदेव राय	01.08.2010
433	जेसी680836ए	नायब रिसालदार	पाती राम सिंह	01.04.2010
434	जेसी680955डब्ल्यू	नायब रिसालदार	प्रवेश चंद्रा दत्ता	01.04.2010
435	जेसी681020एच	नायब रिसालदार	राम कुमार छत्री	01.04.2010
436	जेसी681013एम	नायब रिसालदार	राम समुज	01.05.2010
437	जेसी681062पी	नायब रिसालदार	रामेश्वर पांडे	01.03.2010
438	जेसी665557एक्स	नायब रिसालदार	रंजीत सिंह	01.08.2010
439	जेसी680848पी	नायब रिसालदार	संजीत कुमार सिंह	01.06.2010
440	जेसी681043के	नायब रिसालदार	शिव कुमार	01.06.2010
441	जेसी681041वाइ	नायब रिसालदार	सुबल सिन्हा	01.07.2010



442	जेसी681108एम	नायब रिसालदार	सुखचैन सिंह	01.05.2010
443	जेसी680920ए	नायब रिसालदार	सुरेन्द्रन के	01.04.2010
444	जेसी681038वाइ	नायब रिसालदार	सुरेश कुमार पटेल	01.06.2010
445	जेसी681050ए	नायब रिसालदार	वी संकर राव	01.08.2010
446	जेसी680989के	नायब रिसालदार	डब्ल्यू. राजा एम	01.03.2010

सेना चिकित्सा कोर

447	जेसी693769वाइ	नायब सुबेदार	अखिलेश कुमार वर्मा	01.02.2010
448	जेसी696188एम	नायब सुबेदार	बलराज सिंह	01.04.2010
449	जेसी695371एच	नायब सुबेदार	गावडे सुरेश तुकाराम	01.07.2010
450	जेसी693648एक्स	नायब सुबेदार	धनानन्द शर्मा	01.02.2010
451	जेसी696108के	नायब सुबेदार	गोविंद राम	01.04.2010
452	जेसी696194ए	नायब सुबेदार	हरेन्द्र कुमार यादव	01.04.2010
453	जेसी694184एक्स	नायब सुबेदार	जय भगवान	01.11.2010
454	जेसी694666एम	नायब सुबेदार	एम पीजी.	01.02.2010
455	जेसी696312एच	नायब सुबेदार	मोहम्मद कमालुद्दीन खान	01.06.2010
456	जेसी696509वाइ	नायब सुबेदार	एम के कुर्मावन्शी	01.07.2010
457	जेसी695441डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मोहानन पिल्लई सी	01.04.2010
458	जेसी696576के	नायब सुबेदार	प्रकाश चन्द्र जोशी	01.02.2010
459	जेसी695723पी	नायब सुबेदार	राम लखन महतो	01.08.2010
460	जेसी695896एम	नायब सुबेदार	सत्यवीर	01.04.2010
461	जेसी695952ए	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2010
462	जेसी696458डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा पाल सिंह	01.06.2010
463	जेसी696200एच	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2010
464	जेसी695341एल	नायब सुबेदार	तरुण कान्ति दास	01.07.2010
465	जेसी694463एच	नायब सुबेदार	विक्रम सिंह यादव	01.08.2010

सेना आयुध कोर

466	जेसी727125एन	नायब सुबेदार	ए चंद्रा कुमार सिंघा	01.07.2010
467	जेसी727588एच	नायब सुबेदार	अप्पर सिंह	01.05.2010
468	जेसी727043एल	नायब सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.07.2010
469	जेसी727033एफ	नायब सुबेदार	बिछित्रा मोहन स्वेन	01.06.2010
470	जेसी726862एच	नायब सुबेदार	बीरबल प्रसाद	01.06.2010
471	जेसी726932डब्ल्यू	नायब सुबेदार	डी. सेकार	01.06.2010
472	जेसी727674एन	नायब सुबेदार	दयानन्दन के	01.07.2010
473	जेसी726777ए	नायब सुबेदार	डी. शर्मा	01.04.2010
474	जेसी727344पी	नायब सुबेदार	ई हिमत राव बाबू राव	01.06.2010
475	जेसी727356के	नायब सुबेदार	गोरी शंकर सिंह	01.07.2010
476	जेसी726757एम	नायब सुबेदार	गोपाल सिंह	01.06.2010
477	जेसी726528एफ	नायब सुबेदार	होशियार सिंह	01.04.2010

478	जेसी727791वाइ	नायब सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.05.2010
479	जेसी727585पी	नायब सुबेदार	के अहमद आर	01.06.2010
480	जेसी726901डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एलएन मजूमदार	01.06.2010
481	जेसी727362एक्स	नायब सुबेदार	महीपाल	01.06.2010
482	जेसी726424ए	नायब सुबेदार	मोहम्मद एस इस्लाम	01.04.2010
483	जेसी726857एक्स	नायब सुबेदार	पंचु गोपाल बैंग	01.06.2010
484	जेसी727521के	नायब सुबेदार	पोले पी एन	01.04.2010
485	जेसी727698एक्स	नायब सुबेदार	प्रभु दयाल यादव	01.08.2010
486	जेसी727190एन	नायब सुबेदार	राम फल	01.08.2010
487	जेसी727675डब्ल्यू	नायब सुबेदार	संजय कुमार शर्मा	01.08.2010
488	जेसी727569एक्स	नायब सुबेदार	संकर पाल	01.06.2010
489	जेसी726929डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एस वी	01.06.2010
490	जेसी727395एच	नायब सुबेदार	एस प्रकाश शर्मा	01.05.2010
491	जेसी727189वाइ	नायब सुबेदार	सुखजीत सिंह	01.08.2010
492	जेसी726774एम	नायब सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.02.2010
493	जेसी727160डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सूर्या कुमर	01.05.2010
494	जेसी727404वाइ	नायब सुबेदार	उदयवीर सिंह	01.05.2010
495	जेसी726631एम	नायब सुबेदार	उमा प्रसाद सरकार	01.04.2010
496	जेसी726478एफ	नायब सुबेदार	वासु केआर	01.07.2010
497	जेसी726484पी	नायब सुबेदार	विजयन के	01.04.2010

**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स**

498	जेसी760270एल	नायब सुबेदार	अजीत कुमार झा	01.08.2010
499	जेसी761691ए	नायब सुबेदार	अमरीक सिंह सैनी	01.04.2010
500	जेसी761564एल	नायब सुबेदार	आनंद कुमार दिवेदी	01.04.2010
501	जेसी761315एम	नायब सुबेदार	अपार सिंह	01.03.2010
502	जेसी761322एच	नायब सुबेदार	अरुण कुमार नाथ	01.03.2010
503	जेसी760937एफ	नायब सुबेदार	अवध बिहारी सिंह	01.07.2010
504	जेसी761599एफ	नायब सुबेदार	बाल राज	01.04.2010
505	जेसी762594पी	नायब सुबेदार	बलराम विश्वास	01.08.2010
506	जेसी761628एल	नायब सुबेदार	भागीरथ मल यादव	01.04.2010
507	जेसी761591पी	नायब सुबेदार	भरत भूषण	01.04.2010
508	जेसी761563एच	नायब सुबेदार	भीका ओरान	01.04.2010
509	जेसी761588पी	नायब सुबेदार	विभूति भूसेन मोहाप	01.04.2010
510	जेसी761937एन	नायब सुबेदार	बिंदु शेखर	01.07.2010
511	जेसी761577एच	नायब सुबेदार	बी सिंह	01.04.2010
512	जेसी761749एम	नायब सुबेदार	बिश्नु पाल सिंह	01.04.2010
513	जेसी760562एन	नायब सुबेदार	बृज मोहन	01.06.2010
514	जेसी761926एफ	नायब सुबेदार	चन्द राम	01.05.2010
515	जेसी759416एफ	नायब सुबेदार	चंद्राबीर शर्मा	01.08.2010

516	जेसी761783एम	नायब सुबेदार	छन्ना के एसआर	01.06.2010
517	जेसी762539वाइ	नायब सुबेदार	सी सिंह राठोर	01.07.2010
518	जेसी761827वाइ	नायब सुबेदार	दल चन्द	01.06.2010
519	जेसी761083वाइ	नायब सुबेदार	देसे अर्जुन शाम राव	01.03.2010
520	जेसी762237एम	नायब सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.08.2010
521	जेसी761752एम	नायब सुबेदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.04.2010
522	जेसी760845पी	नायब सुबेदार	धुबा शर्मा	01.03.2010
523	जेसी761156ए	नायब सुबेदार	दीपक कुमार सिंह	01.03.2010
524	जेसी761316पी	नायब सुबेदार	दुली चन्द वर्मा	01.03.2010
525	जेसी761788एल	नायब सुबेदार	हाफीज़ खान	01.06.2010
526	जेसी760720एक्स	नायब सुबेदार	हंस राज	01.02.2010
527	जेसी761755ए	नायब सुबेदार	जगपाल सिंह	01.06.2010
528	जेसी761153एम	नायब सुबेदार	जगवीर सिंह	01.03.2010
529	जेसी761938डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जसबीर सिंह	01.07.2010
530	जेसी761767पी	नायब सुबेदार	के रमा मूर्ती	01.08.2010
531	जेसी761785एक्स	नायब सुबेदार	के वीरा	01.06.2010
532	जेसी761692एच	नायब सुबेदार	कर्म सिंह	01.04.2010
533	जेसी762542वाइ	नायब सुबेदार	कृष्णापाल सिंह	01.07.2010
534	जेसी761939वाइ	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.07.2010
535	जेसी758836पी	नायब सुबेदार	कुमार जे सिंह	01.04.2010
536	जेसी760373के	नायब सुबेदार	कुवर विजय प्रताप	01.05.2010
537	जेसी760577डब्ल्यू	नायब सुबेदार	लाल सिंह माहली	01.04.2010
538	जेसी761748के	नायब सुबेदार	माघी सिंह	01.04.2010
539	जेसी761746वाइ	नायब सुबेदार	महाबीर शुक्ला	01.04.2010
540	जेसी761630एच	नायब सुबेदार	मोहम्मद इजराइल खान	01.04.2010
541	जेसी761317एक्स	नायब सुबेदार	मोहानन वी	01.03.2010
542	जेसी756352डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मुत्थप्पा टी	01.04.2010
543	जेसी761478ए	नायब सुबेदार	निलय कुमार	01.04.2010
544	जेसी761318ए	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2010
545	जेसी761940एन	नायब सुबेदार	ओमबीर सिंह	01.07.2010
546	जेसी761942वाइ	नायब सुबेदार	पदम सिंह	01.07.2010
547	जेसी761320एक्स	नायब सुबेदार	पंगा दामोदर	01.03.2010
548	जेसी755920के	नायब सुबेदार	परसू राम तिवारी	01.04.2010
549	जेसी761941डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पाती राम	01.07.2010
550	जेसी758412वाइ	नायब सुबेदार	प्रकासन केके	01.03.2010
551	जेसी758489एफ	नायब सुबेदार	पूर्णा कांता दत्ता	01.06.2010
552	जेसी761745ए	नायब सुबेदार	पी राम	01.04.2010
553	जेसी761754एक्स	नायब सुबेदार	आर परमशिवन	01.06.2010
554	जेसी760909पी	नायब सुबेदार	राघवेन्द्र	01.04.2010
555	जेसी760514एन	नायब सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद सिंह	01.08.2010

556	जेसी762225एक्स	नायब सुबेदार	राजिन्दर सिंह घोत्रा	01.07.2010
557	जेसी761276वाइ	नायब सुबेदार	राजेन्द्रा प्रसाद	01.08.2010
558	जेसी761561एक्स	नायब सुबेदार	राम चंद्रा मुखिया	01.04.2010
559	जेसी760984वाइ	नायब सुबेदार	राम दत्त	01.03.2010
560	जेसी761477एक्स	नायब सुबेदार	राम कुमार	01.04.2010
561	जेसी760718ए	नायब सुबेदार	राम एल	01.02.2010
562	जेसी761751के	नायब सुबेदार	राम रतन	01.04.2010
563	जेसी761786ए	नायब सुबेदार	राम विलास	01.06.2010
564	जेसी760985एफ	नायब सुबेदार	रमेश चंद्रा सिंह चुफल	01.03.2010
565	जेसी760982एन	नायब सुबेदार	रमेश कुमार	01.03.2010
566	जेसी761792एन	नायब सुबेदार	रमेश सिंह कुशवाहा	01.07.2010
567	जेसी761784पी	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह	01.06.2010
568	जेसी761750एफ	नायब सुबेदार	सत्यदेव सिंह	01.04.2010
569	जेसी760924के	नायब सुबेदार	सायन देब सतपती	01.08.2010
570	जेसी762550एक्स	नायब सुबेदार	शियो जी सिंह	01.07.2010
571	जेसी761789एन	नायब सुबेदार	शिव शंकर पांडे	01.07.2010
572	जेसी761598वाइ	नायब सुबेदार	शिवा बहादुर सिंह	01.04.2010
573	जेसी761791एल	नायब सुबेदार	श्रवण कुमार	01.07.2010
574	जेसी760834एम	नायब सुबेदार	श्री कुमारन नायर आर	01.04.2010
575	जेसी760759के	नायब सुबेदार	सुभाष कुमार	01.02.2010
576	जेसी761600एल	नायब सुबेदार	सुखवीर सिंह यादव	01.04.2010
577	जेसी761151एफ	नायब सुबेदार	सुनील कुमार उपाध्या	01.03.2010
578	जेसी755910ए	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.07.2010
579	जेसी760719एच	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.02.2010
580	जेसी761285ए	नायब सुबेदार	सुरेश चन्द	01.03.2010
581	जेसी761321ए	नायब सुबेदार	सुशील कुमार सिंह	01.03.2010
582	जेसी761601एन	नायब सुबेदार	विद्या राम	01.04.2010
583	जेसी761747एफ	नायब सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.04.2010
584	जेसी760656एल	नायब सुबेदार	डब्ल्यू दास	01.02.2010
585	जेसी761824एल	नायब सुबेदार	वजीर सिंह	01.06.2010
586	जेसी761031एच	नायब सुबेदार	योगेश कुमार	01.02.2010

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

587	जेसी797447एल	नायब रिसालदार	अली कादिर मंडल	01.07.2010
-----	--------------	---------------	----------------	------------

आसुचना कोर

588	जेसी811060डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अजीत सिंह	01.08.2010
589	जेसी810857एच	नायब सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी	01.04.2010
590	जेसी811034पी	नायब सुबेदार	राजकुमार सिंह	01.04.2010

सेना पुलिस कोर

591	जेसी819306वाइ	नायब सुबेदार	बिनय कुमार यादव	01.04.2010
<u>पायोनियर कोर</u>				
592	जेसी829431डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पेम्पा राम	01.07.2010
<u>सेना डाक सेवा</u>				
593	जेसी834399डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जरनैल सिंह	01.04.2010
594	जेसी834452डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एल गनेश शान्ताराम	01.06.2010
595	जेसी834491पी	नायब सुबेदार	माली एस तमाना	01.04.2010
596	जेसी834803ए	नायब सुबेदार	मंगथिगन	01.08.2010
597	जेसी834449डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुखवीर	01.04.2010
598	जेसी834805एल	नायब सुबेदार	सूरज मल	01.06.2010
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
599	जेसी841950एल	नायब सुबेदार	अमर नाथ	01.05.2010
600	जेसी842275डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बी लाल	01.02.2010
601	जेसी842448एच	नायब सुबेदार	बेनी प्रसाद मेहरा	01.04.2010
602	जेसी842354एल	नायब सुबेदार	भान चंद्रा राय	01.03.2010
603	जेसी842170एम	नायब सुबेदार	छोटू पासवान	01.08.2010
604	जेसी841899डब्ल्यू	नायब सुबेदार	दामोदर बेहेरा	01.05.2010
605	जेसी842554एफ	नायब सुबेदार	धर्म चन्द शर्मा	01.08.2010
606	जेसी842095एन	नायब सुबेदार	दुली चन्द	01.06.2010
607	जेसी842320एक्स	नायब सुबेदार	फकीर फरीद एच	01.06.2010
608	जेसी841898एन	नायब सुबेदार	गिरीन्द्र चंद्रा सेकिआ	01.08.2010
609	जेसी841860के	नायब सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.07.2010
610	जेसी841861एम	नायब सुबेदार	एच सिंह	01.02.2010
611	जेसी842531ए	नायब सुबेदार	आइ अहमद मनुवीर टी	01.03.2010
612	जेसी842258डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जोगिंदर राम	01.06.2010
613	जेसी842436एन	नायब सुबेदार	कामेश्वर प्रसाद सिंह	01.03.2010
614	जेसी842218पी	नायब सुबेदार	कोतवाल सिंह	01.07.2010
615	जेसी841981एल	नायब सुबेदार	कृष्णा नन्द	01.03.2010
616	जेसी841914ए	नायब सुबेदार	कुबेर नाथ पांडे	01.02.2010
617	जेसी842024एम	नायब सुबेदार	लक्षमन दत्त	01.02.2010
618	जेसी842521डब्ल्यू	नायब सुबेदार	लक्षमन दादू नालावाडे	01.06.2010
619	जेसी842265एम	नायब सुबेदार	मनोहर लाल सौधी	01.03.2010
620	जेसी842606एम	नायब सुबेदार	मेहर चन्द वर्मा	01.03.2010
621	जेसी841955के	नायब सुबेदार	मोहम्मद रशीद	01.02.2010
622	जेसी842386एन	नायब सुबेदार	निवास राम	01.06.2010
623	जेसी842152के	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2010

624	जेसी841946एच	नायब सुबेदार	पर्शोतम सिंह	01.07.2010
625	जेसी842158एल	नायब सुबेदार	पीसी सेनापती	01.04.2010
626	जेसी842524के	नायब सुबेदार	राजेंद्र ठाकुर	01.07.2010
627	जेसी842581एल	नायब सुबेदार	राम अंगद साह	01.02.2010
628	जेसी842181वाइ	नायब सुबेदार	राम पाल	01.08.2010
629	जेसी842087पी	नायब सुबेदार	राम प्रकाश	01.08.2010
630	जेसी842287एल	नायब सुबेदार	रतन लाल	01.08.2010
631	जेसी842657ए	नायब सुबेदार	श्याम लाल पटेल	01.03.2010
632	जेसी841691एन	नायब सुबेदार	टी चंद्रन	01.02.2010
633	जेसी842693एल	नायब सुबेदार	टी वासुदेवन	01.05.2010

[सं. बी/43432/आई डी-10/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै जनरल, एडजुटेंट जनरल

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 11(E) dated 15th August, 2010.**—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned Honorary Lieutenants and JCOs on the eve of Independence Day 2010 on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

### TO BE HONORARY CAPTAINS

#### 7 CAVALRY

1	JC 238023P	RIS & HONY LT	RAJBIR SINGH	01-08-2010
---	------------	------------------	--------------	------------

#### 8 CAVALRY

2	JC 240998P	RIS & HONY LT	SHAM SINGH	01-04-2010
---	------------	------------------	------------	------------

#### 2 LANCERS

3	JC 237889X	RIS MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2010
---	------------	----------------------	-------------------	------------

#### 9 HORSE

4	JC 240389L	RIS & HONY LT	YUDHVIR SINGH	01-04-2010
---	------------	------------------	---------------	------------

#### 62 CAVALRY

5	JC 238751P	RIS MAJ & HONY LT	HIRA SINGH	01-05-2010
---	------------	----------------------	------------	------------

#### 20 LANCERS

6	JC 238472K	RIS MAJ & HONY LT	BALWINDER SINGH	01-02-2010
---	------------	----------------------	-----------------	------------

#### 63 CAVALRY

7	JC 241028Y	RIS & HONY LT	RAJENDRA SINGH	01-05-2010
---	------------	------------------	----------------	------------

8	JC 240880N	RIS & HONY LT	SHUBHASH CHAND	01-07-2010
<b><u>65 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
9	JC 241003M	RIS & HONY LT	DINESH SINGH BAGHEL	01-04-2010
10	JC 240760P	RIS & HONY LT	NARINDER SINGH	01-06-2010
11	JC 239849P	RIS & HONY LT	RAM KISHOR	01-04-2010
<b><u>69 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
12	JC 237786Y	RIS MAJ & HONY LT	SURESH MISHRA	01-04-2010
<b><u>72 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
13	JC 238738L	RIS MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH	01-06-2010
<b><u>88 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
14	JC 238828M	RIS & HONY LT	ANIL KUMAR MAHTO	01-08-2010
15	JC 241190W	RIS & HONY LT	RAJ ROSI	01-04-2010
<b><u>89 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
16	JC 237689F	RIS MAJ & HONY LT	DES RAJ	01-07-2010
<b><u>46 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
17	JC 237158K	RIS MAJ & HONY LT	AMRITPAUL SINGH	01-02-2010
<b><u>6 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
18	JC 237576Y	RIS & HONY LT	JALSEN SINGH	01-06-2010
<b><u>ARMOURED CORPS</u></b>				
19	JC 239985L	RIS & HONY LT	BACHAN SINGH	01-06-2010
20	JC 241172N	RIS & HONY LT	SAJJAN SINGH	01-05-2010
<b><u>REGIMENT OF ARTILLERY</u></b>				
21	JC 255453P	SUB MAJ & HONY LT	A MURUGAN	01-08-2010
22	JC 253245F	SUB MAJ & HONY LT	CHANDAN KUMAR SAMANTA	01-03-2010
23	JC 256549K	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER MOHAN	01-05-2010

24	JC 258857H	SUB MAJ & HONY LT	GENGADHAR MARTHA	01-04-2010
25	JC 256058N	SUB MAJ & HONY LT	JASBIR SINGH	01-05-2010
26	JC 257332M	SUB MAJ & HONY LT	JASBIR SINGH	01-05-2010
27	JC 255950Y	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER PALL KATTNA	01-06-2010
28	JC 256960P	SUB MAJ & HONY LT	LAKHMI SINGH	01-07-2010
29	JC 256059W	SUB MAJ & HONY LT	MAHABIR PRASAD	01-06-2010
30	JC 255578M	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDER SINGH BHAKUNI	01-04-2010
31	JC 257208L	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA KUMAR NAI	01-06-2010
32	JC 256562N	SUB MAJ & HONY LT	MANBIR SINGH	01-02-2010
33	JC 255625Y	SUB MAJ & HONY LT	NAND KISHOR SINGH	01-04-2010
34	JC 255972X	SUB MAJ & HONY LT	PREM NATH	01-08-2010
35	JC 259243M	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM SINGH SONI	01-02-2010
36	JC 255390X	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDER SHARMA	01-08-2010
37	JC 259443H	SUB MAJ & HONY LT	SARVAJIT SINGH YADAV	01-06-2010
38	JC 118178N	SUB MAJ & HONY LT	SATANAND DIXIT	01-07-2010
39	JC 259441X	SUB MAJ & HONY LT	SHIV NATH PRASAD YADAV	01-07-2010
40	JC 259143F	SUB MAJ & HONY LT	SUGRIV PRASAD	01-02-2010
41	JC 257921H	SUB MAJ & HONY LT	UDAY NARAYAN DIXIT	01-02-2010
42	JC 257437W	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-04-2010
43	JC 266632P	SUB & HONY LT	AKHILESH KUMAR AWASTHI	01-07-2010
44	JC 265122F	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-07-2010
45	JC 265189A	SUB & HONY LT	ARAVINDAKSHAN P K	01-04-2010
46	JC 257767P	SUB & HONY LT	BABU LAL	01-07-2010
47	JC 263141N	SUB & HONY LT	BACHAN BABOO	01-02-2010



48	JC 264546L	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-02-2010
49	JC 262305M	SUB & HONY LT	BALWAN SINGH, SM	01-07-2010
50	JC 268580H	SUB & HONY LT	BODH RAJ, SM	01-07-2010
51	JC 268262Y	SUB & HONY LT	CHINTHALA CHANDRA SEKHAR	01-07-2010
52	JC 269468H	SUB & HONY LT	GANESH DASS	01-08-2010
53	JC 268108A	SUB & HONY LT	GURDIP SINGH	01-05-2010
54	JC 266436P	SUB & HONY LT	HARBANS LAL	01-07-2010
55	JC 267223N	SUB & HONY LT	HARI SINGH YADAVA	01-08-2010
56	JC 267438M	SUB & HONY LT	HOUSELA PRASAD SINGH	01-05-2010
57	JC 266470P	SUB & HONY LT	KARUN KUMAR SINGH	01-07-2010
58	JC 266095P	SUB & HONY LT	KUNDAN SINGH	01-02-2010
59	JC 268393K	SUB & HONY LT	MANIKANT JHA	01-07-2010
60	JC 263947N	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH JOYAS	01-02-2010
61	JC 267718A	SUB & HONY LT	N PANDU	01-02-2010
62	JC 268441Y	SUB & HONY LT	NAWAL SINGH	01-02-2010
63	JC 266054L	SUB & HONY LT	PHULAN CHANDRA RAY	01-02-2010
64	JC 267996N	SUB & HONY LT	PIAR SINGH	01-07-2010
65	JC 263666X	SUB & HONY LT	PREM SINGH	01-04-2010
66	JC 160789K	SUB & HONY LT	RAGHU NANDAN SINGH	01-02-2010
67	JC 266018A	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-02-2010
68	JC 266902Y	SUB & HONY LT	RAM ASRE	01-02-2010
69	JC 266474L	SUB & HONY LT	RAM AVATAR	01-02-2010
70	JC 266878N	SUB & HONY LT	RAM KISHAN	01-06-2010
71	JC 261666Y	SUB & HONY LT	RAM PHAL	01-02-2010

72	JC 263884W	SUB & HONY LT	RANA DEVANAND SINGH	01-04-2010
73	JC 266729A	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-02-2010
74	JC 260609L	SUB & HONY LT	S NAVANEETHA BALAKRISHNAN	01-02-2010
75	JC -150004F	SUB & HONY LT	SAHA DEW TEWARI	01-03-2010
76	JC 264517W	SUB & HONY LT	SATBIR SINGH	01-06-2010
77	JC 266127M	SUB & HONY LT	SUBE SINGH	01-02-2010
78	JC 266146X	SUB & HONY LT	SULTAN SINGH	01-02-2010
79	JC 264505F	SUB & HONY LT	SURESH PARSAD SINGH	01-12-2009
80	JC 269460W	SUB & HONY LT	SURYA NATH SINGH	01-07-2010
81	JC 267161Y	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	01-06-2010
82	JC 266755F	SUB & HONY LT	UDHAM SINGH	01-06-2010
83	JC 265881F	SUB & HONY LT	UPENDRA PRASAD SINGH	01-07-2010
84	JC 265489F	SUB & HONY LT	VEER SINGH	01-02-2010
85	JC 269330N	SUB & HONY LT	VIRANDER SINGH	01-07-2010

**ARMY AIR DEFENCE**

86	JC 296673N	SUB MAJ & HONY LT	BASTI RAM	01-02-2010
87	JC 296615K	SUB MAJ & HONY LT	JAYAVIR SINGH	01-07-2010
88	JC 297051Y	SUB MAJ & HONY LT	MAHANDER SINGH	01-02-2010
89	JC 297068M	SUB MAJ & HONY LT	MD KHURSHID ALAM	01-04-2010
90	JC 256137H	SUB MAJ & HONY LT	PARTHIBAN N	01-06-2010
91	JC 296197A	SUB MAJ & HONY LT	RAJ PAJ GANGORIA	01-06-2010
92	JC 296731M	SUB MAJ & HONY LT	RAM SANEHI	01-07-2010
93	JC 296855F	SUB & HONY LT	BABULAL YADAV	01-06-2010
94	JC 297532L	SUB & HONY LT	BAL KISHUN SHARMA	01-05-2010

95	JC 298936A	SUB & HONY LT	GIRISH CHANDRA BARAKOTI	01-08-2010
96	JC 298387L	SUB & HONY LT	JAGDISH SWAROOP	01-07-2010
97	JC 297228F	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-02-2010
98	JC 297143L	SUB & HONY LT	LAKHAN LAL	01-07-2010
99	JC 298696N	SUB & HONY LT	SATYA PRAKASH	01-04-2010
100	JC 298439W	SUB & HONY LT	SHAIK DASTAGIRI SAHEB	01-07-2010
101	JC 298742X	SUB & HONY LT	YESWANT SINGH	01-07-2010
102	JC 298145H	SUB & HONY LT	ZILE SINGH JASPAL	01-04-2010

**MADRAS ENGINEER GROUP**

103	JC 306388L	SUB MAJ & HONY LT	BASAVANTRAYA SIVAPUTRAPPA MUDNUR	01-06-2010
104	JC 305728W	SUB MAJ & HONY LT	C ANANTA RAJAN	01-07-2010
105	JC 305331K	SUB MAJ & HONY LT	DEVAIAH MS	01-07-2010
106	JC 219357P	SUB MAJ & HONY LT	G SOUNDARA RAJ	01-06-2010
107	JC 224777Y	SUB MAJ & HONY LT	KUTTAPPA M K	01-04-2010
108	JC 306030M	SUB MAJ & HONY LT	MADHAVAN VM	01-05-2010
109	JC 226135H	SUB MAJ & HONY LT	MATHEW TJ	01-02-2010
110	JC 305588P	SUB MAJ & HONY LT	P SANTHANATHAN	01-07-2010
111	JC 305338N	SUB MAJ & HONY LT	PRASANNA KUMAR V	01-04-2010
112	JC 305580H	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRAN A	01-06-2010
113	JC 305578L	SUB MAJ & HONY LT	RAMAKRISHNAN A P	01-04-2010
114	JC 305601N	SUB MAJ & HONY LT	SURESAN P	01-04-2010
115	JC 305699M	SUB MAJ & HONY LT	VIJAYAKUMARAN NAIR S	01-08-2010
116	JC 307225K	SUB & HONY LT	ANBU	01-05-2010
117	JC 306053N	SUB & HONY LT	DHANA SANJAYAN B	01-04-2010

118	JC 307340K	SUB & HONY LT	G MAHALINGAM	01-04-2010
119	JC 307100M	SUB & HONY LT	G VENKATA RAMI REDDY	01-03-2010
120	JC 305293Y	SUB & HONY LT	GAVINI CHENCHAIAH	01-02-2010
121	JC 307661F	SUB & HONY LT	K PANDI	01-05-2010
122	JC 307298W	SUB & HONY LT	K RAJENDRAN	01-05-2010
123	JC 307605H	SUB & HONY LT	KARUNAGARAN K	01-05-2010
124	JC 307455X	SUB & HONY LT	M LOURDU	01-02-2010
125	JC 307573L	SUB & HONY LT	MURALEEDHARAN PILLAI V	01-04-2010
126	JC 307778A	SUB & HONY LT	PITAMBARAN PS	01-08-2010
127	JC 307438X	SUB & HONY LT	R PALANI	01-03-2010
128	JC 307598X	SUB & HONY LT	RAJENDRAN V	01-04-2010
129	JC 307422M	SUB & HONY LT	RAMESH CHAMU RAO PATIL	01-02-2010
130	JC 308218A	SUB & HONY LT	SADASHIVA JOSHI	01-05-2010
131	JC 306803F	SUB & HONY LT	VIJAYAKUMAR K G	01-02-2010
132	JC 307638N	SUB & HONY LT	Y ABDUL WAHAB	01-02-2010

**BENGAL ENGINEER GROUP**

133	JC 325273M	SUB MAJ & HONY LT	ATUL CHETIA	01-04-2010
134	JC 326718A	SUB MAJ & HONY LT	BHUPENDER SINGH	01-06-2010
135	JC 326166X	SUB MAJ & HONY LT	BRIJ BHUSHAN CHANDRA	01-05-2010
136	JC 327502L	SUB MAJ & HONY LT	GANGA SAHAI	01-02-2010
137	JC 327948A	SUB MAJ & HONY LT	GODHA RAM	01-04-2010
138	JC 325723Y	SUB MAJ & HONY LT	HARI CHAND	01-03-2010
139	JC 327020W	SUB MAJ & HONY LT	HARI DATT JOSHI	01-07-2010
140	JC 326949W	SUB MAJ & HONY LT	KULBIR SINGH	01-07-2010

141	JC 326989X	SUB MAJ & HONY LT	MAHESH CHANDER	01-08-2010
142	JC 325343A	SUB MAJ & HONY LT	P SUBRAMANIAN	01-05-2010
143	JC 326899W	SUB MAJ & HONY LT	RAJ PAL SINGH	01-05-2010
144	JC 325261X	SUB MAJ & HONY LT	RENU PADA DAS	01-03-2010
145	JC 328925L	SUB & HONY LT	BHAGIN CHANDRA NATH	01-02-2010
146	JC 328384P	SUB & HONY LT	DEVENDRA SINGH	01-03-2010
147	JC 328668Y	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH	01-05-2010
148	JC 328562M	SUB & HONY LT	GANESH SINGH	01-03-2010
149	JC 329012W	SUB & HONY LT	GURNAM SINGH	01-08-2010
150	JC 328908L	SUB & HONY LT	HARE KRUSHNA MOHANTY	01-02-2010
151	JC 329207F	SUB & HONY LT	JAY RAM SINGH	01-05-2010
152	JC 328958W	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH	01-03-2010
153	JC 328961W	SUB & HONY LT	MADHO SINGH	01-04-2010
154	JC 328395F	SUB & HONY LT	NIRMAL SINGH	01-03-2010
155	JC 329238F	SUB & HONY LT	SHAMBHU NATH KUNWAR	01-06-2010
156	JC 328947K	SUB & HONY LT	SHYAM SINGH	01-03-2010
157	JC 329136L	SUB & HONY LT	SUDARSHAN SINGH	01-04-2010
158	JC 329036A	SUB & HONY LT	SUSHANTA KUMAR PAUL	01-04-2010
159	JC 328963F	SUB & HONY LT	TARA SINGH	01-04-2010
160	JC 328695H	SUB & HONY LT	TARLOCHAN SINGH	01-08-2010
161	JC 328484A	SUB & HONY LT	VIJENDRA KUMAR VERMA	01-03-2010

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

162	JC 347889A	SUB MAJ & HONY LT	BALWINDER SINGH	01-08-2010
163	JC 347332N	SUB MAJ & HONY LT	DASTGEER MIYAN	01-08-2010

164	JC 347721N	SUB MAJ & HONY LT	GAYUR AHMED KHAN	01-03-2010
165	JC 347432Y	SUB MAJ & HONY LT	HANS NATH SINGH	01-03-2010
166	JC 347874X	SUB MAJ & HONY LT	HARIOM SINGH	01-06-2010
167	JC 347333W	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH SANDHU	01-06-2010
168	JC 347244X	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR	01-04-2010
169	JC 348778P	SUB & HONY LT	ASHISH KUMAR SHARMA	01-02-2010
170	JC 348166X	SUB & HONY LT	CHARAN SINGH	01-02-2010
171	JC 349068K	SUB & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	01-07-2010
172	JC 349067F	SUB & HONY LT	HARCHARAN SINGH	01-05-2010
173	JC 349535W	SUB & HONY LT	ISHAN KHAN	01-08-2010
174	JC 348919Y	SUB & HONY LT	KOKITHAR SURYAKANT LAXMAN	01-02-2010
175	JC 349080L	SUB & HONY LT	MOHD MURSELEEN	01-05-2010
176	JC 349533L	SUB & HONY LT	MOHMMAD MUNIR	01-07-2010
177	JC 347945N	SUB & HONY LT	RAJ SINGH DHILLON	01-03-2010
178	JC 348591H	SUB & HONY LT	SUDHAKARAN A	01-07-2010
179	JC 349030A	SUB & HONY LT	SUKH BIR SINGH	01-02-2010

**CORPS OF SIGNALS**

180	JC 370602K	SUB MAJ & HONY LT	ADURTI R K P SATYANARAYANA	01-03-2010
181	JC 370599P	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN BEHERA	01-02-2010
182	JC 369941X	SUB MAJ & HONY LT	ASHWANI KUMAR SRIVASTAVA	01-02-2010
183	JC 367256N	SUB MAJ & HONY LT	BRIJLAL PRASAD	01-08-2010
184	JC 368116N	SUB MAJ & HONY LT	CHHOTA PRASAD	01-05-2010
185	JC 370470F	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM PAL	01-02-2010
186	JC 368512K	SUB MAJ & HONY LT	GURMEL SINGH	01-04-2010

187	JC 368434X	SUB MAJ & HONY LT	JAYAPRAKASH K M	01-06-2010
188	JC 370651M	SUB MAJ & HONY LT	MISAL SHAHAJI GOVIND	01-04-2010
189	JC 370582F	SUB MAJ & HONY LT	MITHILESHWAR CHOUDHARY	01-02-2010
190	JC 370593N	SUB MAJ & HONY LT	NABIN KUMAR AMBASTHA	01-02-2010
191	JC 370687L	SUB MAJ & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-06-2010
192	JC 130070H	SUB MAJ & HONY LT	RAM NATH MISRA	01-04-2010
193	JC 124891F	SUB MAJ & HONY LT	RAMA KANT DWIVEDI	01-03-2010
194	JC 370615F	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM SUNDAR	01-05-2010
195	JC 367097F	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH	01-05-2010
196	JC 372899P	SUB & HONY LT	A SHANMUGA SUNDARAM	01-02-2010
197	JC 374178K	SUB & HONY LT	BIDHI SINGH RANA	01-04-2010
198	JC 374888F	SUB & HONY LT	BIJENDRA SINGH	01-03-2010
199	JC 374963A	SUB & HONY LT	DAYARAM PRASAD	01-05-2010
200	JC 371698K	SUB & HONY LT	HAWA SINGH NEHRA	01-07-2010
201	JC 374570K	SUB & HONY LT	JAGAN NATH ROY	01-03-2010
202	JC 374198X	SUB & HONY LT	K BABU	01-06-2010
203	JC 372972H	SUB & HONY LT	KASHI NATH SINGH	01-03-2010
204	JC 374527H	SUB & HONY LT	KASHI NATH SINGH	01-02-2010
205	JC 371648Y	SUB & HONY LT	KRISHNA MISHRA	01-03-2010
206	JC 375106M	SUB & HONY LT	MAN MOHAN SINGH	01-02-2010
207	JC 374585M	SUB & HONY LT	MOHIUDDIN AJMERI	01-04-2010
208	JC 373521P	SUB & HONY LT	MUKUL CHANDRA SUKLA BAIDYA	01-04-2010
209	JC 374761Y	SUB & HONY LT	NARESH KUMAR	01-06-2010
210	JC 374334H	SUB & HONY LT	PARIMAL DEY	01-04-2010

211	JC 373164X	SUB & HONY LT	PRAFULLA KUMAR DAS	01-03-2010
212	JC 374281P	SUB & HONY LT	PUSPANDER KUMAR	01-03-2010
213	JC 373499P	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR RANA	01-04-2010
214	JC 372981K	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR SINGH	01-03-2010
215	JC 374222H	SUB & HONY LT	RAM BAHADUR SINGH	01-03-2010
216	JC 372552H	SUB & HONY LT	RAM GOPAL DWIVEDI	01-07-2010
217	JC 371866X	SUB & HONY LT	RAM NARESH KUMAR	01-02-2010
218	JC 372087F	SUB & HONY LT	RAVEENDRAN R	01-04-2010
219	JC 372735Y	SUB & HONY LT	SHALESH KUMAR	01-05-2010
220	JC 368442W	SUB & HONY LT	SHYAM NATH TIWARI	01-04-2010
221	JC 371649F	SUB & HONY LT	SUBBURAJ A	01-08-2010
222	JC 372926N	SUB & HONY LT	SULANDER SINGH BARWAL	01-04-2010
223	JC 375165Y	SUB & HONY LT	SURAJ DIP SINGH	01-04-2010

**THE BRIGADE OF GUARDS**

224	JC 402211P	SUB MAJ & HONY LT	AMARJEET SINGH	01-03-2010
225	JC 402503X	SUB MAJ & HONY LT	ANIRUDH DUBEY	01-02-2010
226	JC 402035H	SUB MAJ & HONY LT	DHYAN SINGH	01-07-2010
227	JC 402460N	SUB MAJ & HONY LT	RAM AUTAR SINGH CHAUHAN	01-07-2010
228	JC 402594M	SUB MAJ & HONY LT	SESH NATH SINGH	01-02-2010
229	JC 402658M	SUB MAJ & HONY LT	VINOD KUMAR	01-06-2010
230	JC 403341K	SUB & HONY LT	BIPUL KUMAR GOGOI	01-04-2010
231	JC 403411X	SUB & HONY LT	DAN SINGH	01-03-2010
232	JC 403302L	SUB & HONY LT	HARI KRISHAN	01-05-2010
233	JC 403528W	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH MEHRA	01-06-2010



234	JC 403395L	SUB & HONY LT	RAM PAL	01-07-2010
235	JC 402938A	SUB & HONY LT	RAMASHRAYA YADAV	01-04-2010

**THE PARACHUTE REGIMENT**

236	JC 412210A	SUB MAJ & HONY LT	DILIP SINGH	01-06-2010
237	JC 412127H	SUB MAJ & HONY LT	JAG RAM	01-08-2010
238	JC 412841H	SUB & HONY LT	BALKAR SINGH	01-08-2010
239	JC 412513P	SUB & HONY LT	JAGMOHAN SINGH, SC	01-08-2010
240	JC 412743H	SUB & HONY LT	JAI RAM SINGH	01-07-2010
241	JC 412733Y	SUB & HONY LT	JASHPAL SINGH	01-03-2010
242	JC 412947P	SUB & HONY LT	PEMA RAM	01-04-2010
243	JC 412678N	SUB & HONY LT	PRADEEPAN PC	01-06-2010
244	JC 412979X	SUB & HONY LT	RAM KISHAN LAXMAN SHINDE	01-06-2010
245	JC 412805X	SUB & HONY LT	RAM SINGH	01-02-2010
246	JC 412765F	SUB & HONY LT	SURESH RAM	01-03-2010

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

247	JC 216441K	SUB MAJ & HONY LT	MOHANAN PILLAI	01-04-2010
248	JC 418583K	SUB MAJ & HONY LT	PUSHKAR SINGH KANDARI	01-07-2010
249	JC 418539A	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR	01-06-2010
250	JC 418653X	SUB MAJ & HONY LT	SIRTAJ SINGH	01-08-2010
251	JC 419186X	SUB & HONY LT	DHIR SINGH	01-02-2010
252	JC 419296M	SUB & HONY LT	JAI KRISHAN	01-07-2010
253	JC 419719P	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-08-2010
254	JC 419813Y	SUB & HONY LT	KHAJAN SINGH	01-04-2010
255	JC 419119M	SUB & HONY LT	MAHIPAL SINGH	01-06-2010

256	JC 418553M	SUB & HONY LT	RAM SAROOP	01-02-2010
257	JC 419540F	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-07-2010

**THE PUNJAB REGIMENT**

258	JC 428689K	SUB MAJ & HONY LT	JAISHI RAM	01-03-2010
259	JC 428555L	SUB MAJ & HONY LT	JASWINDER SINGH	01-06-2010
260	JC 428690Y	SUB MAJ & HONY LT	LAKHWINDER SINGH	01-08-2010
261	JC 428769F	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER KUMAR	01-05-2010
262	JC 113694Y	SUB MAJ & HONY LT	VASU DEV SHARMA	01-02-2010
263	JC 429386F	SUB & HONY LT	BAL KRISHAN	01-08-2010
264	JC 429954F	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-08-2010
265	JC 429541X	SUB & HONY LT	BISHAN DASS	01-08-2010
266	JC 429408P	SUB & HONY LT	DALBIR SINGH	01-05-2010
267	JC 429911M	SUB & HONY LT	DURGA DASS	01-04-2010
268	JC 428837K	SUB & HONY LT	GULAB SINGH	01-05-2010
269	JC 429669H	SUB & HONY LT	GURMEJ SINGH	01-04-2010
270	JC 429481N	SUB & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	01-06-2010
271	JC 429743Y	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-08-2010
272	JC 429401L	SUB & HONY LT	KEHAR SINGH	01-05-2010
273	JC 430050N	SUB & HONY LT	LOK RAJ	01-04-2010
274	JC 429419F	SUB & HONY LT	MADAN GOPAL	01-08-2010
275	JC 429627W	SUB & HONY LT	RAI SINGH	01-05-2010
276	JC 429587A	SUB & HONY LT	RAJINDER KUMAR	01-08-2010
277	JC 429612N	SUB & HONY LT	RAJU RAM	01-04-2010
278	JC 429728K	SUB & HONY LT	RATTAN CHAND	01-04-2010

279	JC 429445H	SUB & HONY LT	SATISH KUMAR RANA	01-04-2010
280	JC 429362X	SUB & HONY LT	SHAM SINGH	01-04-2010
281	JC 429507X	SUB & HONY LT	SUKHDEV SAHOTRA	01-02-2010
282	JC 429392P	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-04-2010

**THE MADRAS REGIMENT**

283	JC 438183Y	SUB MAJ & HONY LT	A VASUDEVAN	01-03-2010
284	JC 438483A	SUB MAJ & HONY LT	M VASUDEVAN	01-02-2010
285	JC 438456W	SUB MAJ & HONY LT	THOMAS BENADICT	01-04-2010
286	JC 112814A	SUB MAJ & HONY LT	VALLABHAN KV	01-05-2010
287	JC 438766F	SUB & HONY LT	BASAVARAJ WALI	01-06-2010
288	JC 439240F	SUB & HONY LT	G RAMAN	01-06-2010
289	JC 438428K	SUB & HONY LT	I ARUL SAMY	01-02-2010
290	JC 438693A	SUB & HONY LT	KATARI SATYA RAO	01-05-2010
291	JC 439516M	SUB & HONY LT	M SUNDARA RAJ	01-07-2010
292	JC 439351Y	SUB & HONY LT	M YESUPATHAM	01-03-2010
293	JC 438989Y	SUB & HONY LT	MAYINKUTTY K	01-08-2010
294	JC 438313W	SUB & HONY LT	NALINAKSHAN M	01-05-2010
295	JC 439078P	SUB & HONY LT	NS VIVEKANANDA	01-04-2010
296	JC 439070H	SUB & HONY LT	PRABHAKARAN VV	01-08-2010
297	JC 439253Y	SUB & HONY LT	RAJAN KD	01-08-2010
298	JC 438826L	SUB & HONY LT	RAJAN KK, SM	01-07-2010
299	JC 438933M	SUB & HONY LT	S PATHIANATHAN	01-02-2010
300	JC 438512K	SUB & HONY LT	S RADHAKRISHNAN	01-05-2010
301	JC 438553N	SUB & HONY LT	SASI KUMAR K	01-08-2010

302	JC 438931F	SUB & HONY LT	SASIDHARAN NAIR G	01-08-2010
303	JC 439075F	SUB & HONY LT	UNNIKRISHNAN K	01-07-2010

**THE GRENADIERS**

304	JC 114242H	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL RAHMAN THAKUR	01-06-2010
305	JC 448884H	SUB MAJ & HONY LT	AKHTAR ALI	01-07-2010
306	JC 216747M	SUB MAJ & HONY LT	KASAM ALI KAYAM KHANI	01-03-2010
307	JC 448504Y	SUB MAJ & HONY LT	MANGESH SINGH	01-06-2010
308	JC 449906H	SUB & HONY LT	BABU LAL	01-05-2010
309	JC 449542F	SUB & HONY LT	BRIJ LAL MEENA	01-04-2010
310	JC 449497A	SUB & HONY LT	FATEH CHAND MEENA	01-04-2010
311	JC 449982P	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH BHARDWAJ	01-04-2010
312	JC 449845W	SUB & HONY LT	NARAIN SINGH	01-04-2010
313	JC 449745L	SUB & HONY LT	RAM KUWAR MEENA	01-05-2010
314	JC 449560K	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	01-04-2010
315	JC 449842H	SUB & HONY LT	RAMNATH SINGH	01-05-2010
316	JC 449834K	SUB & HONY LT	SABBIR ALI	01-04-2010
317	JC 449670Y	SUB & HONY LT	SANKATHA PRASAD SINGH	01-07-2010

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

318	JC 458150P	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN MALLAPPA TAMBULUNDE	01-02-2010
319	JC 212545N	SUB MAJ & HONY LT	BABU DAGDU JADHAV	01-05-2010
320	JC 222660F	SUB MAJ & HONY LT	BALASAHEB BABU KATAKAR	01-08-2010
321	JC 458510A	SUB MAJ & HONY LT	BHABKAR PRAKASH GANAPATI	01-06-2010
322	JC 216492X	SUB MAJ & HONY LT	BORKAR SURJESH EKNATH	01-03-2010
323	JC 222658K	SUB MAJ & HONY LT	BUDDAPPA NINGAPPA BANI	01-06-2010

324	JC 458261M	SUB MAJ & HONY LT	MOKASHI SARDARSAHEB ALLISAHEB	01-06-2010
325	JC 458182X	SUB MAJ & HONY LT	PATIL BHARAMANA LAXMAN	01-08-2010
326	JC 201832X	SUB MAJ & HONY LT	SURYAVANSHI VILAS SOPANRAO	01-04-2010
327	JC 458019X	SUB MAJ & HONY LT	VARAL VITTHAL ANANDA	01-05-2010
328	JC 458958A	SUB & HONY LT	AMBRE UVARAJ TANAJI	01-05-2010
329	JC 458913A	SUB & HONY LT	ARJUN SIDU AMBEWADKAR	01-06-2010
330	JC 458093Y	SUB & HONY LT	BEDKE BHIMA DASHRATH	01-08-2010
331	JC 458429N	SUB & HONY LT	BILALASAB	01-05-2010
332	JC 459077N	SUB & HONY LT	KAKDE DNYANDEO MURLIDHAR	01-08-2010
333	JC 458779A	SUB & HONY LT	KAMINASE GOVARDHAN VITTHAL	01-03-2010
334	JC 459425K	SUB & HONY LT	NARAYAN MARUTI PATIL	01-04-2010
335	JC 459258Y	SUB & HONY LT	PAWAR VITHAL BHIKA	01-06-2010
336	JC 458915L	SUB & HONY LT	PRAHALAD	01-08-2010
337	JC 458487X	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM	01-02-2010
338	JC 458651P	SUB & HONY LT	RAJENDRA NAGORAO SALUNKE	01-02-2010
339	JC 459390Y	SUB & HONY LT	RUPANAWAR BAPU BALABHIM	01-04-2010
340	JC 458887K	SUB & HONY LT	UTEKAR SURYAKANT DADA	01-08-2010
<b>THE RAJPUTANA RIFLES</b>				
341	JC 468300N	SUB MAJ & HONY LT	BHUPENDER SINGH	01-06-2010
342	JC 468323P	SUB MAJ & HONY LT	PRAHLAD SINGH	01-07-2010
343	JC 468295N	SUB MAJ & HONY LT	SADHU SINGH	01-04-2010
344	JC 469057N	SUB & HONY LT	AJAY KUMAR	01-02-2010
345	JC 469754N	SUB & HONY LT	AKHTAR KHAN, SM	01-04-2010
346	JC 469056L	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-04-2010

347	JC 469460A	SUB & HONY LT	BHIM SINGH	01-04-2010
348	JC 469493L	SUB & HONY LT	DUNGAR MAL	01-06-2010
349	JC 469498K	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH	01-04-2010
350	JC 469838F	SUB & HONY LT	HARPAL SINGH	01-05-2010
351	JC 469844P	SUB & HONY LT	JABAR SINGH	01-07-2010
352	JC 469678M	SUB & HONY LT	KRISHAN KUMAR	01-04-2010
353	JC 469142W	SUB & HONY LT	LOON SINGH	01-05-2010
354	JC 469779A	SUB & HONY LT	MOTI RAM	01-04-2010
355	JC 469476L	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	01-04-2010
356	JC 469518M	SUB & HONY LT	RAM PHOOL SINGH	01-04-2010
357	JC 469182X	SUB & HONY LT	SATYA PAL	01-08-2010
358	JC 469746P	SUB & HONY LT	SOHAN SINGH	01-04-2010
359	JC 469736L	SUB & HONY LT	VIJENDER KUMAR	01-04-2010

**THE RAJPUT REGIMENT**

360	JC 478608P	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH	01-02-2010
361	JC 478668K	SUB MAJ & HONY LT	BHARAT SINGH	01-02-2010
362	JC 478377K	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR	01-07-2010
363	JC 479209X	SUB & HONY LT	ANGREZ SINGH	01-05-2010
364	JC 479437A	SUB & HONY LT	GHAN SHYAM SINGH	01-08-2010
365	JC 479004H	SUB & HONY LT	JAGDISH PRASAD GUJAR	01-04-2010
366	JC 479034A	SUB & HONY LT	JAIPAN SINGH	01-03-2010
367	JC 479166N	SUB & HONY LT	KAILASH CHAND	01-02-2010
368	JC 478920X	SUB & HONY LT	KANWAR SINGH	01-02-2010
369	JC 479514H	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	01-02-2010

370	JC 479286M	SUB & HONY LT	MAHABAL SINGH	01-04-2010
371	JC 479480F	SUB & HONY LT	MUJAFFAR KHAN	01-04-2010
372	JC 479146A	SUB & HONY LT	OMKAR SINGH	01-02-2010
373	JC 479530F	SUB & HONY LT	RAJBIR	01-06-2010
374	JC 479397K	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR SHARMA	01-07-2010
375	JC 479489W	SUB & HONY LT	RAM MEHAR	01-02-2010
376	JC 479313L	SUB & HONY LT	RAM NIHOR SINGH	01-04-2010
377	JC 478881K	SUB & HONY LT	SHISH RAM GURJAR	01-02-2010
378	JC 479087Y	SUB & HONY LT	SHIV RAM SINGH TANWAR	01-06-2010
379	JC 478775L	SUB & HONY LT	SWAI SINGH	01-07-2010

**THE JAT REGIMENT**

380	JC 111751W	SUB MAJ & HONY LT	AJAB LAL SHARMA	01-07-2010
381	JC 488442M	SUB MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH	01-07-2010
382	JC 488338Y	SUB MAJ & HONY LT	JAIBIR SINGH	01-04-2010
383	JC 488325F	SUB MAJ & HONY LT	LAL SINGH	01-04-2010
384	JC 488268L	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SINGH	01-08-2010
385	JC 489116W	SUB & HONY LT	CHANDI RAM	01-02-2010
386	JC 489260L	SUB & HONY LT	DEVI RAM	01-04-2010
387	JC 489613A	SUB & HONY LT	DHARAMBIR	01-04-2010
388	JC 489847K	SUB & HONY LT	KARAN SINGH	01-04-2010
389	JC 489445M	SUB & HONY LT	PALE RAM	01-07-2010
390	JC 489338L	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR	01-05-2010
391	JC 489363K	SUB & HONY LT	RAM SINGH SIDDHU	01-04-2010
392	JC 489347M	SUB & HONY LT	RAMESHWAR LAL	01-02-2010

393	JC 489404H	SUB & HONY LT	SHRI KRISHAN	01-07-2010
394	JC 489744L	SUB & HONY LT	SUKH LAL	01-05-2010
<b>THE SIKH REGIMENT</b>				
395	JC 498583P	SUB MAJ & HONY LT	DIDAR SINGH	01-02-2010
396	JC 498347N	SUB MAJ & HONY LT	GANESH KUMAR	01-04-2010
397	JC 498259X	SUB MAJ & HONY LT	ROORH SINGH	01-03-2010
398	JC 499006P	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-05-2010
399	JC 499066K	SUB & HONY LT	BHUPINDER SINGH	01-08-2010
400	JC 499128Y	SUB & HONY LT	GIAN SINGH	01-06-2010
401	JC 499415H	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH	01-07-2010
402	JC 498854F	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-06-2010
403	JC 499072X	SUB & HONY LT	SABEG SINGH	01-05-2010
404	JC 498399K	SUB & HONY LT	SATPAL SINGH	01-04-2010
<b>THE SIKH LIGHT INFANTRY</b>				
405	JC 508466A	SUB MAJ & HONY LT	MANJIT SINGH	01-04-2010
406	JC 508464P	SUB MAJ & HONY LT	PARAMJIT SINGH	01-04-2010
407	JC 508509K	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM SINGH	01-06-2010
408	JC 509002P	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-06-2010
409	JC 509032M	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-04-2010
410	JC 509240F	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-04-2010
411	JC 509056W	SUB & HONY LT	BAWA SINGH	01-03-2010
412	JC 508672K	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	01-04-2010
413	JC 508549L	SUB & HONY LT	HARBANS SINGH	01-03-2010
414	JC 508179W	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-03-2010



415	JC 508518L	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-05-2010
416	JC 509281L	SUB & HONY LT	JASWINDER SINGH	01-08-2010
417	JC 508409Y	SUB & HONY LT	KARAMJIT SINGH	01-02-2010
418	JC 508611M	SUB & HONY LT	LAKHA SINGH	01-03-2010
419	JC 508447P	SUB & HONY LT	SUKHVINDER SINGH	01-03-2010

**THE DOGRA REGIMENT**

420	JC 519085Y	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	01-03-2010
421	JC 118400K	SUB MAJ & HONY LT	BRIJ MOHAN SHARMA	01-04-2010
422	JC 518590P	SUB MAJ & HONY LT	DAMODAR DUTT SHARMA	01-06-2010
423	JC 519213L	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-06-2010
424	JC 518657H	SUB MAJ & HONY LT	KEWAL SINGH DHIMAN	01-08-2010
425	JC 519165W	SUB MAJ & HONY LT	SMITTER SINGH GONDAL	01-08-2010
426	JC 519154K	SUB MAJ & HONY LT	SUKH RAM SINGH	01-03-2010
427	JC 519743A	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-04-2010
428	JC 520246H	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-04-2010
429	JC 520138Y	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-04-2010
430	JC 520276A	SUB & HONY LT	BANSI LAL SINGH	01-04-2010
431	JC 519818M	SUB & HONY LT	CHET RAM SINGH	01-02-2010
432	JC 519915K	SUB & HONY LT	HOSHIAR SINGH	01-04-2010
433	JC 520301N	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	01-04-2010
434	JC 520313H	SUB & HONY LT	KULDEEP SINGH	01-05-2010
435	JC 519949X	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-03-2010
436	JC 520156F	SUB & HONY LT	RAMESH SINGH	01-03-2010
437	JC 520164A	SUB & HONY LT	RAVINDER KUMAR	01-04-2010

438	JC 520229H	SUB & HONY LT	SANTOSH CHAND	01-04-2010
439	JC 519778W	SUB & HONY LT	SARFI LAL	01-04-2010
440	JC 519785M	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR RANA	01-02-2010
441	JC 519897M	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	01-02-2010

**THE GARHWAL RIFLES**

442	JC 528820L	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH	01-04-2010
443	JC 528470K	SUB MAJ & HONY LT	HAYAT SINGH	01-08-2010
444	JC 528417Y	SUB MAJ & HONY LT	KALAM SINGH	01-02-2010
445	JC 528650M	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-07-2010
446	JC 529854L	SUB & HONY LT	ANAND SINGH	01-04-2010
447	JC 529979H	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-04-2010
448	JC 529803X	SUB & HONY LT	BHARAT SINGH NEGI	01-04-2010
449	JC 529576H	SUB & HONY LT	BIMAL SINGH	01-07-2010
450	JC 530353X	SUB & HONY LT	DAN SINGH	01-05-2010
451	JC 529546L	SUB & HONY LT	DHARAM PAL SINGH	01-03-2010
452	JC 529651F	SUB & HONY LT	HARSH MANI	01-06-2010
453	JC 529411K	SUB & HONY LT	LAKHPAT SINGH	01-04-2010
454	JC 529240H	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-05-2010
455	JC 528905F	SUB & HONY LT	PURAN SINGH	01-04-2010
456	JC 529846M	SUB & HONY LT	RAKESH RAUTHAN	01-05-2010
457	JC 529637P	SUB & HONY LT	SARBESHWAR PRASAD	01-07-2010
458	JC 529433H	SUB & HONY LT	SHRI KRISHAN	01-06-2010
459	JC 529565W	SUB & HONY LT	SURESHA NAND	01-05-2010
460	JC 529757N	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-04-2010

**THE KUMAON REGIMENT**

461	JC 538182L	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH	01-04-2010
462	JC 538691K	SUB MAJ & HONY LT	DIWANI RAM	01-04-2010
463	JC 538112M	SUB MAJ & HONY LT	KHUSHAL SINGH GARIA	01-04-2010
464	JC 538545K	SUB MAJ & HONY LT	NARAIN SINGH DEOPA	01-04-2010
465	JC 539033K	SUB MAJ & HONY LT	PADAM SINGH	01-03-2010
466	JC 538654X	SUB MAJ & HONY LT	PRATAP SINGH	01-04-2010
467	JC 539635X	SUB & HONY LT	ABHEY SINGH YADAV	01-02-2010
468	JC 540007P	SUB & HONY LT	DHAN SINGH KARKI	01-05-2010
469	JC 539726F	SUB & HONY LT	DHARMENDER KUMAR	01-05-2010
470	JC 539644Y	SUB & HONY LT	GORDHAN SINGH RATHORE	01-05-2010
471	JC 539512L	SUB & HONY LT	HARI BHAGWAN	01-04-2010
472	JC 539609W	SUB & HONY LT	KESHAR SINGH	01-08-2010
473	JC 539441P	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH	01-02-2010
474	JC 539864H	SUB & HONY LT	MAHENDER SINGH	01-04-2010
475	JC 539396N	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-05-2010
476	JC 539426A	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-02-2010
477	JC 539410P	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM	01-02-2010
478	JC 538872P	SUB & HONY LT	RAM SARAN	01-02-2010
479	JC 539494N	SUB & HONY LT	SATYA NARAYAN	01-02-2010
480	JC 539391P	SUB & HONY LT	SHANKAR SINGH CHUFAL	01-04-2010
481	JC 539791F	SUB & HONY LT	SHER SINGH KAPKOTI	01-04-2010

**THE ASSAM REGIMENT**

482	JC 548255A	SUB MAJ & HONY LT	BUDHESWAR SINHA	01-02-2010
-----	------------	----------------------	-----------------	------------

483	JC 130065X	SUB MAJ & HONY LT	KHUMLO JENSON ANAL	01-03-2010
484	JC 548286A	SUB MAJ & HONY LT	MADAN MOHAN SINGH	01-03-2010
485	JC 114063H	SUB MAJ & HONY LT	RATAN CHAND SHARMA	01-05-2010
486	JC 548322A	SUB MAJ & HONY LT	UPANANDA MUKHERJEE	01-05-2010
487	JC 548788H	SUB & HONY LT	ANNESWAR SAIKIA	01-08-2010
488	JC 548939W	SUB & HONY LT	HARKA BAHADUR DARJEE	01-05-2010
489	JC 548893Y	SUB & HONY LT	KH SANOTOMBA SINGH	01-02-2010
490	JC 549182L	SUB & HONY LT	LALENGZAUVA	01-04-2010
491	JC 549058K	SUB & HONY LT	MOHAN KUMAR SHRESTA	01-02-2010
492	JC 548838H	SUB & HONY LT	RAJEN PD BORAH	01-08-2010
493	JC 548803M	SUB & HONY LT	RAMESWAR KONWER	01-08-2010
494	JC 549180A	SUB & HONY LT	RANJU KUMAR SINGHA	01-06-2010
495	JC 548789L	SUB & HONY LT	SUREN THAKURIA	01-05-2010
496	JC 548805X	SUB & HONY LT	TULAN CH DAS	01-03-2010

**THE BIHAR REGIMENT**

497	JC 558458X	SUB MAJ & HONY LT	CHANDESHWAR SINGH	01-08-2010
498	JC 558392M	SUB MAJ & HONY LT	CHRISTOPHER LAKRA	01-05-2010
499	JC 558546N	SUB MAJ & HONY LT	GOBARDHAN SINGH	01-02-2010
500	JC 558561H	SUB MAJ & HONY LT	LAV KUMAR	01-02-2010
501	JC 558257Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJ NATH GIRI	01-08-2010
502	JC 558411M	SUB MAJ & HONY LT	RAKESH CHANDRA DHOUNDIYAL	01-08-2010
503	JC 558385W	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAGAN MAHALY	01-07-2010
504	JC 558467Y	SUB MAJ & HONY LT	RANA VIJAY SINGH	01-03-2010
505	JC 558468F	SUB MAJ & HONY LT	SARYUG YADAV	01-03-2010

506	JC 558692N	SUB MAJ & HONY LT	SURENDAR KUJUR	01-08-2010
507	JC 558299L	SUB MAJ & HONY LT	TURAM PURTY	01-06-2010
508	JC 558387F	SUB MAJ & HONY LT	UPENDRA PRASAD MAHTO	01-05-2010
509	JC 558647F	SUB & HONY LT	HARI RAM BHAGAT	01-03-2010
510	JC 559247F	SUB & HONY LT	JAG MOHAN SINGH	01-03-2010
511	JC 559255A	SUB & HONY LT	KUNJA BIHARI KISAN	01-04-2010
512	JC 559000A	SUB & HONY LT	MAHESH PRASAD	01-03-2010
513	JC 559270P	SUB & HONY LT	MAHESH RAI	01-03-2010
514	JC 558973K	SUB & HONY LT	PARMANAND YADAV	01-07-2010
515	JC 559234K	SUB & HONY LT	RAM PUKAR SAH	01-02-2010
516	JC 559002L	SUB & HONY LT	SHIV SHANKAR DAYAL	01-03-2010
517	JC 558887Y	SUB & HONY LT	SURESH YADAV	01-02-2010
518	JC 559324L	SUB & HONY LT	TEJ NARAIN SINGH	01-03-2010
<b><u>THE MAHAR REGIMENT</u></b>				
519	JC 568504P	SUB MAJ & HONY LT	BIJENDER SINGH	01-08-2010
520	JC 568593Y	SUB MAJ & HONY LT	CHAVAN SURESH GOVIND	01-08-2010
521	JC 568580F	SUB MAJ & HONY LT	JORA	01-04-2010
522	JC 568303W	SUB MAJ & HONY LT	KULDEEP SINGH	01-08-2010
523	JC 568090N	SUB MAJ & HONY LT	OM NARAIN	01-08-2010
524	JC 568401W	SUB MAJ & HONY LT	RAM CHANDER	01-07-2010
525	JC 568489L	SUB MAJ & HONY LT	RAM NIWAS	01-06-2010
526	JC 568379W	SUB MAJ & HONY LT	ROHTASH SINGH YADAV	01-03-2010
527	JC 569331P	SUB & HONY LT	ALAM SINGH	01-03-2010
528	JC 568929N	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-04-2010

529	JC 569415H	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-04-2010
530	JC 569718X	SUB & HONY LT	CHET RAM	01-05-2010
531	JC 569644N	SUB & HONY LT	DARWAN SINGH	01-06-2010
532	JC 569595W	SUB & HONY LT	JAIRAJ BHATT	01-06-2010
533	JC 569199A	SUB & HONY LT	RAM CHANDAR YADAV	01-03-2010
534	JC 569400A	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDRA	01-04-2010
535	JC 569721X	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-04-2010
536	JC 568762P	SUB & HONY LT	SURENDER PRASAD	01-02-2010
537	JC 568757K	SUB & HONY LT	TAPAN KUMAR SAHA	01-04-2010

#### THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

538	JC 578488W	SUB MAJ & HONY LT	BHIM BHADUR	01-08-2010
539	JC 578571N	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ	01-07-2010
540	JC 578815W	SUB MAJ & HONY LT	JAGGATER SINGH	01-05-2010
541	JC 578887A	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-08-2010
542	JC 578851F	SUB MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH	01-07-2010
543	JC 578788X	SUB MAJ & HONY LT	TIRATH RAM	01-04-2010
544	JC 579885F	SUB & HONY LT	ABHILASH CHAND	01-06-2010
545	JC 580185A	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	01-04-2010
546	JC 579692F	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-03-2010
547	JC 579744M	SUB & HONY LT	ASHOK SINGH	01-06-2010
548	JC 579976L	SUB & HONY LT	BALI RAM	01-08-2010
549	JC 580056A	SUB & HONY LT	CHANDER MOHAN	01-04-2010
550	JC 580068P	SUB & HONY LT	DEVI DITTA	01-05-2010
551	JC 579817N	SUB & HONY LT	DEWAN CHAND	01-02-2010

552	JC 580221A	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL	01-04-2010
553	JC 580342F	SUB & HONY LT	GURU PARSHAD SHARMA	01-08-2010
554	JC 579894H	SUB & HONY LT	HANS RAJ THIAL, SM	01-04-2010
555	JC 579776P	SUB & HONY LT	KABUL SINGH	01-06-2010
556	JC 580005M	SUB & HONY LT	KRISHAN KUMAR	01-08-2010
557	JC 579963N	SUB & HONY LT	MEHAR SINGH	01-08-2010
558	JC 579861X	SUB & HONY LT	MOHD AYOUB	01-06-2010
559	JC 579761M	SUB & HONY LT	MOHD SALEEM	01-06-2010
560	JC 579786Y	SUB & HONY LT	PARKASH CHAND	01-04-2010
561	JC 579767N	SUB & HONY LT	PRABHU RAM	01-03-2010
562	JC 579829H	SUB & HONY LT	PREM KUMAR RAI	01-07-2010
563	JC 580169H	SUB & HONY LT	RAJ PAUL	01-05-2010
564	JC 580071P	SUB & HONY LT	RAM PAUL	01-07-2010
565	JC 579816L	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND	01-02-2010
566	JC 579852W	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR	01-08-2010
567	JC 580103M	SUB & HONY LT	ROMESH CHANDER	01-04-2010
568	JC 579664P	SUB & HONY LT	ROMESH LAL	01-02-2010
569	JC 579741Y	SUB & HONY LT	SUDARSHAN KUMAR	01-06-2010
570	JC 580186H	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-04-2010
571	IC 579759P	SUB & HONY LT	UTTAM CHAND	01-03-2010

**THE LADAKH SCOUTS**

572	JC 588041M	SUB MAJ & HONY LT	CHHEWANG DORJE	01-07-2010
573	JC 224503N	SUB MAJ & HONY LT	RIGZIN JORGLAS	01-05-2010
574	IC 588138X	SUB & HONY LT	CHHERING WANGIAL	01-03-2010

**THE NAGA REGIMENT**

575	JC 218034A	SUB MAJ & HONY LT	W/S LUNGTHA ANAL	01-02-2010
576	JC 590145M	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR GURUNG	01-04-2010

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

577	JC 592178W	SUB MAJ & HONY LT	CHHANKAR SINGH, SM	01-04-2010
578	JC 592196Y	SUB MAJ & HONY LT	GOVERDHAN SINGH	01-05-2010
579	JC 592068F	SUB MAJ & HONY LT	PRITHIPAL SINGH	01-03-2010
580	JC 592884X	SUB & HONY LT	ABDUL JABBAR SOFI	01-08-2010
581	JC 592437N	SUB & HONY LT	ABDUL RASHEED WANI	01-05-2010
582	JC 593034A	SUB & HONY LT	ANCHAL SINGH	01-05-2010
583	JC 593046P	SUB & HONY LT	CHUNI LAL	01-07-2010
584	JC 593238M	SUB & HONY LT	CHUNI LAL	01-05-2010
585	JC 592976K	SUB & HONY LT	DARSHAN KUMAR	01-05-2010
586	JC 592834M	SUB & HONY LT	DILBAGH SINGH CHEAD	01-05-2010
587	JC 592957Y	SUB & HONY LT	HARBANS LAL	01-04-2010
588	JC 592947P	SUB & HONY LT	KRISHAN LAL	01-05-2010
589	JC 593019L	SUB & HONY LT	KRISHAN LAL	01-06-2010
590	JC 592430K	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-07-2010
591	JC 592860N	SUB & HONY LT	MOHD BASHIR	01-02-2010
592	JC 592768P	SUB & HONY LT	PAWAN SINGH	01-08-2010
593	JC 593029P	SUB & HONY LT	PHOOL KUMAR	01-06-2010
594	JC 592773A	SUB & HONY LT	RATTAN LAL	01-05-2010
595	JC 592804P	SUB & HONY LT	RATTAN LAL	01-07-2010
596	JC 593190K	SUB & HONY LT	RATTAN LAL	01-04-2010



597	JC 592794W	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	01-05-2010
598	JC 592836X	SUB & HONY LT	SHAM LAL SHARMA	01-08-2010
599	JC 592697Y	SUB & HONY LT	YASH PAUL	01-05-2010
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>				
600	JC 602154H	SUB MAJ & HONY LT	BHIM BAHADUR GURUNG	01-05-2010
601	JC 602169L	SUB MAJ & HONY LT	MIN BAHADUR BURATHOKI	01-05-2010
602	JC 602542A	SUB & HONY LT	GANESH PRASAD GURUNG	01-05-2010
603	JC 602513L	SUB & HONY LT	NIMA TSHERING LAMA	01-04-2010
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>				
604	JC 607321X	SUB MAJ & HONY LT	GIR BAHADUR THAPA	01-06-2010
605	JC 607247F	SUB MAJ & HONY LT	MAN BIR GURUNG	01-04-2010
606	JC 607136K	SUB MAJ & HONY LT	RAM PRASAD PASI	01-05-2010
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
607	JC 612054L	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER BAHADUR THAPA	01-06-2010
608	JC 612228A	SUB MAJ & HONY LT	DHAN BAHADUR PUN	01-07-2010
609	JC 612134H	SUB MAJ & HONY LT	KALAM SINGH GURUNG	01-04-2010
610	JC 211402F	SUB MAJ & HONY LT	MADAN SINGH THAPA	01-04-2010
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
611	JC 617162Y	SUB MAJ & HONY LT	BHAGABAN CHANDRA MISHRA	01-07-2010
612	JC 617160N	SUB MAJ & HONY LT	GANGA DHAR SUNDRIYAL	01-05-2010
613	JC 617583F	SUB & HONY LT	EK BAHADUR THAPA	01-03-2010
614	JC 617595W	SUB & HONY LT	SURYA BAHADUR GURUNG	01-05-2010
<b><u>8 GORKHA RIFLES</u></b>				
615	JC 623074Y	SUB MAJ & HONY LT	LAL JANG GURUNG	01-02-2010

616	JC 623379Y	SUB & HONY LT	JONGYA KUMAR RAJPUT	01-06-2010
617	JC 623634A	SUB & HONY LT	RAM BAHADUR SHRESTHA	01-05-2010
618	JC 623618H	SUB & HONY LT	RESHAM BAHADUR THAPA	01-05-2010
619	JC 623346N	SUB & HONY LT	TEJ BAHADUR SINJAPATI	01-05-2010
620	JC 623496K	SUB & HONY LT	YOG BAHADUR GURUNG	01-07-2010
<b><u>9 GORKHA RIFLES</u></b>				
621	JC 629511K	SUB & HONY LT	MIN BAHADUR KHATRI	01-02-2010
622	JC 629700N	SUB & HONY LT	NARESH BAHADUR CHHETRI	01-06-2010
<b><u>11 GORKHA RIFLES</u></b>				
623	JC 634075F	SUB MAJ & HONY LT	DHAN BAHADUR LIMBU, SM	01-04-2010
624	JC 634166L	SUB MAJ & HONY LT	MANI RAI	01-05-2010
625	JC 634533M	SUB & HONY LT	GAM BAHADUR RAI	01-05-2010
626	JC 634490H	SUB & HONY LT	MACHINDRA KUMAR RAI	01-04-2010
627	JC 634697H	SUB & HONY LT	RAM PRASAD LIMBU	01-08-2010
<b><u>ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)</u></b>				
628	JC 221399A	SUB MAJ & HONY LT	BANDGAR TATOBA PATLU	01-06-2010
629	JC 640778Y	SUB MAJ & HONY LT	BHAGYADHAR MANDAL <sup>o</sup>	01-02-2010
630	JC 640917X	SUB MAJ & HONY LT	BHIKAM SINGH	01-03-2010
631	JC 661213F	SUB MAJ & HONY LT	BINDESHWARI SINGH	01-04-2010
632	JC 640440N	SUB MAJ & HONY LT	DAMODAR BEHERA	01-05-2010
633	JC 661241N	SUB MAJ & HONY LT	GAURANGA RANA BIJULI	01-05-2010
634	JC 661234X	SUB MAJ & HONY LT	GURMIT SINGH	01-05-2010
635	JC 661574A	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ YADAV	01-04-2010
636	JC 640676H	SUB MAJ & HONY LT	HAWA SINGH MEHLA	01-05-2010

637	JC 661106A	SUB MAJ & HONY LT	JOKHU PRASAD	01-02-2010
638	JC 661151M	SUB MAJ & HONY LT	MANJIT SINGH	01-02-2010
639	JC 641001P	SUB MAJ & HONY LT	NIRANJAN DASH	01-06-2010
640	JC 215536X	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRAN P	01-06-2010
641	JC 661829P	SUB MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH	01-05-2010
642	JC 642799N	SUB & HONY LT	BALASUBRAMANIAN R	01-07-2010
643	JC 643140X	SUB & HONY LT	BALWINDER NATH	01-06-2010
644	JC 663871M	SUB & HONY LT	BINESWAR ROY	01-04-2010
645	JC 662705M	SUB & HONY LT	CHAIN SINGH	01-02-2010
646	JC 663578P	SUB & HONY LT	DAMODAR PRASAD	01-08-2010
647	JC 642832A	SUB & HONY LT	INDRAVIR SINGH	01-02-2010
648	JC 662697Y	SUB & HONY LT	JAGAR NATH	01-02-2010
649	JC 662821P	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-08-2010
650	JC 662758L	SUB & HONY LT	JAWAHAR SINGH	01-04-2010
651	JC 662785P	SUB & HONY LT	JAYSI RAM	01-04-2010
652	JC 662950P	SUB & HONY LT	JIYAN LAL	01-04-2010
653	JC 641288X	SUB & HONY LT	KUNWAR BAHADUR SINGH	01-04-2010
654	JC 662790A	SUB & HONY LT	MAHIPAL SINGH	01-05-2010
655	JC 642703A	SUB & HONY LT	MANGLA PRASAD	01-07-2010
656	JC 663338X	SUB & HONY LT	MOTI LAL	01-03-2010
657	JC 663762A	SUB & HONY LT	RAM DAWAN	01-02-2010
658	JC 642491A	SUB & HONY LT	RAM SHANKER SHUKLA	01-05-2010
659	JC 662795Y	SUB & HONY LT	SHER SINGH YADAV	01-05-2010
660	JC 144220Y	SUB & HONY LT	SHITLA PRASAD SHUKLA	01-08-2010

661	JC 642868Y	SUB & HONY LT	SHRI KRISHNA SHARMA	01-02-2010
662	JC 662842L	SUB & HONY LT	SRI TEHSILDAR	01-04-2010
663	JC 662949A	SUB & HONY LT	VIJAI BAHADUR	01-03-2010

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

664	JC 680281K	RIS MAJ & HONY LT	JANAK SHARMA	01-04-2010
665	JC 680926F	RIS & HONY LT	BHUPEN CH DAS	01-04-2010
666	JC 680786A	RIS & HONY LT	LAZAR C	01-04-2010
667	JC 680662L	RIS & HONY LT	SATYA PRAKASH	01-05-2010
668	JC 680747F	RIS & HONY LT	SHIV MUNI RAM	01-02-2010
669	JC 680749M	RIS & HONY LT	SOHAN SINGH	01-05-2010
670	JC 680748K	RIS & HONY LT	VED PAL	01-05-2010

**ARMY MEDICAL CORPS**

671	JC 690394A	SUB MAJ & HONY LT	BALACHANDRAN NAIR K	01-04-2010
672	JC 690894X	SUB MAJ & HONY LT	BRAHMA RAM SHARMA	01-06-2010
673	JC 217327Y	SUB MAJ & HONY LT	JABAR SINGH INDA	01-07-2010
674	JC 690426X	SUB MAJ & HONY LT	R PALANIVEL	01-02-2010
675	JC 692907H	SUB MAJ & HONY LT	RAMMAN RAM	01-04-2010
676	JC 214874H	SUB MAJ & HONY LT	SUKHENDU KUMAR KARMAKAR	01-03-2010
677	JC 692339H	SUB MAJ & HONY LT	SWAPAN KUMAR BISWAS	01-02-2010
678	JC 691500A	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	01-06-2010
679	JC 695008M	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-07-2010
680	JC 692615A	SUB & HONY LT	DHANDHALYA CHITHAR BHAI BHAVANI SHANKER	01-08-2010
681	JC 695152F	SUB & HONY LT	JADHAV MOHAN TUKARAM	01-07-2010
682	JC 694537M	SUB & HONY LT	JAYA CHANDRAN B	01-05-2010

683	JC 694038X	SUB & HONY LT	KHAYELI RAM	01-04-2010
684	JC 694968Y	SUB & HONY LT	PATIL ANIL SADASHIV	01-06-2010
685	JC 695190X	SUB & HONY LT	PRABHAKAR DALAPATI	01-07-2010
686	JC 694448N	SUB & HONY LT	PURAN SINGH SHAHI	01-06-2010
687	JC 695191A	SUB & HONY LT	RAJ BALI SINGH	01-08-2010
688	JC 694686A	SUB & HONY LT	SAHAB SINGH	01-04-2010
689	JC 693298W	SUB & HONY LT	SHIV LAKHAN SINGH	01-02-2010
690	JC 692152W	SUB & HONY LT	SURENDER KUMAR	01-03-2010
691	JC 693031F	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH	01-04-2010
692	JC 693800A	SUB & HONY LT	SURESH K	01-03-2010
693	JC 693262X	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR V N	01-06-2010

**ARMY ORDNANCE CORPS**

694	JC 723215X	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER PRAKASH TIWARI	01-04-2010
695	JC 723081K	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA BHUSHAN SINGH	01-05-2010
696	JC 722783W	SUB MAJ & HONY LT	KOLE LAXMAN YALLAPPA	01-06-2010
697	JC 723292M	SUB MAJ & HONY LT	RAJVIR SINGH MAAN	01-06-2010
698	JC 723248H	SUB MAJ & HONY LT	RAMPAL SHARMA	01-05-2010
699	JC 723200P	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH	01-04-2010
700	JC 724195F	SUB & HONY LT	AURANG ZEB	01-05-2010
701	JC 724958M	SUB & HONY LT	CHARAN SINGH SAINI	01-02-2010
702	JC 724096Y	SUB & HONY LT	FRANCIS D	01-07-2010
703	JC 724095W	SUB & HONY LT	JAGDISH PRATAP SINGH	01-07-2010
704	JC 723383W	SUB & HONY LT	KAMAL KANT JOSHI	01-03-2010
705	JC 723874M	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-02-2010

706	JC 724476X	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-03-2010
707	JC 724091A	SUB & HONY LT	MAHESH CHANDER	01-04-2010
708	JC 722786K	SUB & HONY LT	MATA PRASAD	01-04-2010
709	JC 724633Y	SUB & HONY LT	RAM KRIPAL SINGH YADAV	01-08-2010
710	JC 723023A	SUB & HONY LT	RAM LAKHAN ROY	01-02-2010
711	JC 724202M	SUB & HONY LT	RAMACHANDRAN K K	01-08-2010
712	JC 723236N	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND	01-04-2010
713	JC 725127A	SUB & HONY LT	SATAYPAL MALIK	01-04-2010
714	JC 723824F	SUB & HONY LT	SHESH NATH PANDEY	01-02-2010
715	JC 725163L	SUB & HONY LT	SHIVAGUNDAPPA SULLEGADDI	01-04-2010

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

716	JC 749563W	SUB MAJ & HONY LT	DEVENDRA SINGH	01-03-2010
717	JC 749046Y	SUB MAJ & HONY LT	DILIP KUMAR DAS	01-02-2010
718	JC 749044N	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD SHARMA	01-02-2010
719	JC 749358P	SUB MAJ & HONY LT	JOHN M G	01-03-2010
720	JC 747128H	SUB MAJ & HONY LT	KALYAN CHAKRABORTY	01-08-2010
721	JC 749390K	SUB MAJ & HONY LT	MADHAVAN KUTTY N	01-03-2010
722	JC 747067W	SUB MAJ & HONY LT	NATTHA RAM KUNDEL	01-04-2010
723	JC 749739W	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH NAGAR	01-04-2010
724	JC 748828H	SUB MAJ & HONY LT	PARKASH CHAND	01-02-2010
725	JC 753420N	SUB MAJ & HONY LT	RAM GOPAL YADAV	01-04-2010
726	JC 750116Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM NARESH SINGH	01-08-2010
727	JC 753715K	SUB MAJ & HONY LT	RAM NIWAS	01-04-2010
728	JC 747944Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM RAJ PANDEY	01-02-2010

729	JC 747069F	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDER YADAV	01-04-2010
730	JC 748835Y	SUB MAJ & HONY LT	SAMDAR SINGH	01-05-2010
731	JC 747121Y	SUB MAJ & HONY LT	SANT KUMAR	01-05-2010
732	JC 749375P	SUB MAJ & HONY LT	SATISH KUMAR	01-03-2010
733	JC 749385Y	SUB MAJ & HONY LT	SHYAMPAL SINGH	01-05-2010
734	JC 754967H	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER SINGH	01-02-2010
735	JC 751348K	SUB MAJ & HONY LT	UDHAYA BHANU K	01-04-2010
736	JC 751486L	SUB & HONY LT	AINUL HAQUE	01-07-2010
737	JC 752862A	SUB & HONY LT	ANBAZHAGAN V	01-02-2010
738	JC 753381A	SUB & HONY LT	ANUSE DEELIP LAXMAN	01-06-2010
739	JC 751607F	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SHARMA	01-02-2010
740	JC 753532N	SUB & HONY LT	BISWANATH MONDAL	01-07-2010
741	JC 759125F	SUB & HONY LT	CHANDRAN TN	01-06-2010
742	JC 753486K	SUB & HONY LT	DALBIR SINGH SHARAWAT	01-04-2010
743	JC 754360W	SUB & HONY LT	DILBAG SINGH	01-06-2010
744	JC 754923L	SUB & HONY LT	DINESH PRASAD	01-07-2010
745	JC 752278H	SUB & HONY LT	DINESH PRASAD CHOUDHARY	01-08-2010
746	JC 757399N	SUB & HONY LT	JOHN ANAND DUNG DUNG	01-05-2010
747	JC 759508N	SUB & HONY LT	JOY GOPAL MANDAL	01-07-2010
748	JC 753348H	SUB & HONY LT	LAKHAM SINGH	01-04-2010
749	JC 755433K	SUB & HONY LT	MADAN LAL SHARMA	01-04-2010
750	JC 759507L	SUB & HONY LT	MAHESH CHANDRA SHARMA	01-07-2010
751	JC 751367P	SUB & HONY LT	MAIRAJ AHAMED	01-03-2010
752	JC 753747M	SUB & HONY LT	NAND KISHORE	01-07-2010

753	JC 753350A	SUB & HONY LT	NARESH CHANDERA SHAKYA	01-04-2010
754	JC 758240P	SUB & HONY LT	OM PRAKASH VARMA	01-08-2010
755	JC 750888W	SUB & HONY LT	PABITRA KUMAR BORGHAIN	01-05-2010
756	JC 753414A	SUB & HONY LT	PARTAP SINGH	01-02-2010
757	JC 753612L	SUB & HONY LT	PHOOL CHAND SAINI	01-04-2010
758	JC 750595L	SUB & HONY LT	PRASANTA BARUA	01-04-2010
759	JC 756778X	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH	01-03-2010
760	JC 758399A	SUB & HONY LT	PREM CHANDRA	01-04-2010
761	JC 755404P	SUB & HONY LT	RABINDRA KUMAR BEHERA	01-07-2010
762	JC 753917L	SUB & HONY LT	RAKESH KUMAR GUPTA	01-02-2010
763	JC 753610A	SUB & HONY LT	RAM NARESH	01-08-2010
764	JC 753234X	SUB & HONY LT	RAMJI TIWARI	01-08-2010
765	JC 751616H	SUB & HONY LT	SAJJAN SINGH	01-08-2010
766	JC 758962F	SUB & HONY LT	SATYABRAT SHARMA	01-04-2010
767	JC 760483Y	SUB & HONY LT	SINGH JANARDAN PANCHU	01-02-2010
768	JC 753565Y	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR PRAJAPATI	01-05-2010
769	JC 754100L	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH ANTTAL	01-04-2010
770	JC 755836K	SUB & HONY LT	SURENDRA PRASAD	01-07-2010
771	JC 754188A	SUB & HONY LT	TAPAN CHANDA	01-04-2010
772	JC 755817Y	SUB & HONY LT	TUSARKANTI BISHWAL	01-05-2010
773	JC 760747P	SUB & HONY LT	UMA SHANKAR PANDEY	01-07-2010
774	JC 751515P	SUB & HONY LT	YESHPAL SINGH	01-04-2010

**ARMY EDUCATION CORPS**

775	JC 802027X	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRAMA PRASAD TIWARI	01-07-2010
-----	------------	----------------------	-------------------------	------------



776	JC 216999Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-04-2010
777	JC 802240X	SUB MAJ & HONY LT	SATYAVAN YADAV	01-08-2010
778	JC 216193Y	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SINGH RAWAT	01-04-2010
779	JC 802450X	SUB & HONY LT	BHIM SINGH	01-04-2010
780	JC 802718K	SUB & HONY LT	GIANESHWAR DHARWAL	01-06-2010
781	JC 802862Y	SUB & HONY LT	MADAN MOHAN SHARMA	01-04-2010
782	JC 802686M	SUB & HONY LT	OM PRAKASH SHARMA	01-08-2010
783	JC 802487Y	SUB & HONY LT	SHIV MURTI TIWARI	01-06-2010

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

784	JC 797181K	RIS MAJ & HONY LT	BANWARI LAL HARIJAN	01-06-2010
785	JC 797066K	RIS & HONY LT	HARISHANKAR RAY	01-03-2010

**THE INTELLIGENCE CORPS**

786	JC 217177N	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS SINGH	01-03-2010
787	JC 223464N	SUB MAJ & HONY LT	HARI KRISHAN SHARMA	01-04-2010
788	JC 810028P	SUB MAJ & HONY LT	HET RAM	01-08-2010
789	JC 810008F	SUB MAJ & HONY LT	JAGAT PAUL BHARDWAJ	01-06-2010
790	JC 223463L	SUB MAJ & HONY LT	MADAN SINGH RAMOLA	01-03-2010
791	JC 810320K	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-02-2010
792	JC 810316F	SUB & HONY LT	BIRENDRA SINGH	01-08-2010
793	JC 810300W	SUB & HONY LT	KAMAL DEV SHARMA	01-04-2010
794	JC 810376W	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-05-2010
795	JC 810292H	SUB & HONY LT	MAHENDER SINGH	01-04-2010
796	JC 810081A	SUB & HONY LT	MOHAN CHAND	01-02-2010

**CORPS OF MILITARY POLICE**

797	JC 818385M	SUB MAJ & HONY LT	DASHRATH SINGH	01-04-2010
798	JC 818389H	SUB MAJ & HONY LT	RAM PAL	01-07-2010
799	JC 818134H	SUB MAJ & HONY LT	V LAKSHMANA PERUMAL	01-02-2010
800	JC 818836F	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SHARMA	01-04-2010
801	JC 818923P	SUB & HONY LT	JOGINDER PAUL	01-04-2010

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

802	JC 826061W	SUB MAJ & HONY LT	PRAFULLA KHAKHALARI	01-03-2010
-----	------------	----------------------	---------------------	------------

**THE PIONEER CORPS**

803	JC 829031K	SUB MAJ & HONY LT	SURAT SINGH	01-05-2010
804	JC 829298Y	SUB & HONY LT	RAM JIWAN SINGH	01-03-2010
805	JC 829319K	SUB & HONY LT	VISHAMBAR SINGH	01-04-2010

**DEFENCE SECURITY CORPS**

806	JC 841309M	SUB & HONY LT	DEEGAMBER SINGH	01-06-2010
807	JC 840611Y	SUB & HONY LT	KURIAKOSE MK	01-03-2010
808	JC 841354Y	SUB & HONY LT	SOHAN SINGH	01-03-2010
809	JC 841437K	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-08-2010

**TERRITORIAL ARMY**

810	TJ 3196K	SUB MAJ & HONY LT	MONI MOHAN SINGHA	01-02-2010
811	TJ 3339Y	SUB & HONY LT	DAYA CHAND	01-05-2010
812	TJ 3964A	SUB & HONY LT	DEBA KANTA DALAI	01-02-2010
813	TJ 4135Y	SUB & HONY LT	DHAN SINGH	01-04-2010
814	TJ 4033H	SUB & HONY LT	K ARUNACHALAM	01-04-2010
815	TJ 4262N	SUB & HONY LT	MEGH SINGH RATHORE	01-08-2010
816	TJ 4000X	SUB & HONY LT	PRASANKA CHANDRA DEB	01-03-2010
817	TJ 4118Y	SUB & HONY LT	RAM NARAYAN RAM	01-07-2010
818	TJ 3783P	SUB & HONY LT	RAVI SINGH	01-08-2010

819	TJ 4216Y	SUB & HONY LT	TARSEM CHAND	01-06-2010
820	TJ 4138M	SUB & HONY LT	VIJAYA KUMAR C	01-03-2010

**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****17 HORSE**

1 JC 238647F RIS MAJ MAHAVIR SINGH TANWAR 01-07-2010  
**3 CAVALRY**

2 JC 238272N RIS MAJ MANNA RAM 01-07-2010  
**61 CAVALRY**

3 JC 236015X RIS MAJ MUKARAB KHAN 01-02-2010  
**86 ARMOURED REGIMENT**

4 JC 237989H RIS MAJ SHIV PAL 01-07-2010  
**90 ARMOURED REGIMENT**

5 JC 238390F RIS MAJ PARMINDER SINGH 01-02-2010  
**10 ARMOURED REGIMENT**

6 JC 236959Y RIS MAJ RAM MURTI 01-07-2010  
**50 ARMOURED REGIMENT**

7 JC 237475L RIS MAJ PURUSHOTTAM RAM 01-02-2010  
**ARMOURED CORPS**

8 JC 152323M RIS MAJ CHANDRA SEKHAR MISHRA 01-08-2010

9 JC 237089Y RIS MAJ RAJA RAM 01-04-2010

10 JC 116062Y RIS MAJ RAJENDER KAUSHIK 01-04-2010

11 JC 152316W RIS MAJ SHRI RAJVEER SHARMA 01-08-2010

**REGIMENT OF ARTILLERY**

12 JC 256870N SUB MAJ A ANGAMUTHU, SM 01-04-2010

13 JC 255701A SUB MAJ AMAR SINGH 01-04-2010

14 JC 225940A SUB MAJ B BASAPPA 01-07-2010

15 JC 225373H SUB MAJ BALBIR SINGH 01-05-2010

16 JC 260817A SUB MAJ BALDEV SINGH 01-06-2010

17 JC 259618A SUB MAJ BOOTA SINGH 01-05-2010

18 JC 260936W SUB MAJ CHARAN SINGH 01-07-2010

19 JC 258577P SUB MAJ HANUMAN PRASAD 01-06-2010

20 JC 259218N SUB MAJ HORENDRA SINGHA 01-06-2010

21 JC 255362L SUB MAJ HUKAM SINGH 01-06-2010

22 JC 257696Y SUB MAJ INDRA SEN 01-05-2010

23 JC 266505X SUB MAJ JAIPAL SINGH 01-05-2010

24 JC 258383M SUB MAJ JOHAR SINGH 01-04-2010

25 JC 258452X SUB MAJ K MUTHU RAMAN 01-07-2010

26 JC 203608K SUB MAJ KAMALJIT SINGH 01-03-2010

27 JC 256891K SUB MAJ KAVERAPPA P M 01-06-2010

28 JC 258722F SUB MAJ KISHORI LAL NATH 01-04-2010

29	JC 256703A	SUB MAJ	L MONIHAR SINGHA	01-06-2010
30	JC 258144X	SUB MAJ	MAHABIR PRASAD	01-06-2010
31	JC 257867A	SUB MAJ	MITTAR PAL	01-05-2010
32	JC 259418K	SUB MAJ	MOHINDER SINGH	01-07-2010
33	JC 259864L	SUB MAJ	OM PRAKASH	01-06-2010
34	JC 258888H	SUB MAJ	PATIL NARAYAN KRISHANA	01-04-2010
35	JC 259268Y	SUB MAJ	RAJ SINGH	01-02-2010
36	JC 260636P	SUB MAJ	RAJESH KUMAR	01-08-2010
37	JC 258064A	SUB MAJ	RAM KUMAR KUWANR	01-06-2010
38	JC 257579N	SUB MAJ	RAM PHAL	01-05-2010
39	JC 259435K	SUB MAJ	RATI RAM SAINI	01-05-2010
40	JC 257254A	SUB MAJ	RAVINDER SINGH CHOUHAN	01-02-2010
41	JC 118179W	SUB MAJ	SADANAND JOSHI	01-08-2010
42	JC 255704N	SUB MAJ	SAHI RAM SINGH YADAV	01-07-2010
43	JC 257272H	SUB MAJ	SANTOKH SINGH	01-06-2010
44	JC 118177L	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR DIXIT	01-07-2010
45	JC 255305K	SUB MAJ	SHAIK MASTAN	01-03-2010
46	JC 257256L	SUB MAJ	SUBE SINGH MANN	01-04-2010
47	JC 256423K	SUB MAJ	TAPAN KUMAR GHOSH	01-04-2010
48	JC 256201P	SUB MAJ	TEJ PARKASH	01-04-2010
49	JC 225535H	SUB MAJ	THAKAR DASS	01-04-2010
50	JC 259678P	SUB MAJ	THANKACHAN P X	01-04-2010
51	JC 256205L	SUB MAJ	UDAI NARAIN SHUKLA	01-08-2010
52	JC 130080M	SUB MAJ	UMA DUTT PANDEY	01-04-2010
53	JC 258172K	SUB MAJ	VIRPAL SINGH	01-06-2010

**ARMY AIR DEFENCE**

54	JC 142719H	SUB MAJ	BRIJ KISHORE SHUKLA	01-08-2010
55	JC 296151X	SUB MAJ	CHANDRAPAL SINGH	01-07-2010
56	JC 297130N	SUB MAJ	JARNAIL SINGH	01-08-2010
57	JC 296179X	SUB MAJ	LAXMAN CHAND	01-07-2010
58	JC 296777P	SUB MAJ	RAM PAL SINGH	01-02-2010
59	JC 296740N	SUB MAJ	SAT PAL	01-05-2010

**MADRAS ENGINEER GROUP**

60	JC 305700W	SUB MAJ	ARAMUTHU D	01-08-2010
61	JC 305722P	SUB MAJ	ARUN BOLISHETTY	01-08-2010
62	JC 305515H	SUB MAJ	CHALAT UNNIKRIISHNAN	01-04-2010
63	JC 305238H	SUB MAJ	K MUNIAN	01-04-2010
64	JC 305603Y	SUB MAJ	K SANAKARA NARAYANA REDDY	01-06-2010
65	JC 305318A	SUB MAJ	KOSHY M K	01-04-2010
66	JC 305271A	SUB MAJ	MADHUSOODANA KARNAVER R	01-05-2010
67	JC 305462P	SUB MAJ	RAJU NR	01-07-2010
68	JC 224795F	SUB MAJ	RAMA MOORTHY T	01-03-2010
69	JC 305891W	SUB MAJ	RAMRAJ	01-02-2010
70	JC 305889Y	SUB MAJ	S FAKRODEEN	01-08-2010
71	JC 305209N	SUB MAJ	S KASBAR	01-06-2010
72	JC 305557P	SUB MAJ	SIVASHANKAR JATTI	01-06-2010

73	JC 306122Y	SUB MAJ	THIMMAIAH MK	01-02-2010
74	JC 305745W	SUB MAJ	V RAMU	01-08-2010
75	JC 219388P	SUB MAJ	VENUNADHAN PILLAI R	01-03-2010
76	JC 305694N	SUB MAJ	VISWANADHAN C V	01-07-2010

**BENGAL ENGINEER GROUP**

77	JC 327182F	SUB MAJ	ABDUL GAFOOR MANSURI	01-06-2010
78	JC 219566M	SUB MAJ	AJITH KUMAR RC	01-02-2010
79	JC 165082W	SUB MAJ	ANAND SINGH SIJWALI	01-02-2010
80	JC 219587H	SUB MAJ	ANIL GEORJE	01-04-2010
81	JC 325342X	SUB MAJ	BABY M	01-05-2010
82	JC 327322H	SUB MAJ	BACHAN SINGH	01-02-2010
83	JC 327487F	SUB MAJ	BAILOCHAN DASH	01-03-2010
84	JC 216078Y	SUB MAJ	BALBIR SINGH	01-03-2010
85	JC 326170A	SUB MAJ	BALDEVAN P	01-05-2010
86	JC 325291P	SUB MAJ	BALWANT SINGH	01-07-2010
87	JC 325506H	SUB MAJ	BECHAN CHAUDHARY	01-06-2010
88	JC 328211X	SUB MAJ	BHIMSEN MALLICK	01-04-2010
89	JC 203004L	SUB MAJ	BIPIN CHANDRA DALAKOTI	01-04-2010
90	JC 325315N	SUB MAJ	BIRENDER PRASAD SINGH	01-06-2010
91	JC 327614L	SUB MAJ	BISHWAJIT GHOSH	01-06-2010
92	JC 146195K	SUB MAJ	DARSHAN SINGH	01-02-2010
93	JC 122941H	SUB MAJ	DEVENDRA SINGH	01-05-2010
94	JC 174690Y	SUB MAJ	DHARAM PAL	01-02-2010
95	JC 326143W	SUB MAJ	DINA NATH TRIPATHI	01-06-2010
96	JC 328215N	SUB MAJ	DINESH CHANDRA	01-04-2010
97	JC 326675W	SUB MAJ	DINESH SINGH	01-02-2010
98	JC 326796X	SUB MAJ	DOLAK BAHADUR MALL	01-03-2010
99	JC 327435L	SUB MAJ	GAJE SINGH	01-03-2010
100	JC 120468K	SUB MAJ	GURNEK SINGH	01-06-2010
101	JC 327514A	SUB MAJ	GYAN SINGH	01-02-2010
102	JC 327317X	SUB MAJ	HARBANS SINGH	01-04-2010
103	JC 327189L	SUB MAJ	HARBHAJAN SINGH	01-03-2010
104	JC 327623M	SUB MAJ	JAI KRISHNA PRASAD YADAV	01-06-2010
105	JC 327595L	SUB MAJ	JALADHAR PARMANIK	01-03-2010
106	JC 140765Y	SUB MAJ	JOSEPH PK	01-03-2010
107	JC 327279M	SUB MAJ	KABAL SINGH	01-04-2010
108	JC 326435Y	SUB MAJ	KAWADE DILARAM TARAMAN	01-04-2010
109	JC 137362N	SUB MAJ	KIRAN KUMAR MARIA	01-03-2010
110	JC 327602W	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR	01-04-2010
111	JC 325137W	SUB MAJ	KRISHNA MONI SINGHA	01-07-2010
112	JC 325309A	SUB MAJ	KUNDAN SINGH NEGI	01-05-2010
113	JC 325354M	SUB MAJ	LAXMAN SINGH DEO	01-06-2010
114	JC 191539K	SUB MAJ	MAKAN SINGH	01-05-2010
115	JC 326167A	SUB MAJ	MANGAL SINGH SAINI	01-05-2010
116	JC 326452Y	SUB MAJ	MD SAMSUR JAMAN	01-02-2010
117	JC 224853A	SUB MAJ	MOHAMED HANIF	01-03-2010
118	JC 328108W	SUB MAJ	MUKESH KUMAR RAVAT	01-04-2010

119	JC 325333W	SUB MAJ	NARAYAN DATT JOSHI	01-04-2010
120	JC 325909H	SUB MAJ	NARAYANAN KUTTY K	01-07-2010
121	JC 327411F	SUB MAJ	OM PRAKASH	01-03-2010
122	JC 174757M	SUB MAJ	OM PRAKASH JANGIR	01-05-2010
123	JC 325735N	SUB MAJ	PRAKASH CHANDRA	01-08-2010
124	JC 326266H	SUB MAJ	PRASANTA MAITY	01-06-2010
125	JC 325358H	SUB MAJ	PRATAP SINGH RAWAT	01-06-2010
126	JC 327499W	SUB MAJ	PURSHOTHAMAN O	01-04-2010
127	JC 326344P	SUB MAJ	RATNAKARAN ERUMBALA	01-03-2010
128	JC 219549M	SUB MAJ	S EBRA YIM SATHIARAJ	01-04-2010
129	JC 326160W	SUB MAJ	SAJAN SINGH	01-05-2010
130	JC 327527X	SUB MAJ	SHEO PRAKASH DIXIT	01-04-2010
131	JC 326986K	SUB MAJ	SHER SINGH	01-07-2010
132	JC 177186K	SUB MAJ	SOMASUNDARAN C C	01-06-2010
133	JC 174796L	SUB MAJ	SURESH PAL	01-03-2010
134	JC 325540H	SUB MAJ	SUVASISH GANGULY	01-08-2010
135	JC 328216W	SUB MAJ	SWARUP MAJI	01-06-2010
136	JC 325515K	SUB MAJ	UMESH CHANDER SHARMA	01-02-2010
137	JC 207610Y	SUB MAJ	UMESH CHANDRA RAI	01-05-2010
138	JC 325192M	SUB MAJ	VIJAY NARAIN SINGH	01-03-2010
139	JC 326196P	SUB MAJ	VIRENDRA KUMAR	01-08-2010
140	JC 122931Y	SUB MAJ	VIVEK KUMAR SINGHAL	01-02-2010
141	JC 328114A	SUB MAJ	YOGENDER SINGH	01-02-2010

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

142	JC 347487H	SUB MAJ	BALLA RAM	01-03-2010
143	JC 347008W	SUB MAJ	DIWAKAR SINGH	01-04-2010
144	JC 347271F	SUB MAJ	L PERUMAL -	01-02-2010
145	JC 347036H	SUB MAJ	MAHESH CHAND	01-03-2010
146	JC 347755F	SUB MAJ	PATIL TANAJI APPAJI	01-04-2010
147	JC 347003X	SUB MAJ	SHIRSHAT GULAB KISAN	01-05-2010
148	JC 347291P	SUB MAJ	UPENDRA NATH RAI	01-08-2010

**CORPS OF SIGNALS**

149	JC 370689W	SUB MAJ	ABDULLAH K B	01-06-2010
150	JC 367254H	SUB MAJ	AMAR SINGH	01-08-2010
151	JC 368930Y	SUB MAJ	ASHIM KUMAR SINHA	01-08-2010
152	JC 368115L	SUB MAJ	ASHOK KUMAR	01-03-2010
153	JC 369838M	SUB MAJ	BANA BIHARI MISHRA	01-02-2010
154	JC 369982F	SUB MAJ	BHARAT SINGH	01-02-2010
155	JC 369778H	SUB MAJ	BIMAL MAJUMDER	01-05-2010
156	JC 370701M	SUB MAJ	BRAJA KISHORE SINGHA	01-08-2010
157	JC 367121M	SUB MAJ	CHIRANJI PRASAD SAKLANI	01-05-2010
158	JC 369519A	SUB MAJ	DAULAT SINGH KALAN	01-04-2010
159	JC 370608L	SUB MAJ	DHARAMBIR SINGH	01-04-2010
160	JC 367093L	SUB MAJ	GOVIND SINGH CHAUHAN	01-03-2010
161	JC 370682M	SUB MAJ	H RAJA	01-05-2010
162	JC 370585P	SUB MAJ	HARDEV SINGH	01-03-2010

163	JC 367110A	SUB MAJ	HISAMUDDIN KHAN	01-05-2010
164	JC 225341A	SUB MAJ	HUKAM CHAND SHARMA	01-02-2010
165	JC 370613W	SUB MAJ	JANAK SINGH	01-03-2010
166	JC 369473H	SUB MAJ	JAYANTHAN M	01-08-2010
167	JC 829026Y	SUB MAJ	JAYDEV SARKAR	01-04-2010
168	JC 370681K	SUB MAJ	KOSHY B	01-06-2010
169	JC 370691N	SUB MAJ	KULDIP CHAND SHARMA	01-06-2010
170	JC 367102F	SUB MAJ	LACHHMAN SINGH	01-05-2010
171	JC 367889F	SUB MAJ	LILA RAM	01-07-2010
172	JC 370456P	SUB MAJ	MAHENDRA PRATAP SINGH RATHORE	01-03-2010
173	JC 370655H	SUB MAJ	MD ABDUL WAHAB AKHAN	01-05-2010
174	JC 368617N	SUB MAJ	NARENDRA KUMAR SHARMA	01-04-2010
175	JC 367115Y	SUB MAJ	PARAMESHWARA H K	01-06-2010
176	JC 220469F	SUB MAJ	PRAFULLA KUMAR JENA	01-02-2010
177	JC 368920P	SUB MAJ	PUTTI LAL	01-02-2010
178	JC 370436F	SUB MAJ	RAJENDRA PRASAD CHAUDHARY	01-02-2010
179	JC 224682Y	SUB MAJ	RAJINDER SINGH	01-03-2010
180	JC 370685A	SUB MAJ	RAM NARAIN SAINI	01-06-2010
181	JC 368509K	SUB MAJ	RISHI PRAKASH	01-04-2010
182	JC 370677F	SUB MAJ	SEKHAR MAHATA	01-04-2010
183	JC 367106X	SUB MAJ	SETHUMADHAVAN A P	01-06-2010
184	JC 367249X	SUB MAJ	SIYA NAND	01-04-2010
185	JC 223786N	SUB MAJ	SURENDAR KUMAR	01-02-2010
186	JC 367253A	SUB MAJ	SURENDRAN D	01-07-2010
187	JC 367888Y	SUB MAJ	TANNIRU SRINIVASA RAO	01-02-2010
188	JC 367111H	SUB MAJ	VIDYA SAGAR PANDEY	01-06-2010
189	JC 370692W	SUB MAJ	VIJAY SHANKER OJHA	01-07-2010

**THE BRIGADE OF GUARDS**

190	JC 402205F	SUB MAJ	BIANT RAM	01-07-2010
191	JC 402308A	SUB MAJ	KALADHARI	01-06-2010

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

192	JC 226947W	SUB MAJ	NACHHATTAR SINGH	01-03-2010
-----	------------	---------	------------------	------------

**THE PUNJAB REGIMENT**

193	JC 428812X	SUB MAJ	DIDAR SINGH	01-05-2010
194	JC 428917F	SUB MAJ	RATTAN CHAND THAKUR	01-06-2010

**THE MADRAS REGIMENT**

195	JC 438910L	SUB MAJ	PAKIRISWAMY P	01-04-2010
-----	------------	---------	---------------	------------

**THE GRENADIERS**

196	JC 448573P	SUB MAJ	ALLI HUSEN	01-06-2010
197	JC 193678M	SUB MAJ	EKRAM ALI ANSARI	01-02-2010
198	JC 220907Y	SUB MAJ	MOTI RAM	01-02-2010
199	JC 448945P	SUB MAJ	SANT RAM	01-06-2010

200	JC 448455F	SUB MAJ	SHRI RAM SINGH	01-07-2010
201	JC 448207L	SUB MAJ	VED PAL SINGH PUNDIR	01-02-2010
<b><u>THE JAT REGIMENT</u></b>				
202	JC 488315X	SUB MAJ	BALWAN SINGH	01-04-2010
203	JC 488310Y	SUB MAJ	HUKMI CHAND	01-08-2010
204	JC 488229M	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH	01-07-2010
205	JC 488047Y	SUB MAJ	OM PARKASH	01-02-2010
206	JC 438507Y	SUB MAJ	RAMESHWAR LAL	01-08-2010
<b><u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u></b>				
207	JC 508436H	SUB MAJ	SOM SINGH BAINS	01-08-2010
<b><u>THE DOGRA REGIMENT</u></b>				
208	JC 518764K	SUB MAJ	CHATTER SINGH THAKUR	01-02-2010
209	JC 518968W	SUB MAJ	DHARM PALL	01-08-2010
210	JC 518839W	SUB MAJ	SATISH CHAND	01-06-2010
<b><u>THE GARHWAL RIFLES</u></b>				
211	JC 529004F	SUB MAJ	CHANDAN SINGH	01-04-2010
212	JC 528789K	SUB MAJ	CHITRA SINGH	01-05-2010
213	JC 528342M	SUB MAJ	MADAN MOHAN MISHRA	01-07-2010
214	JC 528396N	SUB MAJ	NANDAN SINGH	01-07-2010
<b><u>THE KUMAON REGIMENT</u></b>				
215	JC 538354P	SUB MAJ	DALIP SINGH	01-02-2010
216	JC 538156K	SUB MAJ	KAMLA PATI BHATT	01-04-2010
217	JC 538536H	SUB MAJ	RAMA SHANKER YADAV	01-03-2010
<b><u>THE ASSAM REGIMENT</u></b>				
218	JC 548136K	SUB MAJ	DHIRENDRA CHANDRA DEKA	01-02-2010
219	JC 548231N	SUB MAJ	RK BINODE SENA SINGHA	01-06-2010
<b><u>THE BIHAR REGIMENT</u></b>				
220	JC 558130W	SUB MAJ	ISWAR CHANDRA NAIK	01-04-2010
221	JC 558465N	SUB MAJ	PRADIPT KUMAR BARIK	01-04-2010
<b><u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u></b>				
222	JC 579100M	SUB MAJ	ROMESH SINGH	01-07-2010
<b><u>THE LADAKH SCOUTS</u></b>				
223	JC 588018Y	SUB MAJ	RIGZIN NORPHEL	01-06-2010
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
224	JC 612168W	SUB MAJ	YUNG PANG RAI	01-07-2010
<b><u>8 GORKHA RIFLES</u></b>				
225	JC 623218W	SUB MAJ	CHANDRA BAHADUR RANA	01-07-2010



**9 GORKHA RIFLES**

226	JC 629414M	SUB MAJ	LAXMAN SINGH	01-02-2010
227	JC 629262W	SUB MAJ	MUKH RAM YADAV	01-07-2010

**11 GORKHA RIFLES**

228	JC 634103H	SUB MAJ	DAWA DORJAY TAMANG	01-07-2010
229	JC 634155Y	SUB MAJ	MADHIM BAHADUR RAI	01-05-2010

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

230	JC 661354W	SUB MAJ	BABU LAL	01-06-2010
231	JC 640190X	SUB MAJ	BALWANT SINGH	01-04-2010
232	JC 215489L	SUB MAJ	BHANWAR SINGH RATHORE	01-04-2010
233	JC 661414A	SUB MAJ	CHANDRA PAL	01-06-2010
234	JC 661449W	SUB MAJ	GANESH PRASAD	01-08-2010
235	JC 215520M	SUB MAJ	GHAN SHYAM SINGH	01-04-2010
236	JC 661251X	SUB MAJ	GOPAL DASS	01-05-2010
237	JC 661226Y	SUB MAJ	GOPI CHAND	01-04-2010
238	JC 661170X	SUB MAJ	GULZAR SINGH	01-02-2010
239	JC 640670F	SUB MAJ	IQUELAKH MOHAMMED	01-04-2010
240	JC 640936H	SUB MAJ	JADHAV GOPAL GOVIND	01-06-2010
241	JC 661225W	SUB MAJ	MADAN LAL	01-04-2010
242	JC 640149F	SUB MAJ	MAHABBOT MULLICK	01-04-2010
243	JC 640688X	SUB MAJ	MAHENDAR SINGH	01-08-2010
244	JC 661245K	SUB MAJ	NARAYAN RAM SUTHAR	01-04-2010
245	JC 661012H	SUB MAJ	NARAYANA R	01-03-2010
246	JC 661306W	SUB MAJ	NARSA RAM JAT	01-08-2010
247	JC 640624M	SUB MAJ	P ELANGOVAN	01-02-2010
248	JC 215550K	SUB MAJ	PREM PARKASH	01-07-2010
249	JC 215515F	SUB MAJ	PURKHA RAM KHATI	01-04-2010
250	JC 661290W	SUB MAJ	PURSHOTAM SINGH	01-05-2010
251	JC 661287W	SUB MAJ	RAM PRASAD RAM	01-05-2010
252	JC 640826N	SUB MAJ	SHARDA PRASAD	01-03-2010
253	JC 213846K	SUB MAJ	SUBASH	01-03-2010
254	JC 215496F	SUB MAJ	TARLOK SINGH SANDHU	01-03-2010
255	JC 661340W	SUB MAJ	VARADA RAJAN KANDALA	01-08-2010
256	JC 640694L	SUB MAJ	YOGENDER KUMAR WALIA	01-02-2010

**ARMY MEDICAL CORPS**

257	JC 214875L	SUB MAJ	HARI KISHAN SHARMA	01-07-2010
258	JC 691254A	SUB MAJ	NARAYANAN K	01-03-2010
259	JC 690356K	SUB MAJ	VARINDER SINGH	01-05-2010

**ARMY ORDNANCE CORPS**

260	JC 722870K	SUB MAJ	BALWANT SINGH	01-08-2010
261	JC 723251H	SUB MAJ	BHUPINDERJIT SINGH BAJWA	01-06-2010
262	JC 130310P	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD SHARMA	01-08-2010
263	JC 723410P	SUB MAJ	KAMER CHAND RANA	01-08-2010

264	JC 723354F	SUB MAJ	MANTAYYA GURUPADAYYA BELLAD	01-02-2010
265	JC 723164P	SUB MAJ	PATIL ASHOK LAXMAN	01-08-2010
266	JC 722770Y	SUB MAJ	PRADIP CHANDRA BARUA	01-04-2010
267	JC 723186N	SUB MAJ	RAJENDRA PRASAD SINGH YADAV	01-02-2010
268	JC 723773Y	SUB MAJ	RAM SUNDER	01-08-2010
269	JC 723246X	SUB MAJ	RAMESHWAR SINGH	01-06-2010
270	JC 723154L	SUB MAJ	SURENDRA NATH MAHANTA	01-07-2010
271	JC 723596K	SUB MAJ	VINOD KUMAR PAREEK	01-08-2010

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

272	JC 749748X	SUB MAJ	AMARJEET SINGH	01-03-2010
273	JC 747050H	SUB MAJ	ARJUN SINGH LINGWAL	01-02-2010
274	JC 749422F	SUB MAJ	BHOSALE SHIVAJI MARUTI	01-04-2010
275	JC 748409L	SUB MAJ	GOPAL PRASAD DEO	01-02-2010
276	JC 752796H	SUB MAJ	HARISH KUMAR PANWAR	01-02-2010
277	JC 749715M	SUB MAJ	JAGTAR SINGH SRAN	01-04-2010
278	JC 748867F	SUB MAJ	K SUNDARASVARAN NAIR	01-02-2010
279	JC 749430A	SUB MAJ	ONKAR SINGH	01-03-2010
280	JC 749744F	SUB MAJ	PARAMANANDA MALICK	01-02-2010
281	JC 752914L	SUB MAJ	PARMATMA SINGH	01-08-2010
282	JC 749159F	SUB MAJ	PREM CHANDRA	01-03-2010
283	JC 749421Y	SUB MAJ	SURENDRA KUMAR MOR	01-03-2010
284	JC 749734X	SUB MAJ	SURESH KUMAR NAIR P P	01-06-2010
285	JC 133312L	SUB MAJ	TEJ SINGH	01-06-2010

**ARMY EDUCATION CORPS**

286	JC 216214K	SUB MAJ	DEVENDRA KUMAR SHARMA	01-03-2010
287	JC 216213F	SUB MAJ	RAGHUNATH MUKUT	01-03-2010

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

288	JC 797110H	RIS MAJ	PRAMOD KUMAR BARAL	01-03-2010
-----	------------	---------	--------------------	------------

**THE INTELLIGENCE CORPS**

289	JC 217178W	SUB MAJ	KAMAL SINGH	01-03-2010
290	JC 810423H	SUB MAJ	NAVEEN KUMAR JOSHI	01-03-2010
291	JC 221346F	SUB MAJ	SURAM SINGH	01-04-2010

**CORPS OF MILITARY POLICE**

292	JC 818324P	SUB MAJ	MOHIT CHANDRA KARMAKAR	01-02-2010
293	JC 818351Y	SUB MAJ	NAR SINGH RAI	01-04-2010
294	JC 818386P	SUB MAJ	UPENDRA KUMAR	01-04-2010

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

295	JC 826054A	SUB MAJ	SARBJIT SINGH	01-02-2010
-----	------------	---------	---------------	------------

**THE PIONEER CORPS**

296	JC 829005H	SUB MAJ	ANIRUDH PRASAD VERMA	01-03-2010
297	JC 198916X	SUB MAJ	RADHESHYAM TIWARI	01-02-2010

**DEFENCE SECURITY CORPS**

298	JC 840510L	SUB MAJ	GOPAL SINGH	01-07-2010
299	JC 840036H	SUB MAJ	RAM HET	01-06-2010

**TERRITORIAL ARMY**

300	TJ 3910Y	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR	01-07-2010
301	TJ 3399N	SUB MAJ	S DHARMAN	01-06-2010

**TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR****16 CAVALRY**

1	JC 240441H	RIS	SRINVASA G	01-04-2010
2	JC 240461W	RIS	VALMEEK KOLI	01-04-2010

**7 CAVALRY**

3	JC 241330X	RIS	BALBIR SINGH	01-04-2010
4	JC 241717A	RIS	KULDIP SINGH	01-04-2010
5	JC 241452F	RIS	MOKAM SINGH	01-04-2010
6	JC 241660W	RIS	SHISH RAM	01-06-2010

**8 CAVALRY**

7	JC 240982K	RIS	JASWINDER SINGH	01-04-2010
8	JC 241111W	RIS	SARABJIT SINGH	01-06-2010
9	JC 241483F	RIS	SHISHU PAL SINGH	01-08-2010

**1 HORSE**

10	JC 241066P	RIS	AMARJEET SINGH	01-05-2010
11	JC 240624Y	RIS	BELA SINGH	01-04-2010
12	JC 239796F	RIS	DHAN SINGH	01-06-2010
13	JC 240771F	RIS	HARDEV SINGH	01-05-2010
14	JC 241187W	RIS	NARVAIL SINGH	01-05-2010
15	JC 240256P	RIS	RATTAN SINGH	01-04-2010

**2 LANCERS**

16	JC 241751A	RIS	BAJRANG SINGH	01-07-2010
17	JC 241760F	RIS	JABAR SINGH UDAWAT	01-08-2010
18	JC 240374H	RIS	LAKHAN SINGH	01-03-2010
19	JC 240798Y	RIS	MAHAVIR PRASAD	01-04-2010
20	JC 239699K	RIS	RAGHUNATH SINGH	01-03-2010
21	JC 240094P	RIS	SULTAN SINGH	01-04-2010
22	JC 239708A	RIS	SURTA RAM	01-07-2010

**17 HORSE**

23	JC 239651W	RIS	BACHANA RAM	01-05-2010
----	------------	-----	-------------	------------

**9 HORSE**

24	JC 239833K	RIS	KABAL SINGH	01-04-2010
25	JC 240003A	RIS	MAHAVIR SINGH	01-04-2010
26	JC 240100X	RIS	OM PRAKASH	01-05-2010

**14 HORSE**

27	JC 240629X	RIS	AVTAR SINGH	01-04-2010
28	JC 240873X	RIS	DARSHAN SINGH	01-04-2010
29	JC 241612W	RIS	KASHMIR SINGH	01-08-2010
30	JC 239240X	RIS	KEWAL SINGH	01-04-2010

31	JC 240906X	RIS	KULDIP SINGH	01-04-2010
32	JC 241106L	RIS	KULWANT SINGH	01-04-2010
33	JC 240810P	RIS	KUNAN SINGH	01-07-2010
34	JC 241611N	RIS	MOHINDER SINGH	01-06-2010
35	JC 241260K	RIS	SAMARJIT SINGH	01-05-2010

**3 CAVALRY**

36	JC 239767M	RIS	BAJRANG SINGH	01-04-2010
37	JC 240475W	RIS	BALWAN SINGH	01-04-2010
38	JC 240632X	RIS	PREM NARAIN SINGH CHAUHAN	01-04-2010
39	JC 239858W	RIS	PREM NATH SINGH	01-04-2010
40	JC 240488N	RIS	SAJJAN SINGH SANGWAN	01-04-2010
41	JC 239834M	RIS	SANJAY KUMAR BADORIA	01-08-2010

**18 CAVALRY**

42	JC 240329W	RIS	DAYA CHAND GODARA	01-08-2010
43	JC 239793N	RIS	GIRDHARI RAM	01-05-2010
44	JC 240186F	RIS	HANUMAN SINGH	01-05-2010
45	JC 240350Y	RIS	JAGBIR	01-08-2010
46	JC 239921A	RIS	NARENDRA SINGH	01-04-2010
47	JC 239878K	RIS	NARESH SINGH	01-02-2010
48	JC 240225P	RIS	RAJ BAHORAN SINGH	01-07-2010
49	JC 239795Y	RIS	ROHTAS KUMAR	01-05-2010

**4 HORSE**

50	JC 240397K	RIS	GURJEET SINGH	01-04-2010
51	JC 240398M	RIS	GURNAM SINGH	01-04-2010
52	JC 240888A	RIS	JARNAIL SINGH	01-04-2010
53	JC 240677X	RIS	LAKHWINDER SINGH	01-04-2010
54	JC 241569A	RIS	MOHINDER SINGH	01-06-2010

**CENTRAL INDIA HORSE**

55	JC 240268K	RIS	AKKALWAR KAWADU UDHAO	01-04-2010
56	JC 240509Y	RIS	MUNNA LAL	01-06-2010
57	JC 240508W	RIS	NAGO RAO PAWAR	01-06-2010
58	JC 239593X	RIS	SHATRUGHAN YADAV	01-04-2010

**62 CAVALRY**

59	JC 241116P	RIS	BADRI DASS	01-07-2010
60	JC 240200H	RIS	BHAGGU RAM JAT	01-07-2010
61	JC 240018H	RIS	DALJIT SINGH	01-04-2010
62	JC 241114K	RIS	JAGDISH CHAND	01-06-2010
63	JC 240499A	RIS	KULDIP SINGH	01-08-2010
64	JC 241022X	RIS	PRAKASH CHAND	01-05-2010
65	JC 240402K	RIS	RAJKARAN SINGH	01-04-2010
66	JC 240127P	RIS	RAMAN LAL	01-04-2010
67	JC 241014Y	RIS	SUKH RAM	01-04-2010

**20 LANCERS**

68	JC 239207A	RIS	AMAR SINGH	01-04-2010
69	JC 240792X	RIS	BIR SINGH	01-08-2010
70	JC 240653N	RIS	HARDAM SINGH	01-07-2010
71	JC 241059Y	RIS	HARI BABU	01-05-2010
72	JC 241337F	RIS	SATENDRA PAL SINGH	01-08-2010

**63 CAVALRY**

73	JC 240391H	RIS	AMARJIT SINGH	01-04-2010
74	JC 241381L	RIS	BHUDEV SINGH	01-08-2010
75	JC 241339M	RIS	DALPAT SINGH	01-08-2010
76	JC 240865Y	RIS	GURMEET SINGH	01-04-2010
77	JC 240692M	RIS	OM PRAKASH	01-06-2010
78	JC 240442L	RIS	SHISH PAL	01-04-2010
79	JC 241443A	RIS	SUSHIL KUMAR	01-08-2010
80	JC 241013W	RIS	VIJAY PAL SINGH	01-05-2010

**61 CAVALRY**

81	JC 239253P	RIS	POPAT PANDURANG JADHAV	01-04-2010
----	------------	-----	------------------------	------------

**45 CAVALRY**

82	JC 241193K	RIS	ARVIND KUMAR UPADHYAYA	01-04-2010
83	JC 240547P	RIS	C VIJAYAN	01-05-2010
84	JC 240518A	RIS	JAYAN KV	01-05-2010
85	JC 241250A	RIS	NALE SHIVAJI SADA SHIV	01-07-2010
86	JC 241704H	RIS	OM PRAKASH VERMA	01-08-2010
87	JC 240070L	RIS	PRAKASH KATTI	01-04-2010
88	JC 240521A	RIS	SHYAM LAL	01-04-2010
89	JC 241242F	RIS	SONKAMBLE SHRIRAM JAIRAM	01-06-2010

**64 CAVALRY**

90	JC 240627M	RIS	GHSU SINGH RATHORE	01-06-2010
91	JC 240118N	RIS	GURMIT SINGH	01-04-2010
92	JC 240121N	RIS	HARDEEP SINGH	01-05-2010
93	JC 240001P	RIS	ISHWAR SINGH	01-06-2010
94	JC 240117L	RIS	KARAM CHAND	01-07-2010
95	JC 240875H	RIS	RAJENDRA SINGH BAGHEL	01-08-2010
96	JC 239909Y	RIS	SATYA PAL SINGH	01-04-2010
97	JC 239454N	RIS	SUNIL SINGH	01-04-2010

**65 ARMOURED REGIMENT**

98	JC 240753Y	RIS	RAM CHANDER	01-05-2010
99	JC 239827W	RIS	RISHI RAM	01-04-2010

**66 ARMOURED REGIMENT**

100	JC 241113F	RIS	BASAVA RAJ ABBI	01-05-2010
101	JC 240933F	RIS	HASABE ANEEL RAJARAM	01-04-2010

102	JC 241102P	RIS	KADAM SUKADEO AODUMBER	01-05-2010
103	JC 241489H	RIS	KATURISIVA SHANKARA BABU	01-08-2010
104	JC 241355K	RIS	SHINDE HANUMANT VITHOBA	01-08-2010
105	JC 240937X	RIS	UNNI KRISHNAN NAIR R	01-04-2010
106	JC 241327X	RIS	V SELVA RAJAN	01-06-2010
<b><u>67 ARMoured REGIMENT</u></b>				
107	JC 239944F	RIS	BAJERANG LAL NEHRA	01-06-2010
108	JC 239201Y	RIS	BISHAN DASS	01-04-2010
109	JC 240663X	RIS	SUKHDEV SINGH	01-06-2010
<b><u>68 ARMoured REGIMENT</u></b>				
110	JC 240664A	RIS	CHATAR SINGH	01-04-2010
111	JC 240673F	RIS	GORDHAN LAL GUJAR	01-04-2010
112	JC 241166A	RIS	KOLEKAR TUKARAM AKA RAM	01-06-2010
113	JC 240901Y	RIS	MAHENDRA PAL SINGH	01-04-2010
<b><u>69 ARMoured REGIMENT</u></b>				
114	JC 241239F	RIS	GUMMADI SRINIVAS	01-06-2010
115	JC 237976L	RIS	KULDIP SINGH	01-07-2010
<b><u>70 ARMoured REGIMENT</u></b>				
116	JC 241785N	RIS	KAPTAN SINGH	01-08-2010
117	JC 241561N	RIS	RUKMANAND	01-04-2010
118	JC 241663K	RIS	SUKHVIR SINGH	01-05-2010
119	JC 241716X	RIS	WAGHULE BALU SOPANA	01-06-2010
<b><u>71 ARMoured REGIMENT</u></b>				
120	JC 241397W	RIS	GOVIND SINGH	01-07-2010
121	JC 240943L	RIS	KHEM CHAND	01-07-2010
122	JC 240945W	RIS	MEWA RAM	01-08-2010
123	JC 240474N	RIS	NARAYANA PILLAI G	01-07-2010
124	JC 240554L	RIS	RAVEENDRAN NELLIATAN	01-07-2010
125	JC 240947F	RIS	SATBIR SINGH	01-08-2010
<b><u>72 ARMoured REGIMENT</u></b>				
126	JC 240953P	RIS	AKSHAI KUMAR	01-05-2010
127	JC 239989F	RIS	BALBIR SINGH	01-04-2010
128	JC 239754P	RIS	HIMMAT SINGH MERTIYA	01-04-2010
129	JC 239900K	RIS	JABAR SINGH	01-08-2010
130	JC 240812A	RIS	RAM UGARH SINGH	01-04-2010
131	JC 240097H	RIS	YOGENDER SINGH	01-04-2010
<b><u>73 ARMoured REGIMENT</u></b>				
132	JC 238722A	RIS	DALIP SINGH	01-04-2010
133	JC 239349X	RIS	HARPAL SINGH	01-06-2010
134	JC 240035H	RIS	KASHMIR SINGH	01-04-2010

**74 ARMOURED REGIMENT**

135	JC 240071N	RIS	AMRIK SINGH	01-07-2010
136	JC 239313Y	RIS	BHAJAN SINGH	01-07-2010
137	JC 239667F	RIS	MADHAVENDRA PRATAP SINGH YADAV	01-04-2010
138	JC 239021W	RIS	PRATAP SINGH	01-04-2010
139	JC 239591M	RIS	RAJESH KUMAR	01-04-2010
140	JC 239748F	RIS	SATYA RAM	01-05-2010

**75 ARMOURED REGIMENT**

141	JC 240806M	RIS	DHRUV SINGH CHAUHAN	01-04-2010
142	JC 240020A	RIS	ISHWAR SINGH	01-04-2010
143	JC 240154Y	RIS	JAIPAL SINGH	01-04-2010
144	JC 241914H	RIS	MESHO KUMAR	01-08-2010
145	JC 239916P	RIS	RAGHUNATH	01-04-2010
146	JC 240968X	RIS	RAM BABU KASANI	01-06-2010
147	JC 240868M	RIS	RAVENDRA KUMAR SINGH	01-04-2010
148	JC 240340P	RIS	SATYAVAN SINGH	01-08-2010
149	JC 240869P	RIS	SUKH RAM PAL CHAUHAN	01-04-2010
150	JC 240482M	RIS	SUMER SINGH SANGWAN	01-08-2010
151	JC 240854M	RIS	VELU D	01-04-2010

**76 ARMOURED REGIMENT**

152	JC 240211P	RIS	CHAWARE GIRIDHAR TULSI RAM	01-06-2010
153	JC 240169F	RIS	NEELA KANTH YESU NAIK	01-04-2010
154	JC 240403M	RIS	PITAM SINGH	01-05-2010
155	JC 239590K	RIS	RATTAN LAL	01-04-2010

**81 ARMOURED REGIMENT**

156	JC 241414L	RIS	HARENDRA KUMAR RAI	01-04-2010
157	JC 241351N	RIS	VIJAY KUMAR	01-04-2010

**82 ARMOURED REGIMENT**

158	JC 241241Y	RIS	GULAB CHANDRA MORIA	01-05-2010
-----	------------	-----	---------------------	------------

**83 ARMOURED REGIMENT**

159	JC 239889W	RIS	JAIVIR SINGH	01-07-2010
160	JC 239844W	RIS	RAM KISHAN	01-07-2010
161	JC 242055P	RIS	SOLAN KUMAR	01-06-2010
162	JC 239766K	RIS	VINITT KUMAR	01-06-2010

**84 ARMOURED REGIMENT**

163	JC 240684N	RIS	DEBDUT DATTA	01-06-2010
164	JC 240685W	RIS	HARAN CHANDRA SAHA	01-06-2010
165	JC 240369X	RIS	INDRA MOHAN SAIKIA	01-04-2010
166	JC 240332W	RIS	JAI PARKASH SINGH	01-04-2010
167	JC 240216N	RIS	MD ANOWAR PASHA	01-04-2010

168	JC 240574Y	RIS	RABINDRA PRASAD SINGH	01-04-2010
169	JC 240588Y	RIS	RAM AWATR MOURYA	01-04-2010
<b><u>86 ARMoured REGIMENT</u></b>				
170	JC 239673P	RIS	INGOLE RAMESH BALIRAMJI	01-06-2010
171	JC 240473L	RIS	MAHARAJ SINGH	01-07-2010
172	JC 239675A	RIS	NAR SINGH PRASAD	01-06-2010
<b><u>87 ARMoured REGIMENT</u></b>				
173	JC 241604X	RIS	B P VENKATESWARA RAO	01-08-2010
174	JC 241451Y	RIS	BIPIN BIHARI THAKUR	01-05-2010
175	JC 241595F	RIS	RAM DARSHAN SINGH	01-06-2010
176	JC 241602M	RIS	SHYAMAL CHATTERJEE	01-06-2010
177	JC 241603P	RIS	UNNI KRISHNA PILLAI S	01-06-2010
<b><u>88 ARMoured REGIMENT</u></b>				
178	JC 241204L	RIS	DILIP KUMAR KAR	01-06-2010
179	JC 240702L	RIS	NEELA KANTH MIRAGI	01-06-2010
180	JC 240560Y	RIS	RAM BARAN	01-04-2010
181	JC 241199L	RIS	SURESH PRASAD	01-08-2010
182	JC 240548X	RIS	TAPESHWAR SINGH	01-04-2010
<b><u>89 ARMoured REGIMENT</u></b>				
183	JC 241273F	RIS	RAGHU NATH SINGH	01-04-2010
<b><u>90 ARMoured REGIMENT</u></b>				
184	JC 241662F	RIS	KHARAT NAND KUMAR YASHAWANT	01-05-2010
<b><u>41 ARMoured REGIMENT</u></b>				
185	JC 239906L	RIS	RAJENDER SINGH SAMANT	01-05-2010
<b><u>42 ARMoured REGIMENT</u></b>				
186	JC 240807P	RIS	AJIT SAIKIA	01-06-2010
187	JC 239995P	RIS	RAM PAL VARMA	01-05-2010
<b><u>43 ARMoured REGIMENT</u></b>				
188	JC 239633N	RIS	CHIRDE SHIVAJI PIRAJI	01-03-2010
189	JC 241379N	RIS	GULAB SHANKAR MORYA	01-05-2010
190	JC 239811L	RIS	RAM AVTAR SHARMA	01-08-2010
191	JC 241664M	RIS	RAM PAL	01-05-2010
192	JC 241384Y	RIS	S BRAJA GOPAL SINGHA	01-06-2010
193	JC 241530N	RIS	SUBHASH NAMDEO JAMNIK	01-04-2010
<b><u>44 ARMoured REGIMENT</u></b>				
194	JC 241153H	RIS	ANUP SINGH	01-04-2010
195	JC 240468A	RIS	ATCHI POLI REDDY	01-08-2010
196	JC 241514W	RIS	CHANDESHWAR SINGH	01-05-2010
197	JC 238522K	RIS	LALLAN PRASAD VISHWA KARMA	01-06-2010



198	JC 241584P	RIS	VIDYA RATNA DWIVEDI	01-04-2010
<b><u>46 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
199	JC 241219N	RIS	SURENDRA KUMAR	01-05-2010
<b><u>47 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
200	JC 241360P	RIS	JOGESH SINGH GAYARI	01-04-2010
201	JC 241320N	RIS	RAMAKANT	01-04-2010
202	JC 240899M	RIS	SIVA RAMA KRISHNA KATRA GADDA	01-04-2010
203	JC 241695M	RIS	VEERESH MAHARAJ PET	01-08-2010
<b><u>48 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
204	JC 240557Y	RIS	ARAVINDAKSHAN V	01-04-2010
205	JC 240907A	RIS	AWDHESH KUMAR SINGH	01-04-2010
206	JC 241426A	RIS	BINOY KRISHNA MEDHI	01-04-2010
207	JC 241253N	RIS	GHAN SHYAM	01-04-2010
208	JC 241726F	RIS	RAM ASHARE PRAJA PATI	01-08-2010
209	JC 240909L	RIS	RAM BHUWAN	01-04-2010
210	JC 238946A	RIS	RAMPAT	01-03-2010
<b><u>49 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
211	JC 240701H	RIS	AJAI	01-08-2010
212	JC 239401P	RIS	GAJANAN UTTAM RAO TARALE	01-06-2010
213	JC 239216F	RIS	MANIK CHANDRA KALITA	01-03-2010
214	JC 240660K	RIS	R JEYARAJ	01-08-2010
<b><u>5 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
215	JC 239443F	RIS	ASHWANI KUMAR TIWARI	01-05-2010
216	JC 240053L	RIS	GANGA DHARAN PK	01-07-2010
217	JC 240919P	RIS	JADAV SARMAH	01-08-2010
218	JC 240368P	RIS	K SANTHANAM	01-08-2010
219	JC 239399H	RIS	KISHAN LAL	01-04-2010
220	JC 239299X	RIS	KRISHNA PAL SINGH	01-04-2010
221	JC 240628P	RIS	RAJPUT RAMSINGH NARAYANSINGH	01-08-2010
222	JC 241073L	RIS	SACHIDA NAND PANDEY	01-08-2010
223	JC 240925H	RIS	SHAMSHER BAHADUR THAPA	01-08-2010
224	JC 240215L	RIS	VENKAPPA	01-07-2010
<b><u>6 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
225	JC 241322Y	RIS	PALA RAM	01-04-2010
<b><u>10 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
226	JC 238478L	RIS	KEMPAYYA MATHAPATI	01-06-2010
227	JC 241163M	RIS	RAM KISHOR	01-08-2010
228	JC 240672Y	RIS	RAM PATI RAM	01-04-2010
229	JC 240594M	RIS	RAVENDER SINGH	01-04-2010

**11 ARMOURED REGIMENT**

230	JC 239025M	RIS	ABDUL MALEQUE	01-04-2010
231	JC 239380K	RIS	SATBIR	01-04-2010

**12 ARMOURED REGIMENT**

232	JC 240421P	RIS	AKHILESWAR SINGH	01-04-2010
233	JC 240011Y	RIS	PHOOL SINGH	01-04-2010

**13 ARMOURED REGIMENT**

234	JC 238886W	RIS	KEMPANNA SATTEPPA SINDIHA	01-08-2010
235	JC 238534Y	RIS	KULWANT SINGH	01-04-2010
236	JC 239856L	RIS	RAM ANUJ SINGH	01-04-2010
237	JC 238898L	RIS	RANJIT SINGH	01-08-2010

**15 ARMOURED REGIMENT**

238	JC 239321X	RIS	DALJEET SINGH	01-05-2010
239	JC 239886H	RIS	LAL RAMESHWOR DEO	01-08-2010
240	JC 240033X	RIS	MUNNA KHAN	01-04-2010
241	JC 239320P	RIS	NAND RAM	01-05-2010
242	JC 239648W	RIS	NARESH PAL	01-06-2010
243	JC 240532M	RIS	NOOR JAMAN SK	01-05-2010
244	JC 239872H	RIS	SHAIK MAHMED IBRAHIM	01-06-2010

**19 ARMOURED REGIMENT**

245	JC 239697Y	RIS	BODDA AGISTI	01-06-2010
246	JC 239571Y	RIS	CHOKHE LAL	01-05-2010
247	JC 239703F	RIS	KARAMBIR SINGH	01-07-2010
248	JC 239223X	RIS	RAMAGAYA YADAV	01-04-2010

**50 ARMOURED REGIMENT**

249	JC 240567H	RIS	DAMOR BHURA BHAI SAMJI BHAI	01-08-2010
250	JC 241058W	RIS	KARTAR SINGH RANA	01-04-2010
251	JC 239381M	RIS	PARTAP SINGH	01-04-2010
252	JC 240631P	RIS	PRASANTA CHAKRABORTY	01-08-2010
253	JC 239262W	RIS	RAMESHWAR	01-04-2010
254	JC 240135N	RIS	RAVEENDRAN NAIR PS	01-04-2010

**51 ARMOURED REGIMENT**

255	JC 240137Y	RIS	HARBANS SINGH	01-04-2010
256	JC 239396P	RIS	NARENDRA SINGH	01-07-2010

**52 ARMOURED REGIMENT**

257	JC 240152N	RIS	MADAN LAL	01-08-2010
258	JC 239770M	RIS	RAM KISHORE	01-04-2010

**53 ARMOURED REGIMENT**

259	JC 240562K	RIS	BAL DEV SINGH	01-07-2010
-----	------------	-----	---------------	------------

260	JC 240552A	RIS	CHHITAR MAL	01-04-2010
261	JC 240410H	RIS	DAN SINGH	01-07-2010
262	JC 241226K	RIS	KRISHAN GOPAL TIWARI	01-08-2010
263	JC 239539K	RIS	MOHINDER PAL SINGH	01-06-2010
264	JC 240644M	RIS	SOM RAJ	01-07-2010

**ARMOURED CORPS**

265	JC 238617K	RIS	ASHOK KUMAR SHARMA	01-03-2010
266	JC 237607N	RIS	BISHWANATH RAM	01-03-2010
267	JC 240195H	RIS	CHAMAN SINGH	01-05-2010
268	JC 239924N	RIS	DINESH CHANDRA	01-08-2010
269	JC 239980M	RIS	DIWAN SINGH RAWAT	01-08-2010
270	JC 164323Y	RIS	DRINDER SINGH	01-02-2010
271	JC 240120L	RIS	ESHWARI PRASAD	01-06-2010
272	JC 241822W	RIS	HAWA SINGH	01-07-2010
273	JC 240163A	RIS	JAYANT KUMAR SAHOO	01-08-2010
274	JC 239415P	RIS	KALIKA DUTT UPADHAYA	01-07-2010
275	JC 240325A	RIS	KRISHAN KUMAR	01-04-2010
276	JC 239717F	RIS	LAKSHMINARAYANA ADAKA	01-03-2010
277	JC 240412N	RIS	MALKEET SINGH	01-04-2010
278	JC 240125K	RIS	MOHAN RAM KHILERI	01-07-2010
279	JC 240320F	RIS	NARESH PAL	01-07-2010
280	JC 239553W	RIS	RAJ KUMAR	01-02-2010
281	JC 237683A	RIS	RAM AVTAR CHAUDHARY	01-03-2010
282	JC 240695A	RIS	RAM BEER	01-04-2010
283	JC 239388W	RIS	RAN SINGH	01-02-2010
284	JC 240259H	RIS	RATUL CHANDRA BORTHAKUR	01-08-2010
285	JC 239981P	RIS	SELVARAJAN N	01-07-2010
286	JC 239238A	RIS	SONAVANE BALKRISHNA GOVINDA	01-04-2010
287	JC 239566N	RIS	SUKHWINDER SINGH	01-04-2010
288	JC 239413K	RIS	SUVENDRA SINGH SENGAR	01-07-2010
289	JC 239718K	RIS	VIJAYAN G	01-06-2010
290	JC 239760H	RIS	VIRENDER SINGH	01-07-2010
291	JC 239893Y	RIS	YOGRAJ RANA	01-04-2010

**REGIMENT OF ARTILLERY**

292	JC 265025K	SUB	A MURUGA RAJ	01-04-2010
293	JC 268225L	SUB	A NELSON	01-08-2010
294	JC 266111F	SUB	ABDUL MALEQUE	01-04-2010
295	JC 267734X	SUB	AJAIB SINGH	01-04-2010
296	JC 262727X	SUB	AJIT RAJ SHARMA	01-04-2010
297	JC 265835M	SUB	AJIT SINGH	01-06-2010
298	JC 265094A	SUB	AJOY KUMAR BASU	01-06-2010
299	JC 267349K	SUB	AKHILANAND CHATURVEDI	01-04-2010
300	JC 259973X	SUB	ALI HUSSAIN AHAMAD	01-02-2010
301	JC 266870F	SUB	AMAR BAHADUR	01-04-2010
302	JC 267129K	SUB	AMBESWAR GAYAN	01-07-2010
303	JC 267216X	SUB	AMRIK SINGH	01-05-2010

304	JC 267226F	SUB	ANOOP SINGH YADAV	01-07-2010
305	JC 262721W	SUB	ARUN KUMAR SHARMA	01-03-2010
306	JC 266992L	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2010
307	JC 268593A	SUB	ASHOK KUMAR	01-07-2010
308	JC 266817W	SUB	ASHOK KUMAR PAUL	01-06-2010
309	JC 265000X	SUB	ASHWANI KUMAR	01-06-2010
310	JC 266293A	SUB	ATMA RAM	01-04-2010
311	JC 266144M	SUB	AWADH BIHARI SINGH	01-06-2010
312	JC 266463Y	SUB	BABBAN SINGH	01-03-2010
313	JC 265382M	SUB	BABU LAL YADAV	01-02-2010
314	JC 262780H	SUB	BABU RAM	01-04-2010
315	JC 263955M	SUB	BABU SINGHA	01-07-2010
316	JC 267466Y	SUB	BAHADUR SINGH	01-07-2010
317	JC 266217N	SUB	BAL BAHADUR BASNET	01-07-2010
318	JC 266154W	SUB	BALBIR SINGH	01-04-2010
319	JC 266234N	SUB	BALBIR SINGH	01-03-2010
320	JC 267065K	SUB	BALBIR SINGH	01-02-2010
321	JC 267740L	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2010
322	JC 269918P	SUB	BALBIR SINGH	01-04-2010
323	JC 263804N	SUB	BALDEV SINGH	01-04-2010
324	JC 262704W	SUB	BALDEV SINGH JASWAL	01-03-2010
325	JC 266246H	SUB	BALI RAJ SINGH	01-04-2010
326	JC 266078P	SUB	BALKRISHAN SHARMA	01-06-2010
327	JC 264070K	SUB	BALRAM SINGH	01-08-2010
328	JC 266218W	SUB	BALWAN SINGH	01-08-2010
329	JC 269706K	SUB	BALWANT SINGH	01-04-2010
330	JC 257325W	SUB	BANKA RAM SHARMA	01-07-2010
331	JC 268464A	SUB	BARAHAM DUTT	01-04-2010
332	JC 266831H	SUB	BASAPPA KOUJALAGI	01-07-2010
333	JC 267855Y	SUB	BASAYYA MATHAPATI	01-07-2010
334	JC 266131P	SUB	BHAGIRATHI MAHARANA	01-07-2010
335	JC 266285F	SUB	BHANWAR SINGH	01-02-2010
336	JC 261206X	SUB	BHAPAKAR DINAKAR SADASHIW	01-02-2010
337	JC 268765K	SUB	BHASKARAN P	01-04-2010
338	JC 269235F	SUB	BHAWAR SINGH SHEKHAWAT	01-04-2010
339	JC 258575K	SUB	BHEEMA NAIK	01-04-2010
340	JC 269112P	SUB	BHOOP SINGH YADAV	01-06-2010
341	JC 260349L	SUB	BHUTESWAR DASH	01-05-2010
342	JC 262364Y	SUB	BIJENDRA PRASAD GIRI	01-08-2010
343	JC 255139P	SUB	BIKRAM SINGH	01-07-2010
344	JC 267642L	SUB	BIPIN SINGH	01-02-2010
345	JC 264551W	SUB	BIPLAB BHATTACHARJEE	01-04-2010
346	JC 264001N	SUB	BIR SINGH	01-04-2010
347	JC 265096L	SUB	BIR SINGH	01-07-2010
348	JC 266770W	SUB	BIR SINGH	01-03-2010
349	JC 269245L	SUB	BIRANDER SINGH BISHT	01-06-2010
350	JC 269583H	SUB	BIRENDRA NATH GHOSH	01-07-2010
351	JC 267247X	SUB	BIRENDRA SINGH	01-04-2010

352	JC 266994W	SUB	BISHAMBER SINGH RANA	01-04-2010
353	JC 267515W	SUB	BODH RAJ	01-04-2010
354	JC 261232Y	SUB	BRAHM CHAND	01-04-2010
355	JC 260257Y	SUB	BRAJ MOHAN	01-04-2010
356	JC 261781Y	SUB	BUDDHI NATH JHA	01-05-2010
357	JC 262877N	SUB	C NARAYANA REDDY	01-06-2010
358	JC 265561M	SUB	C RAMA KRISHNAN	01-06-2010
359	JC 269593M	SUB	CHAMKAUR SINGH	01-04-2010
360	JC 263707W	SUB	CHANDRA BHAN	01-03-2010
361	JC 265535L	SUB	CHANDRA BHAN YADAV	01-02-2010
362	JC 265695L	SUB	CHANDRA SEKHAR MISHRA	01-04-2010
363	JC 260759F	SUB	CHANDRAHAS SINGHA	01-04-2010
364	JC 262072A	SUB	CHATTAR SINGH	01-05-2010
365	JC 265037Y	SUB	CHOB SINGH	01-02-2010
366	JC 266219Y	SUB	CHUNI LAL	01-07-2010
367	JC 268681W	SUB	D SHANMUGAM	01-04-2010
368	JC 266540H	SUB	DAL BAHADUR CHETRY	01-08-2010
369	JC 266767W	SUB	DALBIR SINGH	01-04-2010
370	JC 266461N	SUB	DALEEP SINGH	01-07-2010
371	JC 264318H	SUB	DALIP KUMAR	01-05-2010
372	JC 266560W	SUB	DALIP KUMAR MANGAL	01-04-2010
373	JC 260973K	SUB	DARSHAN SINGH	01-07-2010
374	JC 259893A	SUB	DAYA NAND	01-05-2010
375	JC 257361F	SUB	DAYA RAM	01-08-2010
376	JC 267648M	SUB	DAYA RAM	01-02-2010
377	JC 259436M	SUB	DEOKARAN SINGH	01-07-2010
378	JC 264817X	SUB	DESAI DILIP SINHA SAKHARAM	01-02-2010
379	JC 262397K	SUB	DEV RAJ	01-02-2010
380	JC 269822M	SUB	DEVENDER KUMAR	01-06-2010
381	JC 260689N	SUB	DEVENDRA BAHADUR SINGH	01-07-2010
382	JC 266676M	SUB	DEVI SINGH	01-07-2010
383	JC 269439N	SUB	DEVINDER SINGH	01-04-2010
384	JC 267514N	SUB	DHANESH KUMAR TYAGI	01-02-2010
385	JC 267437K	SUB	DHARAM LAL SINGH	01-07-2010
386	JC 263861P	SUB	DHARANI DHAR DEKA	01-03-2010
387	JC 257688A	SUB	DHARMESWAR CHAMNA	01-04-2010
388	JC 259930H	SUB	DIL BAHADUR SINGH	01-08-2010
389	JC 265291H	SUB	DILBAG SINGH	01-03-2010
390	JC 267419F	SUB	DILIP KUMAR BHOWMIC	01-02-2010
391	JC 262710K	SUB	DILIP SALUNKHE	01-06-2010
392	JC 259223Y	SUB	DINA NATH	01-05-2010
393	JC 265562P	SUB	DINESH CHANDRA SHARMA	01-08-2010
394	JC 267594W	SUB	DINESH KUMAR	01-07-2010
395	JC 268133Y	SUB	DINESH KUMAR	01-05-2010
396	JC 263915L	SUB	FRANCIS ARUL DHANAPAL S	01-07-2010
397	JC 264986Y	SUB	G VARGHEESE	01-02-2010
398	JC 268390W	SUB	GADHAVE VASANT SAKHARAM	01-07-2010
399	JC 265290A	SUB	GAGAN CHANDRA DAS	01-02-2010

400	JC 267205L	SUB	GANGA PRASAD	01-03-2010
401	JC 266107Y	SUB	GARJAMAN RAI	01-03-2010
402	JC 266670L	SUB	GAURI SHANKAR RAY	01-02-2010
403	JC 267255W	SUB	GHANA KANTA GAYARI	01-04-2010
404	JC 267575L	SUB	GIRISH CHANDRA	01-06-2010
405	JC 264491M	SUB	GOKUL SINGH SHEKHAWAT	01-07-2010
406	JC 259514Y	SUB	GOLAPA CHANDRA NAIK	01-02-2010
407	JC 263934W	SUB	GOVERDHAN PRASAD	01-07-2010
408	JC 266836F	SUB	GULAB SINGH RATHORE	01-04-2010
409	JC 265960W	SUB	GURBACHAN SINGH	01-06-2010
410	JC 264645N	SUB	GURDEV SINGH	01-04-2010
411	JC 268060X	SUB	GURDIP SINGH	01-04-2010
412	JC 269759H	SUB	GURMEET SINGH	01-07-2010
413	JC 260377X	SUB	GURMEJ SINGH	01-04-2010
414	JC 269334K	SUB	GURNAM SINGH	01-05-2010
415	JC 264549Y	SUB	HANS RAJ VERMA	01-04-2010
416	JC 266534P	SUB	HANSHRAJ JAT	01-02-2010
417	JC 267612N	SUB	HAR CHAND	01-03-2010
418	JC 267812K	SUB	HARBANS SINGH	01-07-2010
419	JC 265610K	SUB	HARBIR SINGH	01-07-2010
420	JC 267645Y	SUB	HARBIR SINGH YADAV	01-06-2010
421	JC 260025A	SUB	HARI DASS KACHHI	01-03-2010
422	JC 265831W	SUB	HARI KISHAN	01-03-2010
423	JC 264140X	SUB	HARI NANDAN SHARMA	01-07-2010
424	JC 266346N	SUB	HARI NARAYANAN V	01-08-2010
425	JC 263413H	SUB	HARI NATH SINGH	01-04-2010
426	JC 267504K	SUB	HARI SINGH YADAV	01-08-2010
427	JC 266637N	SUB	HARISH CHANDER	01-05-2010
428	JC 266722W	SUB	HARNAM SINGH RANA	01-02-2010
429	JC 266110Y	SUB	HAZRAT ALI AHMED	01-04-2010
430	JC 268463X	SUB	HET RAM BISHNOI	01-04-2010
431	JC 267233X	SUB	HIMAL SINGH	01-03-2010
432	JC 266884F	SUB	HUBLAL TIWARI	01-07-2010
433	JC 266179H	SUB	INDER PARKASH	01-02-2010
434	JC 266175M	SUB	INDERJIT SINGH	01-05-2010
435	JC 268585F	SUB	INDRA PAL	01-04-2010
436	JC 266899K	SUB	IQBAL SINGH	01-07-2010
437	JC 269118W	SUB	IRAPPA WANNUR	01-07-2010
438	JC 265497A	SUB	ISHWAR	01-07-2010
439	JC 259159M	SUB	ISHWAR CHANDRA YADAV	01-02-2010
440	JC 263658Y	SUB	ISHWAR DASS SHARMA	01-04-2010
441	JC 267243F	SUB	JAGBHAN SINGH	01-07-2010
442	JC 265847F	SUB	JAGDEV	01-07-2010
443	JC 267119A	SUB	JAGDEV SINGH	01-07-2010
444	JC 264942F	SUB	JAGDISH SINGH	01-07-2010
445	JC 266957H	SUB	JAGIR SINGH	01-06-2010
446	JC 268213W	SUB	JAGJITAN THAKUR	01-04-2010
447	JC 267500N	SUB	JAGROOP SINGH	01-07-2010

448	JC 266788M	SUB	JAGTAR SINGH	01-04-2010
449	JC 268080L	SUB	JAGTAR SINGH	01-08-2010
450	JC 267907K	SUB	JAI KARAN BABU	01-04-2010
451	JC 269029X	SUB	JAI KISHORE JHA	01-04-2010
452	JC 255299F	SUB	JAI LAL	01-04-2010
453	JC 266345L	SUB	JAI SINGH	01-04-2010
454	JC 268808N	SUB	JAI SINGH	01-04-2010
455	JC 268729Y	SUB	JANGLI RAM	01-04-2010
456	JC 266061F	SUB	JANKAR SINGH	01-02-2010
457	JC 266233L	SUB	JASWANT SINGH YADAV	01-02-2010
458	JC 268494X	SUB	JAYARAM PRADHAN	01-04-2010
459	JC 266810M	SUB	JAYPAL YADAV	01-06-2010
460	JC 264967N	SUB	JEET SINGH	01-04-2010
461	JC 268076H	SUB	JEET SINGH	01-08-2010
462	JC 267141L	SUB	JOGINDER NATH	01-07-2010
463	JC 262713X	SUB	JOGINDER SINGH	01-04-2010
464	JC 269356H	SUB	K MAHABOOB SHA	01-08-2010
465	JC 266742K	SUB	KALIKA PRASAD YADAV	01-04-2010
466	JC 266703L	SUB	KALLA MAHA LAKSHMI	01-08-2010
467	JC 266194X	SUB	KALLAPPA DHAMNEKAR	01-05-2010
468	JC 270053A	SUB	KALYAN SINGH	01-05-2010
469	JC 260457P	SUB	KAMLESH CHANDRA SHUKLA	01-04-2010
470	JC 265484H	SUB	KANSHI RAM SUMAN	01-04-2010
471	JC 258183W	SUB	KANWAR SINGH	01-05-2010
472	JC 268043X	SUB	KARAN SINGH	01-06-2010
473	JC 268658H	SUB	KARJ SINGH	01-05-2010
474	JC 267230K	SUB	KARTAR CHAND	01-06-2010
475	JC 265435A	SUB	KASHMIR SINGH	01-04-2010
476	JC 266245A	SUB	KAUSHLINDER SINGH CHAUHAN	01-05-2010
477	JC 265459K	SUB	KHANDE BHAROD KANDABA BABURAO	01-04-2010
478	JC 269044M	SUB	KHEM RAJ	01-07-2010
479	JC 267630W	SUB	KHEM SINGH	01-08-2010
480	JC 265984A	SUB	KHOT SUKDEO DASHARATH	01-04-2010
481	JC 267123H	SUB	KIRPAL SINGH	01-07-2010
482	JC 267135X	SUB	KRISHAN LAL	01-08-2010
483	JC 267371Y	SUB	KRISHAN SINGH	01-06-2010
484	JC 267160W	SUB	KRISHANARAO PUNDLIKRAO SHINDE	01-05-2010
485	JC 264615W	SUB	KRISHNA PILLAI P C	01-04-2010
486	JC 263988X	SUB	KRISHNA SINGH PAL	01-06-2010
487	JC 266404M	SUB	KRISHNAN A	01-03-2010
488	JC 263144F	SUB	KRISHNAN KUTTY NAIR B	01-04-2010
489	JC 266497M	SUB	KULDIP SINGH	01-07-2010
490	JC 264572M	SUB	KULWANT SINGH	01-02-2010
491	JC 268148F	SUB	KUMAR SHIRKE PRATAP SHANKAR RAO	01-02-2010
492	JC 263886F	SUB	KUNDAN LAL	01-04-2010
493	JC 266183L	SUB	KUNJO BIHARI SINGHA	01-07-2010
494	JC 268280F	SUB	LAKHMAN SINGH	01-07-2010
495	JC 267576N	SUB	LAL CHAND	01-07-2010

496	JC 268066Y	SUB	LAXMAN SINGH	01-04-2010
497	JC 266909H	SUB	LAXMI NARAYAN	01-02-2010
498	JC 267237N	SUB	LILA KANTA NATH	01-05-2010
499	JC 260549F	SUB	LILA KISHAN	01-03-2010
500	JC 267954F	SUB	LILADHAR	01-06-2010
501	JC 267979N	SUB	LOHITHAKSHAN C K	01-05-2010
502	JC 265996P	SUB	M ANNAMALAI	01-08-2010
503	JC 266612F	SUB	M K PRADEEP KUMAR	01-03-2010
504	JC 265968H	SUB	M KALIDASS	01-06-2010
505	JC 268589X	SUB	M PACKIRI SAMY	01-05-2010
506	JC 264474M	SUB	M RAMA MURTHY	01-06-2010
507	JC 267545N	SUB	MADAN LAL	01-08-2010
508	JC 268563H	SUB	MADAN LAL	01-06-2010
509	JC 256476H	SUB	MADAN PAL SINGH	01-02-2010
510	JC 266570A	SUB	MADAPPA P S	01-06-2010
511	JC 264361K	SUB	MADHO SINGH RAJPUROHIT	01-07-2010
512	JC 265704F	SUB	MAHABIR SHARMA	01-03-2010
513	JC 266012Y	SUB	MAHADEV PATIL	01-07-2010
514	JC 263790Y	SUB	MAHADEV TUKARAM JAGDALE	01-04-2010
515	JC 266457L	SUB	MAHAVIR SINGH	01-03-2010
516	JC 270049X	SUB	MAHENDER SINGH	01-08-2010
517	JC 265708X	SUB	MAHENDRA NATH RAI	01-03-2010
518	JC 265369H	SUB	MAHENDRA SINGH	01-04-2010
519	JC 265992Y	SUB	MALKIT SINGH	01-04-2010
520	JC 266305K	SUB	MANAI RAM	01-06-2010
521	JC 267836N	SUB	MANE MURALIDHAR BHANUDAS	01-07-2010
522	JC 269434P	SUB	MANI NARAYAN PRADHAN	01-08-2010
523	JC 262209X	SUB	MANJIT SINGH	01-07-2010
524	JC 267390K	SUB	MANKAR WASUDEO RAMJI	01-08-2010
525	JC 268883X	SUB	MANOHAR LAL	01-08-2010
526	JC 261966A	SUB	MANOHAR PRASAD SINGH	01-07-2010
527	JC 266707F	SUB	MILAP CHAND	01-06-2010
528	JC 265287A	SUB	MILAP SINGH	01-06-2010
529	JC 265730H	SUB	MITHILESH KUMAR YADAV	01-02-2010
530	JC 267512H	SUB	MITHILESH KUMAR YAGIC	01-07-2010
531	JC 262870K	SUB	MITHILESH SINGH	01-02-2010
532	JC 266132X	SUB	MOHAN LAL	01-08-2010
533	JC 268759W	SUB	MOHAN LAL MEENA	01-04-2010
534	JC 260363X	SUB	MOHAN SINGH	01-02-2010
535	JC 267082K	SUB	MOHD-SAMI	01-06-2010
536	JC 264999W	SUB	MOHESWAR KONWAR	01-04-2010
537	JC 264681Y	SUB	MOHINDER SINGH	01-04-2010
538	JC 267830M	SUB	MOHINDER SINGH	01-06-2010
539	JC 267759K	SUB	MUNSHI KHAN	01-04-2010
540	JC 268855L	SUB	MURALEEDHARAN A	01-04-2010
541	JC 268661H	SUB	MUSAFIR RAM	01-03-2010
542	JC 257294F	SUB	MUTCHI GOPALA RAO	01-03-2010
543	JC 266295L	SUB	N GOPAL SWAMY	01-08-2010



544	JC 267443X	SUB	N SIVANANDAM	01-04-2010
545	JC 266959N	SUB	NAFE SINGH	01-07-2010
546	JC 265080A	SUB	NAGESH SINGH	01-04-2010
547	JC 268301M	SUB	NAIB SINGH	01-05-2010
548	JC 267940F	SUB	NAKUL CHANDRA GHOSH	01-04-2010
549	JC 267189Y	SUB	NAR SINGH	01-07-2010
550	JC 266462W	SUB	NARAIN SINGH	01-02-2010
551	JC 266601P	SUB	NARAYANAN K	01-04-2010
552	JC 269252F	SUB	NARENDRA PRASAD TIWARI	01-08-2010
553	JC 261200W	SUB	NARESH KUMAR	01-05-2010
554	JC 267615F	SUB	NARESH KUMAR	01-08-2010
555	JC 266559F	SUB	NARESH SINGH	01-04-2010
556	JC 267900A	SUB	NARINDER SINGH	01-03-2010
557	JC 268748K	SUB	NARINDER SINGH	01-04-2010
558	JC 265920P	SUB	NAWAB SINGH	01-08-2010
559	JC 265018N	SUB	NIHAL SINGH	01-07-2010
560	JC 263195P	SUB	NIRBIR SINGH	01-03-2010
561	JC 263730K	SUB	NIRMAL HAZRA	01-04-2010
562	JC 266141Y	SUB	NIRMAL SINGH	01-07-2010
563	JC 266748L	SUB	NIRMAL SINGH	01-06-2010
564	JC 264949L	SUB	NISHAN SINGH	01-06-2010
565	JC 267919Y	SUB	NOOKARAPU SANYASI NAIDU	01-04-2010
566	JC 268011P	SUB	NURUL HOQUE LASKAR	01-07-2010
567	JC 261532A	SUB	OM DUTT	01-08-2010
568	JC 263885Y	SUB	OM NATH	01-04-2010
569	JC 264035F	SUB	OM PRAKASH	01-05-2010
570	JC 266709M	SUB	OM PRAKASH	01-08-2010
571	JC 262379F	SUB	OM PRAKASH PANDEY	01-02-2010
572	JC 264137X	SUB	P GANESAN	01-08-2010
573	JC 268807L	SUB	P KASIVISWANADHAM	01-05-2010
574	JC 266995Y	SUB	P MARIAPPAN	01-04-2010
575	JC 266349F	SUB	P MOHANAN	01-03-2010
576	JC 265692X	SUB	P RANGA SAMY	01-02-2010
577	JC 265358W	SUB	PARAMJIT SINGH	01-05-2010
578	JC 268967L	SUB	PARMA NAND	01-04-2010
579	JC 267753H	SUB	PARNAM SINGH	01-04-2010
580	JC 268860W	SUB	PARTAP CHAND	01-08-2010
581	JC 264735P	SUB	PAWAR DEVIDAS DHONDIRAM	01-07-2010
582	JC 266853F	SUB	PN VELU	01-06-2010
583	JC 266533M	SUB	PRASANNA KUMAR S	01-05-2010
584	JC 266032M	SUB	PRATAP SINGH	01-03-2010
585	JC 266744P	SUB	PREM PAL SINGH	01-04-2010
586	JC 267384W	SUB	PREM SINGH RANA	01-04-2010
587	JC 264653M	SUB	PRITAM CHAND	01-04-2010
588	JC 267295X	SUB	PURAN CHAND	01-08-2010
589	JC 261253P	SUB	PURAN CHANDRA	01-03-2010
590	JC 266998M	SUB	PURAN SINGH	01-06-2010
591	JC 259552P	SUB	R BALA KRISHNAN	01-02-2010

592	JC 266347W	SUB	R VICTOR YESUDASAN	01-02-2010
593	JC 268663N	SUB	RADHA KRISHANAN NAIR	01-04-2010
594	JC 268078N	SUB	RADHAKRISHNAN V	01-07-2010
595	JC 149768N	SUB	RADHEY SHYAM PATHAK	01-03-2010
596	JC 265518L	SUB	RADHEY SHYAM SHARMA	01-07-2010
597	JC 268858X	SUB	RAJ HARASH	01-04-2010
598	JC 265155M	SUB	RAJ KARAN YADAV	01-06-2010
599	JC 264550N	SUB	RAJ KUMAR	01-04-2010
600	JC 266070H	SUB	RAJ KUMAR	01-04-2010
601	JC 267520F	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-04-2010
602	JC 266313H	SUB	RAJ NATH TIWARI	01-07-2010
603	JC 265253M	SUB	RAJA RAM YADAV	01-02-2010
604	JC 265278Y	SUB	RAJAPPAN C R	01-05-2010
605	JC 257324N	SUB	RAJBIR SINGH	01-04-2010
606	JC 265093X	SUB	RAJENDAR PRASAD YADAV	01-03-2010
607	JC 261514F	SUB	RAJENDRA SINGH	01-08-2010
608	JC 265646H	SUB	RAJENDRAN PILLAI M R	01-04-2010
609	JC 266185W	SUB	RAJESH KUMAR	01-04-2010
610	JC 268260N	SUB	RAJINDER KUMAR	01-04-2010
611	JC 267929H	SUB	RAJINDER SINGH	01-03-2010
612	JC 262911H	SUB	RAJPAL SINGH BHADAURIA	01-04-2010
613	JC 268571F	SUB	RAKESH KUMAR	01-04-2010
614	JC 268158L	SUB	RAKESH KUMAR UPADHYAYA	01-02-2010
615	JC 269154F	SUB	RAKESH PANDEY	01-04-2010
616	JC 265156P	SUB	RAM AVTAR SINGH	01-07-2010
617	JC 261408Y	SUB	RAM BAHADUR	01-06-2010
618	JC 263929L	SUB	RAM KARAN	01-04-2010
619	JC 265861N	SUB	RAM KISHAN	01-07-2010
620	JC 266855M	SUB	RAM KISHAN	01-04-2010
621	JC 266126K	SUB	RAM NANDAN KANOJIYA	01-04-2010
622	JC 269996M	SUB	RAM NATH	01-08-2010
623	JC 263967F	SUB	RAM NIWAS	01-07-2010
624	JC 266031K	SUB	RAM NIWAS	01-03-2010
625	JC 268527X	SUB	RAM NIWAS SINGH	01-04-2010
626	JC 266581M	SUB	RAM PHAL	01-04-2010
627	JC 268576A	SUB	RAM SEWAK	01-07-2010
628	JC 263308M	SUB	RAM SINGH	01-08-2010
629	JC 262881W	SUB	RAMAKANT RAM	01-07-2010
630	JC 266173F	SUB	RAMEHAR SINGH MALIK	01-04-2010
631	JC 263993H	SUB	RAMESH CHAND CHOUDHARY	01-02-2010
632	JC 264968W	SUB	RAMESH CHAND THAKUR	01-03-2010
633	JC 267656L	SUB	RAMESH KUMAR	01-08-2010
634	JC 263480N	SUB	RAMINDER SINGH	01-08-2010
635	JC 266257P	SUB	RAMVIR SINGH	01-04-2010
636	JC 260390F	SUB	RANDHIR SINGH	01-07-2010
637	JC 263610L	SUB	RANDHIR SINGH YADAV	01-04-2010
638	JC 267253L	SUB	RANJEET SINGH	01-07-2010
639	JC 263598P	SUB	RANJIT SINGH	01-07-2010

640	JC 268607P	SUB	RASH PAL SINGH	01-04-2010
641	JC 267883L	SUB	RATTAN RAM	01-08-2010
642	JC 266549X	SUB	RAVI SHANKER MISHRA	01-03-2010
643	JC 269237M	SUB	RAVINDRAN VK	01-04-2010
644	JC 266983K	SUB	RISHI KESH	01-04-2010
645	JC 257260N	SUB	RISHI PAL SINGH	01-04-2010
646	JC 266451K	SUB	ROHITAS YADAV	01-07-2010
647	JC 262729H	SUB	ROHITASHVA YADAV	01-04-2010
648	JC 267912P	SUB	ROMESH LAL SHARMA	01-07-2010
649	JC 266964Y	SUB	ROOP CHAND YADAV	01-07-2010
650	JC 269708P	SUB	ROOP LAL	01-04-2010
651	JC 266247L	SUB	ROSHAN LAL	01-03-2010
652	JC 268014H	SUB	S ANTHONY CRUSE	01-07-2010
653	JC 266557N	SUB	SACHIDANAND PANDEY	01-06-2010
654	JC 266572L	SUB	SADHU RAM	01-04-2010
655	JC 268332M	SUB	SANGRAM SINGH	01-07-2010
656	JC 266745X	SUB	SANKARAN K	01-07-2010
657	JC 261882M	SUB	SANTOSH KUMAR SINGH	01-08-2010
658	JC 260255N	SUB	SANTOSH KUMAR TYAGI	01-05-2010
659	JC 266822F	SUB	SARDAR SINGH SHEKHAWAT	01-07-2010
660	JC 266062K	SUB	SARWAN SINGH	01-03-2010
661	JC 267162F	SUB	SATNAM SINGH	01-08-2010
662	JC 267104X	SUB	SATPAL SINGH	01-08-2010
663	JC 267408P	SUB	SATYA NATH BHUMIZ	01-08-2010
664	JC 267586X	SUB	SHAIK MAHABU SUBHANI	01-04-2010
665	JC 267911M	SUB	SHAJI P K	01-07-2010
666	JC 263709F	SUB	SHASHI PAL BHANGALIA	01-05-2010
667	JC 266262A	SUB	SHEESH RAM	01-02-2010
668	JC 261785P	SUB	SHIO MUNI DWIVEDI	01-07-2010
669	JC 268183K	SUB	SHIROMANI SINGH	01-04-2010
670	JC 263532Y	SUB	SHIV BAHADUR	01-04-2010
671	JC 263860M	SUB	SHIV CHARAN SINGH	01-03-2010
672	JC 268634Y	SUB	SHIV KUMAR CHATURVEDI	01-07-2010
673	JC 269085W	SUB	SHIV NARAIN SINGH	01-04-2010
674	JC 267522M	SUB	SHIV RAJ SINGH	01-03-2010
675	JC 262446F	SUB	SHIV SHANKER BHARDWAJ	01-05-2010
676	JC 260300P	SUB	SHIVBHAN SINGH	01-02-2010
677	JC 268659L	SUB	SHIVNATH SINGH	01-04-2010
678	JC 268884A	SUB	SHIYORAMA RAM	01-06-2010
679	JC 267725W	SUB	SHRI BHAGWAN YADAV	01-05-2010
680	JC 266658K	SUB	SHRI KEWAL SINGH YADAV	01-07-2010
681	JC 266692K	SUB	SIDDAVEERAPPA	01-04-2010
682	JC 262934K	SUB	SIDH NATH DUBEY	01-03-2010
683	JC 264559H	SUB	SIMON P P	01-08-2010
684	JC 269414F	SUB	SIVADASAN C	01-04-2010
685	JC 266640N	SUB	SOBARAN SINGH	01-03-2010
686	JC 267047F	SUB	SOHAN SINGH RATHORE	01-03-2010
687	JC 267231M	SUB	SOMAN K	01-08-2010

688	JC 265715N	SUB	SOMAN P K	01-04-2010
689	JC 268291N	SUB	SOMRAJ SINGH	01-02-2010
690	JC 265735F	SUB	SUBBE GOWDA	01-04-2010
691	JC 266930L	SUB	SUBE SINGH	01-07-2010
692	JC 264724H	SUB	SUKH RAM SINGH	01-06-2010
693	JC 265099Y	SUB	SUKHDEV SINGH	01-03-2010
694	JC 267086A	SUB	SUKHWINDER SINGH	01-06-2010
695	JC 268859F	SUB	SUKHWINDER SINGH	01-04-2010
696	JC 262543Y	SUB	SUKUMAR SARKAR	01-07-2010
697	JC 267555L	SUB	SULAKHAN SINGH	01-06-2010
698	JC 266390X	SUB	SUMER SINGH	01-03-2010
699	JC 262193X	SUB	SUMIT NARAYAN	01-03-2010
700	JC 268603Y	SUB	SUNIL KUMAR	01-05-2010
701	JC 263059Y	SUB	SUNIT CHAND MANHAS	01-04-2010
702	JC 268270X	SUB	SURA GURUVA REDDY	01-06-2010
703	JC 264751M	SUB	SURAJ MAL	01-04-2010
704	JC 264108H	SUB	SURENDER SINGH	01-04-2010
705	JC 262738K	SUB	SURENDRA PAL SINGH	01-04-2010
706	JC 261894F	SUB	SURESH CHANDRA	01-04-2010
707	JC 266432Y	SUB	SURESH KUMAR	01-02-2010
708	JC 829012Y	SUB	SURESH KUMAR R	01-04-2010
709	JC 266380N	SUB	SURJAN SINGH	01-04-2010
710	JC 265301F	SUB	SURJIT SINGH	01-06-2010
711	JC 269005N	SUB	SURJIT SINGH	01-04-2010
712	JC 266176P	SUB	SURYA KUMAR	01-02-2010
713	JC 268735M	SUB	SUSHIL CHANDER SHARMA	01-02-2010
714	JC 261217K	SUB	SUSHIL KUMAR AWASTHI	01-04-2010
715	JC 270498M	SUB	SUSHIL KUMAR SINGH	01-04-2010
716	JC 265331Y	SUB	SWARAN SINGH	01-07-2010
717	JC 257976M	SUB	SWARN SINGH	01-06-2010
718	JC 265998A	SUB	TARA DAS GANGULY	01-06-2010
719	JC 267566K	SUB	THOMACHAN V J	01-08-2010
720	JC 266108F	SUB	TRILOK BHARDWAJ	01-03-2010
721	JC 269164L	SUB	TRILOK SINGH	01-05-2010
722	JC 265693A	SUB	TULSI DASS RAINA	01-03-2010
723	JC 264907Y	SUB	TUN TUN MISHRA	01-03-2010
724	JC 269326L	SUB	UDAI CHANDR	01-04-2010
725	JC 259949F	SUB	UMA KANT	01-03-2010
726	JC 267472M	SUB	UMA SHANKER PRASAD	01-07-2010
727	JC 264779M	SUB	UMESH SHARMA	01-02-2010
728	JC 267138L	SUB	UNNI KRISHNAN K	01-04-2010
729	JC 268352A	SUB	UNNIKANNAN T K	01-04-2010
730	JC 265956N	SUB	UNNIKRISHNAN K K	01-04-2010
731	JC 267697P	SUB	V DURAI SWAMY	01-07-2010
732	JC 266100P	SUB	VAJIR SINGH	01-06-2010
733	JC 263865L	SUB	VASUDEVAN N	01-04-2010
734	JC 267376X	SUB	VAVACHAN B	01-07-2010
735	JC 268283P	SUB	VENKATESWARA RAO V	01-04-2010

736	JC 269855X	SUB	VENUGOPAL S	01-04-2010
737	JC 265637F	SUB	VIJAY SHANKAR MISHRA	01-03-2010
738	JC 268730N	SUB	VIJAY SINGH	01-07-2010
739	JC 265888L	SUB	VINCENT M	01-02-2010
740	JC 269114A	SUB	VIR PAL	01-07-2010
741	JC 265934P	SUB	VIRENDRA PAL SINGH	01-02-2010
742	JC 268689L	SUB	VIRENDRA PRASAD RAY	01-06-2010
743	JC 268536Y	SUB	VIRODULA SURYANARAYANA	01-05-2010
744	JC 267329A	SUB	VIRPAL SINGH	01-02-2010
745	JC 260402L	SUB	VISWANADHAN M P	01-02-2010
746	JC 266462K	SUB	WAZIR SINGH	01-04-2010
747	JC 267766A	SUB	YADAV JALINDER PARVATI	01-07-2010
748	JC 266216L	SUB	YAGYA DATT	01-04-2010
749	JC 264242N	SUB	YALLAPPA KAMATAGI	01-07-2010
750	JC 265065L	SUB	YATINDRA NATH	01-03-2010

**ARMY AIR DEFENCE**

751	JC 298406L	SUB	A VENKATESWARA REDDY	01-04-2010
752	JC 298255X	SUB	AJIT SINGH	01-07-2010
753	JC 298466A	SUB	ANAND PERKASH SINGH MALIK	01-08-2010
754	JC 297257W	SUB	ANAND SINGH MALIK	01-05-2010
755	JC 298311L	SUB	ANAND SWAROOP GARG	01-07-2010
756	JC 298280W	SUB	ARJUN SINGH	01-04-2010
757	JC 299137W	SUB	ARUN KUMAR TIWARI	01-05-2010
758	JC 298173P	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2010
759	JC 297050W	SUB	ASHOK KUMAR GHOSH	01-05-2010
760	JC 298028X	SUB	ASHOK KUMAR NAIN	01-04-2010
761	JC 298037Y	SUB	ASHOKAN K	01-05-2010
762	JC 296278A	SUB	BAKSHI RAM	01-02-2010
763	JC 298438N	SUB	BALVINDER KUMAR	01-04-2010
764	JC 297136P	SUB	BALWINDER SINGH	01-07-2010
765	JC 296604X	SUB	BANSHIDAR YADAV	01-07-2010
766	JC 298185K	SUB	BASDEV SHARMA	01-08-2010
767	JC 297721P	SUB	BEER SINGH	01-08-2010
768	JC 298713H	SUB	BHOJA RAM YADAV	01-06-2010
769	JC 297910Y	SUB	BHOOP SINGH	01-03-2010
770	JC 298982P	SUB	BHUPENDRA NATH SINGH	01-06-2010
771	JC 299131F	SUB	BIRENDRA SINGH	01-07-2010
772	JC 299157K	SUB	BRAHM DEO PRASAD SINGH	01-02-2010
773	JC 299230X	SUB	BRIJESH KUMAR	01-08-2010
774	JC 299210K	SUB	BUDDHI PRAKASH VARMA	01-04-2010
775	JC 298842H	SUB	BUDH SINGH	01-06-2010
776	JC 298864F	SUB	C MAGA VISHNU	01-04-2010
777	JC 298781W	SUB	CHANDAN SINGH	01-04-2010
778	JC 297900P	SUB	CHANDRAJEET RAM	01-07-2010
779	JC 296100K	SUB	CHIRANJI LAL	01-06-2010
780	JC 297031L	SUB	DALBIR SINGH	01-07-2010
781	JC 299329N	SUB	DALIP SINGH	01-08-2010

782	JC 298608M	SUB	DALJIT SINGH	01-07-2010
783	JC 299381W	SUB	DASRATH SINGH YADAV	01-04-2010
784	JC 298509K	SUB	DEVENDER SINGH	01-07-2010
785	JC 299836F	SUB	DHIRENDER KUMAR SINGH	01-06-2010
786	JC 297623P	SUB	DHUM SINGH	01-07-2010
787	JC 297037M	SUB	DINESH SINGH	01-06-2010
788	JC 256337Y	SUB	DINESH SINGH RAWAT	01-08-2010
789	JC 298333K	SUB	DIVAKARAN PS	01-07-2010
790	JC 298616L	SUB	ESHAWANT	01-08-2010
791	JC 298314Y	SUB	G ELANGOVAN	01-04-2010
792	JC 298721F	SUB	GAJANANDA XIRASAGAR	01-07-2010
793	JC 297629W	SUB	GANESAN S	01-07-2010
794	JC 297486F	SUB	GANGA RAM	01-02-2010
795	JC 298968H	SUB	GANGADHAR MOWAR	01-04-2010
796	JC 297394P	SUB	GHANSHYAM	01-07-2010
797	JC 298374N	SUB	GHANSHYAM LAL MEENA	01-08-2010
798	JC 297732F	SUB	GOPI NATHAN K S	01-03-2010
799	JC 297618K	SUB	HARAK SINGH SHAH	01-04-2010
800	JC 297297X	SUB	HARI SINGH	01-05-2010
801	JC 298252K	SUB	HARI SINGH	01-03-2010
802	JC 297733K	SUB	HEM RAJ	01-04-2010
803	JC 298298M	SUB	HIMMAT SINGH	01-04-2010
804	JC 297529L	SUB	INDER SAIN	01-08-2010
805	JC 215375A	SUB	ISHWAR DASS	01-04-2010
806	JC 298662A	SUB	JADHAV TANAJI CHIMANRAO	01-07-2010
807	JC 297953N	SUB	JAGDISH RAJ	01-07-2010
808	JC 298836P	SUB	JAMES KUTTY V V	01-07-2010
809	JC 299067H	SUB	JANAK RAJ	01-04-2010
810	JC 298403X	SUB	JASWANT SINGH	01-07-2010
811	JC 298304P	SUB	JOY DEV DAS	01-04-2010
812	JC 298358W	SUB	JUGENDER SINGH	01-08-2010
813	JC 298642M	SUB	K MAHENDRAN	01-08-2010
814	JC 297751M	SUB	KADHARE MAGAN NAGO	01-06-2010
815	JC 296910M	SUB	KAMALA NATHAN C	01-07-2010
816	JC 298225A	SUB	KAMLESHWAR SINGH	01-07-2010
817	JC 297784X	SUB	KAPOOR SINGH	01-04-2010
818	JC 297049F	SUB	KARAM CHAND	01-04-2010
819	JC 297773L	SUB	KEDAR NATH DWIVEDI	01-07-2010
820	JC 298629H	SUB	KEWAL SINGH NARANIA	01-07-2010
821	JC 256740L	SUB	KIRAT PAL	01-04-2010
822	JC 296088N	SUB	KISHORI LAL	01-06-2010
823	JC 299152L	SUB	KRISHAN LAL	01-08-2010
824	JC 299339X	SUB	LAL SINGH	01-04-2010
825	JC 296847H	SUB	LAXMI PRASAD KUSHWAHA	01-06-2010
826	JC 296231P	SUB	MADAN LAL	01-06-2010
827	JC 298139P	SUB	MADHU SUDAN BEHERA	01-04-2010
828	JC 298230L	SUB	MAHABIR SINGH	01-04-2010
829	JC 299141Y	SUB	MAHESH SAHNI	01-06-2010

830	JC 296420Y	SUB	MALLAPPA GANACHARI	01-07-2010
831	JC 297952L	SUB	MD JAHID ALI	01-08-2010
832	JC 298558M	SUB	MOHINDER SINGH	01-07-2010
833	JC 298285P	SUB	MORE BHIM RAO BHAUDU	01-05-2010
834	JC 297852A	SUB	MUNDHE RAMKISAN SANDIPAN	01-03-2010
835	JC 298258L	SUB	NAGENDRA SINGH	01-07-2010
836	JC 298494M	SUB	NARAIN SINGH SHARMA	01-05-2010
837	JC 299186Y	SUB	NIRANJAN SAIKIA	01-07-2010
838	JC 297828K	SUB	OM PARKASH	01-05-2010
839	JC 298852M	SUB	OM PARKASH SHARMA	01-07-2010
840	JC 298813N	SUB	OM PRAKASH	01-05-2010
841	JC 298654F	SUB	P VEERASEKARAN	01-02-2010
842	JC 298776L	SUB	PATEL BABU BHAI HIRAJI	01-05-2010
843	JC 258884M	SUB	PAWAR VILASRAO RAMCHANDRA	01-04-2010
844	JC 298325L	SUB	PRABHU	01-04-2010
845	JC 298353X	SUB	PRAKASH PB	01-07-2010
846	JC 297491M	SUB	PRAMOD KUMAR SINGH	01-07-2010
847	JC 298701N	SUB	PREM SINGH	01-04-2010
848	JC 299021A	SUB	RADHA KRISHAN	01-08-2010
849	JC 298860L	SUB	RAGHBIR SINGH	01-07-2010
850	JC 297056X	SUB	RAJBIR SINGH	01-02-2010
851	JC 298628A	SUB	RAJBIR SINGH	01-06-2010
852	JC 297807N	SUB	RAJENDIRAN T	01-06-2010
853	JC 298693A	SUB	RAJENDRA PRATAP SINGH	01-04-2010
854	JC 297457M	SUB	RAJENDRA SINGH	01-03-2010
855	JC 298557K	SUB	RAJESH KUMAR	01-04-2010
856	JC 297848X	SUB	RAJNATH SHARMA	01-02-2010
857	JC 296853W	SUB	RAJPAL SINGH	01-08-2010
858	JC 299109K	SUB	RAKESH BABU GUPTA	01-08-2010
859	JC 298428K	SUB	RAM BACHAN RAM	01-04-2010
860	JC 298589M	SUB	RAM DARASH RAM	01-07-2010
861	JC 296913A	SUB	RAM DARESH MAHTO	01-07-2010
862	JC 296671H	SUB	RAM KISHAN SHARMA	01-04-2010
863	JC 298399A	SUB	RAM KUMAR	01-07-2010
864	JC 296460A	SUB	RAM PAL	01-04-2010
865	JC 297855N	SUB	RAM SURAT	01-06-2010
866	JC 298355H	SUB	RAMBIR SINGH	01-07-2010
867	JC 298524Y	SUB	RAMDEEN RAM	01-07-2010
868	JC 297745Y	SUB	RAMESH CHAND	01-07-2010
869	JC 298361W	SUB	RAMESH CHANDER	01-07-2010
870	JC 256733P	SUB	RAMESH CHANDER SINGH	01-07-2010
871	JC 297321H	SUB	RAMESH CHANDRA	01-07-2010
872	JC 297811W	SUB	RAMJI RAM	01-08-2010
873	JC 297643H	SUB	RANBIR SINGH	01-04-2010
874	JC 298042K	SUB	RATTAN LAL	01-07-2010
875	JC 297678Y	SUB	RAVINDER MOHAN BHATT	01-08-2010
876	JC 298744H	SUB	SADASIVAN CHERIA PARAMBATH	01-07-2010
877	JC 299074Y	SUB	SAHAB SINGH	01-07-2010

878	JC 298215W	SUB	SAJAN KUMAR SINGH	01-04-2010
879	JC 299533M	SUB	SAMPATH KUMAR K	01-08-2010
880	JC 298443Y	SUB	SATBIR	01-07-2010
881	JC 299383F	SUB	SATBIR SINGH	01-04-2010
882	JC 297411K	SUB	SATYAVIR SINGH	01-07-2010
883	JC 298807A	SUB	SATYAVIR SINGH	01-07-2010
884	JC 299001M	SUB	SHIV NATH BHARTI	01-06-2010
885	JC 298299P	SUB	SHRI NARAYAN MANDAL	01-07-2010
886	JC 297427P	SUB	SHRI NARINDER PAL	01-02-2010
887	JC 298831W	SUB	SHRI SINGH YADAV	01-07-2010
888	JC 296659F	SUB	SHYAM NATH CHOUBEY	01-08-2010
889	JC 298957W	SUB	SHYAM SINGH	01-07-2010
890	JC 299480Y	SUB	SIVAPRAKASAN PILLAI T	01-07-2010
891	JC 297962P	SUB	SOM DATT SHARMA	01-06-2010
892	JC 296587H	SUB	SOMANADHAN NAIR B	01-04-2010
893	JC 297822H	SUB	SUBRATA KONER	01-04-2010
894	JC 298621W	SUB	SUKHDEV SINGH	01-04-2010
895	JC 298006Y	SUB	SUKHENDRA PRASAD	01-07-2010
896	JC 298368A	SUB	SUNDARESAN B	01-05-2010
897	JC 297467W	SUB	SUNDER SINGH	01-07-2010
898	JC 298729N	SUB	SUNIL KUMAR KOTTAKKANDI	01-04-2010
899	JC 297258Y	SUB	TABIBUR RAHMAN	01-06-2010
900	JC 299177X	SUB	TARA CHAND	01-04-2010
901	JC 298440L	SUB	THULA SEEDHARAN PILLAI B	01-04-2010
902	JC 297320A	SUB	TIKA RAM	01-06-2010
903	JC 296914H	SUB	UDAIVIR SINGH	01-04-2010
904	JC 298386H	SUB	UTTAM KUMAR DE	01-04-2010
905	JC 299279N	SUB	VASUDEVAN B	01-06-2010
906	JC 298010F	SUB	VISHWANATH SINGH	01-06-2010

**MADRAS ENGINEER GROUP**

907	JC 307558W	SUB	A DASARATHAN	01-02-2010
908	JC 307221N	SUB	A VELAUDHAN	01-02-2010
909	JC 305384H	SUB	ANDREW BOBOLA CL	01-02-2010
910	JC 307735L	SUB	ANTONY KV	01-04-2010
911	JC 308027L	SUB	AREY VEERA REDDY	01-04-2010
912	JC 306943N	SUB	ASOKAN K V	01-05-2010
913	JC 307514Y	SUB	AYYASAMI M	01-08-2010
914	JC 307323K	SUB	BABU RAJAN A	01-04-2010
915	JC 308441K	SUB	BABU V V	01-06-2010
916	JC 306428F	SUB	BADIGER VITTAL	01-05-2010
917	JC 307831A	SUB	BALAKRISHNA KURUP P	01-04-2010
918	JC 307551M	SUB	BHIMAPPA UPPAR	01-05-2010
919	JC 305997H	SUB	BOJAPPA MC	01-02-2010
920	JC 306648L	SUB	C NAGARAJ	01-05-2010
921	JC 307987X	SUB	CHANDRAN K	01-04-2010
922	JC 307971M	SUB	CHENGAPPA C K	01-04-2010
923	JC 307686N	SUB	D ELLAPPAN	01-05-2010



924	JC 307955P	SUB	D JAYAKUMAR	01-07-2010
925	JC 305556M	SUB	DAYANAND BHAVIKHATTI	01-08-2010
926	JC 307982Y	SUB	DHARMARAJ M	01-06-2010
927	JC 307729X	SUB	DHASARADHAN U	01-05-2010
928	JC 307351W	SUB	G CHANDRAN	01-06-2010
929	JC 307767N	SUB	G MAHENDIRAN	01-04-2010
930	JC 308094W	SUB	G MANICKAM	01-06-2010
931	JC 307835W	SUB	G MANOGARAN	01-06-2010
932	JC 307640L	SUB	G NARAYANAPPA	01-05-2010
933	JC 308008A	SUB	G SURYA KUMAR	01-04-2010
934	JC 307578K	SUB	GANESAN P	01-05-2010
935	JC 307057W	SUB	GANGADHARAN K	01-07-2010
936	JC 307150X	SUB	GOVIND	01-05-2010
937	JC 305834P	SUB	GOVINDASAMY S	01-05-2010
938	JC 305724A	SUB	IQBAL AHEMAD MAKANDAR	01-07-2010
939	JC 308030L	SUB	JACOB TT	01-04-2010
940	JC 307926A	SUB	JOHNSON PJ	01-04-2010
941	JC 307226M	SUB	JOSEPH M T	01-06-2010
942	JC 306684W	SUB	K CHELLAPPAN PILLAI	01-05-2010
943	JC 308321L	SUB	K GIRI	01-06-2010
944	JC 307978W	SUB	K GOPAL	01-06-2010
945	JC 307223Y	SUB	K LOGAN	01-05-2010
946	JC 305309Y	SUB	K RAJENDRAN	01-04-2010
947	JC 307518P	SUB	M ALBERT	01-05-2010
948	JC 307728P	SUB	M ARUNACHALA REDDY	01-05-2010
949	JC 307505X	SUB	M ELUMALAI	01-04-2010
950	JC 308220X	SUB	M SAMPATH	01-06-2010
951	JC 307765H	SUB	M SARANGAPANI	01-03-2010
952	JC 307953K	SUB	MADHUSUDANA R D	01-05-2010
953	JC 305567Y	SUB	MAKKARU C M	01-02-2010
954	JC 307143F	SUB	MOHANAN C	01-02-2010
955	JC 307574N	SUB	MURALEEDHARAN PILLAI G	01-07-2010
956	JC 307513W	SUB	MURUGESAN A	01-06-2010
957	JC 308093N	SUB	P VENKITESAN	01-06-2010
958	JC 307659K	SUB	PACKIAM	01-02-2010
959	JC 305619K	SUB	PADMA KUMAR S	01-06-2010
960	JC 307974A	SUB	PHILIPOSE T	01-04-2010
961	JC 306799K	SUB	PURUSHAN PV	01-02-2010
962	JC 307342P	SUB	R MOORTHY	01-05-2010
963	JC 307437P	SUB	R RAJENDRAN	01-04-2010
964	JC 305334X	SUB	RADHAKRISHNAN K	01-08-2010
965	JC 307783L	SUB	RAGHU KUMAR CR	01-08-2010
966	JC 307510H	SUB	RAJAN K	01-02-2010
967	JC 306649N	SUB	RAJAN PUTHUKKUDI	01-03-2010
968	JC 307766L	SUB	RAJAPPAN	01-04-2010
969	JC 307486X	SUB	RAJENDRAN M	01-04-2010
970	JC 307730M	SUB	S DINAKARAN	01-05-2010
971	JC 308411M	SUB	S MALAICHAMY	01-06-2010

972	JC 305787H	SUB	S SUBBIAH	01-04-2010
973	JC 307247H	SUB	SADANANDAN P	01-04-2010
974	JC 307627F	SUB	SAMUEL K	01-02-2010
975	JC 306915F	SUB	SANTHANAM K	01-04-2010
976	JC 307350N	SUB	SATHEESAN U M	01-05-2010
977	JC 305499W	SUB	SHAIK ABDUL KHADER	01-02-2010
978	JC 306750N	SUB	SHAIK SUBBANI	01-02-2010
979	JC 307444L	SUB	SHALI MD	01-04-2010
980	JC 307660Y	SUB	SIVANANDAM A	01-04-2010
981	JC 308028N	SUB	SIVAPRAKASAM P	01-04-2010
982	JC 307353F	SUB	SOPAN DHOLE	01-08-2010
983	JC 305858Y	SUB	SREEDHARAN THOROTH	01-04-2010
984	JC 307195X	SUB	SUDHAKARAN PILLAI R	01-02-2010
985	JC 307929N	SUB	SUNDARAN K	01-04-2010
986	JC 307854F	SUB	SUNDARESAN V	01-05-2010
987	JC 305324N	SUB	TIRUPATA RAO YENUMULA	01-05-2010
988	JC 307093F	SUB	UTHAMAN KP	01-03-2010
989	JC 306860H	SUB	V MOORTHY	01-05-2010
990	JC 307603X	SUB	V ULAGANATHAN	01-04-2010
991	JC 307396W	SUB	VENUGOPALAN C	01-07-2010
992	JC 305500A	SUB	VIJAYA KRISHNAN K	01-02-2010
993	JC 307602P	SUB	VIJAYAN AV	01-04-2010
994	JC 305913K	SUB	VIJAYAN PR	01-06-2010
995	JC 307338M	SUB	VM SUBRAMANYAM	01-02-2010

**BENGAL ENGINEER GROUP**

996	JC 327316P	SUB	AJITHAKUMAR R	01-07-2010
997	JC 328773P	SUB	AMAR SINGH	01-04-2010
998	JC 159417M	SUB	AMARJIT SINGH BUTTAR	01-04-2010
999	JC 328554N	SUB	AMBRISH KUMAR SINGH	01-04-2010
1000	JC 329161K	SUB	AMRESH KUMAR JHA	01-06-2010
1001	JC 328644P	SUB	ANAND SINGH	01-05-2010
1002	JC 325870F	SUB	ANAND SINGH KHATRI	01-03-2010
1003	JC 329005A	SUB	ANANT KUMAR	01-06-2010
1004	JC 328962Y	SUB	ARUN KUMAR CHAUDHARY	01-07-2010
1005	JC 325523H	SUB	ASISBARAN KOLYA	01-02-2010
1006	JC 126977Y	SUB	B B CHANDRAN	01-04-2010
1007	JC 330356F	SUB	BABU RAM GUPTA	01-02-2010
1008	JC 328808A	SUB	BAJRANG NANDAN KUMAR	01-07-2010
1009	JC 328643M	SUB	BALBIR SINGH	01-05-2010
1010	JC 328693X	SUB	BALBIR SINGH	01-05-2010
1011	JC 328335M	SUB	BALKAR SINGH	01-02-2010
1012	JC 330671X	SUB	BASANT BALLABH BHATT	01-08-2010
1013	JC 328910H	SUB	BASANT KUMAR SAHANI	01-02-2010
1014	JC 328586W	SUB	BHARAT SINGH	01-04-2010
1015	JC 328912N	SUB	BHARPUR SINGH	01-02-2010
1016	JC 329041L	SUB	BHIM BAHADUR THAPA	01-06-2010
1017	JC 329043W	SUB	BHISHMA NARAYAN SINGH	01-08-2010

1018	JC 328959Y	SUB	BHUPENDER SINGH	01-03-2010
1019	JC 325741F	SUB	BHUWAN CHANDRA JOSHI	01-03-2010
1020	JC 328924H	SUB	BIJAYA KUMAR BEHERA	01-02-2010
1021	JC 329293X	SUB	BINODA NAND JHA	01-07-2010
1022	JC 328830L	SUB	BIR BAHADUR SINGH	01-04-2010
1023	JC 328854P	SUB	BIRBAL SINGH	01-04-2010
1024	JC 328928Y	SUB	BISHNU KUMAR SINGH	01-03-2010
1025	JC 328919X	SUB	DARSHAN SINGH	01-06-2010
1026	JC 329038L	SUB	DEEP CHAND	01-06-2010
1027	JC 328016A	SUB	DESH RAM	01-03-2010
1028	JC 325604H	SUB	DEV RAJ SHARMA	01-02-2010
1029	JC 326148P	SUB	DEVENDRA SINGH	01-02-2010
1030	JC 327200Y	SUB	DHAN SINGH DASILA	01-02-2010
1031	JC 327882P	SUB	DINESH KUMAR	01-02-2010
1032	JC 328913W	SUB	DINESH KUMAR NAMDEV	01-02-2010
1033	JC 327787H	SUB	EAKNATH PANDU RANG SAWANT	01-08-2010
1034	JC 329006H	SUB	GAJENDRA KUMAR CHAUDHARY	01-06-2010
1035	JC 140784K	SUB	GAJENDRA PAL SINGH	01-07-2010
1036	JC 329013Y	SUB	GANESH SINGH	01-08-2010
1037	JC 329000F	SUB	GAURI SHANKAR YADAV	01-05-2010
1038	JC 326752A	SUB	GIRISH CHANDRA	01-02-2010
1039	JC 328699Y	SUB	GOLAK BIHARI PAIKARAY	01-02-2010
1040	JC 328667W	SUB	GOPAL DATT PANT	01-05-2010
1041	JC 328926N	SUB	HAKAM SINGH	01-02-2010
1042	JC 328635N	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-03-2010
1043	JC 325743M	SUB	HARI DAS CK	01-07-2010
1044	JC 216066K	SUB	HARIDASAN V	01-03-2010
1045	JC 328957N	SUB	HARISH CHANDRA	01-03-2010
1046	JC 328929F	SUB	HAYAT RAM	01-03-2010
1047	JC 328421X	SUB	HAYAT SINGH	01-03-2010
1048	JC 328945Y	SUB	INDRA SWAROOP VERMA	01-04-2010
1049	JC 328645X	SUB	JAGDISH CHANDRA UPRETI	01-05-2010
1050	JC 328923A	SUB	JAGVIR SINGH	01-02-2010
1051	JC 328489Y	SUB	JAIBAL SINGH	01-03-2010
1052	JC 328964K	SUB	JARNAIL SINGH	01-03-2010
1053	JC 329133X	SUB	JASPAL SINGH	01-07-2010
1054	JC 326666P	SUB	JAYARAM BARIK	01-02-2010
1055	JC 325995Y	SUB	JITENDRA PRASAD PANDEY	01-07-2010
1056	JC 328451P	SUB	JOGINDER SINGH	01-02-2010
1057	JC 330569P	SUB	KADAM SHAHARAM MURLIDHAR	01-03-2010
1058	JC 327890N	SUB	KAMIKER SINGH	01-05-2010
1059	JC 325792P	SUB	KASHYAP TIWARI	01-04-2010
1060	JC 329007L	SUB	KIMAT SINGH	01-07-2010
1061	JC 328967Y	SUB	KISHORE KUMAR	01-05-2010
1062	JC 329169W	SUB	KRISHAN KUMAR SINGH	01-07-2010
1063	JC 325570A	SUB	KRISHNA KUMAR	01-04-2010
1064	JC 325733H	SUB	KUNJU MONE Y	01-05-2010
1065	JC 160403Y	SUB	LALJI PANDEY	01-08-2010

1066	JC 330088H	SUB	M RATHINASAMY	01-04-2010
1067	JC 329053A	SUB	MAHABIR SINGH	01-08-2010
1068	JC 328588F	SUB	MAHENDRA SINGH	01-04-2010
1069	JC 328993Y	SUB	MAHENDRA SINGH	01-04-2010
1070	JC 328427Y	SUB	MANI MOHAN SINHA	01-05-2010
1071	JC 328819M	SUB	MANOHAR SINGH	01-07-2010
1072	JC 325362L	SUB	MANY.P	01-04-2010
1073	JC 328397M	SUB	MILAP SINGH	01-03-2010
1074	JC 328911L	SUB	MINAKETAN PRADHAN	01-02-2010
1075	JC 327062H	SUB	MUNISH CHANDRA DIXIT	01-05-2010
1076	JC 325390X	SUB	MURALEEDHARAN PILLAI A	01-05-2010
1077	JC 329008N	SUB	NAIN SINGH	01-07-2010
1078	JC 329045F	SUB	NANDA BALLABH SALWASI	01-08-2010
1079	JC 328345W	SUB	NANDA VALLABH	01-02-2010
1080	JC 328968A	SUB	NARAYAN SINGH	01-05-2010
1081	JC 328659X	SUB	NIRMAL SINGH	01-06-2010
1082	JC 330065F	SUB	P KALI	01-04-2010
1083	JC 325810M	SUB	PADAM SINGH	01-06-2010
1084	JC 325311X	SUB	PADMANABHAN P T	01-07-2010
1085	JC 328931Y	SUB	PARAS NATH SINGH	01-03-2010
1086	JC 330176Y	SUB	PREM SINGH	01-03-2010
1087	JC 326630W	SUB	PUTUL BORGHAIN	01-03-2010
1088	JC 329168N	SUB	RABINDRA SINGH	01-07-2010
1089	JC 330174A	SUB	RAGHUBIR SINGH NEGI	01-02-2010
1090	JC 328744A	SUB	RAJ KUMAR	01-03-2010
1091	JC 327930K	SUB	RAJ KUMAR SETIA	01-03-2010
1092	JC 325512W	SUB	RAJBIR SINGH	01-02-2010
1093	JC 329131M	SUB	RAJINDAR KUMAR THAPA	01-05-2010
1094	JC 328955H	SUB	RAM KUMAR	01-07-2010
1095	JC 328992W	SUB	RAM KUMAR	01-04-2010
1096	JC 328398P	SUB	RAM SINGH	01-03-2010
1097	JC 328725P	SUB	RAM SINGH	01-03-2010
1098	JC 328552H	SUB	RAMESH CHANDRA	01-04-2010
1099	JC 328748W	SUB	RAMESH KUMAR	01-07-2010
1100	JC 330150K	SUB	RANDHIR SINGH	01-04-2010
1101	JC 329166H	SUB	RANVEER SINGH	01-05-2010
1102	JC 137458W	SUB	REWASHANKAR	01-07-2010
1103	JC 327515A	SUB	S KANNAN	01-07-2010
1104	JC 325980W	SUB	SAJJAN SINGH SANGWAN	01-07-2010
1105	JC 329240Y	SUB	SALGU RAM	01-07-2010
1106	JC 328653W	SUB	SANTOKH SINGH	01-07-2010
1107	JC 325717L	SUB	SANTOSH KUMAR	01-08-2010
1108	JC 328632A	SUB	SARDOOL SINGH	01-06-2010
1109	JC 329003P	SUB	SATE SINGH	01-04-2010
1110	JC 328942L	SUB	SATNAM SINGH	01-03-2010
1111	JC 328965M	SUB	SATYA RAM	01-05-2010
1112	JC 328483X	SUB	SAVITA PRASAD	01-03-2010
1113	JC 327907W	SUB	SHAILESH KUMAR TIWARI	01-02-2010

1114	JC 328519L	SUB	SHASHI KANT PANDEY	01-03-2010
1115	JC 330070M	SUB	SHER SINGH	01-03-2010
1116	JC 328686F	SUB	SHRI RAM MISHRA	01-08-2010
1117	JC 327900M	SUB	SHYAM KUMAR SINGH	01-03-2010
1118	JC 328943N	SUB	SRIKANTA SETHI	01-02-2010
1119	JC 326175Y	SUB	SUBBAIYAN K	01-07-2010
1120	JC 326386F	SUB	SUBHASH CHAND	01-04-2010
1121	JC 325289X	SUB	SUDARSHAN CHAND KATOCH	01-04-2010
1122	JC 328664H	SUB	SUKHWANT SINGH	01-08-2010
1123	JC 329130K	SUB	SUMER CHAND	01-03-2010
1124	JC 329009W	SUB	SURENDER RAM	01-07-2010
1125	JC 328396K	SUB	SURESH CHANDER	01-03-2010
1126	JC 327555K	SUB	SURESH KUMAR K T	01-07-2010
1127	JC 329010L	SUB	SURESH PAL SINGH	01-07-2010
1128	JC 325317Y	SUB	SUSHIL KUMAR BATRA	01-08-2010
1129	JC 327726L	SUB	T KUPPU SAMY	01-08-2010
1130	JC 325487H	SUB	TAPAN KUMAR MONDAL	01-02-2010
1131	JC 328946F	SUB	TAPAS KUMAR MONDAL	01-04-2010
1132	JC 330376P	SUB	UDAI PAL SINGH PARIHAR	01-02-2010
1133	JC 330582Y	SUB	VASUDEVAN S	01-04-2010
1134	JC 328704Y	SUB	VIDYA SAGAR BHATT	01-08-2010
1135	JC 328909N	SUB	VIJAY SINGH BANI	01-02-2010
1136	JC 328991N	SUB	VIR SINGH	01-03-2010
1137	JC 325799Y	SUB	YOGENDRANATH RAY	01-07-2010

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

1138	JC 349056P	SUB	ABDUL SALIM	01-06-2010
1139	JC 349453N	SUB	AJAIB SINGH	01-02-2010
1140	JC 349945M	SUB	ALLABCHAYA MIRASI	01-05-2010
1141	JC 349232F	SUB	ASH MOHAMMAD KHAN	01-04-2010
1142	JC 349545A	SUB	BABU SINGH	01-04-2010
1143	JC 348530L	SUB	BAHADUR SINGH CHAUDHARY	01-04-2010
1144	JC 347904K	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2010
1145	JC 349473F	SUB	BALI MOHAMMAD	01-02-2010
1146	JC 349467N	SUB	BALKAR SINGH	01-04-2010
1147	JC 348190N	SUB	BANEY SINGH	01-07-2010
1148	JC 349394M	SUB	BASANT SINGH	01-05-2010
1149	JC 349432X	SUB	BHARAT ATMARAM YERUNKAR	01-04-2010
1150	JC 349047N	SUB	BHAVAR VIJAY BHIMARAO	01-03-2010
1151	JC 349749M	SUB	BHONGALE BABAJAN RAO	01-04-2010
1152	JC 349279M	SUB	DALIP SINGH	01-03-2010
1153	JC 349857W	SUB	DAYAL SINGH	01-04-2010
1154	JC 349327F	SUB	DEV KARAN SINGH	01-07-2010
1155	JC 349117F	SUB	DEVI SAHAI DIXIT	01-05-2010
1156	JC 349120F	SUB	DIVATE PANDURANG RAM CHANDRA	01-03-2010
1157	JC 349515H	SUB	DNYANDEV VITHOBA PATIL	01-05-2010
1158	JC 348445H	SUB	DUSANDA SINGH	01-06-2010
1159	JC 349454W	SUB	FARAKTE BABASAHEB DNYANADEV	01-03-2010

1160	JC 348964L	SUB	GAIKWAD RAVINDRA SHRIRANG	01-03-2010
1161	JC 348884N	SUB	GOLE AVABA KHASHABA	01-02-2010
1162	JC 349113L	SUB	GOPAL TUKARAM PATIL	01-03-2010
1163	JC 349177W	SUB	GURDEV SINGH	01-06-2010
1164	JC 348953Y	SUB	GURMAIL SINGH	01-02-2010
1165	JC 349944K	SUB	GURMIT SINGH	01-04-2010
1166	JC 349390W	SUB	GURNAM SINGH	01-08-2010
1167	JC 349265M	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-08-2010
1168	JC 347269K	SUB	INDER SINGH	01-02-2010
1169	JC 348720X	SUB	INDERJIT SINGH	01-07-2010
1170	JC 348298L	SUB	JAI PRAKASH	01-03-2010
1171	JC 349175L	SUB	JASBIR SINGH	01-07-2010
1172	JC 348961X	SUB	JUDGE SINGH	01-05-2010
1173	JC 349057X	SUB	KADAM HANMANT GOVIND RAO	01-06-2010
1174	JC 349064N	SUB	KADAM VASANT NAMDEO	01-04-2010
1175	JC 349258W	SUB	KOLEKAR BABAJI DHONDU	01-06-2010
1176	JC 349403H	SUB	KULWANT SINGH	01-05-2010
1177	JC 349600L	SUB	MADHUKAR	01-07-2010
1178	JC 349155X	SUB	MAHADEV	01-02-2010
1179	JC 349192L	SUB	MANGAL SINGH	01-06-2010
1180	JC 348966W	SUB	MANJIT SINGH	01-07-2010
1181	JC 349341N	SUB	MATE SURYABHAN SHRIRANG	01-04-2010
1182	JC 349433A	SUB	MOHAMMAD ISLAM	01-04-2010
1183	JC 349598Y	SUB	MOHAMMAD NASIR	01-02-2010
1184	JC 349074X	SUB	MOHAMMAD YAKIL KHAN	01-05-2010
1185	JC 348454K	SUB	MOHAN LAL DOGRA	01-06-2010
1186	JC 349160H	SUB	MOHD SANAUULLAH ANSARI	01-02-2010
1187	JC 349164Y	SUB	MOHINDER SINGH	01-04-2010
1188	JC 349009X	SUB	MOHITE GAJANAN LALASAHEB	01-02-2010
1189	JC 349876F	SUB	MOMEEN KHAN	01-04-2010
1190	JC 349133Y	SUB	MUNAZIR HASAN	01-02-2010
1191	JC 349412K	SUB	PARAMJIT SINGH	01-02-2010
1192	JC 348723L	SUB	PARGAT SINGH	01-02-2010
1193	JC 349190A	SUB	PARMINDER SINGH	01-03-2010
1194	JC 349540F	SUB	PATTEY BABA BAPURAO	01-04-2010
1195	JC 349189L	SUB	PIARA SINGH	01-03-2010
1196	JC 349167M	SUB	PIARE LAL	01-04-2010
1197	JC 349321A	SUB	PRAKASH MARUTI RAO KARALE	01-08-2010
1198	JC 348918W	SUB	PRITPAL SINGH	01-03-2010
1199	JC 349356W	SUB	PURAN	01-02-2010
1200	JC 349121K	SUB	RADHA MOHAN THAKUR	01-03-2010
1201	JC 349153M	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-02-2010
1202	JC 349519Y	SUB	RAGHUNATH GANGARAM JADHAV	01-07-2010
1203	JC 349052Y	SUB	RAKESH	01-04-2010
1204	JC 349126H	SUB	RAM KISHORE	01-07-2010
1205	JC 347476W	SUB	RAM PHAL SINGH SAHARAN	01-02-2010
1206	JC 349013A	SUB	RAMBIR SINGH	01-02-2010
1207	JC 349202K	SUB	RAN SINGH	01-05-2010

1208	JC 349422N	SUB	RASHID KHAN	01-06-2010
1209	JC 349176N	SUB	RAUSO GANAPATI BHOSALE	01-03-2010
1210	JC 349066Y	SUB	S AMEER BASHA	01-04-2010
1211	JC 348867Y	SUB	SABIR KHAN	01-04-2010
1212	JC 349507K	SUB	SANTOKH SINGH	01-04-2010
1213	JC 349402A	SUB	SAWARN SINGH	01-04-2010
1214	JC 349458M	SUB	SHELAR NARAYAN GOPAL	01-07-2010
1215	JC 349152K	SUB	SHELAR SURESH MARUTI	01-02-2010
1216	JC 349012X	SUB	SHINDE VITHAL JAI SINGH	01-02-2010
1217	JC 349475M	SUB	SHIVAJI PANDURANG TODKAR	01-04-2010
1218	JC 349505Y	SUB	SOMARU SHAH	01-03-2010
1219	JC 349241H	SUB	SULAKHAN SINGH	01-06-2010
1220	JC 349162N	SUB	TUFAIL AHMED KHAN	01-06-2010
1221	JC 348628Y	SUB	UMA SHANKAR RAM	01-08-2010
1222	JC 348958X	SUB	VIJAY KUMAR DATTA	01-06-2010
1223	JC 348722H	SUB	VIR BHAN SINGH ALIAS VIR BHAN	01-03-2010
1224	JC 349054K	SUB	WAGH MACHINDER BHAUSAHEB	01-03-2010
1225	JC 349340L	SUB	WAGHMODE BALKRISHNA JAGANNATH	01-04-2010
1226	JC 349518W	SUB	WALI MOHAMMAD	01-04-2010

**CORPS OF SIGNALS**

1227	JC 374386Y	SUB	A SWAMY	01-07-2010
1228	JC 375304X	SUB	AJAY KUMAR SINGH	01-05-2010
1229	JC 370910K	SUB	AMAR SINGH	01-07-2010
1230	JC 373200X	SUB	AMAR SINGH	01-08-2010
1231	JC 374584K	SUB	AMBIKA SUTHAN V K, SM	01-07-2010
1232	JC 374229M	SUB	AMITAVA CHANDRA	01-04-2010
1233	JC 375319A	SUB	AMOD KUMAR DAS	01-04-2010
1234	JC 372747N	SUB	AMRENDRA KUMAR SINGH	01-06-2010
1235	JC 375349X	SUB	AMRESH KUMAR SINGH	01-04-2010
1236	JC 374845M	SUB	ANANT RAM	01-04-2010
1237	JC 374193Y	SUB	ANIL KUMAR	01-08-2010
1238	JC 375217K	SUB	ANIL KUMAR GOSWAMI	01-05-2010
1239	JC 374015W	SUB	ARJUN SINGH	01-02-2010
1240	JC 375118F	SUB	ARUMUGAM J	01-06-2010
1241	JC 376078X	SUB	ARUN KUMAR SINHA	01-07-2010
1242	JC 373770N	SUB	ARUNJOY PRASAD	01-07-2010
1243	JC 375112A	SUB	ARVIND KUMAR PANDEY	01-08-2010
1244	JC 374526A	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2010
1245	JC 371367H	SUB	ASHOK KUMAR SHUKLA	01-02-2010
1246	JC 373651X	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2010
1247	JC 374262K	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-07-2010
1248	JC 373916W	SUB	ASHOK SINGH	01-07-2010
1249	JC 371922L	SUB	ASOKAN K	01-04-2010
1250	JC 372068W	SUB	ATMA RAM VERMA	01-04-2010
1251	JC 372266F	SUB	AWADHESH KUMAR SINGH	01-03-2010
1252	JC 373803N	SUB	B RAVI	01-04-2010
1253	JC 370159F	SUB	BABU RAM	01-03-2010

1254	JC 375620W	SUB	BACHCHA LAL	01-03-2010
1255	JC 374078Y	SUB	BAL RAM SINGH	01-03-2010
1256	JC 372780L	SUB	BALA SUBRAMANIAN K	01-02-2010
1257	JC 371893F	SUB	BALBIR CHAND VERMA	01-03-2010
1258	JC 375808L	SUB	BALBIR SINGH	01-07-2010
1259	JC 375995P	SUB	BALE RAM	01-06-2010
1260	JC 374887Y	SUB	BALENDRA SINGH	01-04-2010
1261	JC 371352A	SUB	BALJIT KAUSHIK	01-07-2010
1262	JC 372994F	SUB	BALJIT SINGH	01-08-2010
1263	JC 372989W	SUB	BALMIKI PANDIT	01-03-2010
1264	JC 372077X	SUB	BARUN KUMAR SHARMA	01-04-2010
1265	JC 374227F	SUB	BHADRAPAL SINGH	01-04-2010
1266	JC 372311H	SUB	BHAIRU LAL KUMHAR	01-08-2010
1267	JC 372588F	SUB	BHAJAN KANTI ATHA	01-02-2010
1268	JC 373492L	SUB	BHAN SINGH	01-03-2010
1269	JC 372512F	SUB	BHARMA PEDNEKAR	01-04-2010
1270	JC 375161H	SUB	BHARPUR SINGH	01-03-2010
1271	JC 374647F	SUB	BHOLA PRASAD SIKHAR	01-03-2010
1272	JC 375470L	SUB	BHOORA RAM JANGID	01-08-2010
1273	JC 373479F	SUB	BHUVANA CHANDRAN NAIR P D	01-04-2010
1274	JC 375391W	SUB	BIJAY KUMAR SINGH	01-04-2010
1275	JC 370547Y	SUB	BIR SINGH GOUR	01-06-2010
1276	JC 369262A	SUB	BIRANCHI NARAYAN MOHANTY	01-03-2010
1277	JC 372847Y	SUB	BIRANDER SINGH	01-02-2010
1278	JC 374575H	SUB	BIRENDER SINGH	01-03-2010
1279	JC 371743L	SUB	BISHAN DASS	01-03-2010
1280	JC 373579M	SUB	BODH RAJ	01-02-2010
1281	JC 373583P	SUB	BONU SREE RAMULU	01-05-2010
1282	JC 373384F	SUB	BOOPALAN P	01-05-2010
1283	JC 375900K	SUB	BOYAPATI SESHAGIRI RAO	01-06-2010
1284	JC 374548Y	SUB	BRAJ KISHORE SINGH	01-07-2010
1285	JC 374610A	SUB	BUDH PRAKASH SINGH	01-03-2010
1286	JC 375120Y	SUB	CHAMAN LAL	01-08-2010
1287	JC 370157W	SUB	CHANDAN SINGH	01-08-2010
1288	JC 372114A	SUB	CHANDGI RAM KULHARI	01-08-2010
1289	JC 375311N	SUB	CHANDRA BHUSHAN PANDEY	01-02-2010
1290	JC 373708F	SUB	CHANDRAN M V	01-08-2010
1291	JC 370252H	SUB	CHANDRAN P	01-05-2010
1292	JC 372062P	SUB	CHATTAR SINGH	01-06-2010
1293	JC 374084M	SUB	CHERIYAN K SAMUEL	01-05-2010
1294	JC 368997X	SUB	CHHEDA LAL	01-04-2010
1295	JC 215157F	SUB	DALBIR CHAND RAMOLA	01-04-2010
1296	JC 374819L	SUB	DALBIR SINGH	01-06-2010
1297	JC 374082F	SUB	DALBIR SINGH TANWAR	01-02-2010
1298	JC 375552N	SUB	DALEEP SINGH	01-08-2010
1299	JC 374623X	SUB	DARKUNDE VINAYAK EKNATH	01-03-2010
1300	JC 372970X	SUB	DARSHAN SINGH	01-04-2010
1301	JC 374300P	SUB	DAULAT SINGH SHEKHAWAT	01-03-2010



1302	JC 374751P	SUB	DEEN DAYAL	01-02-2010
1303	JC 373236W	SUB	DES RAJ	01-05-2010
1304	JC 372845N	SUB	DEVASIA K C	01-08-2010
1305	JC 375306H	SUB	DEVENDRA SINGH	01-08-2010
1306	JC 375347M	SUB	DEVENDRA SINGH	01-03-2010
1307	JC 373489L	SUB	DEVENDRA SINGH SIROHI	01-08-2010
1308	JC 371663N	SUB	DHANNA LAL CHAMAR	01-03-2010
1309	JC 374717P	SUB	DHARAM PAL	01-07-2010
1310	JC 375302M	SUB	DHARAMBIR SINGH	01-08-2010
1311	JC 374605P	SUB	DHARAMENDRA KUMAR SINGH	01-04-2010
1312	JC 371878M	SUB	DHIMESHWAR CHAND	01-02-2010
1313	JC 374700F	SUB	DHONDI BHAU ANANDA NARSALE	01-03-2010
1314	JC 373161K	SUB	DILIP SINGH	01-08-2010
1315	JC 375529A	SUB	DOONGAR SINGH	01-07-2010
1316	JC 374618M	SUB	DWARIKA PRASAD SINGH	01-02-2010
1317	JC 372202W	SUB	EASSO A J	01-02-2010
1318	JC 373544W	SUB	EMMANUEL	01-07-2010
1319	JC 374174N	SUB	FALGUNI RAM	01-02-2010
1320	JC 373562Y	SUB	FATEH SINGH	01-05-2010
1321	JC 373979Y	SUB	GANESH CHANDRA GHOSH	01-07-2010
1322	JC 374312K	SUB	GANESH CHANDRA GHOSH	01-04-2010
1323	JC 375535N	SUB	GOKUL SINGH	01-03-2010
1324	JC 370843K	SUB	GOLLA ADI NARAYANA	01-08-2010
1325	JC 374338Y	SUB	GOPINATHAN NAIR K	01-04-2010
1326	JC 373978W	SUB	GOUR KUMAR KUNDU	01-08-2010
1327	JC 369008W	SUB	GOVIND SINGH	01-04-2010
1328	JC 374701K	SUB	GOVINDA MANDADI D	01-07-2010
1329	JC 372824X	SUB	GULAB SINGH	01-04-2010
1330	JC 376140Y	SUB	GURBJAJAN SINGH	01-07-2010
1331	JC 373556L	SUB	GURDEV SINGH	01-02-2010
1332	JC 372283F	SUB	GURDEV SINGH BAINS	01-04-2010
1333	JC 372990L	SUB	HAKKIMUDDIN	01-03-2010
1334	JC 373222W	SUB	HANS RAJ	01-04-2010
1335	JC 374732K	SUB	HANUMAN SINGH RAO	01-05-2010
1336	JC 374349L	SUB	HAREENDRA NADH C	01-05-2010
1337	JC 375273H	SUB	HARGOVIND MAGHWAL	01-04-2010
1338	JC 373460H	SUB	HARI SINGH RAJPUT	01-08-2010
1339	JC 374912M	SUB	HARIDAS C N	01-06-2010
1340	JC 375532A	SUB	HARINDRA PRASAD CHOUBEY	01-03-2010
1341	JC 372612M	SUB	HARISH SINGH PARIHAR	01-08-2010
1342	JC 375476M	SUB	HARJINDER SINGH	01-07-2010
1343	JC 372901F	SUB	HARPHOOL SINGH	01-04-2010
1344	JC 372144X	SUB	HAWA SINGH	01-03-2010
1345	JC 373004X	SUB	HAYAT SINGH BASHERA	01-07-2010
1346	JC 372124K	SUB	HEM RAJ	01-04-2010
1347	JC 375508K	SUB	HIMANSHU SEKHAR RATH	01-04-2010
1348	JC 374244F	SUB	HIRANMOY MAHANTY	01-05-2010
1349	JC 374852H	SUB	HONNAPPA BANA WANNAVAR	01-04-2010

1350	JC 374181K	SUB	HOSHIYARA RAM SAINI	01-05-2010
1351	JC 373565M	SUB	ISHWAR DASS AZAD	01-02-2010
1352	JC 374029W	SUB	JAGDISH PRASAD	01-05-2010
1353	JC 370945A	SUB	JAGVIR SINGH DAHIYA	01-07-2010
1354	JC 374708N	SUB	JAI BHAGWAN	01-04-2010
1355	JC 374439M	SUB	JAI BHAGWAN SHARMA	01-06-2010
1356	JC 374721X	SUB	JAIBIR SINGH	01-07-2010
1357	JC 374079F	SUB	JANAK RAJ	01-02-2010
1358	JC 373517M	SUB	JASPAL SINGH DANGWAL	01-04-2010
1359	JC 372549H	SUB	JASVIR SINGH BALHARA	01-04-2010
1360	JC 374182M	SUB	JAY PRAKASH SINGH	01-06-2010
1361	JC 372611K	SUB	JAYA PALAN B	01-04-2010
1362	JC 373317W	SUB	JOGINDER SINGH	01-07-2010
1363	JC 374537M	SUB	JOHN BOSECO A	01-04-2010
1364	JC 371528A	SUB	JOSE G	01-08-2010
1365	JC 374257Y	SUB	JUGAL KISHORE	01-05-2010
1366	JC 372525Y	SUB	JUGMAIL SINGH	01-03-2010
1367	JC 375976K	SUB	JUNAS PURTY	01-06-2010
1368	JC 374397L	SUB	K MAYANDY	01-02-2010
1369	JC 369632P	SUB	KAMLA PRASAD MISHRA	01-04-2010
1370	JC 373672N	SUB	KAMLESH KUMAR SHARMA	01-04-2010
1371	JC 375729W	SUB	KANHIYA RAI	01-04-2010
1372	JC 369069N	SUB	KAPIL DEO JHA	01-04-2010
1373	JC 375477P	SUB	KARAM CHAND	01-08-2010
1374	JC 372900Y	SUB	KARANDE BAYAJI BABU	01-03-2010
1375	JC 372743X	SUB	KARTAR SINGH	01-03-2010
1376	JC 372488W	SUB	KASHINATH GUPTA	01-03-2010
1377	JC 374890Y	SUB	KASHMIR CHAND	01-08-2010
1378	JC 375351P	SUB	KASHMIRI LAL SHARMA	01-05-2010
1379	JC 374809F	SUB	KAUSHLENDRA KUMAR	01-07-2010
1380	JC 369062K	SUB	KAZAL MITRA	01-03-2010
1381	JC 374889K	SUB	KEDAR NATH PRAJAPATI	01-03-2010
1382	JC 371758N	SUB	KEERTI SINGH	01-08-2010
1383	JC 375048N	SUB	KHEDKAR ARJUN PANDURANG	01-02-2010
1384	JC 374284H	SUB	KHEM RAJ SAKLANI	01-08-2010
1385	JC 372133L	SUB	KISHORE KUMAR	01-06-2010
1386	JC 375763W	SUB	KRISHNA GOPAL CHAKKRABORTY	01-06-2010
1387	JC 371870A	SUB	KSHITISH CHANDRA BISWAS	01-02-2010
1388	JC 374625H	SUB	KULDIP SINGH	01-04-2010
1389	JC 373761M	SUB	KULWANT SINGH	01-03-2010
1390	JC 375387N	SUB	KURADE BALU DATTU	01-04-2010
1391	JC 375252M	SUB	LAKHINDAR DUTTA	01-03-2010
1392	JC 369864N	SUB	LAKSHMAN MAHTO	01-08-2010
1393	JC 375111X	SUB	LAL BIHARI SAH	01-03-2010
1394	JC 372539Y	SUB	LAXMAN SINGH	01-02-2010
1395	JC 374319N	SUB	LAXMI KANTH KATTI	01-04-2010
1396	JC 371901P	SUB	LAXMIDHAR NAYAK	01-04-2010
1397	JC 376538N	SUB	M SUBRAMANIAN	01-04-2010

1398	JC 370666P	SUB	MADAN MOHAN DAS	01-04-2010
1399	JC 372782W	SUB	MADAN SINGH SHAHI	01-08-2010
1400	JC 372932F	SUB	MADANAN PILLAI B	01-04-2010
1401	JC 375512M	SUB	MADHAV SINGH	01-05-2010
1402	JC 374985Y	SUB	MADHU SUDANAN K	01-03-2010
1403	JC 375190X	SUB	MAGHAR SINGH	01-08-2010
1404	JC 371003W	SUB	MAHABIR SINGH	01-02-2010
1405	JC 372998X	SUB	MAHENDRA PRASAD	01-08-2010
1406	JC 373943A	SUB	MAHENDRA PRATAP SINGH	01-02-2010
1407	JC 373178X	SUB	MAHENDRA SINGH RATHORE	01-02-2010
1408	JC 375231W	SUB	MAHIBOOB MAKHANDAR	01-04-2010
1409	JC 371740X	SUB	MALLIKARJUN BAGELLI	01-04-2010
1410	JC 374302A	SUB	MANAN PRASAD	01-04-2010
1411	JC 371263F	SUB	MANGAL SINGH	01-04-2010
1412	JC 370171H	SUB	MANGALA PRASAD VISHWAKARMA	01-05-2010
1413	JC 372123F	SUB	MANI G	01-04-2010
1414	JC 370574H	SUB	MANI RAM	01-04-2010
1415	JC 372818K	SUB	MARUTI MADAR	01-04-2010
1416	JC 373547K	SUB	MEHAR SURYAM NEELA	01-03-2010
1417	JC 367901X	SUB	MIR SINGH	01-04-2010
1418	JC 375551L	SUB	MOHAN M	01-08-2010
1419	JC 373988A	SUB	MOHANAN A T	01-04-2010
1420	JC 372851F	SUB	MOHANAN P	01-06-2010
1421	JC 369861A	SUB	MOHD AKBAR	01-04-2010
1422	JC 373614K	SUB	MRINAL KANTI CHAND	01-02-2010
1423	JC 374115F	SUB	MUNNA LAL	01-03-2010
1424	JC 372131A	SUB	MURALEEDHARAN P	01-06-2010
1425	JC 373636H	SUB	MURUGAN C	01-04-2010
1426	JC 371933X	SUB	MUTHU MANICKAM R	01-06-2010
1427	JC 375188A	SUB	NAND KISHORE POKHARIA	01-06-2010
1428	JC 368533A	SUB	NARENDRA KUMAR JOSHI	01-05-2010
1429	JC 369045K	SUB	NARWDESHWAR N SHARMA	01-06-2010
1430	JC 369574W	SUB	NATARAJAN S	01-07-2010
1431	JC 374968Y	SUB	NIRANJAN BEHERA	01-03-2010
1432	JC 372846W	SUB	NIRANJAN KUMAR DAS	01-07-2010
1433	JC 374443P	SUB	NITYA NAND	01-07-2010
1434	JC 373458L	SUB	NOMURAM BORAH	01-07-2010
1435	JC 369558Y	SUB	NP MANDAL	01-04-2010
1436	JC 373718L	SUB	OM PRAKASH	01-05-2010
1437	JC 374369Y	SUB	OM PRAKASH JANGIR	01-08-2010
1438	JC 374626L	SUB	OM PRAKASH RAM	01-06-2010
1439	JC 373931L	SUB	P V RAVINDRAN	01-05-2010
1440	JC 374817A	SUB	PALIVELA T VENKATESWARA RAO	01-03-2010
1441	JC 373522X	SUB	PARASHU RAM SINGH	01-05-2010
1442	JC 376543Y	SUB	PARDEEP KUMAR	01-07-2010
1443	JC 374195K	SUB	PARIT ANNASAHEB BABURAO	01-04-2010
1444	JC 372966P	SUB	PARMANAND MAHTON	01-03-2010
1445	JC 373529F	SUB	PATIL PUNDALIK RAMA	01-07-2010

1446	JC 372258H	SUB	PAWAR KHANDU HARI	01-02-2010
1447	JC 373265L	SUB	PAWAR TULSHIDAS BABAN RAO	01-03-2010
1448	JC 376153W	SUB	PRABHAT KUMAR SAHU	01-08-2010
1449	JC 374076N	SUB	PRADEEP KUMAR CHAUHAN	01-04-2010
1450	JC 373771W	SUB	PRAMOD KUMAR SINGH	01-03-2010
1451	JC 371915P	SUB	PREM NATH RAI	01-02-2010
1452	JC 375211H	SUB	PREM SHANKAR MISHRA	01-07-2010
1453	JC 372953X	SUB	PREM SINGH	01-07-2010
1454	JC 373494W	SUB	PULIGADDA NARAYANA RAO	01-02-2010
1455	JC 374951L	SUB	RABINDRA KUMAR NAYAK	01-08-2010
1456	JC 374114Y	SUB	RADHAKRISHNA PILLAI R	01-04-2010
1457	JC 374711N	SUB	RADHE SINGH	01-05-2010
1458	JC 375780W	SUB	RAJ DEO VERMA	01-03-2010
1459	JC 371839N	SUB	RAJ KUMAR	01-02-2010
1460	JC 374396H	SUB	RAJ KUMAR	01-02-2010
1461	JC 373286F	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-02-2010
1462	JC 374464L	SUB	RAJ NARAYAN	01-08-2010
1463	JC 373539L	SUB	RAJENDER KUMAR	01-05-2010
1464	JC 373552P	SUB	RAJENDER SINGH	01-08-2010
1465	JC 374377X	SUB	RAJENDER VASHIST	01-06-2010
1466	JC 372058M	SUB	RAJENDRA KUMAR	01-07-2010
1467	JC 372550X	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-04-2010
1468	JC 370437K	SUB	RAJENDRA PRASAD PATTANAYAK	01-05-2010
1469	JC 374489X	SUB	RAJENDRA SINGH	01-04-2010
1470	JC 375151Y	SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2010
1471	JC 374352L	SUB	RAJPAL SINGH	01-04-2010
1472	JC 373351W	SUB	RAM AWADH SINGH	01-07-2010
1473	JC 369544Y	SUB	RAM BABU SINGH	01-02-2010
1474	JC 372979M	SUB	RAM CHANDER VERMA	01-06-2010
1475	JC 375875W	SUB	RAM CHANDRA DARA	01-04-2010
1476	JC 371007M	SUB	RAM DHAIRY YADAV	01-03-2010
1477	JC 372918P	SUB	RAM JANAM RAM	01-07-2010
1478	JC 376035H	SUB	RAM JANAM SINGH	01-05-2010
1479	JC 368582H	SUB	RAM KUMAR	01-06-2010
1480	JC 373016M	SUB	RAM KUMAR	01-03-2010
1481	JC 375201Y	SUB	RAM LALAN PRASAD SINGH	01-05-2010
1482	JC 375425Y	SUB	RAM NIWAS	01-03-2010
1483	JC 369889A	SUB	RAM PRATAP	01-07-2010
1484	JC 374617K	SUB	RAM SAKAL SINGH	01-04-2010
1485	JC 372733N	SUB	RAM SINGH RATHORE	01-08-2010
1486	JC 374231K	SUB	RAMA KRISHNAN T	01-06-2010
1487	JC 373666A	SUB	RAMACHANDRA ROUT	01-05-2010
1488	JC 375318X	SUB	RAMASHISH PRASAD	01-02-2010
1489	JC 374297A	SUB	RAMBIR	01-08-2010
1490	JC 374944P	SUB	RAMESH CHANDER	01-03-2010
1491	JC 371626A	SUB	RAMESH KUMAR	01-04-2010
1492	JC 375479A	SUB	RAMESH LAL	01-03-2010
1493	JC 372313N	SUB	RAMESH P K	01-08-2010

1494	JC 371271A	SUB	RAMESHWAR DASS	01-04-2010
1495	JC 373481Y	SUB	RAMESHWAR SINHA	01-04-2010
1496	JC 374735X	SUB	RANBIR SINGH	01-04-2010
1497	JC 375100L	SUB	RANBIR SINGH	01-03-2010
1498	JC 375812N	SUB	RANG LAL SINGH	01-06-2010
1499	JC 375202F	SUB	RANVEER SINGH	01-05-2010
1500	JC 368993F	SUB	RANVEER SINGH YADAV	01-06-2010
1501	JC 373461L	SUB	RANVIR SINGH	01-08-2010
1502	JC 206897P	SUB	RATTAN SINGH YADAV	01-04-2010
1503	JC 372445F	SUB	RETHNA PRAKASAN NALLAKANDY	01-05-2010
1504	JC 376592F	SUB	RISHI MUNI SHARMA	01-06-2010
1505	JC 374243Y	SUB	RISHI PARKASH	01-06-2010
1506	JC 371811N	SUB	ROHITASHVA KUMAR VARMA	01-04-2010
1507	JC 373553X	SUB	ROOP LAL CHAUDHARY	01-08-2010
1508	JC 374743W	SUB	S MURUGESAN	01-02-2010
1509	JC 371892Y	SUB	SADANAND SINGH	01-02-2010
1510	JC 372885P	SUB	SADHU RAM	01-04-2010
1511	JC 374283A	SUB	SAHI RAM	01-03-2010
1512	JC 374667P	SUB	SAIVAMANI V	01-03-2010
1513	JC 375390N	SUB	SAJJAN LAL	01-02-2010
1514	JC 373484M	SUB	SAKTI PADA PANJA	01-02-2010
1515	JC 375350M	SUB	SAMSON DALEL	01-04-2010
1516	JC 374180F	SUB	SANGAYYA HIEMATH	01-05-2010
1517	JC 374156L	SUB	SANTOSH KUMAR SHUKLA	01-03-2010
1518	JC 375114L	SUB	SAROJ KUMAR SINGH	01-06-2010
1519	JC 374957M	SUB	SARU RAM SAIKIA	01-08-2010
1520	JC 373961H	SUB	SASI KUMAR R	01-08-2010
1521	JC 375537Y	SUB	SASIDHARAN NAIR A P	01-03-2010
1522	JC 368560K	SUB	SASIDHARAN T M	01-06-2010
1523	JC 370391M	SUB	SATENDER KUMAR RAGHEV	01-03-2010
1524	JC 372126P	SUB	SATVIR SINGH	01-05-2010
1525	JC 375073M	SUB	SATYAVIR SINGH	01-08-2010
1526	JC 374234X	SUB	SHAMSHER SINGH	01-08-2010
1527	JC 372822M	SUB	SHANTI PRAKASH	01-04-2010
1528	JC 372243A	SUB	SHASHI PRABHAKAR MISHRA	01-06-2010
1529	JC 372746L	SUB	SHATRUGHNA PRASAD SINGH	01-04-2010
1530	JC 372828N	SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-04-2010
1531	JC 375208H	SUB	SHIV PRASAD SINGH	01-08-2010
1532	JC 371921H	SUB	SHIV RAJ SINGH	01-06-2010
1533	JC 374539X	SUB	SHRIDHAR PRASAD SINGH	01-04-2010
1534	JC 372749Y	SUB	SHYAM NANDAN SINGH	01-05-2010
1535	JC 369016P	SUB	SHYAM VIR SINGH	01-07-2010
1536	JC 373003P	SUB	SITA RAM	01-08-2010
1537	JC 374298H	SUB	SITA RAM	01-08-2010
1538	JC 374529N	SUB	SIVARAJAN S	01-06-2010
1539	JC 373502K	SUB	SIYA RAM	01-04-2010
1540	JC 374462A	SUB	SMAROJIT SARKAR	01-02-2010
1541	JC 371879P	SUB	SOHAN SINGH	01-02-2010

1542	JC 374752X	SUB	SOMA SUNDARAN B	01-02-2010
1543	JC 374495L	SUB	SOMISETTY SREENIVASULU	01-07-2010
1544	JC 375754P	SUB	SONTAKKE SURYAKANT HARIBHAU	01-07-2010
1545	JC 375792L	SUB	SREENIVASA RAO JAMPANI	01-07-2010
1546	JC 374651K	SUB	SRI NIWAS SHARMA	01-08-2010
1547	JC 374344M	SUB	SUBHA CHAND YADAV	01-04-2010
1548	JC 375205P	SUB	SUBHAN SINGH	01-02-2010
1549	JC 375558P	SUB	SUBHASH CHAND	01-08-2010
1550	JC 375359F	SUB	SUBHASH CHANDRA SINGH	01-04-2010
1551	JC 375107P	SUB	SUBRATA KUMAR KUNDU	01-03-2010
1552	JC 371895M	SUB	SUDAM KUMAR GHOSH	01-04-2010
1553	JC 373662K	SUB	SUDHAKARAN A N	01-02-2010
1554	JC 372622W	SUB	SUKHAMOY DAS	01-05-2010
1555	JC 367744W	SUB	SURAJMAL VASHIST	01-02-2010
1556	JC 372839A	SUB	SURENDER SINGH	01-06-2010
1557	JC 370992X	SUB	SURESH KUMAR CHOWDHARY	01-02-2010
1558	JC 373296L	SUB	SURJA RAM	01-08-2010
1559	JC 374384N	SUB	SWAPAN KUMAR DAS	01-04-2010
1560	JC 373017P	SUB	SWARAN SINGH	01-07-2010
1561	JC 374545L	SUB	TARIT KUMAR ROY CHOUDHURI	01-04-2010
1562	JC 374106A	SUB	TEJ NARAYAN SINGH	01-05-2010
1563	JC 375251K	SUB	TEJ PAL SINGH	01-03-2010
1564	JC 374376P	SUB	TEJPAL SINGH	01-06-2010
1565	JC 372991N	SUB	TH DHANI RAM SINGHA	01-03-2010
1566	JC 369857X	SUB	THOMAS T G	01-06-2010
1567	JC 373518P	SUB	TILAK RAJ	01-04-2010
1568	JC 374688L	SUB	TULSI SINGH	01-05-2010
1569	JC 374177F	SUB	UPENDRA PRASAD ROY	01-03-2010
1570	JC 373762P	SUB	UPENDRA YADAV	01-03-2010
1571	JC 373207F	SUB	V SAKTHIVEL	01-03-2010
1572	JC 375234K	SUB	VARUGHESE M M	01-02-2010
1573	JC 375305A	SUB	VELU G	01-06-2010
1574	JC 374583F	SUB	VENUGOPALAN R	01-04-2010
1575	JC 371733F	SUB	VENUGOPALAN V	01-02-2010
1576	JC 375397X	SUB	VENUKUTTAN NAIR G	01-04-2010
1577	JC 374679K	SUB	VIDYADHAR	01-03-2010
1578	JC 373203L	SUB	VIJAY KUMAR	01-06-2010
1579	JC 374311F	SUB	VIJAY KUMAR MISHRA	01-07-2010
1580	JC 375321X	SUB	VIJAY KUMAR SINGH	01-02-2010
1581	JC 374694Y	SUB	VIJAY PAL SINGH GAUR	01-08-2010
1582	JC 374697M	SUB	VIJAY SHANKER SHAH	01-08-2010
1583	JC 372551A	SUB	VIJAY YADAV	01-04-2010
1584	JC 371732Y	SUB	VIJAYA KUMAR	01-04-2010
1585	JC 368516A	SUB	VIJAYAN K T	01-05-2010
1586	JC 373344A	SUB	VIJAYAN PV	01-04-2010
1587	JC 374226Y	SUB	VINOD KUMAR	01-04-2010
1588	JC 372582A	SUB	VISHRAM SINGH	01-04-2010
1589	JC 223783A	SUB	WASAN SINGH	01-04-2010

1590	JC 373740W	SUB	YADUNANDAN THAKUR	01-06-2010
1591	JC 373526N	SUB	YASHPAL SINGH	01-06-2010
1592	JC 374164K	SUB	YESHWANT SINGH	01-02-2010
1593	JC 373000F	SUB	YOHANNAN KUTTY G	01-07-2010

**THE BRIGADE OF GUARDS**

1594	JC 403510A	SUB	BAL MUKUND	01-05-2010
1595	JC 403131K	SUB	BALJEET SINGH	01-02-2010
1596	JC 403041H	SUB	CHANABASAPPA HUDED	01-06-2010
1597	JC 403403Y	SUB	CHENA RAM	01-05-2010
1598	JC 403457A	SUB	CHINTA MANI	01-04-2010
1599	JC 403187W	SUB	DALVEER SINGH	01-04-2010
1600	JC 402679H	SUB	DEVESH KUMAR	01-03-2010
1601	JC 403094F	SUB	DHIRENDER KUMAR	01-07-2010
1602	JC 402737F	SUB	GOPAL SINGH	01-07-2010
1603	JC 403299W	SUB	GYAN SINGH	01-08-2010
1604	JC 403169N	SUB	JAGDISH RAI	01-08-2010
1605	JC 403264A	SUB	JAI NATH RAI	01-08-2010
1606	JC 403513N	SUB	JIA LAL	01-05-2010
1607	JC 403354F	SUB	KANAKADAS B	01-04-2010
1608	JC 403218L	SUB	KAPTAN SINGH KATARIA	01-05-2010
1609	JC 403221L	SUB	KHEM RAJ	01-05-2010
1610	JC 402983M	SUB	LALLAN SINGH	01-06-2010
1611	JC 403766H	SUB	LOBO ALFRED BERNARD	01-05-2010
1612	JC 402793A	SUB	MAN SINGH DEOPA	01-06-2010
1613	JC 402588Y	SUB	MANI RAM	01-04-2010
1614	JC 403262P	SUB	MAYADHAR MAHANI	01-07-2010
1615	JC 403445L	SUB	MOHINDER SINGH	01-05-2010
1616	JC 403786W	SUB	NARAYAN SINGH	01-08-2010
1617	JC 402943L	SUB	NARESH	01-05-2010
1618	JC 403674W	SUB	NEKRAM SINGH SOGARWAL	01-08-2010
1619	JC 403414L	SUB	OMPAL SINGH	01-04-2010
1620	JC 403178P	SUB	PARAS RAM	01-03-2010
1621	JC 403477N	SUB	PAWAN KUMAR	01-08-2010
1622	JC 403129M	SUB	PRAHLAD	01-02-2010
1623	JC 403399F	SUB	PRAMOD PRASAD	01-07-2010
1624	JC 402856X	SUB	RAJ MANI	01-02-2010
1625	JC 403137L	SUB	RAJ SINGH	01-06-2010
1626	JC 402885M	SUB	RAM BHUWAN TIWARI	01-07-2010
1627	JC 403086H	SUB	RAM KARAN	01-03-2010
1628	JC 403668H	SUB	RAM NATH SINGH	01-07-2010
1629	JC 402884K	SUB	RAMA NAND RAI	01-06-2010
1630	JC 403253N	SUB	RANJIT SINGH	01-05-2010
1631	JC 402890X	SUB	RAVINDER KUMAR SINGH	01-05-2010
1632	JC 403208F	SUB	ROHITASH SINGH POONIA	01-07-2010
1633	JC 402857A	SUB	ROOP RAM	01-03-2010
1634	JC 403132M	SUB	SANKATHA PRASAD	01-03-2010
1635	JC 403217H	SUB	SHAMBHU SINGH	01-03-2010

1636	JC 402759A	SUB	SHIV KUMAR YADAV	01-04-2010
1637	JC 403082M	SUB	VIRENDRA PAL SINGH	01-07-2010
1638	JC 403388P	SUB	YASHPAL SINGH	01-04-2010
1639	JC 403310K	SUB	YASHWANT SINGH	01-06-2010

**THE PARACHUTE REGIMENT**

1640	JC 412724X	SUB	BABU RAM	01-05-2010
1641	JC 412792L	SUB	BUDH SINGH	01-03-2010
1642	JC 412807H	SUB	DEV SINGH	01-03-2010
1643	JC 412473Y	SUB	GIRWAR SINGH	01-04-2010
1644	JC 413023N	SUB	GOPAL DATT PANT	01-06-2010
1645	JC 412677L	SUB	HANS RAJ	01-06-2010
1646	JC 412499N	SUB	JAGDISH SINGH	01-05-2010
1647	JC 412554Y	SUB	JAI PAL	01-07-2010
1648	JC 412687P	SUB	JAI SINGH	01-06-2010
1649	JC 412808L	SUB	KAILASH CHANDER	01-07-2010
1650	JC 412700N	SUB	MADAN MOHAN SINGH	01-07-2010
1651	JC 412826N	SUB	MOHINDER LAL	01-06-2010
1652	JC 412550H	SUB	PARTAP SINGH	01-04-2010
1653	JC 412602N	SUB	PITAM SINGH	01-04-2010
1654	JC 412755X	SUB	PRAKASH CHAND	01-04-2010
1655	JC 412577A	SUB	RAJENDER SINGH	01-07-2010
1656	JC 412624M	SUB	RAM SEWAK	01-07-2010
1657	JC 412601L	SUB	RAMESH KUMAR	01-04-2010
1658	JC 412564H	SUB	SARDARA RAM	01-04-2010
1659	JC 412741X	SUB	SHRI KISHAN	01-02-2010
1660	JC 412391W	SUB	SOMESH CHANDRA GHANSIYAL	01-03-2010

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

1661	JC 420004L	SUB	AMALENDU BASAK	01-03-2010
1662	JC 419347P	SUB	ANANT DEO PRASAD	01-05-2010
1663	JC 419839N	SUB	ANNA SINGH	01-04-2010
1664	JC 419556M	SUB	ARJAN SINGH	01-05-2010
1665	JC 418785L	SUB	ASHOK KUMAR	01-06-2010
1666	JC 419169X	SUB	ASHOK KUMAR PUN	01-07-2010
1667	JC 418784H	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2010
1668	JC 419757L	SUB	BACHAN SINGH	01-06-2010
1669	JC 419712L	SUB	BAHADUR RAM	01-04-2010
1670	JC 419091X	SUB	BARGE RAMCHANDRA SHIVAJI	01-03-2010
1671	JC 419751K	SUB	BATA KRISHNA SWAIN	01-06-2010
1672	JC 419208L	SUB	BATANE KANTILAL SHIVAPPA	01-04-2010
1673	JC 419265M	SUB	BHOSALE PANDURANG RAO SAHEB	01-06-2010
1674	JC 419980P	SUB	BIJAY KUMAR PARIDA	01-06-2010
1675	JC 419972W	SUB	BIR BAHADUR	01-04-2010
1676	JC 419698K	SUB	CHANDRA BALLABH	01-04-2010
1677	JC 419930K	SUB	DALBIR SINGH	01-04-2010
1678	JC 419602W	SUB	DALIP CHANDRA NATH	01-04-2010
1679	JC 419185P	SUB	DAYA RAM	01-07-2010
1680	JC 419634Y	SUB	DEVI DAS	01-04-2010



1681	JC 419562A	SUB	DEVI DUTT PATHAK	01-04-2010
1682	JC 420001X	SUB	DHARAMBIR SINGH	01-04-2010
1683	JC 420163H	SUB	DHEERAJ PAL SINGH	01-06-2010
1684	JC 419707A	SUB	DINA NATH CHAUDHARY	01-04-2010
1685	JC 419381P	SUB	EAPPEN PD	01-04-2010
1686	JC 420060K	SUB	FAKIRAPPA SANGAPPA UPPIN	01-04-2010
1687	JC 419370H	SUB	GAVHANE BHAUSAHEB BABU RAO	01-08-2010
1688	JC 419775N	SUB	GIAN CHAND	01-04-2010
1689	JC 420395F	SUB	GUNESHWAR MANDAL	01-04-2010
1690	JC 419841L	SUB	GUNT REDDI RAMA KRISHNA	01-08-2010
1691	JC 420403P	SUB	HARISH CHANDRA	01-04-2010
1692	JC 419276Y	SUB	HORESWAR BHARALI	01-08-2010
1693	JC 419737X	SUB	JAI KARAN	01-04-2010
1694	JC 420086Y	SUB	JASHWANT SINGH	01-04-2010
1695	JC 420245L	SUB	JATIN KUMAR NATH	01-08-2010
1696	JC 419543P	SUB	JHABBU LAL	01-04-2010
1697	JC 420190M	SUB	KAILASH CHAND	01-08-2010
1698	JC 419838L	SUB	KAPIL DEO PRASAD	01-08-2010
1699	JC 419681W	SUB	KAPIL PRASAD	01-04-2010
1700	JC 420061M	SUB	KARTAR SINGH	01-04-2010
1701	JC 419346M	SUB	KHOKAN CHANDRA ROY	01-03-2010
1702	JC 420181L	SUB	KULDEEP SINGH	01-04-2010
1703	JC 420042F	SUB	LEKH RAM	01-04-2010
1704	JC 418555X	SUB	MD REJOU HOQUE	01-04-2010
1705	JC 419415X	SUB	MOHINDER SINGH	01-07-2010
1706	JC 419099K	SUB	NANDAN LAL SHARMA	01-04-2010
1707	JC 419711H	SUB	OM PRAKASH	01-05-2010
1708	JC 419973Y	SUB	PARAS NATH SHARMA	01-04-2010
1709	JC 419071K	SUB	PATIL MAHADEV YASHAWANT	01-02-2010
1710	JC 419243N	SUB	PAWAR LEELADHAR RAM CHANDRA	01-06-2010
1711	JC 419166K	SUB	PREMAN VT	01-04-2010
1712	JC 419788L	SUB	PURSHOTTAM CHUNI LAL KOLHATKAR	01-04-2010
1713	JC 420443W	SUB	RADHA KRISHNA PILLAI T	01-06-2010
1714	JC 420162A	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	01-04-2010
1715	JC 419486Y	SUB	RAM KISHAN	01-02-2010
1716	JC 419883X	SUB	SADANANDA TAMULI	01-04-2010
1717	JC 419575X	SUB	SAJU D	01-04-2010
1718	JC 419242L	SUB	SATYA PRAKASH	01-04-2010
1719	JC 419902X	SUB	SHAMBHU PRASAD	01-08-2010
1720	JC 419353H	SUB	SINGANPALLI APPALA NAIDU	01-04-2010
1721	JC 420185F	SUB	SOMAPPA CHANDRAPPA VYAPARAGI	01-06-2010
1722	JC 418991P	SUB	SUBHAS SINHA	01-04-2010
1723	JC 418895A	SUB	SUKHBIR SINGH	01-04-2010
1724	JC 419706X	SUB	SURENDRA SINGH	01-04-2010
1725	JC 419782K	SUB	SURESH SINGH	01-04-2010
1726	JC 419791L	SUB	TARSEM SINGH	01-08-2010
1727	JC 419842N	SUB	TEGIMALI MAHADEV SIDRAYA	01-04-2010
1728	JC 419817P	SUB	THOMAS KUTTY J	01-04-2010

1729	JC 419473F	SUB	VENU N	01-06-2010
1730	JC 419836A	SUB	VIJAY KUMAR	01-02-2010
1731	JC 418557H	SUB	VIJAY SINGH BHATI	01-04-2010
<b><u>THE PUNJAB REGIMENT</u></b>				
1732	JC 429498F	SUB	AMAR SINGH	01-04-2010
1733	JC 429082K	SUB	AVTAR SINGH	01-07-2010
1734	JC 429592L	SUB	BALDEV SINGH	01-05-2010
1735	JC 429384W	SUB	CHAMEL SINGH CHAUHAN	01-07-2010
1736	JC 429565F	SUB	DEV RAJ	01-05-2010
1737	JC 429585P	SUB	GHARA SINGH	01-02-2010
1738	JC 429390K	SUB	GURDEV SINGH	01-05-2010
1739	JC 429742W	SUB	HARBANS LAL	01-07-2010
1740	JC 428894L	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-04-2010
1741	JC 429346A	SUB	HARDIT SINGH	01-02-2010
1742	JC 429704A	SUB	HARPAL SINGH	01-04-2010
1743	JC 430000H	SUB	JAGIR SINGH	01-08-2010
1744	JC 429136A	SUB	JAGJIT SINGH	01-02-2010
1745	JC 429898N	SUB	JAI KARAN MALIK	01-02-2010
1746	JC 429313P	SUB	JASWINDER SINGH	01-04-2010
1747	JC 429511A	SUB	KARNAIL SINGH	01-05-2010
1748	JC 429734X	SUB	KASHMIR SINGH BHARDWAJ	01-04-2010
1749	JC 429054X	SUB	KASHMIR SINGH KHLON	01-05-2010
1750	JC 429708W	SUB	KRISHAN SINGH	01-04-2010
1751	JC 429814P	SUB	MAHENDRA SINGH	01-04-2010
1752	JC 429636X	SUB	MAST RAM	01-08-2010
1753	JC 429425P	SUB	MASTAN SINGH	01-06-2010
1754	JC 429714K	SUB	NAHAR SINGH	01-04-2010
1755	JC 429266H	SUB	NASHATAR SINGH	01-04-2010
1756	JC 429670X	SUB	NIRANJAN SINGH	01-08-2010
1757	JC 429474X	SUB	OM PARKASH	01-07-2010
1758	JC 429588H	SUB	ONKAR CHAND RANA	01-07-2010
1759	JC 429757Y	SUB	ONKAR SINGH	01-05-2010
1760	JC 429679M	SUB	PARKASH CHAND	01-07-2010
1761	JC 428805F	SUB	PIARA SINGH	01-08-2010
1762	JC 429603M	SUB	PRITHI SINGH	01-08-2010
1763	JC 430080L	SUB	PURUSHOTTAM SINGH	01-08-2010
1764	JC 429385Y	SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2010
1765	JC 429643N	SUB	RAM PARKASH	01-05-2010
1766	JC 429682M	SUB	RANJIT SINGH	01-08-2010
1767	JC 429613W	SUB	ROMESH LAL	01-04-2010
1768	JC 429163K	SUB	SAHIB SINGH	01-04-2010
1769	JC 429642L	SUB	SATPAL SINGH	01-03-2010
1770	JC 429265A	SUB	SHER SINGH	01-04-2010
1771	JC 429363A	SUB	SUBHASH CHAND	01-03-2010
1772	JC 429749A	SUB	SUKHBIR SINGH	01-04-2010
1773	JC 429896H	SUB	SUKHDEVE SINGH	01-07-2010
1774	JC 429449Y	SUB	SUNIL SINGH	01-05-2010

1775	JC 428819F	SUB	SURAT SINGH	01-03-2010
1776	JC 429634M	SUB	SURJIT SINGH	01-05-2010
1777	JC 429653X	SUB	SURJIT SINGH	01-05-2010
1778	JC 429732M	SUB	SWARAN SINGH	01-04-2010
1779	JC 429095F	SUB	TIRATH SINGH	01-05-2010

**THE MADRAS REGIMENT**

1780	JC 438776L	SUB	A CHAKRAVARTHI	01-08-2010
1781	JC 438988W	SUB	AJITH KUMAR V	01-08-2010
1782	JC 439025W	SUB	ANTHONY AR.	01-08-2010
1783	JC 439571H	SUB	ASHOKAN C	01-05-2010
1784	JC 439331L	SUB	BABU MM	01-08-2010
1785	JC 438552L	SUB	BASAPPA KADEMANI	01-04-2010
1786	JC 438252K	SUB	C ANNADURAI	01-06-2010
1787	JC 438895F	SUB	EC SUBBARAMAN	01-07-2010
1788	JC 438453H	SUB	G JANAKIRAMAN	01-04-2010
1789	JC 439142F	SUB	GEORGE C T	01-08-2010
1790	JC 438881F	SUB	GEORGE KUTTY NA	01-05-2010
1791	JC 439262A	SUB	GUGAN M	01-04-2010
1792	JC 438934P	SUB	K MARUTHA MUTHU	01-02-2010
1793	JC 439352F	SUB	K SEKAR	01-08-2010
1794	JC 438253M	SUB	KESAVAN G	01-05-2010
1795	JC 438559P	SUB	KG MUNIKRISHNA REDDY	01-05-2010
1796	JC 438867P	SUB	LSRKS PRABHAKARA RAO	01-08-2010
1797	JC 439251N	SUB	MAHENDRAN M	01-07-2010
1798	JC 438600A	SUB	MARUTI SALAMANTAPI	01-07-2010
1799	JC 438597L	SUB	MATHEW OOMMEN	01-04-2010
1800	JC 438906H	SUB	OMKAR REDDY	01-06-2010
1801	JC 438795W	SUB	PALANI N	01-07-2010
1802	JC 439440X	SUB	PANDIARAJ G	01-08-2010
1803	JC 439380N	SUB	PANDIRA POINA POLU RAJU	01-06-2010
1804	JC 438972L	SUB	PEETHAMBARAN M	01-04-2010
1805	JC 438916M	SUB	PREMARAJAN P	01-08-2010
1806	JC 439066A	SUB	RAJASHEKARAN P	01-07-2010
1807	JC 438852M	SUB	RAJENDRAN NAIR MM	01-04-2010
1808	JC 438725X	SUB	RAMESAN KAIPRATH	01-07-2010
1809	JC 438761H	SUB	S ATHIMOOLA PERUMAL	01-04-2010
1810	JC 438415M	SUB	S KALYANI	01-05-2010
1811	JC 439327H	SUB	S MARIA ANTHONY	01-08-2010
1812	JC 438956N	SUB	SHAIK MEERA SAHEB	01-04-2010
1813	JC 438905A	SUB	SHANMUGAM C	01-04-2010
1814	JC 438896K	SUB	SUBBIAH DEVARAJ	01-08-2010
1815	JC 438780N	SUB	V KANAKARAJ	01-08-2010
1816	JC 439433F	SUB	V MUNIRATHINAM	01-08-2010
1817	JC 438743A	SUB	V MURUGANANDAM	01-05-2010
1818	JC 438523W	SUB	VIJAYAN K	01-04-2010
1819	JC 439109K	SUB	VISWOTHAMAN V	01-04-2010
1820	JC 438053W	SUB	WILSON PJ	01-03-2010

**THE GRENADIERS**

1821	JC 449825H	SUB	ABHAY SINGH	01-04-2010
1822	JC 449769P	SUB	AJMER SINGH BHADORIA	01-04-2010
1823	JC 449275L	SUB	ANIRUDH SINGH	01-06-2010
1824	JC 449580X	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2010
1825	JC 449025K	SUB	BABU LAL	01-03-2010
1826	JC 449699F	SUB	BABU LAL MEENA	01-04-2010
1827	JC 449478P	SUB	BACHCHU SINGH TOMAR	01-07-2010
1828	JC 449439W	SUB	BALBIR SINGH	01-04-2010
1829	JC 449697W	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2010
1830	JC 450090W	SUB	BHANWARU KHAN	01-04-2010
1831	JC 449261L	SUB	BHUP SINGH	01-06-2010
1832	JC 449626P	SUB	BIDHI CHAND	01-04-2010
1833	JC 449538Y	SUB	BRIJ MOHAN SINGH	01-03-2010
1834	JC 449788A	SUB	BUA DITTA	01-07-2010
1835	JC 449241X	SUB	CHHAGAN LAL MEENA	01-04-2010
1836	JC 450053H	SUB	DEV RAJ	01-08-2010
1837	JC 449824A	SUB	DEV RATTAN	01-04-2010
1838	JC 449513M	SUB	DEVI SINGH	01-05-2010
1839	JC 448345M	SUB	DOST MOHAMMAD	01-02-2010
1840	JC 449401M	SUB	FRIYAD	01-07-2010
1841	JC 450071L	SUB	GAJENDER SINGH SENGAR	01-04-2010
1842	JC 449237P	SUB	HAFIZ KHAN	01-08-2010
1843	JC 449554W	SUB	HAMID KHAN	01-02-2010
1844	JC 449779Y	SUB	IQBAL KHAN	01-07-2010
1845	JC 449987N	SUB	JAGDISH PRASAD	01-06-2010
1846	JC 450024N	SUB	JAGPAL SINGH	01-04-2010
1847	JC 449865K	SUB	JAI BHAGWAN	01-04-2010
1848	JC 450025W	SUB	JIWAN LAL	01-08-2010
1849	JC 449654F	SUB	KARNAIL SINGH	01-06-2010
1850	JC 449689X	SUB	KESHAR SINGH	01-05-2010
1851	JC 449435A	SUB	KHADIM HUSSAIN	01-07-2010
1852	JC 450032M	SUB	KIRPAL SINGH	01-08-2010
1853	JC 449565H	SUB	KUSAL SINGH	01-04-2010
1854	JC 449458F	SUB	MADAN SINGH	01-07-2010
1855	JC 450062K	SUB	MAHENDER SINGH RATHORE	01-04-2010
1856	JC 450115X	SUB	MOHAMMED IQBAL	01-05-2010
1857	JC 449338H	SUB	MOHD NIZAMUDDIN	01-04-2010
1858	JC 449631A	SUB	NIYAJ MOHAMMED	01-04-2010
1859	JC 450069N	SUB	NIYAJ MOHAMMED	01-07-2010
1860	JC 450000K	SUB	PADAM SINGH CHAUHAN	01-08-2010
1861	JC 449195N	SUB	PAGI RAJU BHAI MANA BHAI	01-04-2010
1862	JC 449743A	SUB	PRAHLAD SINGH	01-04-2010
1863	JC 449222M	SUB	PREM PAL SINGH	01-07-2010
1864	JC 450067H	SUB	RAHIMAN ALI	01-04-2010
1865	JC 449333K	SUB	RAI SINGH GOUR	01-05-2010
1866	JC 448881P	SUB	RAJ KUMAR YADAV	01-08-2010

2495	JC 629549N	SUB	TEK BAHADUR CHHETRI	01-02-2010
2496	JC 629598W	SUB	VIJAY SINGH	01-07-2010
<b>11 GORKHA RIFLES</b>				
2497	JC 634567A	SUB	AITA BAHADUR LIMBU	01-02-2010
2498	JC 634576F	SUB	ASH BAHADUR RAI	01-07-2010
2499	JC 634593F	SUB	BHAKTA RAJ RAI	01-04-2010
2500	JC 634618H	SUB	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-03-2010
2501	JC 634494Y	SUB	DURGA PRASAD LIMBU	01-04-2010
2502	JC 634239M	SUB	HARI RAM KAJLA	01-07-2010
2503	JC 634551P	SUB	LOK MAN RAI	01-03-2010
2504	JC 634386P	SUB	MAN BAHADUR TAMANG	01-04-2010
2505	JC 634525N	SUB	PRADEEP KUMAR RAI	01-04-2010
2506	JC 634602X	SUB	PROLAD RAI	01-08-2010
2507	JC 634221W	SUB	RAM BIR KESHWANIYAN	01-07-2010
2508	JC 634569L	SUB	RAM KUMAR RAI	01-08-2010
2509	JC 634502M	SUB	RAMESH KUMAR RAI	01-06-2010
2510	JC 634504X	SUB	SHYAM PRAKASH RAI	01-08-2010

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

2511	JC 642625N	SUB	AJAZ AHMED KHAN	01-03-2010
2512	JC 662830W	SUB	ANANTA KUMAR GHOSH	01-08-2010
2513	JC 641810P	SUB	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2010
2514	JC 662876Y	SUB	ANIL KUMAR TYAGI	01-08-2010
2515	JC 642690N	SUB	APURVA NAG	01-08-2010
2516	JC 662893Y	SUB	ARUN KUMAR AWASTHI	01-02-2010
2517	JC 663167W	SUB	ASAN ALI SK	01-08-2010
2518	JC 663105W	SUB	ASUTOSH GANGULY	01-04-2010
2519	JC 641297Y	SUB	ATTAR SINGH VERMA	01-04-2010
2520	JC 663242P	SUB	BABAR TANAJI KRISHNA DEO	01-06-2010
2521	JC 663289A	SUB	BALA CHANDRAN K N	01-06-2010
2522	JC 662704K	SUB	BALDEO RAWAT	01-02-2010
2523	JC 641809A	SUB	BALWAN SINGH	01-04-2010
2524	JC 642660W	SUB	BALWAN SINGH	01-08-2010
2525	JC 662815F	SUB	BHAGWATI PRASAD SHARMA	01-06-2010
2526	JC 642076Y	SUB	BHAGWATI SHARAN VERMA	01-03-2010
2527	JC 663154Y	SUB	BHAJAN LAL	01-05-2010
2528	JC 662802K	SUB	BHARAT SINGH	01-07-2010
2529	JC 641775X	SUB	BHUP SINGH YADAV	01-02-2010
2530	JC 662765F	SUB	BHUPENDRA SINGH	01-05-2010
2531	JC 641303F	SUB	BHUWAN CHANDRA KHANDPAL	01-04-2010
2532	JC 663243X	SUB	BINESH BARO	01-08-2010
2533	JC 642642N	SUB	BIRENDRA KUMAR	01-05-2010
2534	JC 663680X	SUB	BRAJENDER PANDEY	01-04-2010
2535	JC 662934X	SUB	BRIJ KUMAR MISRA	01-04-2010
2536	JC 642705L	SUB	BUTA SINGH VIRK	01-07-2010
2537	JC 642106L	SUB	BYASADEV PADHI	01-02-2010
2538	JC 662749K	SUB	CHANDRA KANTA BORAH	01-03-2010

2539	JC	641278N	SUB	CHANDU SAHU	01-02-2010
2540	JC	641514K	SUB	CHARAN SINGH TOMAR	01-02-2010
2541	JC	642715P	SUB	DALBIR SINGH SAHRAWAT	01-02-2010
2542	JC	662807H	SUB	DANGE VISHWANATH JAGANNATH	01-08-2010
2543	JC	662760H	SUB	DEVENDAR KUMAR SHARMA	01-04-2010
2544	JC	642706N	SUB	DEVENDRA SINGH	01-08-2010
2545	JC	641703N	SUB	DHARM BIR SINGH	01-04-2010
2546	JC	662721K	SUB	DHURANDHAR RAM	01-02-2010
2547	JC	642861P	SUB	DINESH CHANDRA TRIPATHI	01-07-2010
2548	JC	643106X	SUB	DORI LAL	01-02-2010
2549	JC	641372X	SUB	DUKH HARAN	01-07-2010
2550	JC	663985X	SUB	DWARKA PRASAD	01-08-2010
2551	JC	642537X	SUB	GANGA PRASAD YADAV	01-02-2010
2552	JC	642421F	SUB	GEORGE K	01-08-2010
2553	JC	641794H	SUB	GUMAN SINGH YADAV	01-02-2010
2554	JC	641292A	SUB	GURBACHAN SINGH	01-07-2010
2555	JC	662742A	SUB	GURUCHARAN SINGH	01-04-2010
2556	JC	662732W	SUB	GYAN CHAND	01-02-2010
2557	JC	662776N	SUB	HANUMAN SINGH	01-03-2010
2558	JC	642377H	SUB	HARBANS SINGH	01-03-2010
2559	JC	643144N	SUB	HARISH KUMAR M	01-07-2010
2560	JC	641289A	SUB	HARISHCHANDRA SINGH YADAV	01-04-2010
2561	JC	662777W	SUB	HARPAL SINGH	01-04-2010
2562	JC	642342M	SUB	IRAPPA BIRADAR	01-04-2010
2563	JC	642990P	SUB	ISHWAR DATT SHARMA	01-02-2010
2564	JC	642653A	SUB	JAGDISH KUMAR	01-07-2010
2565	JC	663150H	SUB	JAGDISH PRASAD	01-04-2010
2566	JC	662717F	SUB	JAI CHAND	01-02-2010
2567	JC	642700M	SUB	JAIPAL SINGH	01-05-2010
2568	JC	663426N	SUB	JAY SINGH YADAV	01-08-2010
2569	JC	643066F	SUB	JOY CHACKO	01-03-2010
2570	JC	643010P	SUB	JOY V G	01-07-2010
2571	JC	662734F	SUB	KAILASH CHANDER JOGI	01-02-2010
2572	JC	641295N	SUB	KAMAL RAJ SHARMA	01-07-2010
2573	JC	641271K	SUB	KHELA NAND MISHRA	01-02-2010
2574	JC	663354P	SUB	KISHAN CHAND	01-06-2010
2575	JC	663698N	SUB	KRISHNA SULEBHAVIKAR	01-07-2010
2576	JC	662722M	SUB	KULBHUSHAN SHARMA	01-03-2010
2577	JC	642499M	SUB	KULDEEP SINGH	01-07-2010
2578	JC	641349K	SUB	KULWANT SINGH	01-02-2010
2579	JC	662812N	SUB	LAD ANAND BANDU	01-04-2010
2580	JC	643128W	SUB	LAJJA RAM	01-04-2010
2581	JC	642759M	SUB	LAKSHMAN SINGH	01-03-2010
2582	JC	662832F	SUB	LAV KUSH TIWARI	01-04-2010
2583	JC	640849P	SUB	LEKH RAJ	01-07-2010
2584	JC	640408Y	SUB	M PONNU SWAMY	01-06-2010
2585	JC	662756A	SUB	MADAN GOPAL	01-03-2010
2586	JC	663133H	SUB	MAHENDER CHAUDHARY	01-06-2010

2587	JC 642624L	SUB	MAHENDER SINGH	01-02-2010
2588	JC 662801F	SUB	MAHENDRA PRATAP PRAJAPATI	01-07-2010
2589	JC 663178H	SUB	MAHIPAL SINGH	01-03-2010
2590	JC 662896M	SUB	MEMBAR KHAN	01-06-2010
2591	JC 641329W	SUB	MOHAMMAD ALIM	01-08-2010
2592	JC 663436X	SUB	MOHAMMAD IKBAL	01-07-2010
2593	JC 663240K	SUB	MOHAN BAHADUR PRADHAN	01-03-2010
2594	JC 217838H	SUB	MUKH LAL SAHU	01-04-2010
2595	JC 662799P	SUB	MUNISH KUMAR	01-06-2010
2596	JC 641426N	SUB	MURALEEDHARAN NAIR K	01-07-2010
2597	JC 663293H	SUB	NAND KISHOR	01-08-2010
2598	JC 641326H	SUB	NARBDESHWAR PANDEY	01-04-2010
2599	JC 642496Y	SUB	NARENDRA SINGH	01-03-2010
2600	JC 663858H	SUB	NARESH CHANDRA	01-05-2010
2601	JC 662753M	SUB	NARESH KUMAR	01-03-2010
2602	JC 642668H	SUB	NARINDER SINGH	01-06-2010
2603	JC 642813P	SUB	NIGAR QURESHI	01-07-2010
2604	JC 663241M	SUB	NITYA NANDA SAHOO	01-05-2010
2605	JC 662820M	SUB	NIZAMUDDIN	01-08-2010
2606	JC 662877F	SUB	PALTAN SINGH	01-03-2010
2607	JC 662797K	SUB	PANKAJ KUMAR CHAKRABORTY	01-05-2010
2608	JC 662819X	SUB	PATHAN JABBAR KHAN SUBHAN KHAN	01-07-2010
2609	JC 662891N	SUB	PRAMOD KISHORE NAYAK	01-05-2010
2610	JC 642692Y	SUB	PRANAB KUMAR NANDI	01-07-2010
2611	JC 663535A	SUB	PRASANNA KUMAR S	01-06-2010
2612	JC 662889W	SUB	PRATAP KUMAR DUTTA	01-02-2010
2613	JC 662759N	SUB	PRATAP SINGH GUJAR	01-02-2010
2614	JC 641460N	SUB	PRATHAPAN PILLAI KR	01-04-2010
2615	JC 662707X	SUB	PURAN CHANDRA JOSHI	01-02-2010
2616	JC 640388W	SUB	PURAN MAL	01-04-2010
2617	JC 662786X	SUB	PURAN SINGH	01-05-2010
2618	JC 642810F	SUB	RADHA KRISHNA	01-08-2010
2619	JC 663472H	SUB	RAJ KISHOR SINGH	01-06-2010
2620	JC 663763H	SUB	RAJ KUMAR	01-03-2010
2621	JC 642776M	SUB	RAJ KUMAR SINGH CHAUHAN	01-07-2010
2622	JC 641919P	SUB	RAJARAM SINGH	01-05-2010
2623	JC 641437A	SUB	RAJENDRA PRASAD KHARWAR	01-04-2010
2624	JC 662750Y	SUB	RAJENDRA RAM	01-03-2010
2625	JC 662947P	SUB	RAJESH KUMAR SHUKLA	01-02-2010
2626	JC 663267F	SUB	RAJINDER YADAV	01-03-2010
2627	JC 662828Y	SUB	RAM BHARAT JHA	01-06-2010
2628	JC 641137Y	SUB	RAM BHAWAN YADAV	01-07-2010
2629	JC 642641L	SUB	RAM CHANDER TRIPATHI	01-03-2010
2630	JC 662723P	SUB	RAM KRISHNA	01-03-2010
2631	JC 663586N	SUB	RAM KUMAR	01-06-2010
2632	JC 662881K	SUB	RAM MEHAR	01-06-2010
2633	JC 641531K	SUB	RAM PAL YADAV	01-07-2010
2634	JC 662754P	SUB	RAM PRASAD	01-03-2010

2635	JC 641281N	SUB	RAM SAROOP SHARMA	01-03-2010
2636	JC 663307X	SUB	RAMAPPA NAVI	01-07-2010
2637	JC 642086H	SUB	RAMESAN TK	01-04-2010
2638	JC 642702X	SUB	RAMESH KUMAR	01-07-2010
2639	JC 663187K	SUB	RAMPHAL DHILLON	01-07-2010
2640	JC 642194M	SUB	RANBIR SINGH	01-05-2010
2641	JC 643240H	SUB	RATTAN CHAND	01-04-2010
2642	JC 641539W	SUB	RATTAN LAL	01-05-2010
2643	JC 641925H	SUB	RATTAN SINGH	01-05-2010
2644	JC 641320F	SUB	RAVENDRA SINGH CHAUHAN	01-07-2010
2645	JC 641723F	SUB	RAVI SHANKER SHUKLA	01-02-2010
2646	JC 642710W	SUB	RISAL SINGH DOTASARA	01-06-2010
2647	JC 642639N	SUB	RUP CHAND RAM	01-03-2010
2648	JC 663787M	SUB	SADHAN CHANDRA ROY	01-07-2010
2649	JC 663290P	SUB	SAJANI KANTA DAS	01-08-2010
2650	JC 642538A	SUB	SAKTI PADA BANERJEE	01-02-2010
2651	JC 213431P	SUB	SAMER KUMAR DEB	01-02-2010
2652	JC 641510N	SUB	SAMPAT KUMAR GAUTAM	01-02-2010
2653	JC 662766K	SUB	SANKAR KUMAR MONDAL	01-05-2010
2654	JC 663165L	SUB	SARATA KUMAR BISWAL	01-05-2010
2655	JC 662879M	SUB	SATBIR SINGH	01-04-2010
2656	JC 662894F	SUB	SATNAM SINGH	01-03-2010
2657	JC 641323P	SUB	SATYABIR SINGH	01-03-2010
2658	JC 662939W	SUB	SHAJI KUMAR KB	01-07-2010
2659	JC 641269M	SUB	SHANGARA SINGH	01-02-2010
2660	JC 662780W	SUB	SHANKRESWAR TRIPATHI	01-04-2010
2661	JC 641290P	SUB	SHIV CHARAN SINGH	01-06-2010
2662	JC 641921M	SUB	SHIV KUMAR	01-05-2010
2663	JC 662762N	SUB	SHIV RAM SINGH	01-04-2010
2664	JC 642638L	SUB	SHOBH NATH YADAV	01-03-2010
2665	JC 642707W	SUB	SHREE RAM SINGH	01-08-2010
2666	JC 641337P	SUB	SHRI BHAGWAN	01-06-2010
2667	JC 662761L	SUB	SHRI KRISHNA	01-04-2010
2668	JC 663156K	SUB	SHYAMA KANTA AGASTI	01-07-2010
2669	JC 642077F	SUB	SIVAN KUTTY PK	01-02-2010
2670	JC 641905P	SUB	SREEKANTAN NAIR V	01-03-2010
2671	JC 642699H	SUB	SRI RAM SHARMA	01-05-2010
2672	JC 641270F	SUB	STALIN G	01-02-2010
2673	JC 642188Y	SUB	SUBE SINGH	01-03-2010
2674	JC 662792L	SUB	SUBHASH	01-05-2010
2675	JC 662752K	SUB	SUDAMA PANDEY	01-03-2010
2676	JC 642536P	SUB	SUKHBIR SIGH CHHAUKAR	01-02-2010
2677	JC 642987P	SUB	SULTAN SINGH	01-04-2010
2678	JC 641520X	SUB	SURAJ SINGH YADAV	01-03-2010
2679	JC 642693F	SUB	SURENDRA NATH MISHRA	01-08-2010
2680	JC 642772W	SUB	SURENDRA SINGH PAL	01-08-2010
2681	JC 662763W	SUB	SWAMI SHARNAYYA KALLAYYA	01-04-2010
2682	JC 215533K	SUB	SWARAN SINGH MANHAS	01-07-2010



2047	JC 509079X	SUB	HARDEV SINGH	01-04-2010
2048	JC 508937H	SUB	HARJINDER PAL SINGH	01-06-2010
2049	JC 509024M	SUB	JAGDISH SINGH	01-04-2010
2050	JC 509228A	SUB	JAGIR SINGH	01-04-2010
2051	JC 509257P	SUB	JAGRANT SINGH	01-06-2010
2052	JC 509194X	SUB	KARAMJIT SINGH	01-04-2010
2053	JC 508577X	SUB	MANGAL SINGH	01-03-2010
2054	JC 508302K	SUB	MOHINDER SINGH	01-03-2010
2055	JC 508584N	SUB	NANAK CHAND	01-06-2010
2056	JC 508620N	SUB	PARTAP SINGH	01-04-2010
2057	JC 508426Y	SUB	PIARA SINGH	01-02-2010
2058	JC 508613X	SUB	PURAN SINGH	01-04-2010
2059	JC 509175M	SUB	PURAN SINGH	01-04-2010
2060	JC 509151H	SUB	RAM SINGH	01-07-2010
2061	JC 509197L	SUB	SARUP SINGH	01-08-2010
2062	JC 508713H	SUB	SUKHDEV SINGH	01-04-2010
2063	JC 509022H	SUB	ZORA SINGH	01-08-2010

**THE DOGRA REGIMENT**

2064	JC 520057Y	SUB	AMRIT LAL	01-04-2010
2065	JC 520242M	SUB	ANIL KUMAR	01-05-2010
2066	JC 520170N	SUB	ANIL SINGH	01-04-2010
2067	JC 519937H	SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2010
2068	JC 520197L	SUB	ASHOK KUMAR	01-07-2010
2069	JC 520037L	SUB	BABU RAM	01-02-2010
2070	JC 520214A	SUB	BALBIR SINGH	01-05-2010
2071	JC 520125F	SUB	BALDIP RAJ	01-04-2010
2072	JC 520231A	SUB	BALWANT SINGH	01-04-2010
2073	JC 519691P	SUB	BIHARI LAL	01-03-2010
2074	JC 519867P	SUB	CHAMAN LAL	01-02-2010
2075	JC 520177X	SUB	DALJIT SINGH CHANJOTIRA	01-04-2010
2076	JC 520263H	SUB	DES RAJ	01-04-2010
2077	JC 519809L	SUB	DESH RAJ CHAMBIAL	01-03-2010
2078	JC 519764W	SUB	DHARAM SINGH	01-03-2010
2079	JC 520182H	SUB	GOPAL SINGH	01-04-2010
2080	JC 519780N	SUB	GURDEV SINGH	01-02-2010
2081	JC 520255K	SUB	HARBANS LAL	01-04-2010
2082	JC 519806X	SUB	HARBANS SINGH	01-07-2010
2083	JC 519671F	SUB	INDER JIT	01-03-2010
2084	JC 520249W	SUB	JAGDEV KUMAR	01-05-2010
2085	JC 519128H	SUB	JAGGAR NATH THAKUR	01-04-2010
2086	JC 519782Y	SUB	JOGINDER SINGH	01-02-2010
2087	JC 520120H	SUB	JOGINDER SINGH	01-04-2010
2088	JC 520046M	SUB	KESHAV DATT	01-04-2010
2089	JC 520243P	SUB	KRISHAN PAUL BHATIA	01-05-2010
2090	JC 519201W	SUB	KULDIP CHAND KATOCH	01-05-2010
2091	JC 520344H	SUB	MADAN LAL	01-05-2010
2092	JC 519553N	SUB	MANOHAR LAL	01-04-2010

2093	JC 519884P	SUB	MANOHAR SINGH	01-04-2010
2094	JC 519389W	SUB	MOHAN LAL SHARMA	01-06-2010
2095	JC 519777N	SUB	MOHAN SINGH	01-07-2010
2096	JC 520059K	SUB	MOHAN SINGH	01-04-2010
2097	JC 519751Y	SUB	NIHAL SINGH	01-04-2010
2098	JC 520199W	SUB	OM PARKASH	01-04-2010
2099	JC 520312A	SUB	ONKAR CHAND	01-04-2010
2100	JC 519185K	SUB	PARKASH CHAND	01-03-2010
2101	JC 520244X	SUB	PARKASH CHAND SHARMA	01-04-2010
2102	JC 519886A	SUB	PIAR CHAND	01-03-2010
2103	JC 519811H	SUB	PRAKASH CHAND THAKUR	01-07-2010
2104	JC 520196H	SUB	RAJ KUMAR	01-04-2010
2105	JC 519960W	SUB	RAJENDER SINGH KAITH.	01-05-2010
2106	JC 520060Y	SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2010
2107	JC 520367K	SUB	RAJU RAM	01-04-2010
2108	JC 520212P	SUB	RAKSHPAL SINGH	01-04-2010
2109	JC 520187F	SUB	RAM PAUL	01-04-2010
2110	JC 519794N	SUB	RAM SINGH	01-03-2010
2111	JC 519845W	SUB	RAMESH CHAND	01-04-2010
2112	JC 520053H	SUB	RAMESH CHAND	01-04-2010
2113	JC 520250L	SUB	RAMESH LAL	01-05-2010
2114	JC 519679N	SUB	RAMESHWAR KUMAR	01-04-2010
2115	JC 519941L	SUB	RAVINDER KUMAR	01-04-2010
2116	JC 520343A	SUB	RUP LAL	01-04-2010
2117	JC 520108F	SUB	SAT PAUL	01-04-2010
2118	JC 520232H	SUB	SATISH KUMAR	01-04-2010
2119	JC 520179H	SUB	SHER SINGH VERMA	01-04-2010
2120	JC 519789H	SUB	SITAL SINGH	01-04-2010
2121	JC 520051X	SUB	SUBASH CHAND	01-04-2010
2122	JC 519327W	SUB	SUBHASH CHANDER	01-05-2010
2123	JC 520102A	SUB	SUBHASH SINGH	01-04-2010
2124	JC 519857L	SUB	SUDAGAR RAM	01-06-2010
2125	JC 519979P	SUB	SURJIT SINGH	01-04-2010
2126	JC 519279F	SUB	TAN SINGH	01-02-2010
2127	JC 519749F	SUB	TULSI RAM	01-04-2010
2128	JC 520159P	SUB	UTTAM SINGH	01-04-2010
2129	JC 520081P	SUB	VIJAY KUMAR	01-04-2010
2130	JC 519257H	SUB	VIRENDER KUMAR PATHANIA	01-02-2010

**THE GARHWAL RIFLES**

2131	JC 529952L	SUB	ABBAL SINGH	01-06-2010
2132	JC 529471Y	SUB	AJAB SINGH	01-03-2010
2133	JC 529866A	SUB	ANAND SINGH	01-02-2010
2134	JC 529901X	SUB	BALWANT SINGH	01-04-2010
2135	JC 529636M	SUB	BHARAT SINGH	01-03-2010
2136	JC 530021N	SUB	BHUPAL SINGH	01-06-2010
2137	JC 529631N	SUB	BIKRAM SINGH	01-06-2010
2138	JC 529286L	SUB	CHAMAN SINGH	01-07-2010

2139	JC 529596W	SUB	CHAMAN SINGH	01-07-2010
2140	JC 529610X	SUB	CHANDAN SINGH	01-04-2010
2141	JC 529775W	SUB	CHANDAR SINGH	01-07-2010
2142	JC 529761W	SUB	DALBIR SINGH	01-04-2010
2143	JC 529788N	SUB	DARWAN SINGH	01-06-2010
2144	JC 529329P	SUB	DAYA RAM KHOLA	01-04-2010
2145	JC 529518Y	SUB	DEVENDAR SINGH	01-04-2010
2146	JC 529955Y	SUB	DHARAM SINGH	01-06-2010
2147	JC 529817X	SUB	GAMBHIR SINGH	01-08-2010
2148	JC 529853H	SUB	GANGA SINGH	01-06-2010
2149	JC 529656A	SUB	GIRISH CHANDRA	01-08-2010
2150	JC 529397H	SUB	GOPAL SINGH	01-02-2010
2151	JC 529991K	SUB	JAGBIR SINGH	01-04-2010
2152	JC 529573P	SUB	JAGDAMBA PRASAD	01-08-2010
2153	JC 529472F	SUB	JAGENDER SINGH	01-03-2010
2154	JC 529071M	SUB	JASMAL SINGH	01-04-2010
2155	JC 529566Y	SUB	JOT SINGH PANWAR	01-07-2010
2156	JC 529906W	SUB	KEDAR SINGH	01-08-2010
2157	JC 529887W	SUB	KISHNA NAND	01-08-2010
2158	JC 529899L	SUB	KRISHAN SINGH	01-04-2010
2159	JC 529699P	SUB	KULDIP SINGH	01-08-2010
2160	JC 530301F	SUB	MADAN LAL KUNIYAL	01-06-2010
2161	JC 529579W	SUB	MADAN SINGH	01-06-2010
2162	JC 529306N	SUB	MANBAR SINGH	01-03-2010
2163	JC 529996H	SUB	MIJAN SINGH	01-05-2010
2164	JC 529780F	SUB	MOHAN SINGH	01-04-2010
2165	JC 529913M	SUB	MOHAN SINGH	01-06-2010
2166	JC 529582W	SUB	OM PRAKASH BARATHWAL	01-04-2010
2167	JC 529856W	SUB	PADAM SINGH	01-04-2010
2168	JC 529624X	SUB	PRABHU DAYAL	01-05-2010
2169	JC 529470W	SUB	PREM NARAYAN GANGWAR	01-08-2010
2170	JC 529816P	SUB	PURSHOTAM JOSHI	01-04-2010
2171	JC 529575A	SUB	PUSHKAR SINGH	01-04-2010
2172	JC 529995A	SUB	PUSHKAR SINGH	01-04-2010
2173	JC 529860Y	SUB	PYARE LAL MAITHANI	01-04-2010
2174	JC 529767X	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-05-2010
2175	JC 529284A	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-05-2010
2176	JC 528680K	SUB	RAJENDRA SINGH	01-03-2010
2177	JC 529936K	SUB	RAJESH KUMAR	01-05-2010
2178	JC 529345M	SUB	RAJIV KUMAR	01-03-2010
2179	JC 529467W	SUB	RAM CHANDAR SINGH	01-08-2010
2180	JC 529615W	SUB	RAM SWAROOP	01-04-2010
2181	JC 529091A	SUB	RAMESH SINGH	01-04-2010
2182	JC 529268H	SUB	RANJIT SINGH	01-04-2010
2183	JC 529954W	SUB	SAIN SINGH RAWAT	01-05-2010
2184	JC 529486F	SUB	SAJJAN SINGH NEGI	01-03-2010
2185	JC 529443M	SUB	SATYA PAL SINGH	01-07-2010
2186	JC 529785A	SUB	SUNDER LAL	01-04-2010

2187	JC 529132Y	SUB	SURAT SINGH	01-07-2010
2188	JC 529935L	SUB	UMA PRASAD	01-04-2010
2189	JC 529537K	SUB	UTTAM SINGH	01-03-2010
2190	JC 529783P	SUB	UTTAM SINGH	01-05-2010
2191	JC 529281M	SUB	VED PRAKASH SHARMA	01-04-2010

**THE KUMAON REGIMENT**

2192	JC 539611N	SUB	BHAGWAT SINGH	01-05-2010
2193	JC 539389X	SUB	BRAHM PRAKASH	01-07-2010
2194	JC 539974X	SUB	CHANDAN SINGH	01-04-2010
2195	JC 539613Y	SUB	DEV SINGH	01-02-2010
2196	JC 539999K	SUB	DHARAM SINGH	01-08-2010
2197	JC 539569A	SUB	DHARAM VEER	01-07-2010
2198	JC 539941M	SUB	DIWAN SINGH	01-06-2010
2199	JC 538958N	SUB	DIWAN SINGH BOHARA	01-03-2010
2200	JC 539197A	SUB	DURGA SINGH	01-08-2010
2201	JC 539505P	SUB	GOVIND RAM	01-06-2010
2202	JC 539831X	SUB	HARISH CHAND	01-04-2010
2203	JC 539600F	SUB	HAYAT SINGH BISHT	01-05-2010
2204	JC 539916N	SUB	HUKAM SINGH	01-04-2010
2205	JC 539079M	SUB	JAGAT SINGH	01-06-2010
2206	JC 539875P	SUB	KHUSHAL SINGH	01-04-2010
2207	JC 539788F	SUB	KUNDAN SINGH	01-04-2010
2208	JC 539519P	SUB	KUNWAR SINGH	01-03-2010
2209	JC 539694K	SUB	LAL SINGH YADAV	01-02-2010
2210	JC 539234H	SUB	MAHENDRA SINGH	01-07-2010
2211	JC 538789X	SUB	MATHAI V I	01-03-2010
2212	JC 539858P	SUB	MOHAN CHANDRA	01-04-2010
2213	JC 539832A	SUB	MOHAN GIRI	01-04-2010
2214	JC 539786W	SUB	MOHAN SINGH	01-04-2010
2215	JC 539807F	SUB	NARAYAN DATT	01-04-2010
2216	JC 539801A	SUB	NARAYAN SINGH	01-08-2010
2217	JC 539394H	SUB	PITAMBER DATT PANDEY	01-06-2010
2218	JC 539015F	SUB	RAJA RAM SINGH	01-03-2010
2219	JC 539271W	SUB	RAJENDER SINGH	01-07-2010
2220	JC 539285W	SUB	RAJENDER SINGH	01-04-2010
2221	JC 539419K	SUB	RAMAKANT SINGH YADAV	01-06-2010
2222	JC 539392X	SUB	RANG LAL	01-02-2010
2223	JC 538831L	SUB	RAVI KUMAR BHATT	01-05-2010
2224	JC 539921Y	SUB	SHYAM SINGH	01-06-2010
2225	JC 539544N	SUB	SURAJ BHAN	01-03-2010
2226	JC 539931H	SUB	SURENDRA SINGH	01-04-2010
2227	JC 539608N	SUB	SURESH CHANDRA	01-05-2010
2228	JC 539016K	SUB	SURESH KUMAR	01-05-2010
2229	JC 538871M	SUB	TARA DATT JOSHI	01-03-2010
2230	JC 540034Y	SUB	TRILOK SINGH JETHI	01-06-2010
2231	JC 539475H	SUB	UTTAR KUMAR	01-04-2010
2232	JC 539387M	SUB	WAZIR SINGH BHAKER	01-07-2010

**THE ASSAM REGIMENT**

2233	JC 549203W	SUB	AMIT KUMAR NATH	01-04-2010
2234	JC 548469W	SUB	BASANTA KR BARUAH	01-07-2010
2235	JC 548834M	SUB	GINZAPAU	01-02-2010
2236	JC 548942W	SUB	HOTOVI SHIKHU	01-04-2010
2237	JC 548839L	SUB	JOSEPH LANGSUAN BOY	01-03-2010
2238	JC 548977M	SUB	KAICHINPAU ZOU	01-03-2010
2239	JC 548696W	SUB	KAIKHOLEL	01-07-2010
2240	JC 549178H	SUB	KARTIK SINHA	01-06-2010
2241	JC 548628H	SUB	MAHENDRA MOHAN DAS	01-02-2010
2242	JC 549128X	SUB	MANOHARI DAS	01-04-2010
2243	JC 548697Y	SUB	NABIN CHANDRA GOGOI	01-08-2010
2244	JC 548950P	SUB	NIKUNJA SINGHA	01-08-2010
2245	JC 438272X	SUB	PROMOD CH DAS	01-05-2010
2246	JC 549210M	SUB	SUKHENDRA SINHA	01-06-2010
2247	JC 548861W	SUB	SUKUR SING BASUMATARY	01-07-2010
2248	JC 548794W	SUB	SWAPAN KUMAR SINGHA	01-08-2010
2249	JC 548809N	SUB	TANANG HAI	01-04-2010
2250	JC 548916P	SUB	TEJ BHADUR GURUNG	01-08-2010
2251	JC 548967H	SUB	TH BACHA SINGHA	01-08-2010
2252	JC 549194A	SUB	YAMKHOPAO	01-07-2010

**THE BIHAR REGIMENT**

2253	JC 559117Y	SUB	ABRAHAM EKKA	01-02-2010
2254	JC 559283M	SUB	ASHOK KUMAR MISHRA	01-02-2010
2255	JC 559646L	SUB	BAJIT LAL	01-08-2010
2256	JC 558801P	SUB	BALI RAM SINGH	01-03-2010
2257	JC 558876M	SUB	BASHIST RAI	01-07-2010
2258	JC 559396P	SUB	BHIMSEN MUKHI	01-05-2010
2259	JC 558799H	SUB	BIBEKA NAND DAS	01-02-2010
2260	JC 559570W	SUB	BIKRMA SINGH	01-07-2010
2261	JC 559448A	SUB	BIRENDRA NATH SINGH	01-05-2010
2262	JC 559295F	SUB	BLACIUS MAJHI	01-05-2010
2263	JC 559291L	SUB	BRINDABAN BAG	01-08-2010
2264	JC 558431A	SUB	BUDAN BHAGAT	01-03-2010
2265	JC 558833X	SUB	BURAN SINGH BANDIYA	01-08-2010
2266	JC 558816X	SUB	CAROLUS XALXO	01-04-2010
2267	JC 559305A	SUB	CHRISTOPHER HEMROM	01-08-2010
2268	JC 558945X	SUB	CIRIL HORO	01-04-2010
2269	JC 559173X	SUB	CLEMENT TIRKEY	01-04-2010
2270	JC 558798A	SUB	DINA BANDHU DASH	01-08-2010
2271	JC 559417A	SUB	DOMNIK KERKETTA	01-06-2010
2272	JC 559379P	SUB	DWARIKA NATH SINGH	01-07-2010
2273	JC 559400M	SUB	GERALD MENJELA TIRKEY	01-04-2010
2274	JC 559155P	SUB	HARENDRA SINGH	01-03-2010
2275	JC 559182Y	SUB	HARENDRA SINGH	01-03-2010
2276	JC 559120Y	SUB	HARI RAM SAH	01-04-2010

2277	JC 559190X	SUB	HARIHAR SWAIN	01-04-2010
2278	JC 559347M	SUB	HENRY INNOCENT KUJUR	01-04-2010
2279	JC 559329K	SUB	JABLIAR TIRKEY	01-04-2010
2280	JC 559301K	SUB	JAGAT NARAYAN PRASAD	01-03-2010
2281	JC 559214W	SUB	JAI NARAYAN PRAKASH SINGH	01-07-2010
2282	JC 558934L	SUB	JOHAN TOPNO	01-08-2010
2283	JC 559367A	SUB	JOSEPH KANDULANA	01-04-2010
2284	JC 559409F	SUB	KAMTA PRASAD	01-04-2010
2285	JC 559549N	SUB	LAKH DEO PRASAD YADAV	01-06-2010
2286	JC 559309W	SUB	LALLU SAH	01-08-2010
2287	JC 559220K	SUB	LAXMAN PRASAD	01-02-2010
2288	JC 559481X	SUB	NANEYA ORAON	01-04-2010
2289	JC 559052W	SUB	NARAYAN PARIDA	01-04-2010
2290	JC 559341L	SUB	NIRANJAN SWAIN	01-06-2010
2291	JC 559517L	SUB	NIRMAL EKKA	01-08-2010
2292	JC 559206X	SUB	PANKAJ KUMAR MEHTA	01-03-2010
2293	JC 559581H	SUB	RAJ KUMAR CHOUHAN	01-05-2010
2294	JC 558883H	SUB	RAM NEH SINGH	01-02-2010
2295	JC 558990K	SUB	RAM SAHAY	01-04-2010
2296	JC 559231W	SUB	RANGJEE SINGH	01-03-2010
2297	JC 559405L	SUB	RANJIT KUMAR OJHA	01-04-2010
2298	JC 559011M	SUB	RATIA TOPNO	01-03-2010
2299	JC 558884L	SUB	SAHJENDRA KUMAR SINHA	01-03-2010
2300	JC 559075X	SUB	SANIKA TOPNO	01-04-2010
2301	JC 559348P	SUB	SHAMBHU NATH	01-06-2010
2302	JC 559477P	SUB	SHATRUGHAN SAH	01-04-2010
2303	JC 559154M	SUB	SHYAMJI UPADHAYA	01-04-2010
2304	JC 559223X	SUB	SILAS BENGRA	01-06-2010
2305	JC 559003N	SUB	SUBASH CHANDRA PRADHAN	01-03-2010
2306	JC 559271X	SUB	SUDHIR TOPPO	01-04-2010
2307	JC 558982L	SUB	SUNA RAM SOREN	01-07-2010
2308	JC 558936W	SUB	SURENDRA SINGH	01-04-2010
2309	JC 559085F	SUB	SURESH KUMAR	01-03-2010
2310	JC 559319A	SUB	TEJ NARAYAN RAI	01-07-2010
2311	JC 559084Y	SUB	WILLIAM KAJUR	01-04-2010

**THE MAHAR REGIMENT**

2312	JC 569476A	SUB	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2010
2313	JC 569674L	SUB	BALWANT SINGH	01-07-2010
2314	JC 569701K	SUB	BALWANT SINGH	01-04-2010
2315	JC 568785W	SUB	BHIMRAO GARIBA WAKODE	01-07-2010
2316	JC 569365H	SUB	BOOTA SINGH	01-08-2010
2317	JC 569363X	SUB	DEWAMOHAN JANARDAN AMBHORE	01-07-2010
2318	JC 569416L	SUB	GOPAL RAM	01-04-2010
2319	JC 569640X	SUB	GOPAL SINGH	01-08-2010
2320	JC 569209Y	SUB	GOVIND SINGH	01-02-2010
2321	JC 569632Y	SUB	GUGAN RAM	01-04-2010
2322	JC 569723H	SUB	GURBHEJ SINGH	01-04-2010

2323	JC 569668X	SUB	JAGBIR SINGH	01-04-2010
2324	JC 569266A	SUB	JANARDHAN SHALIGRAM TAYADE	01-06-2010
2325	JC 569313M	SUB	KAMAL BHARDWAJ	01-04-2010
2326	JC 569169H	SUB	KESHAO GANPAT SONONE	01-08-2010
2327	JC 569491P	SUB	MOHAN LAL	01-04-2010
2328	JC 569566F	SUB	NAND LAL GURJAR	01-06-2010
2329	JC 569700F	SUB	NEMI CHAND	01-04-2010
2330	JC 569841W	SUB	NETAR SINGH	01-08-2010
2331	JC 569853L	SUB	PRADIP KUMAR	01-08-2010
2332	JC 569770A	SUB	RAJ KARAN SINGH	01-05-2010
2333	JC 569722A	SUB	RAM SINGH CHAUHAN	01-05-2010
2334	JC 569592H	SUB	RAMDHAN	01-04-2010
2335	JC 569710L	SUB	RAMESH CHAND	01-04-2010
2336	JC 569455K	SUB	ROHIT KUMAR ROUT	01-08-2010
2337	JC 569241N	SUB	SANT RAJ	01-06-2010
2338	JC 569696K	SUB	SHISH RAM	01-04-2010
2339	JC 569497W	SUB	SHIV DAYAL	01-07-2010
2340	JC 569605P	SUB	VIJAY SINGH	01-04-2010
2341	JC 569576L	SUB	YASWANT SINGH	01-04-2010
2342	JC 568917Y	SUB	ZACHARIA KERKETTA	01-08-2010
2343	JC 569210N	SUB	ZALE SINGH	01-02-2010

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

2344	JC 579689F	SUB	AJIT SINGH	01-02-2010
2345	JC 579956X	SUB	ARUN KUMAR	01-03-2010
2346	JC 580118P	SUB	BACHAN DASS	01-05-2010
2347	JC 580057H	SUB	BADRI NATH	01-07-2010
2348	JC 579728P	SUB	BALBIR SINGH	01-04-2010
2349	JC 579884Y	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2010
2350	JC 579701X	SUB	BALDEV DASS SHARMA	01-02-2010
2351	JC 580399W	SUB	BENI CHAND	01-07-2010
2352	JC 579735L	SUB	BHOPINDER SINGH	01-08-2010
2353	JC 579882N	SUB	BHUP SINGH	01-05-2010
2354	JC 580285L	SUB	BRIJ LAL	01-08-2010
2355	JC 580008A	SUB	DARSHAN LAL	01-04-2010
2356	JC 579717H	SUB	DAYA SAGAR	01-02-2010
2357	JC 579653H	SUB	DES RAJ	01-02-2010
2358	JC 580016Y	SUB	DES RAJ	01-06-2010
2359	JC 580251X	SUB	DESH RAJ	01-08-2010
2360	JC 579452K	SUB	DEV BHADUR THAPA	01-04-2010
2361	JC 580078Y	SUB	DEWARKA NATH	01-02-2010
2362	JC 580168A	SUB	GOPAL SINGH	01-08-2010
2363	JC 579896N	SUB	HEM RAJ	01-08-2010
2364	JC 580041X	SUB	HOSHIAR SINGH	01-08-2010
2365	JC 580319N	SUB	JASWANT SINGH, SM	01-08-2010
2366	JC 580222H	SUB	KAMLESH KUMAR THAKUR	01-08-2010
2367	JC 579762P	SUB	LAL CHAND	01-02-2010
2368	JC 580042A	SUB	LEKH RAJ	01-08-2010

2369	JC 580179M	SUB	MADAN LAL	01-08-2010
2370	JC 579468M	SUB	MANOHAR SINGH SAMBYAL	01-03-2010
2371	JC 580119X	SUB	MOHAN LAL	01-05-2010
2372	JC 579881L	SUB	PREM SINGH MANHAS	01-08-2010
2373	JC 580187L	SUB	PRITAM CHAND	01-04-2010
2374	JC 580140A	SUB	PRITAM KUMAR	01-05-2010
2375	JC 580024X	SUB	RABINDER NATH	01-04-2010
2376	JC 579879N	SUB	RACHH PAUL	01-05-2010
2377	JC 579754W	SUB	RAJU GURUNG	01-04-2010
2378	JC 580228K	SUB	RAM KRISHAN	01-06-2010
2379	JC 579818W	SUB	SARDARI LAL	01-02-2010
2380	JC 580144W	SUB	SARV DAYAL SINGH	01-04-2010
2381	JC 579785W	SUB	SHARWAN SINGH	01-02-2010
2382	JC 580006P	SUB	SUBHASH CHAND	01-08-2010
2383	JC 579415W	SUB	TEK CHAND RAINA	01-03-2010
2384	JC 579422M	SUB	UDHAM SINGH	01-08-2010

**THE LADAKH SCOUTS**

2385	JC 588058A	SUB	ASHOK KUMAR KOUL	01-03-2010
2386	JC 588281K	SUB	CHHERING ANGCHOK	01-03-2010
2387	JC 588276Y	SUB	CHHERING JORGAS	01-03-2010
2388	JC 588139Y	SUB	CHHERING MURUP	01-03-2010
2389	JC 588142A	SUB	GHULAM QADIR, SM	01-04-2010
2390	JC 588213W	SUB	PHUNCHOK NAMGIAL	01-08-2010
2391	JC 588275W	SUB	RIGZIN ANGCHOK	01-03-2010
2392	JC 588126H	SUB	SONAM ANGDUS	01-06-2010
2393	JC 588241H	SUB	SONAM RINCHEN	01-03-2010
2394	JC 588237A	SUB	TONDUP ANGDUS	01-03-2010

**THE NAGA REGIMENT**

2395	JC 590093F	SUB	B D THUMTHUNG ANAL	01-07-2010
2396	JC 539742Y	SUB	BHUWAN CHAND	01-04-2010
2397	JC 590123N	SUB	MAGAN CHAND	01-03-2010
2398	JC 590161K	SUB	MAN SINGH RANA	01-03-2010
2399	JC 538817Y	SUB	NARENDER SINGH	01-03-2010
2400	JC 590144K	SUB	RADHE SHYAM	01-06-2010
2401	JC 539109Y	SUB	RAJINDER KUMAR GOSWAMI	01-05-2010
2402	JC 590183H	SUB	RAJNISH KUMAR THAPA	01-04-2010
2403	JC 590090N	SUB	RAM BAHADUR GURUNG	01-02-2010

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

2404	JC 592523Y	SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2010
2405	JC 592960Y	SUB	BISHAN SINGH	01-08-2010
2406	JC 593241M	SUB	CHAMBAIL SINGH	01-05-2010
2407	JC 592549N	SUB	HOSHIAR SINGH	01-08-2010
2408	JC 592841H	SUB	JANG BAHADUR	01-08-2010
2409	JC 592984H	SUB	JASWANT SINGH	01-05-2010
2410	JC 592845Y	SUB	JEET RAJ	01-04-2010



2411	JC 592443F	SUB	MEHBOOB AHMAD RAINA	01-04-2010
2412	JC 592871A	SUB	RASHPAL SINGH	01-05-2010
2413	JC 593127P	SUB	ROMESH LAL	01-04-2010
2414	JC 592585Y	SUB	SARDAR SINGH	01-08-2010
2415	JC 592956W	SUB	SWARAN LAL	01-04-2010
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>				
2416	JC 602347H	SUB	CHANDRA BAHADUR PUN	01-04-2010
2417	JC 602152X	SUB	DAN BAHADUR SINGH	01-07-2010
2418	JC 602544L	SUB	DEG BAHADUR THAPA	01-06-2010
2419	JC 602549K	SUB	DEVENDER SINGH	01-06-2010
2420	JC 602500N	SUB	HEM LAL RANA	01-05-2010
2421	JC 602505M	SUB	JAI BAHADUR GURUNG	01-07-2010
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>				
2422	JC 607518N	SUB	ANAND SINGH THAPA	01-06-2010
2423	JC 607541F	SUB	BHIM BAHADUR THAPA	01-05-2010
2424	JC 607529A	SUB	BOM BAHADUR GURUNG	01-08-2010
2425	JC 607467L	SUB	DAM BAHADUR GURUNG	01-05-2010
2426	JC 607548K	SUB	GHAN BAHADUR PUN	01-07-2010
2427	JC 607526M	SUB	KUL BAHADUR RANA	01-06-2010
2428	JC 607488F	SUB	PREM BAHADUR THAPA	01-02-2010
2429	JC 607497H	SUB	RAM BAHADUR GURUNG	01-07-2010
2430	JC 607547H	SUB	RAM BAHADUR MAGAR	01-04-2010
2431	JC 607226L	SUB	RAM SHANKAR	01-02-2010
2432	JC 607428M	SUB	RATNA BAHADUR CHHETRI	01-08-2010
2433	JC 607514X	SUB	RUDRA BAHADUR GURUNG	01-06-2010
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
2434	JC 612345L	SUB	BALBIR SINGH RAWAT	01-08-2010
2435	JC 612535X	SUB	BHIM BAHADUR THAPA	01-02-2010
2436	JC 612552X	SUB	DIL BAHADUR PUN, SM	01-06-2010
2437	JC 612521X	SUB	EMAN SINGH RANA	01-07-2010
2438	JC 612523H	SUB	GUMAN SINGH ALE	01-07-2010
2439	JC 612520P	SUB	HIM BAHADUR THAPA	01-02-2010
2440	JC 612553A	SUB	KUL BAHADUR GURUNG	01-08-2010
2441	JC 612399M	SUB	NANDJI SINGH	01-08-2010
2442	JC 612339X	SUB	SUGREEM	01-07-2010
2443	JC 612518X	SUB	TOP BAHADUR THAPA	01-02-2010
2444	JC 612543W	SUB	UTTAR SINGH GURUNG	01-08-2010
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
2445	JC 617657L	SUB	ANIL KUMAR	01-08-2010
2446	JC 617680Y	SUB	CHABI LAL THAPA	01-08-2010
2447	JC 617257Y	SUB	CHANDRA KANT JHA	01-04-2010
2448	JC 617624A	SUB	DAL BAHADUR THAPA	01-04-2010
2449	JC 617458X	SUB	DIWAN SINGH PUN	01-06-2010
2450	JC 617424K	SUB	GOVIND GURUNG	01-05-2010

2451	JC 617655A	SUB	GYAN BAHADUR DARLAMI	01-04-2010
2452	JC 617622P	SUB	HUM BAHADUR THAPA	01-02-2010
2453	JC 617445A	SUB	JANG BAHADUR PUN	01-05-2010
2454	JC 617678F	SUB	JAYA BAHADUR GURUNG	01-04-2010
2455	JC 617732K	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	01-05-2010
2456	JC 617775Y	SUB	LAL BAHADUR RANA	01-04-2010
2457	JC 617612L	SUB	MAN BAHADUR PUN	01-04-2010
2458	JC 617599M	SUB	NAR BAHADUR GURUNG	01-05-2010
2459	JC 617405Y	SUB	PADAM BAHADUR RANA	01-05-2010
2460	JC 617597F	SUB	PURNA BAHADUR GURUNG	01-08-2010
2461	JC 617443P	SUB	RAJENDRA KUMAR THAPA	01-04-2010
2462	JC 617617K	SUB	RAM BAHADUR GURUNG	01-08-2010
2463	JC 617744Y	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-05-2010
2464	JC 617620K	SUB	RAN BAHADUR THAPA	01-03-2010
2465	JC 617656H	SUB	RIMAN THAPA	01-04-2010
2466	JC 617584K	SUB	SAHA BIR RANA	01-05-2010
2467	JC 617589H	SUB	SHIV BAHADUR THAPA	01-04-2010
2468	JC 617609L	SUB	SHIVA BAHADUR THAPA	01-04-2010
2469	JC 617623X	SUB	TEJ BAHADUR THAPA	01-04-2010

**8 GORKHA RIFLES**

2470	JC 623426L	SUB	BIR BAHADUR THAPA	01-05-2010
2471	JC 623410A	SUB	GUPTA BAHADUR THAPA	01-04-2010
2472	JC 623280H	SUP	MAHENDER SINGH	01-03-2010
2473	JC 623227X	SUB	PALDEN SHERPA	01-02-2010
2474	JC 623670L	SUB	RATNA BAHADUR RANA	01-07-2010
2475	JC 623461N	SUB	TEK BAHADUR THAPA	01-03-2010

**9 GORKHA RIFLES**

2476	JC 629191A	SUB	BALKAR SINGH AULAKH	01-07-2010
2477	JC 629559X	SUB	BHIM BAHADUR CHHETRI	01-08-2010
2478	JC 629557M	SUB	BHUPENDRA THAKURI	01-05-2010
2479	JC 629699K	SUB	BISHNU BAHADUR CHHETRI	01-05-2010
2480	JC 629624M	SUB	DAN BAHADUR CHHETRI	01-08-2010
2481	JC 629584W	SUB	DHAN BAHADUR KARKI	01-08-2010
2482	JC 629595H	SUB	DILLI BIKRAM HAMAL	01-08-2010
2483	JC 629589P	SUB	EIT BAHADUR KANWAR	01-06-2010
2484	JC 629572F	SUB	FUL BAHADUR MALLA	01-05-2010
2485	JC 629538F	SUB	GOVINDA BAHADUR CHHETRY	01-08-2010
2486	JC 629597N	SUB	HARISH BAHADUR SAHI	01-06-2010
2487	JC 629623K	SUB	HARKA BAHADUR BHANDARI	01-05-2010
2488	JC 629602N	SUB	HARKA BAHADUR CHHETRI	01-06-2010
2489	JC 629592P	SUB	NAR BAHADUR BHANDARI	01-06-2010
2490	JC 629547H	SUB	NARENDRA BAHADUR MALLA	01-05-2010
2491	JC 629553W	SUB	NARENDRA JUNG SHAHI	01-08-2010
2492	JC 629625P	SUB	PANU MALLA	01-08-2010
2493	JC 629579L	SUB	PIRTHA BAHADUR THAPA	01-06-2010
2494	JC 629605F	SUB	RAM BAHADUR SHAI	01-08-2010

2495	JC 629549N	SUB	TEK BAHADUR CHHETRI	01-02-2010
2496	JC 629598W	SUB	VIJAY SINGH	01-07-2010

**11 GORKHA RIFLES**

2497	JC 634567A	SUB	AITA BAHADUR LIMBU	01-02-2010
2498	JC 634576F	SUB	ASH BAHADUR RAI	01-07-2010
2499	JC 634593F	SUB	BHAKTA RAJ RAI	01-04-2010
2500	JC 634618H	SUB	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-03-2010
2501	JC 634494Y	SUB	DURGA PRASAD LIMBU	01-04-2010
2502	JC 634239M	SUB	HARI RAM KAJLA	01-07-2010
2503	JC 634551P	SUB	LOK MAN RAI	01-03-2010
2504	JC 634386P	SUB	MAN BAHADUR TAMANG	01-04-2010
2505	JC 634525N	SUB	PRADEEP KUMAR RAI	01-04-2010
2506	JC 634602X	SUB	PROLAD RAI	01-08-2010
2507	JC 634221W	SUB	RAM BIR KESHWANIYAN	01-07-2010
2508	JC 634569L	SUB	RAM KUMAR RAI	01-08-2010
2509	JC 634502M	SUB	RAMESH KUMAR RAI	01-06-2010
2510	JC 634504X	SUB	SHYAM PRAKASH RAI	01-08-2010

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

2511	JC 642625N	SUB	AJAZ AHMED KHAN	01-03-2010
2512	JC 662830W	SUB	ANANTA KUMAR GHOSH	01-08-2010
2513	JC 641810P	SUB	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2010
2514	JC 662876Y	SUB	ANIL KUMAR TYAGI	01-08-2010
2515	JC 642690N	SUB	APURVA NAG	01-08-2010
2516	JC 662893Y	SUB	ARUN KUMAR AWASTHI	01-02-2010
2517	JC 663167W	SUB	ASAN ALI SK	01-08-2010
2518	JC 663105W	SUB	ASUTOSH GANGULY	01-04-2010
2519	JC 641297Y	SUB	ATTAR SINGH VERMA	01-04-2010
2520	JC 663242P	SUB	BABAR TANAJI KRISHNA DEO	01-06-2010
2521	JC 663289A	SUB	BALA CHANDRAN K N	01-06-2010
2522	JC 662704K	SUB	BALDEO RAWAT	01-02-2010
2523	JC 641809A	SUB	BALWAN SINGH	01-04-2010
2524	JC 642660W	SUB	BALWAN SINGH	01-08-2010
2525	JC 662815F	SUB	BHAGWATI PRASAD SHARMA	01-06-2010
2526	JC 642076Y	SUB	BHAGWATI SHARAN VERMA	01-03-2010
2527	JC 663154Y	SUB	BHAJAN LAL	01-05-2010
2528	JC 662802K	SUB	BHARAT SINGH	01-07-2010
2529	JC 641775X	SUB	BHUP SINGH YADAV	01-02-2010
2530	JC 662765F	SUB	BHUPENDRA SINGH	01-05-2010
2531	JC 641303F	SUB	BHUWAN CHANDRA KHANDPAL	01-04-2010
2532	JC 663243X	SUB	BINESH BARO	01-08-2010
2533	JC 642642N	SUB	BIRENDRA KUMAR	01-05-2010
2534	JC 663680X	SUB	BRAJENDER PANDEY	01-04-2010
2535	JC 662934X	SUB	BRIJ KUMAR MISRA	01-04-2010
2536	JC 642705L	SUB	BUTA SINGH VIRK	01-07-2010
2537	JC 642106L	SUB	BYASDEV PADHI	01-02-2010
2538	JC 662749K	SUB	CHANDRA KANTA BORAH	01-03-2010

2539	JC 641278N	SUB	CHANDU SAHU	01-02-2010
2540	JC 641514K	SUB	CHARAN SINGH TOMAR	01-02-2010
2541	JC 642715P	SUB	DALBIR SINGH SAHRAWAT	01-02-2010
2542	JC 662807H	SUB	DANGE VISHWANATH JAGANNATH	01-08-2010
2543	JC 662760H	SUB	DEVENDAR KUMAR SHARMA	01-04-2010
2544	JC 642706N	SUB	DEVENDRA SINGH	01-08-2010
2545	JC 641703N	SUB	DHARM BIR SINGH	01-04-2010
2546	JC 662721K	SUB	DHURANDHAR RAM	01-02-2010
2547	JC 642861P	SUB	DINESH CHANDRA TRIPATHI	01-07-2010
2548	JC 643106X	SUB	DORI LAL	01-02-2010
2549	JC 641372X	SUB	DUKH HARAN	01-07-2010
2550	JC 663985X	SUB	DWARKA PRASAD	01-08-2010
2551	JC 642537X	SUB	GANGA PRASAD YADAV	01-02-2010
2552	JC 642421F	SUB	GEORGE K	01-08-2010
2553	JC 641794H	SUB	GUMAN SINGH YADAV	01-02-2010
2554	JC 641292A	SUB	GURBACHAN SINGH	01-07-2010
2555	JC 662742A	SUB	GURUCHARAN SINGH	01-04-2010
2556	JC 662732W	SUB	GYAN CHAND	01-02-2010
2557	JC 662776N	SUB	HANUMAN SINGH	01-03-2010
2558	JC 642377H	SUB	HARBANS SINGH	01-03-2010
2559	JC 643144N	SUB	HARISH KUMAR M	01-07-2010
2560	JC 641289A	SUB	HARISHCHANDRA SINGH YADAV	01-04-2010
2561	JC 662777W	SUB	HARPAL SINGH	01-04-2010
2562	JC 642342M	SUB	IRAPPA BIRADAR	01-04-2010
2563	JC 642990P	SUB	ISHWAR DATT SHARMA	01-02-2010
2564	JC 642653A	SUB	JAGDISH KUMAR	01-07-2010
2565	JC 663150H	SUB	JAGDISH PRASAD	01-04-2010
2566	JC 662717F	SUB	JAI CHAND	01-02-2010
2567	JC 642700M	SUB	JAIPAL SINGH	01-05-2010
2568	JC 663426N	SUB	JAY SINGH YADAV	01-08-2010
2569	JC 643066F	SUB	JOY CHACKO	01-03-2010
2570	JC 643010P	SUB	JOY V G	01-07-2010
2571	JC 662734F	SUB	KAILASH CHANDER JOGI	01-02-2010
2572	JC 641295N	SUB	KAMAL RAJ SHARMA	01-07-2010
2573	JC 641271K	SUB	KHELA NAND MISHRA	01-02-2010
2574	JC 663354P	SUB	KISHAN CHAND	01-06-2010
2575	JC 663698N	SUB	KRISHNA SULEBHAVIKAR	01-07-2010
2576	JC 662722M	SUB	KULBHUSHAN SHARMA	01-03-2010
2577	JC 642499M	SUB	KULDEEP SINGH	01-07-2010
2578	JC 641349K	SUB	KULWANT SINGH	01-02-2010
2579	JC 662812N	SUB	LAD ANAND BANDU	01-04-2010
2580	JC 643128W	SUB	LAJJA RAM	01-04-2010
2581	JC 642759M	SUB	LAKSHMAN SINGH	01-03-2010
2582	JC 662832F	SUB	LAV KUSH TIWARI	01-04-2010
2583	JC 640849P	SUB	LEKH RAJ	01-07-2010
2584	JC 640408Y	SUB	M PONNU SWAMY	01-06-2010
2585	JC 662756A	SUB	MADAN GOPAL	01-03-2010
2586	JC 663133H	SUB	MAHENDER CHAUDHARY	01-06-2010

2587	JC 642624L	SUB	MAHENDER SINGH	01-02-2010
2588	JC 662801F	SUB	MAHENDRA PRATAP PRAJAPATI	01-07-2010
2589	JC 663178H	SUB	MAHIPAL SINGH	01-03-2010
2590	JC 662896M	SUB	MEMBAR KHAN	01-06-2010
2591	JC 641329W	SUB	MOHAMMAD ALIM	01-08-2010
2592	JC 663436X	SUB	MOHAMMAD IKBAL	01-07-2010
2593	JC 663240K	SUB	MOHAN BAHADUR PRADHAN	01-03-2010
2594	JC 217838H	SUB	MUKH LAL SAHU	01-04-2010
2595	JC 662799P	SUB	MUNISH KUMAR	01-06-2010
2596	JC 641426N	SUB	MURALEEDHARAN NAIR K	01-07-2010
2597	JC 663293H	SUB	NAND KISHOR	01-08-2010
2598	JC 641326H	SUB	NARBDESHWAR PANDEY	01-04-2010
2599	JC 642496Y	SUB	NARENDRA SINGH	01-03-2010
2600	JC 663858H	SUB	NARESH CHANDRA	01-05-2010
2601	JC 662753M	SUB	NARESH KUMAR	01-03-2010
2602	JC 642668H	SUB	NARINDER SINGH	01-06-2010
2603	JC 642813P	SUB	NIGAR QURESHI	01-07-2010
2604	JC 663241M	SUB	NITYA NANDA SAHOO	01-05-2010
2605	JC 662820M	SUB	NIZAMUDDIN	01-08-2010
2606	JC 662877F	SUB	PALTAN SINGH	01-03-2010
2607	JC 662797K	SUB	PANKAJ KUMAR CHAKRABORTY	01-05-2010
2608	JC 662819X	SUB	PATHAN JABBAR KHAN SUBHAN KHAN	01-07-2010
2609	JC 662891N	SUB	PRAMOD KISHORE NAYAK	01-05-2010
2610	JC 642692Y	SUB	PRANAB KUMAR NANDI	01-07-2010
2611	JC 663535A	SUB	PRASANNA KUMAR S	01-06-2010
2612	JC 662889W	SUB	PRATAP KUMAR DUTTA	01-02-2010
2613	JC 662759N	SUB	PRATAP SINGH GUJAR	01-02-2010
2614	JC 641460N	SUB	PRATHAPAN PILLAI KR	01-04-2010
2615	JC 662707X	SUB	PURAN CHANDRA JOSHI	01-02-2010
2616	JC 640388W	SUB	PURAN MAL	01-04-2010
2617	JC 662786X	SUB	PURAN SINGH	01-05-2010
2618	JC 642810F	SUB	RADHA KRISHNA	01-08-2010
2619	JC 663472H	SUB	RAJ KISHOR SINGH	01-06-2010
2620	JC 663763H	SUB	RAJ KUMAR	01-03-2010
2621	JC 642776M	SUB	RAJ KUMAR SINGH CHAUHAN	01-07-2010
2622	JC 641919P	SUB	RAJARAM SINGH	01-05-2010
2623	JC 641437A	SUB	RAJENDRA PRASAD KHARWAR	01-04-2010
2624	JC 662750Y	SUB	RAJENDRA RAM	01-03-2010
2625	JC 662947P	SUB	RAJESH KUMAR SHUKLA	01-02-2010
2626	JC 663267F	SUB	RAJINDER YADAV	01-03-2010
2627	JC 662828Y	SUB	RAM BHARAT JHA	01-06-2010
2628	JC 641137Y	SUB	RAM BHAWAN YADAV	01-07-2010
2629	JC 642641L	SUB	RAM CHANDER TRIPATHI	01-03-2010
2630	JC 662723P	SUB	RAM KRISHNA	01-03-2010
2631	JC 663586N	SUB	RAM KUMAR	01-06-2010
2632	JC 662881K	SUB	RAM MEHAR	01-06-2010
2633	JC 641531K	SUB	RAM PAL YADAV	01-07-2010
2634	JC 662754P	SUB	RAM PRASAD	01-03-2010

2635	JC 641281N	SUB	RAM SAROOP SHARMA	01-03-2010
2636	JC 663307X	SUB	RAMAPPA NAVI	01-07-2010
2637	JC 642086H	SUB	RAMESAN TK	01-04-2010
2638	JC 642702X	SUB	RAMESH KUMAR	01-07-2010
2639	JC 663187K	SUB	RAMPHAL DHILLON	01-07-2010
2640	JC 642194M	SUB	RANBIR SINGH	01-05-2010
2641	JC 643240H	SUB	RATTAN CHAND	01-04-2010
2642	JC 641539W	SUB	RATTAN LAL	01-05-2010
2643	JC 641925H	SUB	RATTAN SINGH	01-05-2010
2644	JC 641320F	SUB	RAVENDRA SINGH CHAUHAN	01-07-2010
2645	JC 641723F	SUB	RAVI SHANKER SHUKLA	01-02-2010
2646	JC 642710W	SUB	RISAL SINGH DOTASARA	01-06-2010
2647	JC 642639N	SUB	RUP CHAND RAM	01-03-2010
2648	JC 663787M	SUB	SADHAN CHANDRA ROY	01-07-2010
2649	JC 663290P	SUB	SAJANI KANTA DAS	01-08-2010
2650	JC 642538A	SUB	SAKTI PADA BANERJEE	01-02-2010
2651	JC 213431P	SUB	SAMER KUMAR DEB	01-02-2010
2652	JC 641510N	SUB	SAMPAT KUMAR GAUTAM	01-02-2010
2653	JC 662766K	SUB	SANKAR KUMAR MONDAL	01-05-2010
2654	JC 663165L	SUB	SARATA KUMAR BISWAL	01-05-2010
2655	JC 662879M	SUB	SATBIR SINGH	01-04-2010
2656	JC 662894F	SUB	SATNAM SINGH	01-03-2010
2657	JC 641323P	SUB	SATYABIR SINGH	01-03-2010
2658	JC 662939W	SUB	SHAJI KUMAR KB	01-07-2010
2659	JC 641269M	SUB	SHANGARA SINGH	01-02-2010
2660	JC 662780W	SUB	SHANKRESWAR TRIPATHI	01-04-2010
2661	JC 641290P	SUB	SHIV CHARAN SINGH	01-06-2010
2662	JC 641921M	SUB	SHIV KUMAR	01-05-2010
2663	JC 662762N	SUB	SHIV RAM SINGH	01-04-2010
2664	JC 642638L	SUB	SHOBH NATH YADAV	01-03-2010
2665	JC 642707W	SUB	SHREE RAM SINGH	01-08-2010
2666	JC 641337P	SUB	SHRI BHAGWAN	01-06-2010
2667	JC 662761L	SUB	SHRI KRISHNA	01-04-2010
2668	JC 663156K	SUB	SHYAMA KANTA AGASTI	01-07-2010
2669	JC 642077F	SUB	SIVAN KUTTY PK	01-02-2010
2670	JC 641905P	SUB	SREEKANTAN NAIR V	01-03-2010
2671	JC 642699H	SUB	SRI RAM SHARMA	01-05-2010
2672	JC 641270F	SUB	STALIN G	01-02-2010
2673	JC 642188Y	SUB	SUBE SINGH	01-03-2010
2674	JC 662792L	SUB	SUBHASH	01-05-2010
2675	JC 662752K	SUB	SUDAMA PANDEY	01-03-2010
2676	JC 642536P	SUB	SUKHBIR SIGH CHHAUKAR	01-02-2010
2677	JC 642987P	SUB	SULTAN SINGH	01-04-2010
2678	JC 641520X	SUB	SURAJ SINGH YADAV	01-03-2010
2679	JC 642693F	SUB	SURENDRA NATH MISHRA	01-08-2010
2680	JC 642772W	SUB	SURENDRA SINGH PAL	01-08-2010
2681	JC 662763W	SUB	SWAMI SHARNAYYA KALLAYYA	01-04-2010
2682	JC 215533K	SUB	SWARAN SINGH MANHAS	01-07-2010

2683	JC 641452P	SUB	TAPAS KUMAR DEB	01-03-2010
2684	JC 642542H	SUB	TARAKESHWAR SINGH	01-02-2010
2685	JC 662818P	SUB	TEJ NARAIN SINGH	01-07-2010
2686	JC 641918M	SUB	THANKAPPAN A G	01-02-2010
2687	JC 641910A	SUB	THUKKARAM C	01-04-2010
2688	JC 642539H	SUB	UMESH SINGH	01-02-2010
2689	JC 662706P	SUB	UTTAM KUMAR SINGHA	01-02-2010
2690	JC 640735K	SUB	VASANT DADU PATIL	01-08-2010
2691	JC 662813W	SUB	VIJAY SINGH	01-04-2010
2692	JC 641276H	SUB	VIKRAM SINGH YADAV	01-02-2010
2693	JC 642986M	SUB	VINOD KUMAR	01-02-2010
2694	JC 662782F	SUB	YANKAPPA GOUDER	01-04-2010
2695	JC 641277L	SUB	YOGRAJ SINGH	01-02-2010

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

2696	JC 680792N	RIS	CHARAN SINGH	01-05-2010
2697	JC 680801K	RIS	JAG RAM GUJAR	01-05-2010
2698	JC 680871H	RIS	JOY RAM SAIKIA	01-05-2010
2699	JC 680856N	RIS	MAHINDER SINGH	01-07-2010
2700	JC 680740X	RIS	NARENDRA NATH DATTA	01-04-2010
2701	JC 680704M	RIS	NARESH KUMAR	01-08-2010
2702	JC 680759W	RIS	RAMESH PRASAD SINHA	01-04-2010
2703	JC 680794Y	RIS	SHER SINGH	01-05-2010
2704	JC 680818X	RIS	T MARIAPPAN	01-08-2010

**ARMY MEDICAL CORPS**

2705	JC 694594N	SUB	ADARSH MOHAN	01-03-2010
2706	JC 695022Y	SUB	AFSAR KHAN KASAM KHAN	01-08-2010
2707	JC 693965Y	SUB	AHAMED KHAN	01-02-2010
2708	JC 693539L	SUB	APURBA KUMAR GHOSH	01-03-2010
2709	JC 694657L	SUB	ARVIND PAL SINGH	01-08-2010
2710	JC 694684P	SUB	AWARI DATTU SITA RAM	01-04-2010
2711	JC 691625X	SUB	BHUP SINGH	01-08-2010
2712	JC 694418W	SUB	BISHWANATH SINGH	01-04-2010
2713	JC 694598K	SUB	DHARAM PAL	01-06-2010
2714	JC 694074H	SUB	DHARMANAND PANDEY	01-04-2010
2715	JC 694656H	SUB	DHEER SINGH	01-06-2010
2716	JC 694443P	SUB	DILIP CHANDRA DAS	01-03-2010
2717	JC 694802X	SUB	DILIP KUMAR SAHOO	01-04-2010
2718	JC 694722A	SUB	DUMI RAM YADAV	01-07-2010
2719	JC 694442M	SUB	GANESH CHANDRA NANDI	01-02-2010
2720	JC 694367N	SUB	GANESWARA SAMAL	01-03-2010
2721	JC 695019Y	SUB	GOPI NATH BISWAS	01-08-2010
2722	JC 694412P	SUB	GUPTA RAM ASHRAY LALJEE	01-04-2010
2723	JC 692684W	SUB	JAI KRISHAN JOSHI	01-04-2010
2724	JC 693129P	SUB	JAMUNA PRASAD SHARMA	01-04-2010
2725	JC 693579M	SUB	JANARDANAN PILLAI K P	01-04-2010
2726	JC 694041X	SUB	KALI PROSHAD BHATTACHARJEE	01-04-2010

2727	JC 692512F	SUB	KANADE VASUDEO JANARDHAN	01-06-2010
2728	JC 694698P	SUB	KRISHAN KUMAR KAPOOR	01-06-2010
2729	JC 691901P	SUB	KULDIP KUMAR SHARMA	01-08-2010
2730	JC 694743W	SUB	LAKSHAMAN PD CHOUBEY	01-05-2010
2731	JC 694660L	SUB	MADHUSOODANAN V	01-07-2010
2732	JC 694677Y	SUB	MAHAJAN TARACHAND GANGADHAR	01-04-2010
2733	JC 694719A	SUB	MAHENDER SINGH	01-07-2010
2734	JC 692645X	SUB	MAHENDRA KUMAR	01-08-2010
2735	JC 693519X	SUB	MAHESH KUMAR SINGH	01-07-2010
2736	JC 694546N	SUB	MANDAV GANE SASHIKANT NARHAR	01-04-2010
2737	JC 694600W	SUB	MANICK CHANDRA GHOSH	01-08-2010
2738	JC 694954Y	SUB	MANOHAR LAL	01-06-2010
2739	JC 694588A	SUB	MOHAN SINGH	01-02-2010
2740	JC 694294M	SUB	MOHANAN NAIR M R	01-02-2010
2741	JC 694531L	SUB	MUHAMMAD HUSSAIN	01-03-2010
2742	JC 691622K	SUB	MUNNI LAL OJHA	01-04-2010
2743	JC 694186H	SUB	MURALEEDHARAN T	01-06-2010
2744	JC 692258H	SUB	NARAYANA RAO G	01-08-2010
2745	JC 691182F	SUB	NEMA RAM	01-02-2010
2746	JC 694586P	SUB	NINGTHOW KHOMBA SINGHA	01-02-2010
2747	JC 690996N	SUB	PATIL SUDHAKAR RAM RAO	01-07-2010
2748	JC 695006F	SUB	PRASANTA KUMAR JENA	01-07-2010
2749	JC 694540M	SUB	RADHAKRISHNA PILLAI P	01-07-2010
2750	JC 694147K	SUB	RAJ BIR SINGH	01-06-2010
2751	JC 694659W	SUB	RAJ KUMAR	01-08-2010
2752	JC 694693W	SUB	RAJENDER PRASAD	01-08-2010
2753	JC 223390K	SUB	RAJENDRAN PILLAI T K	01-05-2010
2754	JC 691772A	SUB	RAM CHANDRA PRASAD	01-02-2010
2755	JC 693242K	SUB	RAM MEHAR SINGH	01-06-2010
2756	JC 694037P	SUB	RAM MOHAN SHARMA	01-04-2010
2757	JC 694692N	SUB	RAM NIWAS	01-07-2010
2758	JC 695072K	SUB	RAM NIWAS SINGH	01-08-2010
2759	JC 694592H	SUB	RAM PHAL	01-02-2010
2760	JC 694685X	SUB	RAM SINGH	01-04-2010
2761	JC 694889K	SUB	RANDHIR GAYAR	01-08-2010
2762	JC 694973K	SUB	RATTAN CHAND SHARMA	01-06-2010
2763	JC 695027X	SUB	RAVEENDRAN B	01-08-2010
2764	JC 693934Y	SUB	RAVEENDRAN PILLAI V N	01-02-2010
2765	JC 694073A	SUB	ROHTAS SINGH	01-04-2010
2766	JC 691864M	SUB	RUP LAL BHARDWAJ	01-08-2010
2767	JC 694541P	SUB	SALVA CHINNA RANGA NAYAKULU	01-04-2010
2768	JC 694421W	SUB	SAMAR BAHADUR MISRA	01-06-2010
2769	JC 694324Y	SUB	SANATAN SAHOO	01-04-2010
2770	JC 693232A	SUB	SAT PAL	01-06-2010
2771	JC 694597F	SUB	SATNARAIN	01-06-2010
2772	JC 694052K	SUB	SHAKIL AHMED KHAN	01-08-2010
2773	JC 690565F	SUB	SHARWAN KUMAR RAI	01-06-2010
2774	JC 695030X	SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-08-2010



2775	JC 694658N	SUB	SUGRIV SINGH JARYAL	01-08-2010
2776	JC 694413X	SUB	SUNDARESAN T D	01-04-2010
2777	JC 694596Y	SUB	SURENDRA KUMAR	01-03-2010
2778	JC 694039A	SUB	THANGAVEL T	01-04-2010
2779	JC 694415H	SUB	TRILOKI PRASAD	01-04-2010
2780	JC 694691L	SUB	VARGHESE PV	01-07-2010
2781	JC 694599M	SUB	VED PRAKASH SINGH	01-07-2010
2782	JC 694980A	SUB	VEERA BHADRAPPA BARAGUNDI	01-06-2010
2783	JC 691846K	SUB	VIKRAM SINGH RAWAT	01-02-2010
2784	JC 691855L	SUB	VINOD KUMAR TRIPATHI	01-04-2010
2785	JC 694827K	SUB	VIRAND KUMAR	01-08-2010
2786	JC 694416L	SUB	VIRENDRA KUMAR DHYANI	01-04-2010

**ARMY ORDNANCE CORPS**

2787	JC 724919N	SUB	ABHAY SINGH	01-03-2010
2788	JC 725197Y	SUB	AJAY KUMAR SINGH	01-05-2010
2789	JC 725192A	SUB	AJAY KUMAR YADAV	01-02-2010
2790	JC 725532X	SUB	AJAYAB CHAND	01-05-2010
2791	JC 726837K	SUB	ALBART KERKETTA	01-08-2010
2792	JC 725303M	SUB	ALOKE KUMAR MUKHOPADHAYA	01-03-2010
2793	JC 724886N	SUB	AMARENDRA NATH PATTANAYAK	01-02-2010
2794	JC 725277W	SUB	ANTARAJAMI PADHY	01-05-2010
2795	JC 725255X	SUB	ANUP SINGH RANA	01-05-2010
2796	JC 725284M	SUB	ARABINDA KUMAR NATH	01-04-2010
2797	JC 725088M	SUB	ARJUN MAHTO	01-03-2010
2798	JC 725164N	SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2010
2799	JC 726583X	SUB	ASHOK KUMAR PANDEY	01-06-2010
2800	JC 725234F	SUB	ASIM KUMAR GHOSH	01-04-2010
2801	JC 724074A	SUB	ASOK MUKHOPADHYAY	01-02-2010
2802	JC 726633X	SUB	ATAR SAYYAD FARID	01-08-2010
2803	JC 725998A	SUB	AVINASH CHANDRA	01-04-2010
2804	JC 724093L	SUB	B ESHWARAPPA	01-05-2010
2805	JC 724938Y	SUB	BADAL KUNDU	01-03-2010
2806	JC 726967M	SUB	BALWAN SINGH	01-06-2010
2807	JC 726815L	SUB	BHANWAR LAL SAINI	01-08-2010
2808	JC 725497A	SUB	BHARAT CHANDRA SATAPATHY	01-04-2010
2809	JC 724194Y	SUB	BHARATPAL RAWAT	01-05-2010
2810	JC 725198F	SUB	BHASKAR DUTT JOSHI	01-05-2010
2811	JC 726965F	SUB	BHIKKI RAM	01-06-2010
2812	JC 725420X	SUB	BHOLANATH LAYEK	01-03-2010
2813	JC 724675L	SUB	BHOOP SINGH	01-05-2010
2814	JC 724200F	SUB	BIJOY KUMAR ROY	01-08-2010
2815	JC 725110M	SUB	BINDLESH SHARMA	01-03-2010
2816	JC 726195A	SUB	BIRENDER SINGH	01-06-2010
2817	JC 725272X	SUB	BIRENDRA SINGH	01-03-2010
2818	JC 724905N	SUB	BISHNU MOHAN PANDA	01-02-2010
2819	JC 725200N	SUB	BISWAJIT MAJUMDAR	01-05-2010
2820	JC 724694W	SUB	CHAIN SINGH	01-06-2010

2821	JC 722896Y	SUB	CHANDRA NATH MANDAL	01-02-2010
2822	JC 726374A	SUB	CHANDRA PAL	01-07-2010
2823	JC 726618H	SUB	CHANDRESH UPADHYAY	01-08-2010
2824	JC 725233Y	SUB	CHARAN SINGH	01-02-2010
2825	JC 726436P	SUB	CHHOTE LAL GUPTA	01-08-2010
2826	JC 724907Y	SUB	DINAKARAN L	01-02-2010
2827	JC 725293N	SUB	DUDHNATH YADAV	01-08-2010
2828	JC 724045L	SUB	G RAVI	01-04-2010
2829	JC 724455F	SUB	GAJENDRA SINGH	01-08-2010
2830	JC 725139P	SUB	GANESH PRASAD JAISWARA	01-04-2010
2831	JC 725145H	SUB	GAURI SHANKAR TIWARI	01-04-2010
2832	JC 725648N	SUB	GAURI SHANKAR TRIPATHI	01-05-2010
2833	JC 722710K	SUB	GURUSHIDAYYA SOPPIMATH	01-03-2010
2834	JC 725126X	SUB	HANS RAJ GUJAR	01-04-2010
2835	JC 724712N	SUB	HARDIP KUMAR	01-04-2010
2836	JC 725509K	SUB	HARI LAL	01-06-2010
2837	JC 725138M	SUB	HARI NARAYAN CHAUBEY	01-04-2010
2838	JC 724871L	SUB	HARI SHANKAR SINGH	01-02-2010
2839	JC 724884H	SUB	HARIHAR PRASAD SINGH	01-02-2010
2840	JC 725242A	SUB	HARIHAR SARDAR	01-07-2010
2841	JC 724922N	SUB	HARNAM SINGH YADAV	01-03-2010
2842	JC 724348A	SUB	HEMANT KUMAR JOSHI	01-05-2010
2843	JC 724090X	SUB	HIRANAND	01-03-2010
2844	JC 724284A	SUB	INDER JEET SINGH	01-03-2010
2845	JC 725236M	SUB	INDER PAL	01-06-2010
2846	JC 726689K	SUB	ISHWAR DATT	01-06-2010
2847	JC 724092H	SUB	JAGADISH	01-05-2010
2848	JC 726555L	SUB	JAGTAP BABOO JAIWANT RAO	01-04-2010
2849	JC 725238X	SUB	JAGVIR SINGH	01-03-2010
2850	JC 724923W	SUB	JAI BAHADUR SINGH	01-03-2010
2851	JC 725505N	SUB	JAI NARAIN	01-04-2010
2852	JC 725141M	SUB	JAI VIRENDER SINGH	01-04-2010
2853	JC 7265605K	SUB	JANARDHAN MISHRA	01-02-2010
2854	JC 726550M	SUB	JENAMANI ORAM	01-05-2010
2855	JC 725206P	SUB	KALYAN SINGH	01-06-2010
2856	JC 724535Y	SUB	KAMLA KANT TRIPATHI	01-03-2010
2857	JC 726175M	SUB	KARAM SINGH	01-03-2010
2858	JC 726654N	SUB	KHARAT PARASHU RAM BABOO	01-04-2010
2859	JC 725169M	SUB	LALA RAM	01-05-2010
2860	JC 724157L	SUB	LAXMAN SINGH	01-07-2010
2861	JC 725554W	SUB	LOKHESWAR SAIKIA	01-03-2010
2862	JC 725713H	SUB	MADHUSUDAN ACHAR	01-03-2010
2863	JC 724032N	SUB	MAHENDRA SINGH	01-05-2010
2864	JC 726836F	SUB	MAHESH CHAND	01-05-2010
2865	JC 724010P	SUB	MALKIYAT SINGH	01-03-2010
2866	JC 726615P	SUB	MANSUKH LAKRA	01-05-2010
2867	JC 725927Y	SUB	M. ATHEW. P P	01-05-2010
2868	JC 723951W	SUB	MD ASIRUDDIN	01-02-2010

2869	JC 724030H	SUB	MILAN KUMAR SAINI	01-03-2010
2870	JC 723924M	SUB	MOHAN SINGH	01-02-2010
2871	JC 726761P	SUB	MOHANAN NAIR P	01-06-2010
2872	JC 725812L	SUB	MOHINDER SINGH	01-03-2010
2873	JC 724917H	SUB	NAGESHWAR PRASAD SHUKLA	01-03-2010
2874	JC 726556N	SUB	NAVAL KISHORE SINGH	01-06-2010
2875	JC 724027H	SUB	NIRMAL KUMAR DAS	01-03-2010
2876	JC 723799N	SUB	PADAMA CHARAN NAYAK	01-02-2010
2877	JC 725232W	SUB	PADMANABHAN P V	01-06-2010
2878	JC 723823Y	SUB	PALWINDER SINGH	01-02-2010
2879	JC 727167A	SUB	PAN SINGH ADHIKARI	01-08-2010
2880	JC 726916Y	SUB	PARAS NATHI SINGH YADAV	01-08-2010
2881	JC 724119P	SUB	PASI RAMDEVA JAGDEVA	01-03-2010
2882	JC 725292L	SUB	PINAKI RANJAN MAITI	01-07-2010
2883	JC 726532K	SUB	POONA RAM	01-07-2010
2884	JC 725124M	SUB	PRADIP DATTA	01-03-2010
2885	JC 724517W	SUB	PRAFULLA CH CHETIA	01-08-2010
2886	JC 724705X	SUB	PRAMOD KUMAR	01-02-2010
2887	JC 724906W	SUB	PRAMOD KUMAR DASH	01-02-2010
2888	JC 725961Y	SUB	PRAMOD RAY	01-03-2010
2889	JC 726589Y	SUB	PREM CHAMLING RAI	01-05-2010
2890	JC 725678L	SUB	RAGAVENDER SINGH YADAV	01-02-2010
2891	JC 724745Y	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-06-2010
2892	JC 724211N	SUB	RAGHURAJ SINGH	01-06-2010
2893	JC 726617A	SUB	RAJ KISHOR PRASAD VERMA	01-08-2010
2894	JC 726885K	SUB	RAJ KUMAR PRASAD	01-08-2010
2895	JC 725112X	SUB	RAJ KUMAR SHUKLA	01-04-2010
2896	JC 722985X	SUB	RAJENDRA PRASAD SHARMA	01-04-2010
2897	JC 724920H	SUB	RAJJAN LAL PAL	01-03-2010
2898	JC 724124A	SUB	RAKESH KUMAR	01-04-2010
2899	JC 724654P	SUB	RAKESH KUMAR	01-08-2010
2900	JC 725165W	SUB	RAKESH KUMAR	01-04-2010
2901	JC 725628A	SUB	RAKESH KUMAR	01-03-2010
2902	JC 726647X	SUB	RAM BARAN SHEEWKARAN SINGH DIKSHIT	01-07-2010
2903	JC 722714A	SUB	RAM KAWAL YADAV	01-02-2010
2904	JC 724234P	SUB	RAM PAL SINGH	01-08-2010
2905	JC 724028L	SUB	RAM RAKSHPAL SHARMA	01-03-2010
2906	JC 723175F	SUB	RAM SHANKER SAHI	01-08-2010
2907	JC 726435M	SUB	RAM UJAGIR DWIVEDI	01-04-2010
2908	JC 724701F	SUB	RAMA SHANKAR RAM	01-07-2010
2909	JC 724679F	SUB	RAMAWATAR SHARMA	01-06-2010
2910	JC 724064W	SUB	RAMESH CHAND	01-03-2010
2911	JC 726164A	SUB	RAMESH CHAND	01-03-2010
2912	JC 726773K	SUB	RAMESH KUMAR	01-08-2010
2913	JC 724924Y	SUB	RANBIR SINGH RANA	01-05-2010
2914	JC 725503H	SUB	RATHNAKARAN M	01-04-2010
2915	JC 724724H	SUB	RAVINDRA NATH JHA	01-08-2010

2916	JC 725320M	SUB	RAVINDRA YADAV	01-07-2010
2917	JC 725549L	SUB	ROHTAS	01-04-2010
2918	JC 723923K	SUB	SAME RAM	01-02-2010
2919	JC 725109X	SUB	SAMEUDDIN	01-03-2010
2920	JC 724148K	SUB	SAMSUL ALI	01-03-2010
2921	JC 726835Y	SUB	SANTOKH CHAND	01-05-2010
2922	JC 725291H	SUB	SANTOSH SINGH	01-07-2010
2923	JC 724951H	SUB	SATYAVIR SINGH	01-03-2010
2924	JC 726884F	SUB	SAWAL SINGH	01-07-2010
2925	JC 726581M	SUB	SEW MUNI ROY	01-02-2010
2926	JC 723572A	SUB	SHAILAN V R	01-05-2010
2927	JC 724149M	SUB	SHANKAR SINGH	01-02-2010
2928	JC 726588W	SUB	SHEO SAHAI RAI	01-04-2010
2929	JC 724725L	SUB	SHIV NATH SINGH	01-03-2010
2930	JC 724204X	SUB	SHYAM VIR SINGH	01-08-2010
2931	JC 724237H	SUB	SUB NARAIN TIWARI	01-07-2010
2932	JC 723174Y	SUB	SUDARSANAN P R	01-03-2010
2933	JC 724248P	SUB	SUGUNAN P	01-08-2010
2934	JC 725257H	SUB	SURAJ BHAN SINGH	01-06-2010
2935	JC 724952L	SUB	SURAT SINGH JAGLAN	01-03-2010
2936	JC 725464P	SUB	SURENDER KUMAR	01-03-2010
2937	JC 724615W	SUB	SURENDRA KISHORE	01-05-2010
2938	JC 725162H	SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	01-04-2010
2939	JC 726831H	SUB	SURESH PRASAD	01-06-2010
2940	JC 723875P	SUB	SURESH SINGH	01-02-2010
2941	JC 725295Y	SUB	SWAPAN KUMAR SINGHA	01-08-2010
2942	JC 726536A	SUB	SYIAMALAN R	01-06-2010
2943	JC 725419H	SUB	TAPAN KUMAR SAHA	01-02-2010
2944	JC 724029N	SUB	TARA SINGH	01-04-2010
2945	JC 725533A	SUB	TUSAR CHAKRABARTI	01-04-2010
2946	JC 726865W	SUB	UGAR SAIN	01-07-2010
2947	JC 724069P	SUB	UPADHYA SAIKIA	01-05-2010
2948	JC 726810M	SUB	UTTAM LAL SHARMA	01-06-2010
2949	JC 726248N	SUB	VABLE CHANDRAKANT BABU RAO	01-06-2010
2950	JC 725446M	SUB	VED PARKASH	01-02-2010
2951	JC 724063N	SUB	VIJENDRA SINGH	01-02-2010
2952	JC 723496Y	SUB	VISHNU DATT	01-08-2010

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

2953	JC 759251N	SUB	AATHI NARAYANAN T	01-03-2010
2954	JC 751372A	SUB	AMAL CHANDRA GHOSH	01-03-2010
2955	JC 751053N	SUB	AMAR SINGH PAL	01-06-2010
2956	JC 756002K	SUB	ANANTA GHOSH	01-02-2010
2957	JC 749161Y	SUB	ANOWAR HOSSAIN	01-04-2010
2958	JC 752112F	SUB	ARABIND NATH SINGH	01-02-2010
2959	JC 753032W	SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2010
2960	JC 751425N	SUB	ASOK KUMAR KP	01-08-2010
2961	JC 758964M	SUB	AVNESH KUMAR	01-05-2010

2962	JC 752269F	SUB	AVNISH KUMAR GARG	01-07-2010
2963	JC 755368P	SUB	BABUJI PP	01-08-2010
2964	JC 747042K	SUB	BAHADUR SINGH	01-03-2010
2965	JC 753597F	SUB	BAHADUR SINGH MANGAT	01-06-2010
2966	JC 759326A	SUB	BALAKRAM	01-05-2010
2967	JC 757206H	SUB	BENU SINGHA	01-08-2010
2968	JC 752636H	SUB	BHAG SINGH	01-07-2010
2969	JC 753387F	SUB	BHARAT JI PRASAD	01-04-2010
2970	JC 753518F	SUB	BHIM PRASAD BIND	01-08-2010
2971	JC 752459N	SUB	BHOLANATH PANDEY	01-07-2010
2972	JC 750885W	SUB	BHURI SINGH	01-03-2010
2973	JC 755315W	SUB	BIDHI CHAND CHAUHAN	01-05-2010
2974	JC 754917X	SUB	BIJAYA CHANDRA SAHU	01-07-2010
2975	JC 753202P	SUB	BIKRAMJIT SINGH	01-07-2010
2976	JC 748030F	SUB	BIMAL KUMAR HOTA	01-06-2010
2977	JC 753595W	SUB	BINDU HEMBROM	01-06-2010
2978	JC 751304M	SUB	BINOD KUMAR MAHARAJ	01-07-2010
2979	JC 755810P	SUB	BIRENDRA NATH BHOWMICK	01-08-2010
2980	JC 752437P	SUB	BIRENDRA SINGH	01-08-2010
2981	JC 754770M	SUB	BRIJ KISHORE SINGH	01-07-2010
2982	JC 759384K	SUB	BRIJENDRA KUMAR PAL	01-07-2010
2983	JC 754877F	SUB	CHANDI PRASAD SARKAR	01-06-2010
2984	JC 751296Y	SUB	CHANDRA BHUSHAN DUBEY	01-04-2010
2985	JC 759256M	SUB	D ARON	01-07-2010
2986	JC 759438A	SUB	D RAGHUNATH REDDY	01-05-2010
2987	JC 759394N	SUB	DALJEET RAI	01-07-2010
2988	JC 751765W	SUB	DALJIT SINGH	01-05-2010
2989	JC 751955H	SUB	DAMODAR DASS THAKUR	01-03-2010
2990	JC 751375N	SUB	DASHRATH SINGH SOMVANSHI	01-04-2010
2991	JC 760408P	SUB	DAYANAND	01-02-2010
2992	JC 755634H	SUB	DEEP KUMAR CHOUDHARY	01-05-2010
2993	JC 752070A	SUB	DEEPAK KUMAR VERMA	01-04-2010
2994	JC 752593Y	SUB	DEOMUNI SINGH YADAV	01-06-2010
2995	JC 753867L	SUB	DEVENDRA SINGH	01-04-2010
2996	JC 754189H	SUB	DEVESH KUMAR SHARMA	01-07-2010
2997	JC 755837M	SUB	DHANESH NANDAN SINGH	01-07-2010
2998	JC 760431H	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-05-2010
2999	JC 759129X	SUB	DILBAG SINGH	01-06-2010
3000	JC 749028W	SUB	DILIP BAILUNG	01-04-2010
3001	JC 755932Y	SUB	DILIP CHANDRA	01-03-2010
3002	JC 754701W	SUB	DINA NATH	01-07-2010
3003	JC 758137K	SUB	ESRARUL HAQUE ANSARI	01-04-2010
3004	JC 753233P	SUB	G GOVIND RAJ	01-08-2010
3005	JC 754384A	SUB	G SURENDRANATHA REDDY	01-07-2010
3006	JC 757050W	SUB	GEORGE KUTTY T K	01-04-2010
3007	JC 754097W	SUB	GIRISH PAL SINGH	01-08-2010
3008	JC 758966X	SUB	HARDIAL SINGH	01-05-2010
3009	JC 753813K	SUB	HARI SHANKAR DIXIT	01-08-2010

3010	JC 753186H	SUB	HULLAR YALLAPPA GOUDA	01-04-2010
3011	JC 754079N	SUB	INDER SINGH	01-04-2010
3012	JC 753347A	SUB	INDRA DATTA	01-04-2010
3013	JC 755184W	SUB	INDRA MANI SONI	01-08-2010
3014	JC 751541W	SUB	JAGDEO CHAUDHURY	01-02-2010
3015	JC 753549F	SUB	JAGDISH	01-04-2010
3016	JC 754706P	SUB	JAGDISH CHAND	01-06-2010
3017	JC 759380N	SUB	JAIBIR SINGH	01-07-2010
3018	JC 751358N	SUB	JANHWI SHANKER	01-02-2010
3019	JC 759130M	SUB	JATINDER KUMAR SHARMA	01-06-2010
3020	JC 754477P	SUB	JOHN KUTTY M	01-06-2010
3021	JC 759063M	SUB	JUGAL KISHORE PANDEY	01-04-2010
3022	JC 753936W	SUB	KADAM VASANT SHANKAR	01-08-2010
3023	JC 754258N	SUB	KALDATE RAMESH SOPAN RAO	01-04-2010
3024	JC 751940A	SUB	KALE ANIL SHANKAR	01-04-2010
3025	JC 754808L	SUB	KAMALA PRASAD	01-07-2010
3026	JC 755431Y	SUB	KAMESHWAR CHOUDHARY	01-08-2010
3027	JC 755633A	SUB	KAMLESH CHANDRA SHUKLA	01-02-2010
3028	JC 751364F	SUB	KANWAR BAHADUR SINGH	01-02-2010
3029	JC 752113K	SUB	KARTICK DEB NATH	01-02-2010
3030	JC 759470P	SUB	KASHIRSAGAR VIJAY KUMAR RAMDAS	01-08-2010
3031	JC 756431L	SUB	KEHAR DASS	01-04-2010
3032	JC 753926N	SUB	KHOKALE SHRIKRISHNA BAKA RAM JI	01-08-2010
3033	JC 755470X	SUB	KOTHA VALE CHAGAN DATTU	01-05-2010
3034	JC 755722Y	SUB	KRISHNA KUMAR	01-08-2010
3035	JC 753114Y	SUB	KRISHNA PRAKASH GAUTAM	01-05-2010
3036	JC 754919H	SUB	L PANNEER SELVAM	01-08-2010
3037	JC 750875Y	SUB	LAKHAN LAL MEENA	01-04-2010
3038	JC 753551Y	SUB	LAXMIKANT DUBEY	01-06-2010
3039	JC 757395X	SUB	LUKKA RATTIAIH	01-04-2010
3040	JC 753132F	SUB	M ARAVINDA KUMAR	01-03-2010
3041	JC 750813Y	SUB	MADAN LAL	01-03-2010
3042	JC 753607A	SUB	MADHAW RAJ CHAURASIA	01-05-2010
3043	JC 751705F	SUB	MAHENDRA KUMAR SINHA	01-03-2010
3044	JC 753994A	SUB	MAHESH CHANDRA UPADHYAY	01-05-2010
3045	JC 751310A	SUB	MAHESHWARAI AH M	01-08-2010
3046	JC 754698F	SUB	MAN SINGH SAINI	01-07-2010
3047	JC 750814F	SUB	MANGAT RAM	01-03-2010
3048	JC 756517K	SUB	MANN SINGH CHOUHAN	01-04-2010
3049	JC 757365A	SUB	MANUEL TUTI	01-04-2010
3050	JC 752635A	SUB	MEHAR CHAND	01-08-2010
3051	JC 759131P	SUB	MOHMAD HAIDER ALI	01-06-2010
3052	JC 755670N	SUB	MUNDHE SAMBHAJI SANJIVAN RAO	01-06-2010
3053	JC 759381W	SUB	MURLI DHAR PAL	01-07-2010
3054	JC 758965P	SUB	NAIK DEEPAK MANOHAR	01-05-2010
3055	JC 751716N	SUB	NANDESWAR MAJUMDAR	01-04-2010
3056	JC 753274Y	SUB	NARAHARI JENA	01-04-2010
3057	JC 753473M	SUB	NARENDRA BAHADUR SINGH	01-06-2010

3058	JC 759760M	SUB	NARENDRA KUMAR	01-04-2010
3059	JC 757477A	SUB	NARENDRA KUMAR SRIVASTAVA	01-05-2010
3060	JC 751317K	SUB	NIRMAL KUMAR RAI	01-02-2010
3061	JC 758985H	SUB	NITAI CHANDRA GHOSH	01-08-2010
3062	JC 755619N	SUB	NITYA NAND	01-03-2010
3063	JC 756422K	SUB	O S SUKUMARAN	01-06-2010
3064	JC 756004P	SUB	OM PRAKASH	01-04-2010
3065	JC 758396M	SUB	OMBIR SINGH	01-06-2010
3066	JC 759158Y	SUB	P RAVICHANDRAN	01-04-2010
3067	JC 751490N	SUB	P VENKATESHWARLU	01-08-2010
3068	JC 754077H	SUB	PALE RAM	01-04-2010
3069	JC 752247H	SUB	PARASURAM ANGURBHAI RATHAWA	01-04-2010
3070	JC 754863F	SUB	PARHALAD SINGH	01-04-2010
3071	JC 748775P	SUB	PARMATMA GIRI	01-04-2010
3072	JC 751895Y	SUB	PARUCHURI NAGA VENKATA RAO	01-03-2010
3073	JC 753552F	SUB	PATIL MAHAVIR BHUJGONDA	01-06-2010
3074	JC 750879P	SUB	PAVITHRAN KS	01-04-2010
3075	JC 759385M	SUB	PHOOL SINGH	01-08-2010
3076	JC 753968Y	SUB	PRANAB KUMAR DAS	01-07-2010
3077	JC 754921A	SUB	PRATAP SINGH	01-06-2010
3078	JC 753934L	SUB	PREM KUMAR SINGH	01-07-2010
3079	JC 755185Y	SUB	PREM RAJ	01-08-2010
3080	JC 754204M	SUB	PREM SINGH	01-03-2010
3081	JC 755074F	SUB	PRITAM CHAND	01-07-2010
3082	JC 757613L	SUB	PUTUL SAIKIA	01-04-2010
3083	JC 751305P	SUB	R SANTHANA GOPALA KRISHNAN	01-08-2010
3084	JC 758644X	SUB	RADHAKRISHNAN UNNI J	01-02-2010
3085	JC 750886L	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-04-2010
3086	JC 755476Y	SUB	RAGHUNATH BEHERA	01-04-2010
3087	JC 758503H	SUB	RAJAHANS GAJANAN SHRIRAM	01-02-2010
3088	JC 749163K	SUB	RAJENDER SINGH	01-04-2010
3089	JC 753903L	SUB	RAJENDRA KUMAR CHAUBEY	01-06-2010
3090	JC 749234A	SUB	RAJENDRAN P	01-06-2010
3091	JC 758302K	SUB	RAJI S	01-06-2010
3092	JC 758143X	SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2010
3093	JC 760427A	SUB	RAM AVTAR	01-05-2010
3094	JC 753483W	SUB	RAM AWADH	01-02-2010
3095	JC 753746K	SUB	RAM BACHAN SINGH	01-02-2010
3096	JC 756892P	SUB	RAM PHAL SHARMA	01-08-2010
3097	JC 757362M	SUB	RAM PRAKASH MISHRA	01-02-2010
3098	JC 759064P	SUB	RAMESH CHAND	01-05-2010
3099	JC 754380K	SUB	RATNA BAHADUR CHETRY	01-05-2010
3100	JC 754091P	SUB	S ANTONY SAMY	01-02-2010
3101	JC 757255L	SUB	S PRABHAKAR	01-08-2010
3102	JC 754259W	SUB	SADANANDA PALAI	01-06-2010
3103	JC 759503P	SUB	SAHADEV BHATTACHARJEE	01-07-2010
3104	JC 757988K	SUB	SAIMON KC	01-04-2010
3105	JC 753771H	SUB	SANT RAM	01-02-2010

3106	JC 757524M	SUB	SASIDHARAN K	01-06-2010
3107	JC 753517Y	SUB	SATYA NARAYAN SINGH	01-07-2010
3108	JC 754282K	SUB	SATYA PRAKASH KAUSHIK	01-04-2010
3109	JC 753415H	SUB	SATYAPAL SINGH	01-07-2010
3110	JC 753485F	SUB	SATYAVEER SINGH	01-04-2010
3111	JC 754153K	SUB	SHAIKH KAYUM	01-07-2010
3112	JC 754092X	SUB	SHESH RAM SHENDE	01-03-2010
3113	JC 755482M	SUB	SHIBA PRASAD ADHIKARY	01-08-2010
3114	JC 753625H	SUB	SHINDE DEVIDAS DAMU	01-08-2010
3115	JC 753931X	SUB	SHIO SHANKAR SINGH	01-05-2010
3116	JC 753608H	SUB	SHIVAJI	01-05-2010
3117	JC 753390F	SUB	SHRI BHAGWAN PRASAD	01-04-2010
3118	JC 757161N	SUB	SHRI SHIV SATYA SINGH	01-08-2010
3119	JC 753487M	SUB	SHYAMA KANT PATHAK	01-07-2010
3120	JC 751779W	SUB	SIBNATH CHOWDHURY	01-06-2010
3121	JC 751373H	SUB	SUBHASH CHANDER MANSOTRA	01-03-2010
3122	JC 754681N	SUB	SUDARSAN BEHERA	01-07-2010
3123	JC 758047H	SUB	SUDIPTA KUMAR ROY	01-08-2010
3124	JC 754766K	SUB	SUKHJINDER PAL SINGH	01-08-2010
3125	JC 759387X	SUB	SUMER SINGH YADAV	01-06-2010
3126	JC 751056F	SUB	SURENDRA NARAYAN	01-08-2010
3127	JC 754552N	SUB	SURENDRA SINGH	01-04-2010
3128	JC 747926W	SUB	SURESH PAL	01-04-2010
3129	JC 760505M	SUB	SUSIL CHANDRA KONAI	01-06-2010
3130	JC 753990K	SUB	TARLOCHAN SINGH	01-03-2010
3131	JC 749172L	SUB	THOMAS M	01-04-2010
3132	JC 750755A	SUB	THOTE CHIMANAJI RAJARAM	01-07-2010
3133	JC 753203X	SUB	TRIBHUVAN NATH BHARTI	01-05-2010
3134	JC 751475Y	SUB	TULASI PRASAD MAHARANA	01-02-2010
3135	JC 759069N	SUB	UDAYA KUMAR S	01-08-2010
3136	JC 753932A	SUB	UMADI KALAPPA NINGAPPA	01-06-2010
3137	JC 754080H	SUB	UMESH KUMAR	01-06-2010
3138	JC 753998W	SUB	UTPAL KANTI DAS	01-04-2010
3139	JC 751777L	SUB	UTSAB KUMAR GURIA	01-05-2010
3140	JC 753474P	SUB	UTTAM KUMAR SARKAR	01-06-2010
3141	JC 758305X	SUB	VED PRAKASH VISHWAKARMA	01-06-2010
3142	JC 751368X	SUB	VEER SINGH PHARSWAN	01-03-2010
3143	JC 754393F	SUB	VIJAY PRAKASH HARBOLA	01-05-2010
3144	JC 755636N	SUB	VIJAYAN G	01-08-2010
3145	JC 753353N	SUB	VINOD KUMAR MISHRA	01-06-2010
3146	JC 754284P	SUB	VINOD KUMAR SHARMA	01-05-2010
3147	JC 754854P	SUB	VINOD KUMAR SINGH	01-07-2010
3148	JC 750302P	SUB	VIRENDER SINGH	01-03-2010
3149	JC 754713L	SUB	Z NAZAR	01-08-2010

**ARMY EDUCATION CORPS**

3150	JC 802584W	SUB	ABHAY SINGH	01-04-2010
3151	JC 802492K	SUB	ABHIMANYU SINGH	01-05-2010



3152	JC 802795Y	SUB	BRAJ RAJ RAI	01-02-2010
3153	JC 802987W	SUB	CHANDRUP SINGH DAHIYA	01-07-2010
3154	JC 802601L	SUB	GANESH DUTT TRIPATHI	01-04-2010
3155	JC 802489K	SUB	GIRISH CHANDRA UPADHYAY	01-07-2010
3156	JC 802491F	SUB	GOVIND SINGH BIST	01-07-2010
3157	JC 802551L	SUB	HARISH CHANDRA MISHRA	01-04-2010
3158	JC 803375L	SUB	HARISH SINGH RAUTELA	01-03-2010
3159	JC 803232L	SUB	JAI LAL	01-06-2010
3160	JC 803233N	SUB	KAILASH CHANDRA SHARMA	01-06-2010
3161	JC 803191M	SUB	KAILASH PRAKASH	01-02-2010
3162	JC 802593X	SUB	KRISHNA NAND	01-04-2010
3163	JC 802758L	SUB	KULDEEP KUMAR	01-04-2010
3164	JC 802484L	SUB	KUNDAN SINGH KOTLIA	01-05-2010
3165	JC 803217W	SUB	MADAN SINGH	01-02-2010
3166	JC 802560M	SUB	MAHESH CHANDRA SHARMA	01-02-2010
3167	JC 802391W	SUB	NAVEEN CHANDRA PANT	01-03-2010
3168	JC 803097H	SUB	PADMA DATT	01-02-2010
3169	JC 802485N	SUB	PRAMOD KUMAR DIXIT	01-05-2010
3170	JC 802918A	SUB	PRAMODA KUMAR SAHU	01-04-2010
3171	JC 802479A	SUB	RAJENDRA KUMAR TIWARI	01-02-2010
3172	JC 803211P	SUB	RAM NIWAS	01-04-2010
3173	JC 802478X	SUB	RAM SINGH	01-02-2010
3174	JC 802402X	SUB	RAMESH CHANDRA	01-08-2010
3175	JC 802482A	SUB	RISHI PAL SINGH	01-02-2010
3176	JC 803173K	SUB	RUPAK RANJAN DAS	01-03-2010
3177	JC 802494P	SUB	SHAMBHU SINGH UDAWAT	01-08-2010
3178	JC 802477P	SUB	SHARVAN KUMAR	01-02-2010
3179	JC 803213A	SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-06-2010
3180	JC 802616N	SUB	SHIV SHANKAR PANDEY	01-04-2010
3181	JC 802684F	SUB	SUKHBIR SINGH	01-06-2010
3182	JC 802603W	SUB	SURESH CHANDER	01-04-2010
3183	JC 802497H	SUB	SURESH CHANDRA PATHAK	01-07-2010
3184	JC 803318K	SUB	VINOD KUMAR	01-04-2010
3185	JC 803335K	SUB	VIRENDRA SINGH DRALL	01-08-2010

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

3186	JC 797199A	RIS	AKHILESH KUMAR PANDEY	01-03-2010
3187	JC 797210N	RIS	DILSHAD KHAN	01-04-2010
3188	JC 797271L	RIS	DIN MOHAMAD	01-04-2010
3189	JC 797286N	RIS	KUNHI RAMAN	01-06-2010
3190	JC 797206L	RIS	KUSHAL KR NATH	01-03-2010
3191	JC 797285L	RIS	MATHEW TB	01-03-2010
3192	JC 797361M	RIS	MD ASHFAQUE ALAM	01-05-2010
3193	JC 797221A	RIS	MOHAN RAM	01-08-2010
3194	JC 797127W	RIS	RADHE SHYAM TIWARI	01-04-2010
3195	JC 797323W	RIS	SHIV RATTAN	01-02-2010

**THE INTELLIGENCE CORPS**

3196	JC 810092M	SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2010
3197	JC 810433M	SUB	BASANT BALLABH PANDEY	01-02-2010
3198	JC 810200L	SUB	BIR SINGH	01-03-2010
3199	JC 810091K	SUB	CHANAN SINGH	01-03-2010
3200	JC 810580P	SUB	CHANDER MOHAN SINGH	01-05-2010
3201	JC 810375N	SUB	CHANDRA MOHAN	01-04-2010
3202	JC 810771K	SUB	DALBIR SINGH KHEINCHI	01-07-2010
3203	JC 810310A	SUB	DEVINDER KUMAR	01-06-2010
3204	JC 810672F	SUB	DHANI CHAND	01-06-2010
3205	JC 810469L	SUB	DINESH KUMAR	01-07-2010
3206	JC 810282Y	SUB	GABAR SINGH	01-03-2010
3207	JC 810378F	SUB	GANESH CHAND	01-06-2010
3208	JC 810505L	SUB	HARI NARAYAN VEER	01-04-2010
3209	JC 810694A	SUB	HARI RAM BHARDWAJ	01-06-2010
3210	JC 810270K	SUB	JAIT SINGH	01-02-2010
3211	JC 810214L	SUB	KARAM CHAND	01-03-2010
3212	JC 810484A	SUB	KRISHAN KUMAR	01-05-2010
3213	JC 810288A	SUB	KRISHNA BALLABH	01-03-2010
3214	JC 810279Y	SUB	KUSHLA NAND	01-02-2010
3215	JC 810639K	SUB	LALU RAM CHAUDHARY	01-04-2010
3216	JC 810358N	SUB	MALLIKARJUN BHIMAPPA GUNKI	01-04-2010
3217	JC 200277H	SUB	MARIANUS EKKA	01-07-2010
3218	JC 810381F	SUB	MUKHARAM JANGIR	01-07-2010
3219	JC 810284K	SUB	NANDAN SINGH	01-03-2010
3220	JC 810298K	SUB	NARAIN SINGH	01-02-2010
3221	JC 810318M	SUB	NARENDER SINGH	01-08-2010
3222	JC 810274A	SUB	OM PRAKASH	01-02-2010
3223	JC 810187M	SUB	P MOULALI KHAN	01-05-2010
3224	JC 810301Y	SUB	PAWAN KUMAR	01-04-2010
3225	JC 810229N	SUB	PRITHVI SINGH	01-03-2010
3226	JC 810317F	SUB	PUJARI SANJEEVA RAO	01-08-2010
3227	JC 810309L	SUB	RAJAN VV	01-06-2010
3228	JC 810278W	SUB	RAJENDRA SINGH	01-02-2010
3229	JC 810190M	SUB	RAM NIWAS YADAV	01-08-2010
3230	JC 810382K	SUB	RAM PAL	01-07-2010
3231	JC 810583H	SUB	RAM PRAKASH SHARMA	01-07-2010
3232	JC 810305P	SUB	RAM SAGAR	01-05-2010
3233	JC 810538W	SUB	RAM SWAROOP	01-07-2010
3234	JC 810315Y	SUB	RAMAWTAR	01-07-2010
3235	JC 218730X	SUB	RANA PRATAP SINGH	01-03-2010
3236	JC 810537N	SUB	RANVIR SINGH	01-07-2010
3237	JC 810299M	SUB	SAHANDRA SINGH	01-03-2010
3238	JC 810322P	SUB	SANATAN DAS	01-08-2010
3239	JC 810642K	SUB	SANJAY CHHETRI	01-04-2010
3240	JC 810388L	SUB	SURINDER KUMAR SONI	01-08-2010
3241	JC 810645X	SUB	UTTAM SINGH	01-04-2010

3242 JC 810532P SUB V RENGA RAJAN 01-04-2010  
**CORPS OF MILITARY POLICE**

3243	JC 818846L	SUB	AJAYA KUMAR PARIDA	01-05-2010
3244	JC 818451K	SUB	ANUJ KUMAR SRIVASTAVA	01-04-2010
3245	JC 818608Y	SUB	AYODHYA PRASAD TRIPATHI	01-05-2010
3246	JC 818908A	SUB	BABAN PRASAD	01-03-2010
3247	JC 818890P	SUB	BABU RAM	01-04-2010
3248	JC 818852Y	SUB	BADRI NATH OJHA	01-04-2010
3249	JC 818853F	SUB	BAHA UDDIN CHOUDHURY	01-02-2010
3250	JC 818843X	SUB	BALWAN SINGH	01-05-2010
3251	JC 819046Y	SUB	BALWINDER SINGH	01-05-2010
3252	JC 818847N	SUB	BHARAT SINGH	01-06-2010
3253	JC 818787K	SUB	BIRENDRA SINGH	01-03-2010
3254	JC 818812X	SUB	CHANDER BHAN	01-03-2010
3255	JC 818823K	SUB	CHANDRA BHUSHAN PRASAD SINGH	01-04-2010
3256	JC 818790K	SUB	DAR BARA SINGH NAIN	01-03-2010
3257	JC 818841M	SUB	DHARAM CHAND	01-04-2010
3258	JC 818859H	SUB	DILIP KUMAR DAS	01-05-2010
3259	JC 818813A	SUB	HARI SHANKAR BHARTI	01-03-2010
3260	JC 818782L	SUB	HAWA SINGH	01-03-2010
3261	JC 818855M	SUB	INDER DEO PRASAD	01-04-2010
3262	JC 818785Y	SUB	J AMAL RAJ	01-02-2010
3263	JC 818943H	SUB	JAGPAL SINGH	01-07-2010
3264	JC 818396Y	SUB	JAI NANDAN MISHRA	01-04-2010
3265	JC 818856P	SUB	JAIVIR SINGH	01-04-2010
3266	JC 818835Y	SUB	KAILASH RAJ	01-04-2010
3267	JC 818888X	SUB	KAMESHWAR THAKUR	01-04-2010
3268	JC 818820W	SUB	KANU MALAKAR	01-03-2010
3269	JC 818860X	SUB	KARTAR SINGH	01-07-2010
3270	JC 818821Y	SUB	KK KOMALAN PILLAI	01-04-2010
3271	JC 818868K	SUB	KRISHAN PAL	01-08-2010
3272	JC 818777A	SUB	KRISHNA KUMAR M D	01-02-2010
3273	JC 818832L	SUB	KULWANT SINGH	01-04-2010
3274	JC 818825P	SUB	LAKHBIR SINGH	01-04-2010
3275	JC 818854K	SUB	M ESWARAN	01-04-2010
3276	JC 818889A	SUB	M SEKAR	01-07-2010
3277	JC 818826X	SUB	M SOWKAT ALI	01-04-2010
3278	JC 818871K	SUB	MATHEW JOHN	01-04-2010
3279	JC 818817W	SUB	MD SHAUKATI ALI	01-04-2010
3280	JC 818863L	SUB	MOHAKAM SINGH	01-07-2010
3281	JC 818944L	SUB	MURUKESAN M	01-05-2010
3282	JC 818839P	SUB	NARESH KUMAR PANDEY	01-04-2010
3283	JC 818539N	SUB	NARESH KUMAR SHARMA	01-06-2010
3284	JC 818927L	SUB	PANNER SELVAM M	01-08-2010
3285	JC 818844A	SUB	PIRTHI SINGH	01-05-2010
3286	JC 818450F	SUB	PRADIP KUMAR RANA	01-05-2010
3287	JC 818837K	SUB	PRATAP CHARAN BEURA	01-04-2010

3288	JC 818937P	SUB	RADHEY SHYAM	01-04-2010
3289	JC 818840K	SUB	RAGHU NANDAN PRASAD	01-04-2010
3290	JC 818549X	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-07-2010
3291	JC 818784W	SUB	RAJ NATH YADAV	01-02-2010
3292	JC 818833N	SUB	RAJ PAL SINGH CHAUHAN	01-04-2010
3293	JC 818818Y	SUB	RAJINDRA YADAV	01-04-2010
3294	JC 818775P	SUB	RAKESH	01-02-2010
3295	JC 818466M	SUB	RAM KISHAN	01-07-2010
3296	JC 818824M	SUB	RAM KUMAR	01-04-2010
3297	JC 818831H	SUB	RAM PHAL MALIK	01-04-2010
3298	JC 818780A	SUB	RAMA CHANDRAN KAITHA PURATH	01-08-2010
3299	JC 818815L	SUB	RAMA KRISHNAN K	01-04-2010
3300	JC 818848W	SUB	RANVIR SINGH DALAL	01-04-2010
3301	JC 818442H	SUB	ROHITASHWA KUMAR	01-04-2010
3302	JC 818926H	SUB	S THIRUNAVUKKARASU	01-04-2010
3303	JC 818783N	SUB	SAIL VILAS SAKHA RAM	01-02-2010
3304	JC 818810M	SUB	SATPAL	01-03-2010
3305	JC 818776X	SUB	SATYA PAL SINGH	01-02-2010
3306	JC 818827A	SUB	SAVVIR KHAN	01-04-2010
3307	JC 818906P	SUB	SHIV SAGAR PANDEY	01-02-2010
3308	JC 818443L	SUB	SUBASH CHAND SHARMA	01-04-2010
3309	JC 818799Y	SUB	SURENDER SINGH VERMA	01-04-2010
3310	JC 818845H	SUB	UDAI PRATAP SINGH	01-05-2010
3311	JC 818814H	SUB	UDAIVIR SINGH	01-04-2010
3312	JC 818834W	SUB	UMESH CHANDRA MISHRA	01-04-2010
3313	JC 818382Y	SUB	UMESH KUMAR SINGH	04-04-2010
3314	JC 818861A	SUB	UPENDRA SINGH YADAV	01-08-2010
3315	JC 818822F	SUB	VIJAY KUMAR RAM	01-04-2010
3316	JC 818774M	SUB	VIJAY PAL SINGH	01-02-2010
3317	JC 818862H	SUB	VIJAYAN MANIYERE	01-05-2010
3318	JC 818858A	SUB	WILSON E O	01-02-2010

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

3319	JC 826094F	SUB	BASU DEV	01-02-2010
3320	JC 826116P	SUB	DHOKE PANDURANG JAIRU	01-02-2010
3321	JC 826100K	SUB	KESHAV RAMCHANDRA LAD	01-04-2010
3322	JC 826107N	SUB	LOK BAHADUR SARU	01-02-2010
3323	JC 826108W	SUB	MANDVE PARMESHVAR DASHARATH	01-07-2010
3324	JC 826136H	SUB	MANOHAR BABU DUBAL	01-08-2010
3325	JC 826112Y	SUB	S RAJAPPA	01-05-2010
3326	JC 826103X	SUB	YEDE DATTATARY BABASAHEB	01-08-2010

**THE PIONEER CORPS**

3327	JC 829308X	SUB	BADAL KUMAR SAHA	01-05-2010
3328	JC 829293A	SUB	PREM PAL SINGH	01-02-2010
3329	JC 829302W	SUB	RADHEY RAMAN	01-08-2010
3330	JC 829345L	SUB	RAJBIR	01-04-2010
3331	JC 829206F	SUB	SATYADEO SINGH	01-02-2010

**DEFENCE SECURITY CORPS**

3332	JC 841796X	SUB	BACHITTAR SINGH	01-06-2010
3333	JC 841404Y	SUB	BISHAN SINGH SAHI	01-05-2010
3334	JC 841454K	SUB	BISHWA NATH TRIPATHI	01-02-2010
3335	JC 840694P	SUB	BRAJA BABU SINGHA	01-07-2010
3336	JC 841351L	SUB	CD JOSE	01-03-2010
3337	JC 841789F	SUB	DAYA RAM	01-07-2010
3338	JC 840796L	SUB	FAUZDAR SINGH	01-08-2010
3339	JC 840867F	SUB	GIRAND SINGH	01-08-2010
3340	JC 840696A	SUB	HARPAL SINGH	01-03-2010
3341	JC 841201P	SUB	JARNIAL SINGH	01-07-2010
3342	JC 841657N	SUB	KUL BAHADUR GURUNG	01-07-2010
3343	JC 841019P	SUB	LACHHMAN DASS	01-05-2010
3344	JC 840899K	SUB	LAL CHAND SHARMA	01-08-2010
3345	JC 840662M	SUB	PARS RAM	01-06-2010
3346	JC 841639L	SUB	PP MOHANADASAN	01-04-2010
3347	JC 840591W	SUB	RAM NARESH SINGH	01-02-2010
3348	JC 841389P	SUB	SD SEBASTIAN	01-06-2010
3349	JC 840802N	SUB	SHIV RAM	01-07-2010
3350	JC 841337Y	SUB	SUDAMA SINGH	01-07-2010
3351	JC 840753W	SUB	UNNIALAN E	01-05-2010
3352	JC 840542N	SUB	YASHPAL SINGH	01-07-2010

**TERRITORIAL ARMY**

3353	TJ 4341H	SUB	HARMAN CHAND	01-08-2010
3354	TJ 4639M	SUB	HILA LAL	01-05-2010
3355	TJ 4090K	SUB	LAXMINARAYAN	01-02-2010
3356	TJ 3800K	SUB	SHANTAN SWAROOP SHARMA	01-08-2010
3357	TJ 3994W	SUB	YASHWANT	01-07-2010

**TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS****8 CAVALRY**

1	JC 242242N	NB RIS	VIJENDRA PAL SINGH	01-06-2010
---	------------	--------	--------------------	------------

**20 LANCERS**

2	JC 242772H	NB RIS	CHANDAN SINGH	01-02-2010
---	------------	--------	---------------	------------

**64 CAVALRY**

3	JC 242856W	NB RIS	DHIR SINGH BHADORIA	01-05-2010
---	------------	--------	---------------------	------------

4	JC 242990F	NB RIS	SUKHWINDER SINGH	01-07-2010
---	------------	--------	------------------	------------

**76 ARMOURED REGIMENT**

5	JC 242872N	NB RIS	BALRAJ SINGH KAUNDAL	01-05-2010
---	------------	--------	----------------------	------------

6	JC 242706A	NB RIS	BEG SINGH	01-05-2010
---	------------	--------	-----------	------------

7	JC 242241L	NB RIS	HANUMANA RAM	01-04-2010
---	------------	--------	--------------	------------

**47 ARMOURED REGIMENT**

8	JC 242915X	NB RIS	AMAR NATH	01-08-2010
---	------------	--------	-----------	------------

**50 ARMOURED REGIMENT**

9	JC 242985W	NB RIS	HARJIT SINGH	01-06-2010
---	------------	--------	--------------	------------

**51 ARMoured REGIMENT**

10	JC 243240P	NB RIS	GURJIT SINGH	01-04-2010
11	JC 242810N	NB RIS	RAMESH CHAND	01-06-2010
12	JC 242682F	NB RIS	SUBA SINGH	01-03-2010

**52 ARMoured REGIMENT**

13	JC 242494A	NB RIS	DIWAKAR SINGH	01-07-2010
14	JC 242145W	NB RIS	KHEM CHAND	01-06-2010
15	JC 242352H	NB RIS	MOHAN SINGH	01-07-2010

**ARMoured CORPS**

16	JC 242637P	NB RIS	ARAVIND KUMAR SINGH	01-06-2010
17	JC 242898H	NB RIS	BABU LAL	01-08-2010
18	JC 242192N	NB RIS	BHIM SINGH	01-05-2010
19	JC 242730W	NB RIS	DEVENDER SINGH RANA	01-03-2010
20	JC 242619M	NB RIS	GURDEV SINGH	01-02-2010
21	JC 242968W	NB RIS	JAGDISH PRASAD	01-06-2010
22	JC 242239N	NB RIS	JASWANT SINGH	01-06-2010
23	JC 243455N	NB RIS	JOGINDER SINGH	01-05-2010
24	JC 242707H	NB RIS	LACHHI RAM	01-03-2010
25	JC 242155A	NB RIS	MALKIT SINGH	01-05-2010
26	JC 242284A	NB RIS	MANJIT SINGH	01-04-2010
27	JC 242855N	NB RIS	PRATAP SINGH	01-04-2010
28	JC 242196K	NB RIS	RAJIV KUMAR	01-06-2010
29	JC 242751M	NB RIS	RAJPAL SINGH	01-03-2010
30	JC 242777F	NB RIS	RAMESHWAR DASS	01-06-2010
31	JC 242154X	NB RIS	SANDHURA SINGH	01-02-2010
32	JC 241566M	NB RIS	SANTOKH SINGH	01-02-2010
33	JC 241129M	NB RIS	SARJIT SINGH CHAUHAN	01-04-2010
34	JC 242748M	NB RIS	SHAMSHER SINGH	01-08-2010
35	JC 241428L	NB RIS	SUKH DEV SINGH	01-04-2010
36	JC 242484W	NB RIS	SUKHBIR SINGH	01-03-2010
37	JC 241983Y	NB RIS	TEJBIR SINGH	01-04-2010

**REGIMENT OF ARTILLERY**

38	JC 273176X	NB SUB	A PALANI SAMY	01-08-2010
39	JC 271187L	NB SUB	ANIL KANT	01-07-2010
40	JC 270835W	NB SUB	ANIL KUMAR	01-05-2010
41	JC 270661F	NB SUB	ARUN KUMAR SHARMA	01-04-2010
42	JC 273603H	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2010
43	JC 271256W	NB SUB	ATUL KUMAR SINGH	01-07-2010
44	JC 271023P	NB SUB	AVTAR SINGH	01-05-2010
45	JC 270048P	NB SUB	BAHADUR SINGH	01-03-2010
46	JC 271855W	NB SUB	BALBIR SINGH	01-05-2010
47	JC 272509M	NB SUB	BALKAR SINGH	01-05-2010
48	JC 271611H	NB SUB	BASAVA RAJ TALLUR	01-07-2010
49	JC 270551M	NB SUB	BASUDE DEVIDAS ARJUN RAO	01-02-2010
50	JC 269151N	NB SUB	BIR CHANDRA SINHA	01-04-2010
51	JC 271680Y	NB SUB	BISHAMBER LAL	01-08-2010
52	JC 270942X	NB SUB	CHANDER PAL SINGH	01-05-2010
53	JC 271593L	NB SUB	CHET RAM	01-02-2010
54	JC 272009P	NB SUB	CHINTHADA SIMHACHALAM	01-08-2010
55	JC 267918W	NB SUB	DAYANAD SINGH	01-03-2010

56	JC 268385L	NB SUB	DEEN DAYAL SHARMA	01-03-2010
57	JC 270126F	NB SUB	DHARAM VEER SINGH	01-02-2010
58	JC 270674Y	NB SUB	GHARGE DATTATRYA TUKARAM	01-05-2010
59	JC 271340W	NB SUB	GIRISH KUMAR A	01-02-2010
60	JC 271573X	NB SUB	GOKULAN N	01-05-2010
61	JC 271361M	NB SUB	GOPAL SINGH	01-02-2010
62	JC 271741L	NB SUB	GOPINATH KURUP B	01-08-2010
63	JC 270485P	NB SUB	GURCHARAN SINGH	01-02-2010
64	JC 270466K	NB SUB	GURMAIL SINGH	01-03-2010
65	JC 273125K	NB SUB	INDER SINGH	01-05-2010
66	JC 271269N	NB SUB	JAI SINGH	01-06-2010
67	JC 270844X	NB SUB	JAIVEER SINGH	01-06-2010
68	JC 270317W	NB SUB	JAKESH KUMAR	01-03-2010
69	JC 270190Y	NB SUB	JAY PRAKASH SINGH	01-04-2010
70	JC 271199A	NB SUB	JITENDRA P D SINGH	01-05-2010
71	JC 268732Y	NB SUB	K SINGHAJIT SINGHA	01-07-2010
72	JC 271909M	NB SUB	KAILASH CHANDER	01-07-2010
73	JC 269262L	NB SUB	KAMAL KISHORE	01-04-2010
74	JC 271236H	NB SUB	KANHAIYA NATH UPADHYAY	01-08-2010
75	JC 272194N	NB SUB	KANWAR SINGH YADAV	01-03-2010
76	JC 271209Y	NB SUB	KAPTAN SINGH	01-03-2010
77	JC 268947X	NB SUB	KARAM CHAND	01-04-2010
78	JC 268939Y	NB SUB	KRISHNA PATIL	01-04-2010
79	JC 271402L	NB SUB	LAKHWINDER SINGH	01-04-2010
80	JC 270586H	NB SUB	LALLU LAL YADAV	01-06-2010
81	JC 272659H	NB SUB	LAXMAN SINGH	01-03-2010
82	JC 270762P	NB SUB	MAHABIR SINGH	01-07-2010
83	JC 270670H	NB SUB	MAHAVIR PRASAD YADAV	01-04-2010
84	JC 268667K	NB SUB	MALLAPPA SUTAR	01-03-2010
85	JC 271836L	NB SUB	MANAGER SINGH	01-02-2010
86	JC 271151M	NB SUB	MANI CHANDRA JHA	01-03-2010
87	JC 271408M	NB SUB	MANJIT SINGH	01-03-2010
88	JC 270140N	NB SUB	MOHAN LAL	01-07-2010
89	JC 271784A	NB SUB	MURALIDHARAN NAIR D	01-08-2010
90	JC 271898L	NB SUB	NAND LAL	01-07-2010
91	JC 269800N	NB SUB	NAR SINGH DASS	01-04-2010
92	JC 271257Y	NB SUB	NIRMAL MANDAL	01-07-2010
93	JC 270529F	NB SUB	OM PAL SINGH	01-08-2010
94	JC 269230H	NB SUB	OM PARKASH	01-07-2010
95	JC 270999M	NB SUB	P KUPPU SAMY	01-08-2010
96	JC 273503X	NB SUB	P MANOGARAN	01-02-2010
97	JC 271047Y	NB SUB	P S VINAYAK NAIDU	01-02-2010
98	JC 270160F	NB SUB	PATIL MAHADEO BHAGAWAN	01-08-2010
99	JC 269185F	NB SUB	POHEKER ANKUSH DATTATRAY	01-04-2010
100	JC 271219H	NB SUB	POKHARKAR RAMDAS BHAU	01-05-2010
101	JC 273538N	NB SUB	PRADIP KUMAR DUBEY	01-03-2010
102	JC 270175K	NB SUB	PRALADRAM KUMAWAT	01-08-2010
103	JC 271063W	NB SUB	PREM KUMAR A	01-03-2010
104	JC 271390F	NB SUB	PRITAM SINGH	11-02-2010
105	JC 267617M	NB SUB	RAGHUNATH SINGH BHINCHAR	01-03-2010
106	JC 273186F	NB SUB	RAJENDAR SINGH	01-05-2010
107	JC 271455K	NB SUB	RAJENDRA	01-03-2010
108	JC 271951L	NB SUB	RAJENDRA SINGH CHAUHAN	01-04-2010
109	JC 271719A	NB SUB	RAKESH KUMAR	01-08-2010

110	JC 272629L	NB SUB	RAM ADHAR SINGH	01-05-2010
111	JC 270626Y	NB SUB	RAM DAS SINGH	01-06-2010
112	JC 271338Y	NB SUB	RAM LAKHAN SINGH	01-02-2010
113	JC 269890A	NB SUB	RAM NARAYAN SHARMA	01-03-2010
114	JC 272757H	NB SUB	RAM PAT	01-05-2010
115	JC 269937A	NB SUB	RAM PHAL	01-04-2010
116	JC 272300F	NB SUB	RAM SINGH	01-06-2010
117	JC 273083H	NB SUB	RAMESH SINGH	01-05-2010
118	JC 270059F	NB SUB	RANJIT SINGH	01-07-2010
119	JC 271075L	NB SUB	RAO SAHEB RANADIVE	01-08-2010
120	JC 270704L	NB SUB	RAVICHANDRAN R	01-02-2010
121	JC 271956K	NB SUB	RONODHIR NATH	01-05-2010
122	JC 271406F	NB SUB	S CHELLAM IMMANUEL	01-08-2010
123	JC 271880P	NB SUB	S VENKATESWARLU	01-04-2010
124	JC 271925K	NB SUB	SANDI MANI DUNDAPPA	01-07-2010
125	JC 271120M	NB SUB	SANJEEV KUMAR D	01-08-2010
126	JC 272148Y	NB SUB	SANTOSH KUMAR SHUKLA	01-03-2010
127	JC 271475X	NB SUB	SATISH KUMAR	01-04-2010
128	JC 271017F	NB SUB	SATWINDER SINGH	01-03-2010
129	JC 269096H	NB SUB	SATYA DEO YADAV	01-02-2010
130	JC 269927W	NB SUB	SATYA NARAYAN	01-02-2010
131	JC 271319N	NB SUB	SEWA SINGH	01-07-2010
132	JC 271825Y	NB SUB	SHAIENDRA KUMAR DUBEY	01-06-2010
133	JC 271493A	NB SUB	SHIRISH KUMAR	01-03-2010
134	JC 271357K	NB SUB	SHISHUPAL SINGH	01-08-2010
135	JC 271626L	NB SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-08-2010
136	JC 272063H	NB SUB	SHRI BHAGWAN	01-06-2010
137	JC 270212M	NB SUB	SISIR KUMAR DALUI	01-03-2010
138	JC 270158K	NB SUB	SOMAN P	01-05-2010
139	JC 269881Y	NB SUB	SREENIVASAN AK	01-02-2010
140	JC 271537M	NB SUB	SUBE SINGH	01-08-2010
141	JC 270730M	NB SUB	SUDESH SINGH	01-04-2010
142	JC 271173L	NB SUB	SUKHWINDER SINGH	01-03-2010
143	JC 270814A	NB SUB	SURANDRA SINGH	01-02-2010
144	JC 268750F	NB SUB	SURESH CHANDER YADAV	01-04-2010
145	JC 271348H	NB SUB	SURESH KUMAR	01-07-2010
146	JC 271431A	NB SUB	SURESH P	01-08-2010
147	JC 270252N	NB SUB	SWARAN SINGH	01-04-2010
148	JC 269014P	NB SUB	TILAK RAJ	01-04-2010
149	JC 272201Y	NB SUB	V SAMPATH	01-04-2010
150	JC 270593Y	NB SUB	VIJAY SINGH	01-04-2010
151	JC 270667H	NB SUB	VIJENDER SINGH	01-04-2010
152	JC 270836Y	NB SUB	VINOD KUMAR SINGH	01-05-2010
153	JC 269919X	NB SUB	VISHAMBHAR SINGH	01-05-2010
154	JC 270914L	NB SUB	YADAV SURYAKANT BABASAHEB	01-08-2010

**ARMY AIR DEFENCE**

155	JC 299553A	NB SUB	AMARENDRA CHOWDHURY	01-02-2010
156	JC 300325M	NB SUB	DHARAM RAJ TEWTIYA	01-02-2010
157	JC 299978Y	NB SUB	GAJENDRA KUMAR SINGH	01-02-2010
158	JC 300035P	NB SUB	JAGAN NATH	01-08-2010
159	JC 299608Y	NB SUB	JAI SINGH	01-05-2010
160	JC 300072H	NB SUB	JOSE T K	01-02-2010
161	JC 300611N	NB SUB	K SURESH KUMAR	01-08-2010
162	JC 300111W	NB SUB	KULBJR SINGH	01-03-2010



163	JC 299597X	NB SUB	KUNJ BIHARI GUPTA	01-04-2010
164	JC 299491L	NB SUB	LAL BABU PRASAD	01-04-2010
165	JC 299982F	NB SUB	MANOKAMNA SINGH	01-05-2010
166	JC 299609F	NB SUB	MOHANAN P	01-04-2010
167	JC 300249L	NB SUB	MURLIDHAR SINGH K	01-03-2010
168	JC 299626F	NB SUB	NILMANI SINGHA	01-06-2010
169	JC 300729P	NB SUB	PARTHAN S	01-08-2010
170	JC 300729P	NB SUB	PARTHAN S	01-08-2010
171	JC 299596P	NB SUB	PAWALE BABU VAJU	01-04-2010
172	JC 300328A	NB SUB	PRAMOD KUMAR	01-02-2010
173	JC 300115M	NB SUB	PRAMOD KUMAR PAL	01-05-2010
174	JC 300114K	NB SUB	RABINDRA NATH SINGH YADAV	01-05-2010
175	JC 300180M	NB SUB	RAJ BAHADUR	01-05-2010
176	JC 300461H	NB SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2010
177	JC 299981Y	NB SUB	RAJNESH KUMAR	01-02-2010
178	JC 300509L	NB SUB	RAKESH KUMAR RAWAT	01-03-2010
179	JC 300218L	NB SUB	RAVINDRAN R	01-03-2010
180	JC 300395L	NB SUB	S SATHIA MOORTHY	01-07-2010
181	JC 299441A	NB SUB	SAMBAJI SARGARE	01-04-2010
182	JC 300483F	NB SUB	SANTOSH SINHA	01-06-2010
183	JC 299710F	NB SUB	SAWANT MAGADUM	01-05-2010
184	JC 299908A	NB SUB	SUDAMA SHARMA	01-04-2010
185	JC 299820W	NB SUB	SUKHWINDER SINGH	01-02-2010
186	JC 299840K	NB SUB	SUNIL KUMAR KISKU	01-07-2010
187	JC 300475H	NB SUB	SUNIL SINGH	01-04-2010
188	JC 299968P	NB SUB	SURAJ SINGH YADAV	01-06-2010
189	JC 299992L	NB SUB	SURENDRA PRATAP SINGH	01-06-2010
190	JC 299485X	NB SUB	SWAMI NATH	01-04-2010
191	JC 300411X	NB SUB	UMESH KUMAR SINGH	01-07-2010
192	JC 300389X	NB SUB	VALSAN KC	01-03-2010
193	JC 299209P	NB SUB	VIRANDER SINGH	01-04-2010

**MADRAS ENGINEER GROUP**

194	JC 309115N	NB SUB	ANGREJ SINGH	01-06-2010
195	JC 309080H	NB SUB	ASOKAN KS	01-05-2010
196	JC 308721X	NB SUB	GUNASHEKAR R	01-04-2010
197	JC 309076A	NB SUB	JAYA PRAKASH K	01-02-2010
198	JC 308877P	NB SUB	JOHN PINTO	01-04-2010
199	JC 309267P	NB SUB	K VISWANATHAN	01-06-2010
200	JC 308905W	NB SUB	M SURYANARAYANA MURTY	01-03-2010
201	JC 308737H	NB SUB	MOHAMMAD SATTAR	01-02-2010
202	JC 309228W	NB SUB	MUNIRATHINAM A	01-02-2010
203	JC 309233F	NB SUB	N KALAIIVANAN	01-03-2010
204	JC 309265K	NB SUB	RAJU N	01-05-2010
205	JC 309259W	NB SUB	THIRUMALAI N	01-05-2010
206	JC 309192H	NB SUB	V KOTTAI CHAMY	01-04-2010
207	JC 308270H	NB SUB	YALLAPA PATIL	01-06-2010

**BENGAL ENGINEER GROUP**

208	JC 338244W	NB SUB	ABHAY KUMAR SINGH	01-08-2010
209	JC 338090P	NB SUB	ARJUN SINGH	01-04-2010
210	JC 327041M	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2010
211	JC 329022A	NB SUB	ATIRAJ SINGH YADAV	01-07-2010

212	JC 338156A	NB SUB	BAHADUR SINGH	01-03-2010
213	JC 338084F	NB SUB	BALBIR SINGH	01-04-2010
214	JC 338268A	NB SUB	BALKAR SINGH	01-05-2010
215	JC 338378P	NB SUB	BHUNESHWAR SINGH	01-06-2010
216	JC 338012X	NB SUB	CHARANJEET SINGH	01-04-2010
217	JC 338153M	NB SUB	DANDI NATH KALITA	01-04-2010
218	JC 330329K	NB SUB	DEVENDRA PRASAD	01-04-2010
219	JC 338011P	NB SUB	DHARAM PAL SHARMA	01-04-2010
220	JC 338015L	NB SUB	GAJA NAND	01-05-2010
221	JC 338036F	NB SUB	GHANA RAM	01-04-2010
222	JC 338137P	NB SUB	HARDIP SINGH	01-02-2010
223	JC 338093H	NB SUB	HARVEL SINGH	01-05-2010
224	JC 329872K	NB SUB	JASPAL SINGH	01-07-2010
225	JC 338434H	NB SUB	JASWANT SINGH	01-08-2010
226	JC 338294F	NB SUB	KANHU CHARAN PANDA	01-04-2010
227	JC 338039P	NB SUB	KANNUNG CHOUBA SINHA	01-04-2010
228	JC 338013A	NB SUB	KRISHAN PAL BHARGWA	01-05-2010
229	JC 338033N	NB SUB	LACHI RAM PRASAD RAM	01-04-2010
230	JC 338431P	NB SUB	LAKHWINDER SINGH	01-05-2010
231	JC 338215F	NB SUB	MADAN PAL	01-04-2010
232	JC 328915F	NB SUB	MAHENDRA NATH ROY	01-08-2010
233	JC 338190A	NB SUB	MAHIPAL SINGH	01-04-2010
234	JC 338066Y	NB SUB	MOHAN CHANDRA NATH	01-04-2010
235	JC 338269H	NB SUB	NARENDRA PRASAD	01-06-2010
236	JC 338014H	NB SUB	NARENDRA SINGH MEHTA	01-07-2010
237	JC 338170M	NB SUB	NIL KAMAL MONDAL	01-04-2010
238	JC 338076H	NB SUB	PRADYUT KUMAR MANDAL	01-02-2010
239	JC 328938H	NB SUB	PRAVEEN CHAND	01-06-2010
240	JC 330695F	NB SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-05-2010
241	JC 338369N	NB SUB	RAJ NARAYAN MOURYA	01-02-2010
242	JC 338038M	NB SUB	RAJENDRA KUMAR JUYAL	01-04-2010
243	JC 338040K	NB SUB	RAM BABU SAH	01-04-2010
244	JC 330863P	NB SUB	RAMESH SINGH	01-06-2010
245	JC 330852H	NB SUB	S CHANDRA SEKHARAN	01-07-2010
246	JC 328309L	NB SUB	SARJIT SINGH	01-05-2010
247	JC 328608K	NB SUB	SATESH KUMAR	01-03-2010
248	JC 329820N	NB SUB	SATPAL SINGH	01-03-2010
249	JC 329025N	NB SUB	SATYENDER NATH RAWAT	01-03-2010
250	JC 338041M	NB SUB	SIDDH NATH	01-04-2010
251	JC 338154P	NB SUB	SOHAN SINGH	01-04-2010
252	JC 327168P	NB SUB	SUKHDEV SINGH	01-07-2010
253	JC 338413M	NB SUB	SUSHIL BISWAS	01-07-2010
254	JC 329981W	NB SUB	UPENDRA KUMAR SWAIN	01-04-2010

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

255	JC 350638F	NB SUB	BALKAR SINGH	01-04-2010
256	JC 350263N	NB SUB	KASAR ANKUSH	01-04-2010
257	JC 350411N	NB SUB	MD HASNAIN KHAN	01-02-2010

258	JC 350597H	NB SUE	MEWA SINGH	01-06-2010
259	JC 350448P	NB SUB	MOHANJI SHUKLA	01-04-2010
260	JC 350494K	NB SUB	NANAK SINGH	01-04-2010
261	JC 350435X	NB SUB	NIZAMUDDIN	01-04-2010
262	JC 350907H	NB SUB	SABIR ALI	01-08-2010
263	JC 350496P	NB SUB	SATYAPAL SINGH	01-05-2010
264	JC 350441L	NB SUB	SHINDE SHIVAJI SUKDEV	01-04-2010
265	JC 350742P	NB SUB	SHINDE VASANT SHIVAJI	01-08-2010
266	JC 350560F	NB SUB	SUKHDEV SINGH GILL	01-06-2010
267	JC 350857H	NB SUB	SUKHWINDER SINGH	01-06-2010
268	JC 350439W	NB SUB	SURJIT SINGH	01-04-2010
269	JC 350561K	NB SUB	TARSEM SINGH	01-07-2010
270	JC 350664H	NB SUB	VIJAY PATIL	01-04-2010

**CORPS OF SIGNALS**

271	JC 378389K	NB SUB	AWADHESH PRASAD.	01-04-2010
272	JC 378195F	NB SUB	BALVINDER SINGH	01-07-2010
273	JC 376996K	NB SUB	BHOLA NATH BISWAS	01-04-2010
274	JC 376958N	NB SUB	BIPUL CHANDRA NEOG.	01-03-2010
275	JC 377005X	NB SUB	DEEP CHAND	01-07-2010
276	JC 377578F	NB SUB	HARI KUMAR SINGH	01-04-2010
277	JC 377444H	NB SUB	HARI MOHAN JHA	01-06-2010
278	JC 375866P	NB SUB	JOSEPH RAJ D	01-07-2010
279	JC 376688K	NB SUB	JOSEPH VU	01-07-2010
280	JC 376635L	NB SUB	KANHAIYA LAL	01-04-2010
281	JC 375909Y	NB SUB	KASHI NATH RAM	01-07-2010
282	JC 377121A	NB SUB	KRISHAN CHANDER	01-04-2010
283	JC 378365A	NB SUB	NABIN BORAH	01-03-2010
284	JC 378081W	NB SUB	NC PARMANIK	01-07-2010
285	JC 376831L	NB SUB	NIRANJAN SAHOO	01-07-2010
286	JC 378637P	NB SUB	OM PRAKASH	01-04-2010
287	JC 376677X	NB SUB	PARAS SAH	01-04-2010
288	JC 376843A	NB SUB	PRAMOD KUMAR MISRA	01-03-2010
289	JC 377409A	NB SUB	RANA PRATAP SINGH	01-02-2010
290	JC 377913A	NB SUB	SAROJ SINGH	01-04-2010
291	JC 378627L	NB SUB	SATYAN CHALATAN	01-08-2010
292	JC 378063N	NB SUB	SAYED SAFFAYET ALI	01-08-2010
293	JC 376695A	NB SUB	SHER SINGH KHEDAR	01-04-2010
294	JC 377384Y	NB SUB	SHYAM DHANI PRASAD GUPTA	01-05-2010
295	JC 374398N	NB SUB	SOMBIR	01-03-2010
296	JC 378178F	NB SUB	SS SINGH YADAV	01-08-2010
297	JC 377932L	NB SUB	SUBRATA ADHIKARY	01-05-2010
298	JC 376878W	NB SUB	SUKHEN KUMAR MUKHERJEE	01-04-2010
299	JC 377359A	NB SUB	VED PRAKASH	01-02-2010
300	JC 376995F	NB SUB	VIR SINGH YADAV	01-02-2010

**THE BRIGADE OF GUARDS**

301	JC 404075H	NB SUB	AMAL KUMAR ARYA	01-05-2010
-----	------------	--------	-----------------	------------

302	JC 404104M	NB SUB	AMRIK SINGH	01-05-2010
303	JC 404061H	NB SUB	BD KISAN	01-05-2010
304	JC 404130N	NB SUB	GUNDAR SINGH	01-08-2010
305	JC 404429A	NB SUB	RAJESH KUMAR MISHRA	01-06-2010
306	JC 403191Y	NB SUB	SUNIL PRASAD	01-02-2010
307	JC 403937K	NB SUB	TRIBHUWAN UPMANYU	01-05-2010

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

308	JC 420766Y	NB SUB	ASHIM CHANDRA SARKAR	01-03-2010
309	JC 420649N	NB SUB	ASHIM KUMAR PAUL	01-02-2010
310	JC 420800N	NB SUB	BRIJ MOHAN RAY	01-04-2010
311	JC 420626M	NB SUB	DAYA NAND PANDEY	01-04-2010
312	JC 420682L	NB SUB	LAXMAN SINGH DHAMI	01-07-2010
313	JC 420837P	NB SUB	MADHU PALLIYOTH	01-02-2010
314	JC 420599N	NB SUB	MB BHAI MADHUV BHAI	01-02-2010
315	JC 421053A	NB SUB	MOHAN LAL GUJJAR	01-07-2010
316	JC 420683N	NB SUB	MCHAN RAM	01-07-2010
317	JC 421001K	NB SUB	P KANDA SAMY	01-05-2010
318	JC 420921P	NB SUB	PRAMOD KUMAR	01-03-2010
319	JC 420877W	NB SUB	RAVINDER SINGH	01-04-2010
320	JC 420614X	NB SUB	SANTOSH KUMAR MOHANTA	01-04-2010
321	JC 420992W	NB SUB	SANTOSH KUMAR SINGH	01-02-2010
322	JC 420485H	NB SUB	UMMED SINGH GURJAR	01-04-2010

**THE MADRAS REGIMENT**

323	JC 439708K	NB SUB	P DEVARAJ	01-06-2010
-----	------------	--------	-----------	------------

**THE GRENADIERS**

324	JC 449796Y	NB SUB	DAYANAND	01-07-2010
325	JC 450444N	NB SUB	GURDEV SINGH	01-06-2010
326	JC 450475N	NB SUB	KRISHAN SINGH	01-03-2010
327	JC 450384K	NB SUB	RAM SHANKAR	01-04-2010
328	JC 450328L	NB SUB	RAMJAN KATHAT	01-02-2010
329	JC 450290M	NB SUB	RBS PARIHAR	01-08-2010
330	JC 450375H	NB SUB	SADIK MOHD	01-04-2010
331	JC 450527Y	NB SUB	SURESH KUMAR YADAV	01-02-2010

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

332	JC 459551W	NB SUB	JOGADAND TRIMBAK L	01-02-2010
333	JC 459675L	NB SUB	PREM PRAKASH SHUKLA	01-06-2010

**THE RAJPUTANA RIFLES**

334	JC 470253A	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2010
335	JC 470352H	NB SUB	DEVENDRA SINGH	01-06-2010
336	JC 470195F	NB SUB	DHANI RAM	01-04-2010
337	JC 470183M	NB SUB	GOPAL SINGH	01-07-2010
338	JC 470260W	NB SUB	GOVIND SINGH JAT	01-07-2010
339	JC 469850H	NB SUB	NARENDRA PAL SINGH SHAKYA	01-04-2010

340	JC 470568K	NB SUB	RAM NIWAS CHAUHAN	01-08-2010
341	JC 470066F	NB SUB	SHRI NATH SINGH	01-02-2010
<b><u>THE RAJPUT REGIMENT</u></b>				
342	JC 479889H	NB SUB	RABINDRA NATH SHARMA	01-06-2010
343	JC 480366W	NB SUB	RAM SNEHI	01-04-2010
344	JC 479880N	NB SUB	SATYAJIT SINHA	01-07-2010
345	JC 479893L	NB SUB	SEWA RAM SHARMA	01-04-2010
<b><u>THE JAT REGIMENT</u></b>				
346	JC 490024W	NB SUB	DAMODER LAL	01-03-2010
347	JC 489996X	NB SUB	DEW SHARN	01-03-2010
348	JC 490125K	NB SUB	PP SINGH CHAUHAN	01-05-2010
349	JC 490061K	NB SUB	RAJ KUMAR	01-04-2010
<b><u>THE SIKH REGIMENT</u></b>				
350	JC 499759H	NB SUB	GANGA SINGH	01-07-2010
351	JC 499678F	NB SUB	PRADHAN SINGH	01-05-2010
<b><u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u></b>				
352	JC 509570A	NB SUB	JARNAIL SINGH	01-04-2010
<b><u>THE DOGRA REGIMENT</u></b>				
353	JC 520780A	NB SUB	ISHWAR DASS	01-06-2010
<b><u>THE GARHWAL RIFLES</u></b>				
354	JC 530390L	NB SUB	MAHENDRA PAL SINGH RAWAT	01-08-2010
355	JC 530556F	NB SUB	RAGHUBIR SINGH	01-08-2010
356	JC 530405H	NB SUB	RAM PRASAD	01-05-2010
357	JC 530500P	NB SUB	TRILOK SINGH NEGI	01-08-2010
358	JC 530408W	NB SUB	VIRENDRA SINGH	01-08-2010
<b><u>THE KUMAON REGIMENT</u></b>				
359	JC 540237H	NB SUB	KISHAN SINGH	01-03-2010
360	JC 540460M	NB SUB	KUNWAR SINGH	01-07-2010
361	JC 540385N	NB SUB	MADHO RAM	01-06-2010
362	JC 540188L	NB SUB	RAJVIR SINGH	01-04-2010
363	JC 540421N	NB SUB	RAM SINGH	01-08-2010
364	JC 540106X	NB SUB	UMA SANKER SINGH	01-05-2010
<b><u>THE ASSAM REGIMENT</u></b>				
365	JC 549542W	NB SUB	SANJOY DAIMARY	01-03-2010
366	JC 549280L	NB SUB	SEIKHUP DIMNGEL	01-04-2010
367	JC 549531K	NB SUB	THIANGIN DAM	01-03-2010
<b><u>THE BIHAR REGIMENT</u></b>				
368	JC 559849P	NB SUB	ALEXANDER PURTI	01-02-2010
369	JC 559543M	NB SUB	DINDAYAL SINGH	01-05-2010

370	JC 559819X	NB SUB	PRATAP NARAYAN SINGH	01-02-2010
371	JC 560032P	NB SUB	RAJNANDAN SHARMA	01-07-2010

**THE MAHAR REGIMENT**

372	JC 570038K	NB SUB	ANIL NIVURTI GOKHLE	01-06-2010
373	JC 569627N	NB SUB	KULDEEP SINGH	01-03-2010
374	JC 569871N	NB SUB	RAMESH SINGH	01-07-2010

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

375	JC 580577N	NB SUB	JAGROOP SINGH	01-02-2010
376	JC 580593L	NB SUB	KULDEEP SINGH	01-05-2010

**1 GORKHA RIFLES**

377	JC 602703X	NB SUB	KUL BAHADUR THAPA	01-03-2010
378	JC 602794M	NB SUB	TIKA RAM THAPA	01-08-2010

**8 GORKHA RIFLES**

379	JC 623817W	NB SUB	KARNA BAHADUR THAPA	01-05-2010
-----	------------	--------	---------------------	------------

**9 GORKHA RIFLES**

380	JC 629771P	NB SUB	BHIM BAHADUR THAPA	01-05-2010
381	JC 629750Y	NB SUB	HIRA BAHADUR CHHETRI	01-08-2010
382	JC 629790A	NB SUB	RAM BAHADUR GAUTAM KHATRI	01-06-2010

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

383	JC 664765A	NB SUB	ABHAY SINGH YADAV	01-04-2010
384	JC 665295M	NB SUB	ANAND KUMAR TETTE	01-06-2010
385	JC 664955M	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2010
386	JC 665763F	NB SUB	ASHOK KUMAR DEVEDI	01-02-2010
387	JC 664386K	NB SUB	BHATT RAKESH VIJAYENDRA	01-05-2010
388	JC 663898K	NB SUB	BHISHAM SINGH	01-04-2010
389	JC 665370L	NB SUB	BIJOY KUMAR KHAN	01-08-2010
390	JC 664925P	NB SUB	BINOD KUMAR GUPTA	01-04-2010
391	JC 664767L	NB SUB	BRIJPAL SINGH SHIKHARWAR	01-06-2010
392	JC 642880A	NB SUB	DHARAM NATH PRASAD	01-04-2010
393	JC 665549Y	NB SUB	DILIP KUMAR CHANGMAI	01-08-2010
394	JC 664900H	NB SUB	IBUNGO SINGHA	01-05-2010
395	JC 664848L	NB SUB	JAGA BANDHU BISWAS	01-08-2010
396	JC 664761K	NB SUB	KAMAL KISHORE SINGH	01-05-2010
397	JC 663722Y	NB SUB	KAUSHAL KISHORI GIRI	01-05-2010
398	JC 664897N	NB SUB	KRISHAN DATT	01-08-2010
399	JC 664809M	NB SUB	LILU SINGH	01-05-2010
400	JC 663812A	NB SUB	MAHADEV HUNDRE	01-07-2010
401	JC 664514W	NB SUB	MANGRU BHAGAT	01-03-2010
402	JC 664376A	NB SUB	MUKTI NATH PANDEY	01-02-2010
403	JC 663794H	NB SUB	PATEL DEVENDRA BHAI HIRA BHAI	01-05-2010
404	JC 665477A	NB SUB	PORE RAMESH TUKARAM	01-07-2010
405	JC 663897F	NB SUB	PRADIP SAIKIA	01-04-2010

406	JC 663728A	NB SUB	PRAKASHAN P	01-05-2010
407	JC 664482Y	NB SUB	RABINDRA KUMAR KAR	01-06-2010
408	JC 664516F	NB SUB	RADHAKRISHNA PILLAI R	01-05-2010
409	JC 665245F	NB SUB	RAMESH PRASAD	01-04-2010
410	JC 664603P	NB SUB	RAMESHWAR PAL	01-05-2010
411	JC 665373Y	NB SUB	RAYAVARAPU VENKATA RAO	01-08-2010
412	JC 665887W	NB SUB	ROHITAS KUMAR MEENA	01-03-2010
413	JC 665435N	NB SUB	ROOP LAL	01-07-2010
414	JC 665106X	NB SUB	SAMAPTA BHATTACHARJEE	01-03-2010
415	JC 664530N	NB SUB	SUBRAT PANDA	01-06-2010
416	JC 664847H	NB SUB	SURESH KUMAR	01-04-2010
417	JC 664764X	NB SUB	VIJAY KUMAR	01-08-2010
418	JC 664151X	NB SUB	VIJAY KUMAR MISHRA	01-06-2010
419	JC 664505P	NB SUB	VIRENDER MOHAN MANON	01-04-2010

**ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)**

420	JC 680851P	NB RIS	AMAR NATH SINGH	01-06-2010
421	JC 681058M	NB RIS	BAL BAHADUR THAPA	01-04-2010
422	JC 680922L	NB RIS	BIMAL SINHA	01-04-2010
423	JC 680784P	NB RIS	DEBA KANTA MEDHI	01-07-2010
424	JC 680852X	NB RIS	DIG VIJAY NARAYAN JHA	01-07-2010
425	JC 680847M	NB RIS	GURU SHANKAR	01-06-2010
426	JC 681019N	NB RIS	HARJINDAR SINGH	01-02-2010
427	JC 680834P	NB RIS	KRISHNA BAHADUR THAPA	01-04-2010
428	JC 681026K	NB RIS	KULBIR SINGH	01-04-2010
429	JC 681004L	NB RIS	LAKHWINDER SINGH	01-04-2010
430	JC 680960F	NB RIS	MANSUR AHMED KHAN	01-04-2010
431	JC 680837H	NB RIS	MITHLESH KUMAR CHAUDHARY	01-05-2010
432	JC 680956Y	NB RIS	NAGDEO RAI	01-08-2010
433	JC 680836A	NB RIS	PATI RAM SINGH	01-04-2010
434	JC 680955W	NB RIS	PRAVASH CHANDRA DUTTA	01-04-2010
435	JC 681020H	NB RIS	RAM KUMAR CHHETRI	01-04-2010
436	JC 681013M	NB RIS	RAM SAMUJH	01-05-2010
437	JC 681062P	NB RIS	RAMESWAR PANDEY	01-03-2010
438	JC 665557X	NB RIS	RANJEET SINGH	01-08-2010
439	JC 680848P	NB RIS	SANJIT KUMAR SINGH	01-06-2010
440	JC 681043K	NB RIS	SHIV KUMAR	01-06-2010
441	JC 681041Y	NB RIS	SUBAL SINHA	01-07-2010
442	JC 681108M	NB RIS	SUKHCHAIN SINGH	01-05-2010
443	JC 680920A	NB RIS	SURENDRAN K	01-04-2010
444	JC 681038Y	NB RIS	SURESH KUMAR PATEL	01-06-2010
445	JC 681050A	NB RIS	VISWASULA SANKARA RAO	01-08-2010
446	JC 680989K	NB RIS	WILSAS RAJA M	01-03-2010

**ARMY MEDICAL CORPS**

447	JC 693769Y	NB SUB	AKHILESH KUMAR VERMA	01-02-2010
448	JC 696188M	NB SUB	BALRAJ SINGH	01-04-2010
449	JC 695371H	NB SUB	GAWADE SURESH TUKARAM	01-07-2010

450	JC 693648X	NB SUB	GHANANAND SHARMA	01-02-2010
451	JC 696108K	NB SUB	GOVIND RAM	01-04-2010
452	JC 696194A	NB SUB	HARENDRA KUMAR YADAV	01-04-2010
453	JC 694184X	NB SUB	JAI BHAGWAN	01-11-2010
454	JC 694666M	NB SUB	MAMMACHEN PG	01-02-2010
455	JC 696312H	NB SUB	MD KAMALUDDIN KHAN	01-06-2010
456	JC 696509Y	NB SUB	MK KURMAVANSI	01-07-2010
457	JC 695441W	NB SUB	MOHANAN PILLAI C	01-04-2010
458	JC 696576J	NB SUB	PRAKASH CHANDAR JOSHI	01-02-2010
459	JC 695723P	NB SUB	RAM LAKHAN MAHTO	01-08-2010
460	JC 695896M	NB SUB	SATYAVIR	01-04-2010
461	JC 695952A	NB SUB	SURENDER SINGH	01-04-2010
462	JC 696458W	NB SUB	SURENDRA PAL SINGH	01-06-2010
463	JC 696200H	NB SUB	SURESH KUMAR	01-04-2010
464	JC 695341L	NB SUB	TARUN KANTI DAS	01-07-2010
465	JC 694463H	NB SUB	VIKRAM SINGH YADAV	01-08-2010

**ARMY ORDNANCE CORPS**

466	JC 727125N	NB SUB	A CHANDRA KUMAR SINGHA	01-07-2010
467	JC 727588H	NB SUB	APPAR SINGH	01-05-2010
468	JC 727043L	NB SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-07-2010
469	JC 727033F	NB SUB	BICHITRA MOHAN SWAIN	01-06-2010
470	JC 726862H	NB SUB	BIRBAL PRASAD	01-06-2010
471	JC 726932W	NB SUB	D SEKAR	01-06-2010
472	JC 727674N	NB SUB	DAYANANDAN K	01-07-2010
473	JC 726777A	NB SUB	DOYAMOY SHARMA	01-04-2010
474	JC 727344P	NB SUB	EKAWADE HIMAT RAO BABU RAO	01-06-2010
475	JC 727356K	NB SUB	GAURI SHANKER SINGH	01-07-2010
476	JC 726757M	NB SUB	GOPAL SINGH	01-06-2010
477	JC 726528F	NB SUB	HOSHIAR SINGH	01-04-2010
478	JC 727791Y	NB SUB	JAY PRAKASH SINGH	01-05-2010
479	JC 727585P	NB SUB	KHURSHAD AHMAD RATHER	01-06-2010
480	JC 726901W	NB SUB	LN MAZUMDAR	01-06-2010
481	JC 727362X	NB SUB	MAHIPAL	01-06-2010
482	JC 726424A	NB SUB	MD SAHEEDUL ISLAM	01-04-2010
483	JC 726857X	NB SUB	PANCHU GOPAL BAG	01-06-2010
484	JC 727521K	NB SUB	POLE PALLINA NAHAIAH	01-04-2010
485	JC 727698X	NB SUB	PRABHU DAYAL YADAV	01-08-2010
486	JC 727190N	NB SUB	RAM PHAL	01-08-2010
487	JC 727675W	NB SUB	SANJAY KUMAR SHARMA	01-08-2010
488	JC 727569X	NB SUB	SANKAR PAL	01-06-2010
489	JC 726929W	NB SUB	SASIDHAR VAKKAR	01-06-2010
490	JC 727395H	NB SUB	SATAY PARKASH SHARMA	01-05-2010
491	JC 727189Y	NB SUB	SUKHJEET SINGH	01-08-2010
492	JC 726774M	NB SUB	SURJIT SINGH	01-02-2010
493	JC 727160W	NB SUB	SURYA KUMR	01-05-2010
494	JC 727404Y	NB SUB	UDAIVIR SINGH	01-05-2010
495	JC 726631M	NB SUB	UMA PRASAD SARKAR	01-04-2010



496	JC 726478F	NB SUB	VASU KR	01-07-2010
497	JC 726484P	NB SUB	VIJAYAN K	01-04-2010
<b>CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS</b>				
498	JC 760270L	NB SUB	AJIT KUMAR JHA	01-08-2010
499	JC 761691A	NB SUB	AMRIK SINGH SAINI	01-04-2010
500	JC 761564L	NB SUB	ANAND KUMAR DEWADI	01-04-2010
501	JC 761315M	NB SUB	APAR SINGH	01-03-2010
502	JC 761322H	NB SUB	ARUN KUMAR NATH	01-03-2010
503	JC 760937F	NB SUB	AWADH BIHARI SINGH	01-07-2010
504	JC 761599F	NB SUB	BAL RAJ	01-04-2010
505	JC 762594P	NB SUB	BALRAM BISWAS	01-08-2010
506	JC 761628L	NB SUB	BHAGIRATH MAL YADAV	01-04-2010
507	JC 761591P	NB SUB	BHARAT BHUSHAN	01-04-2010
508	JC 761563H	NB SUB	BHIKA ORAON	01-04-2010
509	JC 761588P	NB SUB	BIBHUTI BHUSAN MOHAPATRA	01-04-2010
510	JC 761937N	NB SUB	BINDU SHEKHAR	01-07-2010
511	JC 761577H	NB SUB	BIRENDR SINGH	01-04-2010
512	JC 761749M	NB SUB	BISHNU PAL SINGH	01-04-2010
513	JC 760562N	NB SUB	BRIJ MOHAN	01-06-2010
514	JC 761926F	NB SUB	CHAND RAM	01-05-2010
515	JC 759416F	NB SUB	CHANDRABIR SHARMA	01-08-2010
516	JC 761783M	NB SUB	CHANNA KESAVULAN SR	01-06-2010
517	JC 762539Y	NB SUB	CHOTOO SINGH RATHORE	01-07-2010
518	JC 761827Y	NB SUB	DAL CHAND	01-06-2010
519	JC 761083Y	NB SUB	DESAI ARJUN SHAM RAO	01-03-2010
520	JC 762237M	NB SUB	DHARAM PAL SINGH	01-08-2010
521	JC 761752M	NB SUB	DHARMENDRA SINGH	01-04-2010
522	JC 760845P	NB SUB	DHRUBA SARMA	01-08-2010
523	JC 761156A	NB SUB	DIPAK KUMAR SINGH	01-03-2010
524	JC 761316P	NB SUB	DULI CHAND VERMA	01-03-2010
525	JC 761788L	NB SUB	HAFIZ KHAN	01-06-2010
526	JC 760720X	NB SUB	HANS RAJ	01-02-2010
527	JC 761755A	NB SUB	JAGPAL SINGH	01-06-2010
528	JC 761153M	NB SUB	JAGVIR SINGH	01-03-2010
529	JC 761938W	NB SUB	JASBIR SINGH	01-07-2010
530	JC 761767P	NB SUB	K RAMA MOORTHY	01-08-2010
531	JC 761785X	NB SUB	KAMMARIPALLE VEERA	01-06-2010
532	JC 761692H	NB SUB	KARAM SINGH	01-04-2010
533	JC 762542Y	NB SUB	KIRPAL SINGH	01-07-2010
534	JC 761939Y	NB SUB	KULDEEP SINGH	01-07-2010
535	JC 758836P	NB SUB	KUMAR JAISHYAM SINGH	01-04-2010
536	JC 760373K	NB SUB	KUNWAR VIJAY PRATAP	01-05-2010
537	JC 760577W	NB SUB	LAL SINGH MAHLI	01-04-2010
538	JC 761748K	NB SUB	MAGHI SINGH	01-04-2010
539	JC 761746Y	NB SUB	MAHABIR SHUKLA	01-04-2010
540	JC 761630H	NB SUB	MD ISRAIL KHAN	01-04-2010
541	JC 761317X	NB SUB	MOHANAN V	01-03-2010

542	JC 756352W	NB SUB	MUTTAPPA TOTIGER	01-04-2010
543	JC 761478A	NB SUB	NILAY KUMAR	01-04-2010
544	JC 761318A	NB SUB	OM PRAKASH	01-03-2010
545	JC 761940N	NB SUB	OMBIR SINGH	01-07-2010
546	JC 761942Y	NB SUB	PADAM SINGH	01-07-2010
547	JC 761320X	NB SUB	PANGA DAMODAR	01-03-2010
548	JC 755920K	NB SUB	PARSU RAM TIWARI	01-04-2010
549	JC 761941W	NB SUB	PATI RAM	01-07-2010
550	JC 758412Y	NB SUB	PRAKASAN KK	01-03-2010
551	JC 758489F	NB SUB	PURNA KANTA DUTTA	01-06-2010
552	JC 761745A	NB SUB	PURNASI RAM	01-04-2010
553	JC 761754X	NB SUB	R PARAMASIVAN	01-06-2010
554	JC 760909P	NB SUB	RAGHAVENDRA	01-04-2010
555	JC 760514N	NB SUB	RAJENDRA PRASAD SINGH	01-08-2010
556	JC 762225X	NB SUB	RAJINDER SINGH GHOTRA	01-07-2010
557	JC 761276Y	NB SUB	RAJINDRA PRASAD	01-08-2010
558	JC 761561X	NB SUB	RAM CHANDRA MUKHIYA	01-04-2010
559	JC 760984Y	NB SUB	RAM DATT	01-03-2010
560	JC 761477X	NB SUB	RAM KUMAR	01-04-2010
561	JC 760718A	NB SUB	RAM LIBHIAYA	01-02-2010
562	JC 761751K	NB SUB	RAM RATTAN	01-04-2010
563	JC 761786A	NB SUB	RAM VILAS	01-06-2010
564	JC 760985F	NB SUB	RAMESH CHANDRA SINGH CHUPHAL	01-03-2010
565	JC 760982N	NB SUB	RAMESH KUMAR	01-03-2010
566	JC 761792N	NB SUB	RAMESH SINGH KUSHWAHA	01-07-2010
567	JC 761784P	NB SUB	RANJEET SINGH	01-06-2010
568	JC 761750F	NB SUB	SATYADEV SINGH	01-04-2010
569	JC 760924K	NB SUB	SAYAN DEB SATPATI	01-08-2010
570	JC 762550X	NB SUB	SHIO JEE SINGH	01-07-2010
571	JC 761789N	NB SUB	SHIV SHANKAR PANDEY	01-07-2010
572	JC 761598Y	NB SUB	SHIVA BAHADUR SINGH	01-04-2010
573	JC 761791L	NB SUB	SHRAWAN KUMAR	01-07-2010
574	JC 760834M	NB SUB	SREE KUMARAN NAIR R	01-04-2010
575	JC 760759K	NB SUB	SUBHASH KUMAR	01-02-2010
576	JC 761600L	NB SUB	SUKHVIR SINGH YADAV	01-04-2010
577	JC 761151F	NB SUB	SUNIL KUMAR UPADHYA	01-03-2010
578	JC 755910A	NB SUB	SURENDER SINGH	01-07-2010
579	JC 760719H	NB SUB	SURENDER SINGH	01-02-2010
580	JC 761285A	NB SUB	SURESH CHAND	01-03-2010
581	JC 761321A	NB SUB	SUSHIL KUMAR SINGH	01-03-2010
582	JC 761601N	NB SUB	VIDYA RAM	01-04-2010
583	JC 761747F	NB SUB	VIRENDRA SINGH	01-04-2010
584	JC 760656L	NB SUB	WARAYAM DASS	01-02-2010
585	JC 761824L	NB SUB	WAZIR SINGH	01-06-2010
586	JC 761031H	NB SUB	YOGESH KUMAR	01-02-2010
<b><u>REMOUNT AND VETERINARY CORPS</u></b>				
587	JC 797447L	NB RIS	ALI KADIR MANDAL	01-07-2010

**THE INTELLIGENCE CORPS**

588	JC 811060W	NB SUB	AJIT SINGH	01-08-2010
589	JC 810857H	NB SUB	RAJENDER PRASAD TRIVEDI	01-04-2010
590	JC 811034P	NB SUB	RAJKUMAR SINGH	01-04-2010

**CORPS OF MILITARY POLICE**

591	JC 819306Y	NB SUB	BINAY KUMAR YADAV	01-04-2010
-----	------------	--------	-------------------	------------

**THE PIONEER CORPS**

592	JC 829431W	NB SUB	PEMPA RAM	01-07-2010
-----	------------	--------	-----------	------------

**ARMY POSTAL SERVICE**

593	JC 834399W	NB SUB	JARNAIL SINGH	01-04-2010
594	JC 834452W	NB SUB	LOHALKAR GANESH SHANTARAM	01-06-2010
595	JC 834491P	NB SUB	MALI SHIVNINGA TAMANA	01-04-2010
596	JC 834803A	NB SUB	MANGTINGEN	01-08-2010
597	JC 834449W	NB SUB	SUKHBIR	01-04-2010
598	JC 834805L	NB SUB	SURAJ MAL	01-06-2010

**DEFENCE SECURITY CORPS**

599	JC 841950L	NB SUB	AMAR NATH	01-05-2010
600	JC 842275W	NB SUB	BALKARI LAL	01-02-2010
601	JC 842448H	NB SUB	BENI PRASAD MEHRA	01-04-2010
602	JC 842354L	NB SUB	BHAN CHANDRA RAY	01-03-2010
603	JC 842170M	NB SUB	CHHOTU PASWAN	01-08-2010
604	JC 841899W	NB SUB	DAMODAR BEHERA	01-05-2010
605	JC 842554F	NB SUB	DHARAM CHAND SHARMA	01-08-2010
606	JC 842095N	NB SUB	DULI CHAND	01-06-2010
607	JC 842320X	NB SUB	FAKIR FARID HUSENSHA	01-06-2010
608	JC 841898N	NB SUB	GIRINDRA CHANDRA SAIKIA	01-08-2010
609	JC 841860K	NB SUB	GURDEV SINGH	01-07-2010
610	JC 841861M	NB SUB	HARGAIN SINGH	01-02-2010
611	JC 842531A	NB SUB	IKABAL AHAMAD MAINUDDIN T	01-03-2010
612	JC 842258W	NB SUB	JOGINDER RAM	01-06-2010
613	JC 842436N	NB SUB	KAMESHWAR PRASAD SINGH	01-03-2010
614	JC 842218P	NB SUB	KOTWAL SINGH	01-07-2010
615	JC 841981L	NB SUB	KRISHNA NAND	01-03-2010
616	JC 841914A	NB SUB	KUBER NATH PANDEY	01-02-2010
617	JC 842024M	NB SUB	LACHHMAN DATT	01-02-2010
618	JC 842521W	NB SUB	LAXMAN DADU NALAWADE	01-06-2010
619	JC 842265M	NB SUB	MANOHAR LAL SONDHI	01-03-2010
620	JC 842606M	NB SUB	MEHAR CHAND VERMA	01-03-2010
621	JC 841955K	NB SUB	MOHAMMED RASHEED	01-02-2010
622	JC 842386N	NB SUB	NIWAS RAM	01-06-2010
623	JC 842152K	NB SUB	OM PRAKASH	01-07-2010
624	JC 841946H	NB SUB	PARSHOTAM SINGH	01-07-2010
625	JC 842158L	NB SUB	PC SENAPATI	01-04-2010

626	JC 842524K	NB SUB	RAJENDRA THAKUR	01-07-2010
627	JC 842581L	NB SUB	RAM ANGAD SAH	01-02-2010
628	JC 842181Y	NB SUB	RAM PAL	01-08-2010
629	JC 842087P	NB SUB	RAM PARKASH	01-08-2010
630	JC 842287L	NB SUB	RATTAN LAL	01-08-2010
631	JC 842657A	NB SUB	SHYAM LAL PATEL	01-03-2010
632	JC 841691N	NB SUB	T CHANDRAN	01-02-2010
633	JC 842693L	NB SUB	T VASUDEVAN	01-05-2010

[No. B/43432/ID-10/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt Gen, Adjutant General

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 12(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित हवलदार एवं दफादार का उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथी से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

**अवैतनिक नायब रिसालदार / सुबेदार के रूप में****7 केवेलरी**

1	1082440एन	दफादार	साहब सिंह	01.07.2010
---	-----------	--------	-----------	------------

**8 केवेलरी**

2	1080768डब्ल्यू	दफादार	गुरदयाल सिंह	01.04.2010
3	1080083एक्स	दफादार	आर बी एस कुशवाह	01.03.2010
4	1081897एच	दफादार	राम प्रताप सिंह	01.06.2010
5	1082698एफ	दफादार	सुरेन्द्रा सिंह	01.08.2010

**2 लार्न्स**

6	1081060एच	दफादार	अजब सिंह	01.04.2010
---	-----------	--------	----------	------------

**17 होर्स**

7	1081371डब्ल्यू	दफादार	बलवान सिंह	01.05.2010
8	1080946एन	दफादार	देवी सिंह इंडिया	01.04.2010
9	1083273पी	दफादार	दिलबाग सिंह सेसन	01.08.2010
10	1082760एच	दफादार	इंद्रजीत सिंह	01.06.2010
11	1080641एन	दफादार	ईश्वर सिंह	01.03.2010
12	1083638वाइ	दफादार	कर्म सिंह	01.08.2010
13	1081330एम	दफादार	राजेंद्रा बहादुर सिंह	01.05.2010
14	1082947पी	दफादार	रनवीर सिंह	01.07.2010

**9 होर्स**

15	1082441डब्ल्यू	दफादार	जगदीश प्रसाद	01.07.2010
16	1080591एन	दफादार	मल्लखान सिंह	01.04.2010
17	1082722एम	दफादार	प्यार चन्द	01.08.2010
18	1082222पी	दफादार	राज राम	01.06.2010

**14 होर्स**

19	1080119एल	दफादार	बाली राम	01.03.2010
20	1082498एल	दफादार	बीर सिंह	01.07.2010
21	1081392एम	दफादार	चम्बल सिंह	01.05.2010
22	1080122एल	दफादार	देश राज	01.03.2010
23	1080423पी	दफादार	कुलदीप चन्द	01.03.2010
24	1080903वाइ	दफादार	मोहन लाल	01.05.2010
25	1082206एक्स	दफादार	राजविन्दर सिंह	01.06.2010

**18 केवेलरी**

26	1081433एल	दफादार	वीरेंद्र सिंह	01.05.2010
----	-----------	--------	---------------	------------

**62 केवेलरी**

27	1081069एक्स	हवलदार	दिलावर सिंह	01.04.2010
28	1083105डब्ल्यू	हवलदार	एस नारायण मुनडल	01.08.2010

**20 लार्न्सस**

29	1080244पी	दफादार	गजेन्द्र सिंह	01.02.2010
30	1083309एच	दफादार	करनैल सिंह	01.08.2010
31	1082564एच	दफादार	करनैल सिंह	01.07.2010

**64 केवेलरी**

32	1083101ए	दफादार	अजय पाल सिंह	01.08.2010
33	8031817एल	दफादार	बलवंत सिंह	01.04.2010
34	1083092के	दफादार	सुबेदार सिंह	01.08.2010
35	1083069डब्ल्यू	दफादार	वोगेन्दरा पाल सिंह	01.08.2010

**65 आर्मड रेजीमेंट**

36	1081669ए	दफादार	गारु राम	01.06.2010
37	1083155एफ	दफादार	जनक सिंह	01.08.2010
38	1080860पी	दफादार	कश्मीर सिंह	01.04.2010

**67 आर्मड रेजीमेंट**

39	1081126एन	दफादार	अमरजीत सिंह	01.03.2010
40	1081223एल	दफादार	रवि कुमार	01.05.2010
41	1081231के	दफादार	सुदर्शन सिंह	01.05.2010

**71 आर्मड रेजीमेंट**

42	1082321एक्स	दफादार	डी. बेबी	01.05.2010
43	1080613एफ	दफादार	रछपाल सिंह	01.04.2010
44	1082791एच	दफादार	राम सिंह	01.07.2010

**72 आर्मड रेजीमेंट**

45	1080157एफ	दफादार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2010
46	1080331एच	दफादार	महेन्द्र सिंह	01.03.2010
47	1080066एक्स	दफादार	मोहन सिंह	01.03.2010
48	1083314एन	दफादार	रोशन लाल	01.08.2010
49	1081293के	दफादार	एस कुमार सिंह	01.05.2010

**73 आर्मड रेजीमेंट**

50	1083233एन	दफादार	बलकार सिंह	01.06.2010
51	1079847वाइ	दफादार	एल अली खान	01.03.2010
52	1080701एक्स	दफादार	नछेतर सिंह	01.04.2010
53	1083239पी	दफादार	नरवन्द सिंह	01.06.2010
54	1081283ए	दफादार	ओवीन्द्र सिंह	01.05.2010
55	1083431वाइ	दफादार	पहुप सिंह	01.08.2010
56	1083241एम	दफादार	रछपाल सिंह	01.06.2010
57	1083235वाइ	दफादार	सुखा सिंह	01.06.2010
58	1081070एम	दफादार	सुरिन्दर सिंह	01.04.2010

**74 आर्मड रेजीमेंट**

59	1081630एन	दफादार	रणधीर सिंह	01.06.2010
----	-----------	--------	------------	------------

**75 आर्मड रेजीमेंट**

60	1080568ए	दफादार	सुमिरन सिंह	01.03.2010
----	----------	--------	-------------	------------

**76 आर्मड रेजीमेंट**

61	1081352एल	दफादार	हरबाहादूर सिंह	01.05.2010
----	-----------	--------	----------------	------------

**82 आर्मड रेजीमेंट**

62	1081026एच	दफादार	कुशल कुमार	01.04.2010
----	-----------	--------	------------	------------

**84 आर्मड रेजीमेंट**

63	1087616एक्स	हवलदार	पी एस शिवमूर्ती	01.03.2010
----	-------------	--------	-----------------	------------

**88 आर्मड रेजीमेंट**

64	1087636एल	दफादार	धूम सिंह	01.03.2010
----	-----------	--------	----------	------------

**89 आर्मड रेजीमेंट**

65	1082903एक्स	दफादार	तारा चन्द	01.07.2010
----	-------------	--------	-----------	------------

**90 आर्मड रेजीमेंट**

66	1087678एक्स	दफादार	विजय बहादुर सिंह	01.03.2010
----	-------------	--------	------------------	------------

**41 आर्मड रेजीमेंट**

67	1081067एम	दफादार	चमन लाल	01.04.2010
----	-----------	--------	---------	------------

**43 आर्मड रेजीमेंट**

68	1087640एन	दफादार	मुन्ना सिंह	01.03.2010
----	-----------	--------	-------------	------------

**44 आर्मड रेजीमेंट**

69	1087684एल	दफादार	जनार्दन वैदवा	01.03.2010
----	-----------	--------	---------------	------------

70	1087671एन	दफादार	मोहर पाल	01.03.2010
----	-----------	--------	----------	------------

**46 आर्मड रेजीमेंट**

71	1079673के	दफादार	सागर सिंह	01.02.2010
----	-----------	--------	-----------	------------

**47 आर्मड रेजीमेंट**

72	1082859वाइ	दफादार	योगेन्द्रा सिंह	01.07.2010
----	------------	--------	-----------------	------------

**48 आर्मड रेजीमेंट**

73	1082900के	दफादार	जसविन्दर सिंह	01.07.2010
----	-----------	--------	---------------	------------

74	1082615एल	दफादार	राम लखन सिंह राठोड़	01.07.2010
----	-----------	--------	---------------------	------------

**6 आर्मड रेजीमेंट**

75	1083523एल	दफादार	ए पी सिंह चौहान	01.08.2010
----	-----------	--------	-----------------	------------

**11 आर्मड रेजीमेंट**

76	1087673वाइ	दफादार	गजराज	01.03.2010
----	------------	--------	-------	------------

**15 आर्मड रेजीमेंट**

77	1087760एम	दफादार	राजेंद्र कुमार	01.04.2010
----	-----------	--------	----------------	------------

**50 आर्मड रेजीमेंट**

78	1080847एल	दफादार	अशोक कुमार	01.04.2010
----	-----------	--------	------------	------------

79	1081937वाइ	दफादार	भीम सिंह गूजर	01.06.2010
----	------------	--------	---------------	------------

80	1082239एच	दफादार	गनपत सिंह	01.07.2010
----	-----------	--------	-----------	------------

81	1082334पी	दफादार	श्री निवास	01.05.2010
----	-----------	--------	------------	------------

**51 आर्मड रेजीमेंट**

82	1083611एफ	दफादार	जगरूप सिंह	01.08.2010
<b>आर्मड कोर</b>				
83	1081695एफ	दफादार	अलमू उद्दीन महम्मद	01.06.2010
84	1083311ए	दफादार	अनाटा कुमार दास	01.08.2010
85	1080993एल	दफादार	भूरे लाल	01.04.2010
86	1082590के	दफादार	चरण सिंह	01.07.2010
87	1079869एक्स	दफादार	ध्रुव साह	01.03.2010
88	1082838एच	दफादार	गनेश सिंह	01.07.2010
89	1082658ए	दफादार	गंगा धर	01.08.2010
90	1081818एच	दफादार	गोपाल लक्ष्मन काम्बले	01.06.2010
91	1081702एम	दफादार	गोरा लश्कर	01.06.2010
92	1081569पी	दफादार	हरबंस लाल	01.05.2010
93	1570557एच	दफादार	जोगिंदर सिंह	01.04.2010
94	1083000एम	दफादार	जोगराज सिंह	01.08.2010
95	1082836एक्स	दफादार	एम के शर्मा	01.07.2010
96	1083421पी	दफादार	एन चंद्रन	01.08.2010
97	1082849पी	दफादार	एन के महादेव कमला	01.07.2010
98	1083600पी	दफादार	नंदी चन्द सिंघा	01.08.2010
99	1082744एल	दफादार	राकेश	01.08.2010
100	1087797एन	दफादार	राम सिंह	01.07.2010
101	1087608वाइ	दफादार	रमेश कुमार	01.02.2010
102	1082300एफ	दफादार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2010
103	1087786एफ	दफादार	विनोद कुमार सिंह	01.05.2010

**आर्टिलरी रेजीमेंट**

104	14395098डब्ल्यू	हवलदार	ए छिन्नपन	01.08.2010
105	14497310डब्ल्यू	हवलदार	ए पलानी	01.08.2010
106	14491531एम	हवलदार	ए रथिनाम	01.02.2010
107	14394877एम	हवलदार	ए वेलू	01.04.2010
108	14379964एच	हवलदार	अबधेश सिंह	01.02.2010
109	14382635एक्स	हवलदार	आजाद कुमार सिंह	01.05.2010
110	14380803एम	हवलदार	अजय कुमार	01.03.2010
111	14495800एल	हवलदार	अजय कुमार	01.08.2010
112	14491986एच	हवलदार	अजय कुमार बारिक	01.03.2010
113	14380144एच	हवलदार	अजया कुमार साहनी	01.03.2010
114	14395016एच	हवलदार	अजीत सिंह	01.04.2010
115	14382614एफ	हवलदार	अजीत सिंह	01.05.2010
116	14379722ए	हवलदार	अजीत सिंह	01.02.2010



117	14496468एम	हवलदार	अजमेर सिंह	01.08.2010
118	15107803डब्ल्यू	हवलदार	अकवाल शंकर	01.02.2010
119	3383350के	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.04.2010
120	15107303वाइ	हवलदार	अम्बी डी.	01.02.2010
121	14379188एन	हवलदार	अमित कुमार पण्डित	01.02.2010
122	15108460एक्स	हवलदार	अमरीक सिंह	01.04.2010
123	14494438डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार शर्मा	01.03.2010
124	14380688एक्स	हवलदार	अनिल रौय	01.03.2010
125	14394862के	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.04.2010
126	14379302ए	हवलदार	अरुण कुमार पांडे	01.02.2010
127	15108222एल	हवलदार	अर्विन्द सिंह	01.03.2010
128	15107711के	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2010
129	14493068पी	हवलदार	अशोक कुमार	01.03.2010
130	14494082एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.03.2010
131	14491129एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2010
132	15107858ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2010
133	14490700डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार चौरसिया	01.02.2010
134	14379008ए	हवलदार	अशोक कुमार ठाकुर	01.02.2010
135	14491956एल	हवलदार	अशोक कुमार ठाकुर	01.03.2010
136	15107649एच	हवलदार	अश्वीना राम रौय	01.02.2010
137	14383610एक्स	हवलदार	आत्मा राम मिश्रा	01.08.2010
138	14490190ए	हवलदार	अविनाश मिश्रा	01.02.2010
139	15108649पी	हवलदार	अवतार सिंह	01.04.2010
140	15108477एल	हवलदार	आजाद सिंह यादव	01.04.2010
141	14493788डब्ल्यू	हवलदार	बी एम दिगम्बर	01.03.2010
142	14383021एफ	हवलदार	बी पी राजाराम	01.05.2010
143	15108394ए	हवलदार	बी एस वक्कुन्ट	01.04.2010
144	14382900एच	हवलदार	बाबाजी चरण सेठी	01.05.2010
145	15107713पी	हवलदार	बाबू लाल	01.02.2010
146	14379860एफ	हवलदार	बाबुल उद्दीन लश्कर	01.02.2010
147	15107465के	हवलदार	बहादुर सिंह	01.02.2010
148	15107556एन	हवलदार	बख्शीश सिंह	01.02.2010
149	15108229पी	हवलदार	बालैया	01.03.2010
150	15107257पी	हवलदार	बालक राम	01.02.2010
151	14495354पी	हवलदार	बलदेव सिंह	01.06.2010
152	15108259एम	हवलदार	बलिवद रवि कुमार	01.03.2010
153	14493712डब्ल्यू	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.03.2010
154	14381263एल	हवलदार	बलवान सिंह	01.04.2010
155	14496947एन	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.08.2010
156	14395314वाइ	हवलदार	बामदेव दुवेदी	01.08.2010
157	14395235के	हवलदार	बनारसी दास	01.08.2010

158	14496532वाइ	हवलदार	बकू राम	01.08.2010
159	14381020ए	हवलदार	बसीर एम्	01.03.2010
160	14381152एन	हवलदार	बामु देव	01.04.2010
161	14380830डब्ल्यू	हवलदार	बी लाल	01.03.2010
162	15106561एल	हवलदार	भगत राम	01.04.2010
163	15108419एफ	हवलदार	भगत सिंह	01.04.2010
164	14493267एच	हवलदार	भागीरथ	01.03.2010
165	14492848एन	हवलदार	भगवान गोंद	01.03.2010
166	14380658ए	हवलदार	भगवान प्रसाद	01.03.2010
167	14381821एफ	हवलदार	भजन सिंह	01.04.2010
168	14495478के	हवलदार	भोला राम	01.07.2010
169	14394878पी	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.04.2010
170	15108212एफ	हवलदार	बिनोद गोगोई	01.03.2010
171	15107669डब्ल्यू	हवलदार	सी डी. एस राना	01.02.2010
172	14492469एक्स	हवलदार	चमन सिंह	01.03.2010
173	14380252एम	हवलदार	चंद्रा देव	01.03.2010
174	14490640एम	हवलदार	चंद्रा पाल सिंह	01.02.2010
175	14380186एफ	हवलदार	चंद्रा शेखर सिंह	01.03.2010
176	14491730ए	हवलदार	चेनिराम कोनवर	01.02.2010
177	14398330एफ	हवलदार	छज्जू राम	01.06.2010
178	14492776पी	हवलदार	छोटे लाल	01.03.2010
179	14395221के	हवलदार	दंबर सिंह	01.08.2010
180	15105483एन	हवलदार	दया राम	01.04.2010
181	14395347के	हवलदार	देबा ब्रता घोष	01.08.2010
182	15108766ए	हवलदार	दीवान सिंह	01.04.2010
183	14496472पी	हवलदार	धन बहादुर काकी	01.08.2010
184	7773903एन	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.08.2010
185	14494785पी	हवलदार	धर्मानंद	01.04.2010
186	14394785ए	हवलदार	डी. संदीपन गोपाल	01.02.2010
187	14490622के	हवलदार	धर्मेन्द्रा सिंह यादव	01.02.2010
188	14495428वाइ	हवलदार	दीमा राम	01.06.2010
189	15108748एक्स	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.04.2010
190	15108434डब्ल्यू	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.04.2010
191	15108211वाइ	हवलदार	दिलीप चंगमाई	01.03.2010
192	15107326ए	हवलदार	दिलसुख राम	01.02.2010
193	14492084ए	हवलदार	दीना नाथ पांडे	01.03.2010
194	15108408पी	हवलदार	दीनदयाल	01.04.2010
195	14496826एम	हवलदार	दिनेश मिश्रा	01.08.2010
196	15108384डब्ल्यू	हवलदार	दीप सिंह	01.04.2010
197	14380881के	हवलदार	दूधनाथ यादव	01.03.2010
198	15107470पी	हवलदार	दुर्गा दास	01.02.2010

199	14379114वाइ	हवलदार	ई बालवेन्किटिया	01.02.2010
200	14383837एल	हवलदार	फतेह बहादुर सिंह	01.08.2010
201	14382375एक्स	हवलदार	फतेह बहादुर सिंह	01.04.2010
202	14380910एन	हवलदार	जी. सी बी सुर्जी	01.03.2010
203	14382686एल	हवलदार	जी एच अहमद हजाम	01.05.2010
204	14495579एक्स	हवलदार	गोपाल सिंह	01.07.2010
205	14395257एच	हवलदार	गोपाल सिंह	01.08.2010
206	14385865डब्ल्यू	हवलदार	गोविन्दा देल्लेस्वरा राव	01.07.2010
207	14492068एच	हवलदार	गुणेश्वर ओझा	01.03.2010
208	15107261एक्स	हवलदार	गुर चरण सिंह	01.02.2010
209	15107640एन	हवलदार	एच सी पराथि	01.02.2010
210	15108139एन	हवलदार	हकीम सिंह	01.03.2010
211	15101606एक्स	हवलदार	हालापानी साहू	01.07.2010
212	14382778एक्स	हवलदार	हालाष साह	01.05.2010
213	14381803वाइ	हवलदार	हंस राज	01.04.2010
214	15107313एच	हवलदार	हरेंद्र प्रसाद सिंह	01.02.2010
215	14492779एच	हवलदार	हरी कुट्टन जी.	01.03.2010
216	14395277डब्ल्यू	हवलदार	हरी शंकर	01.08.2010
217	14493305एन	हवलदार	हरीश चंद्र	01.03.2010
218	14381476वाइ	हवलदार	हरीश चंद्र	01.04.2010
219	14492086एल	हवलदार	हरीश चंद्रा सिंह	01.03.2010
220	15108511ए	हवलदार	हरजिन्द्र सिंह	01.04.2010
221	14495680एक्स	हवलदार	हरपाल	01.08.2010
222	14384197वाइ	हवलदार	हिम्मत सिंह	01.07.2010
223	14496157वाइ	हवलदार	इंद्रदेव तिवारी	01.08.2010
224	15107884एफ	हवलदार	इन्द्रासेन मौर्या	01.02.2010
225	14383443एम	हवलदार	इश्वर दास	01.08.2010
226	15107397एफ	हवलदार	इश्वर दास	01.02.2010
227	14394780एफ	हवलदार	जे यू एम राव	01.02.2010
228	15108921डब्ल्यू	हवलदार	जाधव संदीपन	01.04.2010
229	14380947पी	हवलदार	जग राम	01.03.2010
230	15108253एल	हवलदार	जगत सिंह	01.03.2010
231	14381852एफ	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.04.2010
232	14395712ए	हवलदार	जगदीश राज	01.08.2010
233	15108339के	हवलदार	जगपाल सिंह	01.03.2010
234	14495845एल	हवलदार	जय चन्द	01.03.2010
235	15107893एच	हवलदार	जय प्रकाश यादव	01.02.2010
236	14380793एन	हवलदार	जय राम बराय	01.03.2010
237	14496043एन	हवलदार	जयबीर सिंह	01.08.2010
238	15107685एन	हवलदार	जयमल सिंह रावत	01.02.2010
239	14490533एल	हवलदार	जयराम सिंह	01.02.2010

240	14383203पी	हवलदार	जैवीर सिंह	01.06.2010
241	14379505के	हवलदार	जसबीर सिंह	01.02.2010
242	14495913एन	हवलदार	जसपाल सिंह	01.08.2010
243	14380142एक्स	हवलदार	जटा शान्दकर कुमार	01.03.2010
244	14495359एन	हवलदार	जवाहर सिंह	01.06.2010
245	14383175एन	हवलदार	जे राम	01.06.2010
246	14395222एम	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	01.08.2010
247	14381780एच	हवलदार	के सी एस सिकरवार	01.04.2010
248	14383188एल	हवलदार	के गजेन्द्रन	01.06.2010
249	14379348एच	हवलदार	के जी. स्वामी	01.02.2010
250	15107563के	हवलदार	के कुप्पूसामी	01.02.2010
251	15108246पी	हवलदार	के सुकांत कुमार रेडी	01.03.2010
252	15108874के	हवलदार	कदम बालीराम	01.04.2010
253	14383707एच	हवलदार	कैलाश राम	01.08.2010
254	14379708एन	हवलदार	काली चरण	01.02.2010
255	15108508ए	हवलदार	कामेश्वर सिंह	01.04.2010
256	14381208पी	हवलदार	कामेश्वर रजाक	01.04.2010
257	14493359पी	हवलदार	कमलेश कुमार	01.03.2010
258	15108016एफ	हवलदार	कमलेश कुमार शर्मा	01.03.2010
259	14490579एन	हवलदार	कमलेश्वरी मेहता	01.02.2010
260	15108866एल	हवलदार	काना राम	01.04.2010
261	14492117ए	हवलदार	के शुक्ला बैद्य	01.03.2010
262	14379958पी	हवलदार	करन सिंह	01.02.2010
263	14382135ए	हवलदार	करन सिंह	01.04.2010
264	14395492एफ	हवलदार	करनैल मसीह	01.08.2010
265	14492337के	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.03.2010
266	14493901ए	हवलदार	कविराजन एल	01.03.2010
267	14383099एम	हवलदार	खिमनन्द अधिकारी	01.05.2010
268	14492753एन	हवलदार	किरण पाल	01.03.2010
269	14382480एन	हवलदार	कृष्णापाल सिंह	01.05.2010
270	15107880एल	हवलदार	किशोर केकेट्टा	01.02.2010
271	15108095एफ	हवलदार	कोमल सिंह	01.03.2010
272	14395256ए	हवलदार	के सिहाद्री	01.08.2010
273	15108772एन	हवलदार	कृष्णन कुमार	01.04.2010
274	14492300एच	हवलदार	कृष्णा अवतार	01.03.2010
275	14395204के	हवलदार	कृष्णाजी वी	01.08.2010
276	14395410एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.08.2010
277	14395266के	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.08.2010
278	14494389वाइ	हवलदार	कुदन सिंह	01.03.2010
279	15107494वाइ	हवलदार	लज्जा राम	01.02.2010
280	14379136एक्स	हवलदार	लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा	01.02.2010

281	14491830एल	हवलदार	लाल सिंह	01.02.2010
282	14383655एक्स	हवलदार	लाला प्रसाद	01.08.2010
283	14491988एन	हवलदार	ललन यादव	01.03.2010
284	14496103एक्स	हवलदार	एम जी. मनी	01.08.2010
285	14493442एम	हवलदार	एम पनीर पेरूमल	01.03.2010
286	14492494डब्ल्यू	हवलदार	मदन गोपाल	01.03.2010
287	14379603के	हवलदार	महावीर सिंह	01.02.2010
288	14395532एक्स	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.08.2010
289	14395072एफ	हवलदार	महेन्द्र सिंह चौहान	01.04.2010
290	14490031एच	हवलदार	महेन्द्र सिंह यादव	01.02.2010
291	14494933पी	हवलदार	महेश सिंह	01.04.2010
292	14490408एफ	हवलदार	महेश सिंह	01.02.2010
293	14383340एन	हवलदार	महेश सिंह	01.07.2010
294	15105737ए	हवलदार	महिंद्र सिंह	01.08.2010
295	15108847ए	हवलदार	महीपाल सिंह	01.04.2010
296	15108813एम	हवलदार	एम सिंह तोमर	01.04.2010
297	3383351एम	हवलदार	मलकियत सिंह	01.04.2010
298	15108756डब्ल्यू	हवलदार	मणिकांतन नायर के	01.04.2010
299	14380234के	हवलदार	मोहम्मद ए बी सिद्धीकी	01.03.2010
300	15108778पी	हवलदार	मेघ सिंह	01.04.2010
301	14381066एच	हवलदार	मिटू बहादुर	01.03.2010
302	14383599के	हवलदार	मोहम्मद असलम	01.08.2010
303	14380152एफ	हवलदार	मोहम्मद अरमान	01.03.2010
304	14494492के	हवलदार	मोहन सिंह	01.03.2010
305	14496810एफ	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.08.2010
306	14381203डब्ल्यू	हवलदार	एम कुमार	01.04.2010
307	14383589ए	हवलदार	मोहम्मद हनीफ	01.08.2010
308	14494158एच	हवलदार	मुकित कांता पंडा	01.03.2010
309	14379935एन	हवलदार	मुकुन्द विश्वास	01.03.2010
310	14497020वाइ	हवलदार	मुरुगोसन ए	01.08.2010
311	15108852एल	हवलदार	एन सत्यनारायना	01.04.2010
312	15107739के	हवलदार	नायब सिंह	01.02.2010
313	14379938एफ	हवलदार	नन्द जेआई ठाकुर	01.03.2010
314	7773932एच	हवलदार	नन्द राम	01.06.2010
315	14380170के	हवलदार	नंदजी चौधरी	01.03.2010
316	14379200के	हवलदार	नंदजी सिंह	01.02.2010
317	14383666के	हवलदार	नानी छलिया	01.08.2010
318	15108359एक्स	हवलदार	एन कोदिया	01.03.2010
319	14395591के	हवलदार	नरेश कुमार	01.08.2010
320	14395563एक्स	हवलदार	नरेश कुमार	01.08.2010
321	14382785एन	हवलदार	नरेश कुमार	01.05.2010

322	14489938के	हवलदार	नरेश सिंह तोमर	01.02.2010
323	14494570डब्ल्यू	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.04.2010
324	15107327एच	हवलदार	निंगप्पा कामाती	01.02.2010
325	14379029डब्ल्यू	हवलदार	निशी कांता देब नाथ	01.02.2010
326	14379242डब्ल्यू	हवलदार	एन कुमार सिंह	01.02.2010
327	14381367एम	हवलदार	ओम प्रकाश	01.04.2010
328	15108818एल	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.04.2010
329	14492442ए	हवलदार	ओमेंद्रा कुमार सिंह	01.03.2010
330	15108926पी	हवलदार	ओशियार सिंह	01.04.2010
331	15108559एन	हवलदार	पी अन्जेनेय	01.04.2010
332	15107933वाइ	हवलदार	पी आर बी जी भाई	01.03.2010
333	14492408ए	हवलदार	पी एस सिकरवार	01.03.2010
334	14381900डब्ल्यू	हवलदार	पी थुराय राज	01.04.2010
335	14490987वाइ	हवलदार	पद्मा कांता बोराह	01.02.2010
336	14491169के	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.02.2010
337	14491905एक्स	हवलदार	परमजीत सिंह	01.03.2010
338	14490515एच	हवलदार	परमानंद शर्मा	01.02.2010
339	14381290पी	हवलदार	पटेल वी भाई वीर सिंह	01.04.2010
340	14491356एच	हवलदार	फनी भूषण नाथ	01.02.2010
341	15108054एक्स	हवलदार	प्यारा सिंह	01.03.2010
342	14382085ए	हवलदार	प्रबीन हज़ारिका	01.04.2010
343	15107956ए	हवलदार	प्रदीप के	01.03.2010
344	14493703पी	हवलदार	प्रकासन के	01.03.2010
345	15108169एल	हवलदार	प्रेम सिंह	01.03.2010
346	14496949वाइ	हवलदार	प्रोनब कुमार हल्दर	01.08.2010
347	14380783के	हवलदार	पूरन चन्द	01.03.2010
348	15108283एच	हवलदार	पुष्पेन्द्रा सिंह	01.03.2010
349	15108610एच	हवलदार	आर बालन	01.04.2010
350	14395164एन	हवलदार	रबीन्द्र मंडल	01.08.2010
351	15107272के	हवलदार	रबीन्द्र प्रसाद यादव	01.02.2010
352	14379625एच	हवलदार	राधे श्याम सिंह	01.02.2010
353	15107248एन	हवलदार	रघुनंदन सिंह	01.02.2010
354	14494320पी	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.03.2010
355	15108026एल	हवलदार	आर कुरुप आर	01.03.2010
356	14382335डब्ल्यू	हवलदार	राजबीर सिंह	01.05.2010
357	15108591एच	हवलदार	राजेंद्र नाथ दाश	01.04.2010
358	15107484पी	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.02.2010
359	15108715एम	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2010
360	14383053के	हवलदार	राजेश चंद्रा	01.05.2010
361	14395214एन	हवलदार	राजिन्दर सिंह के	01.08.2010
362	14495561एफ	हवलदार	राजीव कुमार सक्सेना	01.07.2010

363	15108068	एक्स	हवलदार	राजू वी डी.	01.03.2010
364	14395124	एम	हवलदार	राकेश कुमार	01.08.2010
365	14383244	वाइ	हवलदार	राकेश कुमार यादव	01.06.2010
366	14382334	एन	हवलदार	राम बिलास यादव	01.05.2010
367	14382544	एन	हवलदार	राम चंद्र	01.05.2010
368	14493314	पी	हवलदार	राम चंद्रा सरकार	01.03.2010
369	14394793	वाइ	हवलदार	राम किशोर सिंह	01.02.2010
370	14493361	एम	हवलदार	राम किसुन रौय	01.03.2010
371	14493245	के	हवलदार	राम नरेश जी.	01.03.2010
372	15107871	के	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.02.2010
373	15107600	एम	हवलदार	राम निवास जाखर	01.02.2010
374	14380843	एन	हवलदार	राम पाल	01.03.2010
375	14380515	ए	हवलदार	राम पाल सिंह	01.03.2010
376	14381568	एल	हवलदार	राम पाती सिंह यादव	01.04.2010
377	14494071	एफ	हवलदार	राम प्रकाश	01.03.2010
378	14495394	डब्ल्यू	हवलदार	राम प्रताप सिंह	01.06.2010
379	15107691	एफ	हवलदार	राम प्रवेश सौ	01.02.2010
380	14380897	पी	हवलदार	राम सिंह	01.03.2010
381	15108227	के	हवलदार	राम विनोद सिंह	01.03.2010
382	14496490	एक्स	हवलदार	रामानन्द	01.08.2010
383	14395432	एम	हवलदार	रामानन्द यादव	01.08.2010
384	15108680	एफ	हवलदार	रामानन्दा सरकार	01.04.2010
385	14383617	एफ	हवलदार	रामाश्रय यादव	01.08.2010
386	14395231	एन	हवलदार	रमेश चंद्र	01.08.2010
387	14383155	ए	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.06.2010
388	14495398	एम	हवलदार	रमेश सिंह	01.06.2010
389	15108539	ए	हवलदार	रमेश सिंह यादव	01.04.2010
390	14395481	पी	हवलदार	रामेश्वर साह	01.08.2010
391	14395071	वाइ	हवलदार	रामपाल	01.04.2010
392	14496927	ए	हवलदार	रनवीर सिंह	01.08.2010
393	14493345	पी	हवलदार	रास बिहारी यादव	01.03.2010
394	14395010	एफ	हवलदार	रतन सिंह	01.04.2010
395	14383670	एम	हवलदार	रवि शंकर	01.08.2010
396	14492814	ए	हवलदार	रवीन्द्र तिवारी	01.03.2010
397	14492078	एम	हवलदार	रिछपाल सिंह	01.03.2010
398	14381487	एल	हवलदार	रिछपाल	01.04.2010
399	15108294	पी	हवलदार	रूप कुमार	01.03.2010
400	14379074	एच	हवलदार	रुद्रा पाल कुशवा	01.02.2010
401	14490089	ए	हवलदार	एस वासकरन	01.02.2010
402	15107255	के	हवलदार	एस सी श्रीवास्तव	01.02.2010
403	15108047	एफ	हवलदार	एस राजेश	01.03.2010

404	14492380एल	हवलदार	एस के एल श्रीवास्तव	01.03.2010
405	14379192डब्ल्यू	हवलदार	एस के नबाब	01.02.2010
406	15108224डब्ल्यू	हवलदार	एस कुप्पन	01.03.2010
407	15108895ए	हवलदार	एस परमेश्वरन	01.04.2010
408	15107560डब्ल्यू	हवलदार	एस रमा मूर्ती	01.02.2010
409	14383852ए	हवलदार	एस वी एन वाघमरे	01.08.2010
410	14379446एच	हवलदार	सचिन्द्र कुमार	01.02.2010
411	15108056एच	हवलदार	साहेब सिंह	01.03.2010
412	14379696के	हवलदार	सककप्पन	01.02.2010
413	14490937एन	हवलदार	सैलेन्द्र सिंह	01.02.2010
414	14491836एम	हवलदार	सम्राट च. डेका	01.02.2010
415	14490629एन	हवलदार	संतोष कुमार	01.02.2010
416	15107876एच	हवलदार	संतोष कुमार सिंह	01.02.2010
417	14490234एम	हवलदार	ससिधरन पी	01.02.2010
418	14490001एल	हवलदार	सतबीर सिंह	01.02.2010
419	14496274के	हवलदार	सतीश कुमार	01.08.2010
420	14490919एल	हवलदार	सतनाम सिंह	01.02.2010
421	15107728एक्स	हवलदार	सतपाल सिंह	01.02.2010
422	15108546डब्ल्यू	हवलदार	सतपती नरसिम्हुलु	01.04.2010
423	14382877ए	हवलदार	शत्रूधना सेठी	01.05.2010
424	14382072एच	हवलदार	सत्या प्रकाश सिंह	01.04.2010
425	8030488एन	हवलदार	सत्य प्रकाश	01.08.2010
426	14495494एफ	हवलदार	सत्यपाल यादव	01.07.2010
427	14492970के	हवलदार	सत्यापाल सिंह	01.03.2010
428	14495457एन	हवलदार	सत्यविर सिंह राठोर	01.06.2010
429	14379461एक्स	हवलदार	शंकर सिंह	01.02.2010
430	14394805एच	हवलदार	शशिकांत एच	01.02.2010
431	14495293एच	हवलदार	शिव कुमार	01.06.2010
432	14383353एल	हवलदार	शिवा बासप्पा जामाखांदी	01.07.2010
433	14494396पी	हवलदार	शिवाजी पाटिल	01.03.2010
434	14496715पी	हवलदार	श्री भगवान	01.08.2010
435	14395493के	हवलदार	श्री क्रांत. पांडे	01.08.2010
436	15103746एच	हवलदार	श्याम गिरिह राम	01.08.2010
437	14380971एल	हवलदार	श्याम प्यारे राम	01.03.2010
438	14495757पी	हवलदार	श्याम सिंह	01.08.2010
439	14496107एन	हवलदार	श्याम सिंह	01.08.2010
440	14495538एन	हवलदार	शिवरामन के	01.07.2010
441	15108298एल	हवलदार	सुबा लाल गवाला	01.03.2010
442	15108182पी	हवलदार	सुबे सिंह	01.03.2010
443	15108771एल	हवलदार	सुभाष चन्द	01.04.2010
444	14379976एक्स	हवलदार	सुभाष चन्द	01.02.2010



445	14495485ए	हवलदार	सुभाष चन्द एस	01.07.2010
446	15107725के	हवलदार	सुबोध कुमार विश्वास	01.02.2010
447	14381110एफ	हवलदार	सुदामा राम	01.03.2010
448	14495134एल	हवलदार	सुख राज	01.05.2010
449	15108885डब्ल्यू	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.04.2010
450	15108567एम	हवलदार	सुखवंत सिंह	01.04.2010
451	14495743पी	हवलदार	एस लक्ष्मना राव	01.08.2010
452	14492763एक्स	हवलदार	सुनील कुमार वी टी	01.03.2010
453	15107982एफ	हवलदार	सुप्रिया कुमार हाजरा	01.03.2010
454	14495090वाइ	हवलदार	सूरज भान	01.04.2010
455	14395034एल	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2010
456	15107788एम	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.02.2010
457	15108497वाइ	हवलदार	सुरेश चन्द शर्मा	01.04.2010
458	15107888एक्स	हवलदार	सुरेश चंद्रा यादवा	01.02.2010
459	14492569एच	हवलदार	सुरेश कुमार के पी	01.03.2010
460	14496747एक्स	हवलदार	सुरिन्दर पाल	01.08.2010
461	14491008एफ	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.02.2010
462	15108732एम	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.04.2010
463	15108583के	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.04.2010
464	14490117एफ	हवलदार	सूर्या देव प्रसाद	01.02.2010
465	14491758ए	हवलदार	टी लोकनाथा चेट्टी	01.02.2010
466	15108563डब्ल्यू	हवलदार	टी मुथु पांडियन	01.04.2010
467	15108317एल	हवलदार	टी सिंगरावेल	01.03.2010
468	14381458डब्ल्यू	हवलदार	तपन कुमार सिंह	01.04.2010
469	15108607एच	हवलदार	तरुण कुमार भुनिया	01.04.2010
470	14496866एन	हवलदार	थम्पी कुट्टन के	01.08.2010
471	15108930एक्स	हवलदार	त्रिपुरारी तिवारी	01.06.2010
472	15108448डब्ल्यू	हवलदार	उदाईपती राम	01.04.2010
473	14492960ए	हवलदार	उमान सिंह	01.03.2010
474	14490514ए	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.02.2010
475	15107702एच	हवलदार	उमेश प्रसाद सिंह	01.02.2010
476	14492040एच	हवलदार	उपेंद्र झा	01.03.2010
477	14383543एक्स	हवलदार	वी बासकरन	01.08.2010
478	14492505एक्स	हवलदार	वी मूर्ती	01.03.2010
479	14382414एल	हवलदार	वरुधिस सी एम	01.05.2010
480	14381306पी	हवलदार	वेद पाल	01.04.2010
481	14380232वाइ	हवलदार	विद्या राम	01.03.2010
482	15107380एन	हवलदार	विजय कुमार सिंह	01.02.2010
483	15108481एन	हवलदार	विक्रम सिंह	01.04.2010
484	14394955वाइ	हवलदार	विनय कुमार	01.04.2010
485	14383301पी	हवलदार	विनसेट जे	01.06.2010

486	14383255एल	हवलदार	विनोद कुमार	01.06.2010
487	14490600एल	हवलदार	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.02.2010
488	14495621एल	हवलदार	विरपाल सिंह	01.07.2010
489	14492067ए	हवलदार	विशेष्वर राय	01.03.2010
490	14493936डब्ल्यू	हवलदार	वाइ जे नायडू	01.03.2010
491	14494139एक्स	हवलदार	येशोदरन के वी	01.03.2010
<b>वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर</b>				
492	14490647डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2010
493	14380145एल	हवलदार	आशुतोष मजूमडेर	01.03.2010
494	14378926ए	हवलदार	बी सेलवम	01.02.2010
495	14380590के	हवलदार	बहादुर मल सैनी	01.03.2010
496	14379189डब्ल्यू	हवलदार	बिक्रमा दास	01.02.2010
497	15108777एम	हवलदार	बिनेस्वर सिंह वाइ	01.04.2010
498	14382383डब्ल्यू	हवलदार	ब्रम प्रकाश	01.05.2010
499	14381778एल	हवलदार	चंद्रा प्रकाश सिंह	01.04.2010
500	14379263एम	हवलदार	दीना नाथ सिंह	01.02.2010
501	14382445एल	हवलदार	गजराज यादव	01.05.2010
502	14495587डब्ल्यू	हवलदार	गिरानन्द सिंह यादव	01.07.2010
503	14381391एच	हवलदार	गोतम कुमार घोष	01.04.2010
504	14383667एम	हवलदार	हरी मोहन	01.08.2010
505	15101475एक्स	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.05.2010
506	14381567एच	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2010
507	14383347एक्स	हवलदार	कमल जीत	01.07.2010
508	14492120ए	हवलदार	कमालेन्दु दास	01.03.2010
509	14383174एल	हवलदार	कप्तान सिंह	01.06.2010
510	14380032एच	हवलदार	केश कुमार सिंह वाइ	01.02.2010
511	14381090वाइ	हवलदार	कृष्णापाल सिंह	01.03.2010
512	14380211एच	हवलदार	कारे नागनाथ दत्तत्रे	01.03.2010
513	14383184पी	हवलदार	मनी वीईएल एस	01.06.2010
514	14382805डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद अमीर हमजा	01.05.2010
515	14381943एल	हवलदार	मोहिन्दर पाल	01.04.2010
516	14383433ए	हवलदार	मुनि रथिनाम	01.08.2010
517	14382377एच	हवलदार	नीलू कांता दास	01.05.2010
518	14382253एन	हवलदार	ओंकार सिंह	01.05.2010
519	15107530के	हवलदार	पवार संजय कुमार आर	01.02.2010
520	14379569पी	हवलदार	प्रभाश झा	01.02.2010
521	14379982एल	हवलदार	राम चंद्र	01.02.2010
522	14379069एक्स	हवलदार	राम निवास	01.02.2010
523	14495135एन	हवलदार	राम शरण	01.05.2010
524	14381610वाइ	हवलदार	राम यूजेर	01.04.2010

525	14383676एन	हवलदार	रमाकांत पांडे	01.08.2010
526	14381973एच	हवलदार	रमेश कुमार	01.04.2010
527	14395015ए	हवलदार	रामकृष्ण	01.04.2010
528	14383161एन	हवलदार	रमेश चंद्रा माल	01.06.2010
529	14381839एक्स	हवलदार	आर सिंह	01.04.2010
530	15107520पी	हवलदार	एस रविचंद्रन	01.02.2010
531	14381790एम	हवलदार	समर पाल सिंह	01.04.2010
532	14381255एम	हवलदार	सत्यावीर सिंह	01.04.2010
533	14395722के	हवलदार	शमशेर सिंह	01.08.2010
534	14379262के	हवलदार	शंकर जी.ईई यादव	01.02.2010
535	14379219एच	हवलदार	श्री कृष्णा ओझा	01.02.2010
536	14380842एल	हवलदार	श्री राम लक्ष्मन बाबू	01.03.2010
537	14380597एन	हवलदार	श्री जी. सिंह एम	01.03.2010
538	14489875एम	हवलदार	श्रीकांत सिंह	01.02.2010
539	14383366एच	हवलदार	सुभा कुमार गिरि	01.07.2010
540	14490721एम	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार त्रिवेदी	01.02.2010
541	14379265एक्स	हवलदार	सुरेश एम	01.02.2010
542	14380656पी	हवलदार	तेज नारायण दीक्षित	01.03.2010
543	14395247वाइ	हवलदार	वेद प्रकाश	01.08.2010
544	14382503के	हवलदार	विजय कैमार	01.05.2010
545	15107307पी	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	01.02.2010
546	14382510ए	हवलदार	याद राम	01.05.2010
547	14493974एम	हवलदार	यूनूस खान	01.03.2010

### मद्रास इंजीनियर समूह

548	1383695वाइ	हवलदार	ए येबनसन	01.02.2010
549	1380783के	हवलदार	ए लार्डुसामी	01.03.2010
550	1380503एल	हवलदार	ए मनी	01.02.2010
551	15301666डब्ल्यू	हवलदार	ए मनी वर्मा	01.07.2010
552	1383832एम	हवलदार	ए सूबमन्यन	01.02.2010
553	15301361डब्ल्यू	हवलदार	अमर नारायण स्वामी आर	01.05.2010
554	1381657के	हवलदार	अमरूत सी	01.06.2010
555	1380359एफ	हवलदार	अशोकन पी ए	01.02.2010
556	1380923एल	हवलदार	अशोकन आर	01.04.2010
557	1383943के	हवलदार	बी कुमारन	01.06.2010
558	15301259एन	हवलदार	बाबू बी	01.04.2010
559	15301393वाइ	हवलदार	बाबू बी	01.05.2010
560	1380254एक्स	हवलदार	बाबू पी	01.02.2010
561	15301579एच	हवलदार	बेबी केसी	01.06.2010
562	15301321पी	हवलदार	बासवराजू	01.04.2010
563	1381977वाइ	हवलदार	बि सूरप्पनेनी	01.07.2010

564	1383419डब्ल्यू	हवलदार	सी चंद्रा शेखर	01.02.2010
565	15301627एक्स	हवलदार	चको के.जे	01.07.2010
566	1380677एल	हवलदार	चन्द्राप्पा एम	01.03.2010
567	1380469डब्ल्यू	हवलदार	चिन्नबा एन	01.02.2010
568	1381158पी	हवलदार	डी. गुनाशेखरन	01.05.2010
569	15301272एक्स	हवलदार	जी. थंगाराज	01.04.2010
570	1381191एम	हवलदार	गणेशा विके	01.05.2010
571	1380478एक्स	हवलदार	गोपाकुमार जी.	01.02.2010
572	1380264एफ	हवलदार	गोपालन केसी	01.02.2010
573	15301403एक्स	हवलदार	जी. ब्रूप्पतियाह	01.05.2010
574	1381743पी	हवलदार	जी. सूर्यवंशी	01.06.2010
575	1380582एल	हवलदार	एच सेट्टू	01.02.2010
576	1381841पी	हवलदार	जे मोनीकांतन नायर	01.06.2010
577	1380584डब्ल्यू	हवलदार	जे नटराजन	01.02.2010
578	15301649डब्ल्यू	हवलदार	जया मुरली कृष्णा	01.07.2010
579	1381527एफ	हवलदार	जयकुमार बी पी	01.06.2010
580	15301573एफ	हवलदार	जयप्रकाशन के	01.06.2010
581	15301209एच	हवलदार	जॉनसन टी जी.	01.03.2010
582	15301416पी	हवलदार	जोसेमन बी	01.05.2010
583	15301267एम	हवलदार	जोसफ फिलिप	01.04.2010
584	1380247एफ	हवलदार	के केषवा पिल्लई	01.02.2010
585	15301529एक्स	हवलदार	के मनी	01.06.2010
586	1381604एल	हवलदार	के वौदास	01.06.2010
587	15301482एक्स	हवलदार	के वेन्कटेशुलू	01.06.2010
588	15300673ए	हवलदार	कानन्न पी	01.07.2010
589	15301215डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा देवेन एस	01.03.2010
590	1381251डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा मूर्ती ए	01.05.2010
591	1380724एक्स	हवलदार	एम कनकराज	01.03.2010
592	1381311ए	हवलदार	एम कुप्पन	01.05.2010
593	1381068एन	हवलदार	एम मुरली	01.05.2010
594	1381843ए	हवलदार	एम परसुरामन	01.06.2010
595	1381149एन	हवलदार	एम रविचंद्रन	01.05.2010
596	1380402एक्स	हवलदार	एम सुन्दरा राजन	01.02.2010
597	1380400एम	हवलदार	मदू येलिशा	01.02.2010
598	1380790ए	हवलदार	मगलिगम ए	01.03.2010
599	15301317एम	हवलदार	महादेवप्पा नन्दीहल्ली.	01.04.2010
600	15301474वाइ	हवलदार	माला के	01.06.2010
601	1381797डब्ल्यू	हवलदार	मनी सी	01.06.2010
602	1382126वाइ	हवलदार	मोनागार जी.	01.08.2010
603	1380583एन	हवलदार	एन बाबू	01.02.2010
604	1380317पी	हवलदार	एन राजारमन	01.02.2010

605	1380717एफ	हवलदार	एन सामी कानू	01.03.2010
606	15301620एन	हवलदार	एन सिल्वाराज	01.07.2010
607	1380774एच	हवलदार	नारायनन एन	01.03.2010
608	1380279के	हवलदार	पी अंबालागन	01.02.2010
609	1381434एम	हवलदार	पी चंद्रन	01.05.2010
610	1380965एक्स	हवलदार	पी जॉन पवाल	01.04.2010
611	1381299के	हवलदार	पी जॉन सेकार	01.05.2010
612	1381450के	हवलदार	पी राजा बी	01.05.2010
613	15301221के	हवलदार	पी वनराज	01.03.2010
614	1381447के	हवलदार	पी वाइ	01.05.2010
615	15301096एल	हवलदार	पी योहनादन	01.02.2010
616	1380600एच	हवलदार	पिछान्दी सी	01.02.2010
617	15301203एफ	हवलदार	पी अटैया	01.03.2010
618	1381383के	हवलदार	पोनु स्वामी वी	01.05.2010
619	15301516ए	हवलदार	प्रकाश चंद्रा पाधी	01.06.2010
620	1381153डब्ल्यू	हवलदार	पुंदलिक पुजेर	01.05.2010
621	1380321एक्स	हवलदार	पुशपाराजन नायर वीएम	01.02.2010
622	1380641एम	हवलदार	आर कृष्णन	01.03.2010
623	15301166वाइ	हवलदार	आर मुरुगन	01.03.2010
624	1380692ए	हवलदार	आर वेंकटाचलम	01.03.2010
625	1381368पी	हवलदार	राधा कृष्णन एम	01.05.2010
626	1381211पी	हवलदार	राजशेखरन के	01.05.2010
627	15301570एन	हवलदार	राजू पी	01.06.2010
628	1381322एम	हवलदार	रामचन्द्रन के	01.05.2010
629	15301368ए	हवलदार	रामनाथन टी	01.05.2010
630	15301255एक्स	हवलदार	रवीन्द्रन पी टी	01.04.2010
631	15301588के	हवलदार	आर कसईयाह	01.06.2010
632	15301132एल	हवलदार	आरएस पांडियाराज	01.03.2010
633	15301077ए	हवलदार	एस भास्कर रेडी	01.02.2010
634	1382323एफ	हवलदार	एस फ्रांसेस	01.08.2010
635	1381320एफ	हवलदार	एस गजेन्द्रन	01.05.2010
636	15301609पी	हवलदार	एस इसाक न्यूटन	01.07.2010
637	1380716वाइ	हवलदार	एस पेरियानयागम	01.03.2010
638	1380740पी	हवलदार	एस सिल्वाराज	01.03.2010
639	15301130ए	हवलदार	एस सुकुमारन	01.03.2010
640	15301721एफ	हवलदार	सतीश कुमार टी	01.07.2010
641	15301449ए	हवलदार	सेलवा कुमार एम	01.06.2010
642	15301205एम	हवलदार	शोक एम शरीफ	01.03.2010
643	1380346के	हवलदार	श्रिशाईल जी.	01.02.2010
644	1380282के	हवलदार	एसपी केशवुलु	01.02.2010
645	15301114एच	हवलदार	श्रीजितत के.एम	01.02.2010

646	1380506वाइ	हवलदार	श्रीरंगन बी	01.02.2010
647	1380510एफ	हवलदार	एस कुट्टी ए	01.02.2010
648	15301110एम	हवलदार	सुब्रमणि पी	01.02.2010
649	15301421ए	हवलदार	सुरेश के के	01.05.2010
650	1380529ए	हवलदार	टी अबिसाकम	01.02.2010
651	15301057एम	हवलदार	टी बूचाई	01.02.2010
652	1381247एन	हवलदार	वी गोपाल	01.05.2010
653	1381462वाइ	हवलदार	वी गोविंदस्वामी	01.05.2010
654	1380550एच	हवलदार	वी गिरिबाबू	01.02.2010
655	1382424पी	हवलदार	वरुधिस पी जी.	01.06.2010
656	15301257एच	हवलदार	वेकटाचलम ए	01.04.2010
657	15301210एक्स	हवलदार	वेन्कटेशा एमटी	01.03.2010
658	1381400वाइ	हवलदार	विजया कुमार पीके	01.05.2010
659	1381399पी	हवलदार	विजयन के	01.05.2010
660	1381373ए	हवलदार	विस्वनाथन वी	01.05.2010

### बंगाल इंजीनियर समूह

661	1474475एच	हवलदार	अक्षय कुमार सिंह	01.04.2010
662	1474684ए	हवलदार	अनिल कुमार गोगोई	01.04.2010
663	1474109वाइ	हवलदार	अनिल कुमार यादव	01.03.2010
664	1474440एम	हवलदार	अर्पण सुर चौधुरी	01.04.2010
665	1475534डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार शर्मा	01.07.2010
666	1474819डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.04.2010
667	1474257के	हवलदार	अवधेश सिंह	01.03.2010
668	1479351एक्स	हवलदार	बी राय	01.03.2010
669	1478449वाइ	हवलदार	बहादुर सिंह	01.02.2010
670	1473984वाइ	हवलदार	बैजू रौय	01.03.2010
671	1479431पी	हवलदार	बाला चंदा पिल्लई टीआर	01.03.2010
672	1475390वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.07.2010
673	1475624एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.08.2010
674	1475280के	हवलदार	बाली राम उपाध्याय	01.06.2010
675	1479207एच	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.02.2010
676	1475603एफ	हवलदार	बलजीत सिंह	01.06.2010
677	1474857एम	हवलदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
678	1474839के	हवलदार	बी बिष्ट	01.04.2010
679	1474610एल	हवलदार	भगवन्त सिंह	01.04.2010
680	1474473एक्स	हवलदार	भरत चंद्रा बारिक	01.04.2010
681	1479229एफ	हवलदार	भीम राज सिंह	01.02.2010
682	1475314एम	हवलदार	भूवन चंद्रा	01.06.2010
683	1475482एल	हवलदार	बी चंद्रा झा	01.07.2010
684	1474565के	हवलदार	बिनोद प्रसाद	01.04.2010

685	1475408के	हवलदार	बिश्व ओरान	01.07.2010
686	1473796एन	हवलदार	बृज कुमार उपाध्याय	01.02.2010
687	1475412एम	हवलदार	चैतन्य देवनाथ	01.07.2010
688	1474671एच	हवलदार	चंद्रा केश सिंह	01.04.2010
689	1474949वाइ	हवलदार	चेत राम	01.05.2010
690	1475378एक्स	हवलदार	चुन्नी लाल	01.07.2010
691	1474641एल	हवलदार	डलबीर सिंह	01.04.2010
692	1475062एल	हवलदार	दरिया सिंह	01.05.2010
693	1479476पी	हवलदार	दर्शन सिंह	01.04.2010
694	1479877के	हवलदार	दर्शन सिंह	01.07.2010
695	1479162एन	हवलदार	दया राम	01.02.2010
696	1475084के	हवलदार	दयाल सिंह	01.05.2010
697	1474749एच	हवलदार	देबी प्रसाद बीईजे	01.04.2010
698	1474995एच	हवलदार	देव नाथ सिंह	01.05.2010
699	1474993एच	हवलदार	देव नारायण	01.05.2010
700	1474041एच	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.03.2010
701	1479642एक्स	हवलदार	देवी दत्त	01.06.2010
702	1474757एफ	हवलदार	ध्रुव सिंह यादव	01.04.2010
703	1474969एम	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.05.2010
704	1475448एल	हवलदार	दिलीप कुमार बेनरजी	01.07.2010
705	1475495एच	हवलदार	दिलीप कुमार नंदा	01.07.2010
706	1473795एक्स	हवलदार	दिनेश सिंह	01.02.2010
707	1474748ए	हवलदार	दुशासन मोहाप	01.04.2010
708	1474838एफ	हवलदार	गंगा सिंह	01.04.2010
709	1475644एल	हवलदार	गोबरधन ठाकुर	01.08.2010
710	1475020वाइ	हवलदार	गोपाल सिंह	01.05.2010
711	1479498एन	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.04.2010
712	1475616वाइ	हवलदार	हबीब खान	01.08.2010
713	1479094एल	हवलदार	हरी सिंह	01.02.2010
714	1475407एफ	हवलदार	हरजीत सिंह	01.07.2010
715	1474241वाइ	हवलदार	इकबाल हुसैन	01.03.2010
716	1475597वाइ	हवलदार	इश्वर चंद्रा मुंडा	01.08.2010
717	1479102वाइ	हवलदार	इजराइल मोल्ला	01.02.2010
718	1474733एक्स	हवलदार	जे मियां	01.04.2010
719	1474101एम	हवलदार	जगन सिंह	01.03.2010
720	1473989एन	हवलदार	जनार्दन प्रसाद	01.03.2010
721	1479950एक्स	हवलदार	जसबीर सिंह	01.08.2010
722	1474393ए	हवलदार	जीत सिंह	01.04.2010
723	1475376एम	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार त्यागी	01.07.2010
724	1474271डब्ल्यू	हवलदार	के आइ सिंह	01.03.2010
725	1474270एन	हवलदार	के नानाभाटी	01.03.2010

726	15301422एच	हवलदार	के राजू	01.05.2010
727	1473655वाइ	हवलदार	कैलाश बाबू	01.02.2010
728	1475027एच	हवलदार	के कुमार	01.05.2010
729	1475528एच	हवलदार	कप्तान सिंह यादव	01.07.2010
730	1474974एक्स	हवलदार	कर्मजीत सिंह	01.05.2010
731	1475150एफ	हवलदार	खिमा नन्द	01.06.2010
732	1475600एन	हवलदार	कृष्णन सिंह	01.08.2010
733	1475555एम	हवलदार	कृष्णा मोहन झा	01.07.2010
734	1479353एच	हवलदार	के बोरसाकिया	01.03.2010
735	1474055एच	हवलदार	कुलबीर सिंह	01.03.2010
736	1474855एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.05.2010
737	3383370एक्स	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.04.2010
738	1479256एल	हवलदार	कुंवर बहादुर सिंह	01.02.2010
739	1474934डब्ल्यू	हवलदार	लाल बाबू राय	01.05.2010
740	1479801के	हवलदार	एल चंद्रा नाथ	01.07.2010
741	1474245पी	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2010
742	1473741डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मी प्रसाद यादव	01.02.2010
743	1479440डब्ल्यू	हवलदार	एम पी राजू	01.03.2010
744	1474303एन	हवलदार	महेश चंद्रा	01.03.2010
745	1474317एन	हवलदार	महेश्वर कर	01.03.2010
746	1479561एक्स	हवलदार	महेश्वरी सिंह सैंगर	01.05.2010
747	1479111ए	हवलदार	मान मोहन सिंह	01.02.2010
748	1479597डब्ल्यू	हवलदार	मंगत सिंह	01.05.2010
749	1474824एफ	हवलदार	मनोहर सिंह	01.04.2010
750	1473992एन	हवलदार	मोहम्मद इरसाद अंसारी	01.03.2010
751	1479105एम	हवलदार	मोहम्मद नसीरुद्दीन	01.02.2010
752	1382084एक्स	हवलदार	एमएच एस नाथ	01.08.2010
753	1474439एक्स	हवलदार	मोहम्मद डब्ल्यू खान	01.04.2010
754	1474988एक्स	हवलदार	मुलख राज	01.05.2010
755	1479160एच	हवलदार	मुन्ना लाल	01.02.2010
756	1475806एल	हवलदार	एन डागु लक्ष्मन	01.06.2010
757	1474823वाइ	हवलदार	नन्द कुमार राम	01.04.2010
758	1473793ए	हवलदार	नन्हें लाल	01.02.2010
759	1479278के	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.02.2010
760	1474919एफ	हवलदार	एन सिंह	01.05.2010
761	1478582एफ	हवलदार	एन गोगोई	01.03.2010
762	1474750एक्स	हवलदार	ओ चंद्रा मोहाप	01.04.2010
763	1479156ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.02.2010
764	1474983वाइ	हवलदार	पाल सिंह	01.05.2010
765	1475416एच	हवलदार	पी सिंह	01.07.2010
766	1475329पी	हवलदार	फूल चंद्रा	01.06.2010



767	1475596डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप चंद्रा नाइक	01.08.2010
768	1475240एच	हवलदार	पुदी सूर्यनारायण	01.06.2010
769	1479532एच	हवलदार	पूरन सिंह	01.05.2010
770	1474912एक्स	हवलदार	राज कुमार	01.05.2010
771	1474562डब्ल्यू	हवलदार	राज पाल	01.04.2010
772	1474910एम	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.05.2010
773	1475558ए	हवलदार	राजेश डी.	01.07.2010
774	1473912एल	हवलदार	राम बहादुर	01.02.2010
775	1479749एम	हवलदार	राम देव सिंह	01.06.2010
776	1479294एफ	हवलदार	राम कुमार राठी	01.02.2010
777	1475061एच	हवलदार	राम निवास	01.05.2010
778	1479379एक्स	हवलदार	राम निवास मंडल	01.03.2010
779	1474785एन	हवलदार	राम पाल सिंह	01.04.2010
780	1474763पी	हवलदार	राम फल	01.04.2010
781	1474774एफ	हवलदार	राम एस	01.04.2010
782	1474454एम	हवलदार	रमा कांत दीक्षित	01.04.2010
783	1479722पी	हवलदार	रमा शंकर सिंह	01.06.2010
784	1571457के	हवलदार	राम सजीवन	01.06.2010
785	1479589एक्स	हवलदार	रणधीर सिंह	01.05.2010
786	1479787एच	हवलदार	रंजीत विश्वास	01.06.2010
787	1479242एल	हवलदार	रंजीत सिंह	01.04.2010
788	1474931एच	हवलदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	01.05.2010
789	1474386के	हवलदार	आर अली	01.04.2010
790	1475396ए	हवलदार	सचिंद्र नाथ	01.07.2010
791	3383833एफ	हवलदार	समन सिंह	01.06.2010
792	1479932पी	हवलदार	समसूद्धीन	01.08.2010
793	1475253ए	हवलदार	संजोय डे	01.06.2010
794	1473682एच	हवलदार	संतन सिंह	01.02.2010
795	1474121ए	हवलदार	शशि कांत पांडे	01.03.2010
796	1474364एल	हवलदार	सतीश चंद्रा शुक्ला	01.03.2010
797	1479128एन	हवलदार	सतपाल सिंह	01.02.2010
798	1473800एल	हवलदार	सतवीर सिंह	01.02.2010
799	1474606एच	हवलदार	सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.04.2010
800	1474099ए	हवलदार	सोहन लाल	01.03.2010
801	1474719एल	हवलदार	सुभाष चन्द्र	01.04.2010
802	1474895एच	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.05.2010
803	1474007एच	हवलदार	सुच्चा सिंह	01.03.2010
804	1473828एल	हवलदार	सुदामा सिंह	01.02.2010
805	1479116वाइ	हवलदार	सुख राम सिंह यादव	01.02.2010
806	1479157एच	हवलदार	सुखदेव	01.02.2010
807	1479310एन	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.03.2010

808	1474014वाइ	हवलदार	सुखविंदर पाल सिंह	01.03.2010
809	1474811के	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.04.2010
810	1474906के	हवलदार	एस आसरांम वाइ	01.05.2010
811	1475465एल	हवलदार	सुंदर लाल	01.07.2010
812	1474950एन	हवलदार	सुरेंद्र मिश्रा	01.05.2010
813	1475003वाइ	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.05.2010
814	1474311एम	हवलदार	सुरेन्द्रा भारती	01.03.2010
815	1474531डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा कुम्र उपाध्याय	01.04.2010
816	1475175एन	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.06.2010
817	1474746पी	हवलदार	सुरेन्द्रा नाथ दास	01.04.2010
818	1474816एच	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.04.2010
819	1474431एल	हवलदार	सुरेन्द्रा विक्रम प्रसाद	01.04.2010
820	1474872एफ	हवलदार	सुरेश	01.05.2010
821	1479635एफ	हवलदार	सुरेश चन्द वर्मा	01.06.2010
822	1479232एफ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.02.2010
823	1475199एक्स	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.06.2010
824	1475244वाइ	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.06.2010
825	1474010एच	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.03.2010
826	1474444एच	हवलदार	सैयद अहसान जवैद	01.04.2010
827	1475077एन	हवलदार	तरसेम लाल	01.05.2010
828	1474322वाइ	हवलदार	तरुण दास	01.03.2010
829	1474989ए	हवलदार	तसलीम अहमद	01.05.2010
830	1474677के	हवलदार	तेज बहादुर सिंह	01.04.2010
831	1475118एम	हवलदार	ठाकुर सिंह	01.06.2010
832	1475987एफ	हवलदार	तीरथ पाल	01.04.2010
833	1474569ए	हवलदार	उदय कुमार मोन्दल	01.04.2010
834	1571626ए	हवलदार	यू.उपाध्याय	01.07.2010
835	1473824पी	हवलदार	विजय शर्मा	01.02.2010

**बोम्बे इंजीनियर समूह**

0105.80.836	1571572के	हवलदार	श्री अब्दुल हलीम	01.06.2010
0105.80.837	1475364एक्स	हवलदार	श्री अखिलेश मिश्रा	01.06.2010
0105.80.838	1571138एक्स	हवलदार	श्री अमर सिंह	01.05.2010
0105.80.839	1570598एम	हवलदार	श्री अमरजीत सिंह	01.03.2010
0105.840	1570843के	हवलदार	श्री अमरजीत सिंह	01.04.2010
0105.841	1571529एच	हवलदार	श्री अमरीक सिंह	01.06.2010
0105.842	1572048एच	हवलदार	श्री अमरीक सिंह	01.08.2010
0105.843	1570797ए	हवलदार	श्री अनुवर अली	01.03.2010
0105.844	1571171पी	हवलदार	श्री अनिल कुमार	01.06.2010
0105.845	1569606एन	हवलदार	श्री अनवर हुसैन	01.02.2010
0105.80.10	1570353डब्ल्यू	हवलदार	श्री अवतार सिंह	01.03.2010

847	1577024एच	हवलदार	बलवीर सिंह	01.06.2010
848	1570688एन	हवलदार	बांगड़ विलास भगा	01.03.2010
849	1571216के	हवलदार	भागवत प्रसाद	01.05.2010
850	1571147वाइ	हवलदार	भरत राम	01.05.2010
851	1569575वाइ	हवलदार	भोई मनी लाल के भाई	01.02.2010
852	1573286एफ	हवलदार	बृजबीर	01.05.2010
853	1570731के	हवलदार	चरण सिंह	01.04.2010
854	1569981वाइ	हवलदार	चौरे लक्ष्मन निवरुती	01.02.2010
855	1576967पी	हवलदार	चव्हाण सहाजी नानासाहिब	01.05.2010
856	1570730एफ	हवलदार	दलवाड़ा सिंह	01.04.2010
857	1572028पी	हवलदार	दर्शन सिंह	01.08.2010
858	1570416एन	हवलदार	दर्शन सिंह	01.03.2010
859	1571533एल	हवलदार	डानमात खान	01.06.2010
860	1571090पी	हवलदार	गोरख नाथ दत्तू चव्हाण	01.05.2010
861	1571215एफ	हवलदार	गोविंद सिंह	01.05.2010
862	1570328एक्स	हवलदार	गूजर सिंह	01.03.2010
863	1577197ए	हवलदार	गुरबक्श सिंह	01.08.2010
864	1577199एल	हवलदार	गुरदर्शन सिंह	01.08.2010
865	1577251एच	हवलदार	एच सिंह	01.08.2010
866	1571382एक्स	हवलदार	एच सिंह	01.03.2010
867	1569700एक्स	हवलदार	हारून	01.02.2010
868	1571137पी	हवलदार	हर्ष नारायण झा	01.05.2010
869	1571344एफ	हवलदार	एच द्विवेदी	01.06.2010
870	1571205एक्स	हवलदार	जाधव चान्द्राकान्त जे	01.05.2010
871	1571218पी	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.05.2010
872	1571281के	हवलदार	जगदीश सिंह	01.05.2010
873	1570354वाइ	हवलदार	जगतार सिंह	01.03.2010
874	1571847एम	हवलदार	जय सिंह	01.08.2010
875	1571070एफ	हवलदार	जरनैल सिंह	01.05.2010
876	1572980एफ	हवलदार	जय प्रकाश	01.02.2010
877	1571944के	हवलदार	कदम साहदेओ महादेव	01.08.2010
878	1569994डब्ल्यू	हवलदार	कल्लप्पा कोंदेकर	01.02.2010
879	1571003डब्ल्यू	हवलदार	कमरुद्दीन	01.04.2010
880	1576751एन	हवलदार	के चंद्र भान बी	01.03.2010
881	1571448एच	हवलदार	कर्मवीर	01.06.2010
882	1571760एल	हवलदार	करण बहादुर राना	01.07.2010
883	1570252एच	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.03.2010
884	1571998एल	हवलदार	के दन्यानोबा गत्तू	01.08.2010
885	1570885डब्ल्यू	हवलदार	खटे काले सिधेश्वर आर	01.04.2010
886	1571228वाइ	हवलदार	खेम चन्द	01.05.2010
887	1571252पी	हवलदार	किशोरी लाल	01.05.2010

888	1571307एन	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.05.2010
889	1571591पी	हवलदार	कुंदन सिंह	01.07.2010
890	1570511ए	हवलदार	कुर्बान अली	01.03.2010
891	1570223एन	हवलदार	एम रमा मूर्ती	01.03.2010
892	1570553एम	हवलदार	एम वीखण्डेश्वरन	01.04.2010
893	1570985एफ	हवलदार	महाबीर प्रसाद	01.05.2010
894	1571560पी	हवलदार	महावीर सिंह	01.06.2010
895	15108073एच	हवलदार	एम अली	01.03.2010
896	1570143डब्ल्यू	हवलदार	मलकियत सिंह	01.03.2010
897	1576405एक्स	हवलदार	मल्कीत सिंह	01.02.2010
898	1576765एन	हवलदार	मोहम्मद हसीन खान	01.03.2010
899	15705556ए	हवलदार	मोहन गणपत जाधव	01.04.2010
900	1569640एन	हवलदार	मोहन सिंह	01.02.2010
901	1576813एच	हवलदार	मोहम्मद बशीर	01.04.2010
902	1572022एन	हवलदार	मोहम्मद टी	01.08.2010
903	1576715एच	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.03.2010
904	1569629पी	हवलदार	एम अहमद	01.02.2010
905	1571042पी	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार	01.05.2010
906	1576890एक्स	हवलदार	नुसरत खान	01.04.2010
907	1571595एल	हवलदार	पी चिन्नास्वामी	01.07.2010
908	1570569एक्स	हवलदार	पी पी राज	01.04.2010
909	1576985एक्स	हवलदार	पडवाल देवारांम दगादु	01.05.2010
910	1570181एम	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.02.2010
911	1576665एच	हवलदार	पी सिंह	01.03.2010
912	1577035पी	हवलदार	पाटिल महादेव मारुति	01.06.2010
913	1570496डब्ल्यू	हवलदार	पवार प्रकाश रामु	01.03.2010
914	1576603एच	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.02.2010
915	15107559एफ	हवलदार	आर उलागनाथन	01.02.2010
916	1571570वाइ	हवलदार	राज गिरि	01.06.2010
917	1571874डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार	01.08.2010
918	1570513एल	हवलदार	राजा राम	01.03.2010
919	1570544एल	हवलदार	राजा राम	01.04.2010
920	1570978एल	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2010
921	1570533वाइ	हवलदार	राम जीवन	01.03.2010
922	1570525ए	हवलदार	राम कुमार	01.03.2010
923	1577005एक्स	हवलदार	राम सिंह	01.06.2010
924	1571509पी	हवलदार	राम सिंह	01.06.2010
925	1571781एफ	हवलदार	राम सिंह	01.08.2010
926	1569754वाइ	हवलदार	रमा शंकर	01.02.2010
927	1569813ए	हवलदार	रमेश चन्द	01.02.2010
928	1571350पी	हवलदार	रंजन कुमार जैना	01.06.2010

929	1577263एक्स	हवलदार	रनवीर सिंह	01.08.2010
930	1571805ए	हवलदार	रवीन्द्र प्रकाश	01.08.2010
931	1571155एक्स	हवलदार	ऋषि प्रसाद गिरि	01.05.2010
932	1571579एन	हवलदार	एस कलियप्पन	01.06.2010
933	1570479डब्ल्यू	हवलदार	संजय कुमार जाधव सी	01.03.2010
934	1571342डब्ल्यू	हवलदार	ससिधरन नायर	01.06.2010
935	1571229एफ	हवलदार	सतबीर सिंह	01.05.2010
936	1577022एक्स	हवलदार	सतनाम सिंह	01.06.2010
937	1571687एक्स	हवलदार	शंकर राम	01.07.2010
938	1577090एल	हवलदार	शिव लाल प्रसाद साहू	01.07.2010
939	1576532एम	हवलदार	श्याम लाल	01.02.2010
940	1571023के	हवलदार	श्री मोहन राम	01.04.2010
941	1569998एम	हवलदार	सुभाष	01.02.2010
942	1571389एफ	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.06.2010
943	1576721डब्ल्यू	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.03.2010
944	1571142ए	हवलदार	टी नारियप्पन	01.05.2010
945	1571708एच	हवलदार	थैनिगइ अरसुं	01.07.2010
946	1576984पी	हवलदार	तुलसीदास कृष्णा मोहित	01.05.2010
947	1570225वाइ	हवलदार	वी वेकटेशन	01.03.2010
948	1576749डब्ल्यू	हवलदार	वासुदेव तुकाराम चौधरी	01.03.2010
949	1576734एन	हवलदार	वेद प्रकाश	01.03.2010
950	1570530एल	हवलदार	विजय बहादुर	01.03.2010
951	1570554पी	हवलदार	विश्वनाथ प्रसाद	01.04.2010
952	1571989के	हवलदार	वजीर सिंह	01.08.2010
953	1572015एक्स	हवलदार	वाइ बाबन नामदेव	01.08.2010

सिग्नल्स कोर

954	14257846ए	हवलदार	ए एन बसुमा	01.07.2010
955	14254426ए	हवलदार	अभिलाश सिंह	01.07.2010
956	14256940एक्स	हवलदार	अभिराम तराय	01.06.2010
957	15351976एक्स	हवलदार	अहीरे फूलचंद हिराजी	01.03.2010
958	15351318एल	हवलदार	औलान सिंह	01.02.2010
959	14255674एक्स	हवलदार	अजय कुमार	01.04.2010
960	15351090ए	हवलदार	अजय कुमार	01.02.2010
961	14254352एल	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.02.2010
962	15354465वाइ	हवलदार	अजय रंजन पौल	01.07.2010
963	14258208पी	हवलदार	अजमेर सिंह	01.05.2010
964	15354811के	हवलदार	अजमेर सिंह	01.08.2010
965	14257091एन	हवलदार	अखिल चंद्रा विश्वास	01.06.2010
966	15353541एन	हवलदार	अलखे चंद्रा दास	01.04.2010
967	15354224वाइ	हवलदार	अमर नाथ सिंह	01.06.2010

968	15353444डब्ल्यू	हवलदार	अम्प्रेन नासूम	01.05.2010
969	15353044के	हवलदार	अनिल कुमार पीपी	01.04.2010
970	15354823वाइ	हवलदार	ए महाराना	01.08.2010
971	14255544पी	हवलदार	अरबिंद कुमार सिंह	01.04.2010
972	14256079ए	हवलदार	अरुण चंद्रा सेकिआ	01.04.2010
973	14258379ए	हवलदार	अरुण कुमार झा	01.05.2010
974	14257983वाइ	हवलदार	अरुण कुमार साह	01.07.2010
975	14258728वाइ	हवलदार	अर्विन्द कुमार सिंह	01.08.2010
976	15353157एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.04.2010
977	14258689एल	हवलदार	अशोक कुमार	01.08.2010
978	15354781एक्स	हवलदार	अशवनी कुमार	01.08.2010
979	14257552एम	हवलदार	असवानी कुमार पात्रा	01.07.2010
980	15353095एक्स	हवलदार	आत्मा सिंह	01.04.2010
981	14256318के	हवलदार	अवनीप सिंह	01.04.2010
982	14256681ए	हवलदार	ए वैकटेया	01.05.2010
983	14259099वाइ	हवलदार	बी राजा गोपाल	01.02.2010
984	14254809एफ	हवलदार	बाबू लाल यादव	01.02.2010
985	14254622पी	हवलदार	बेबी पीपी	01.02.2010
986	14257220एच	हवलदार	बी राम	01.06.2010
987	14257533एफ	हवलदार	बाल कष्णन	01.07.2010
988	15352176एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01.03.2010
989	3382789डब्ल्यू	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2010
990	14257125डब्ल्यू	हवलदार	बलदेव सिंह	01.06.2010
991	14257590एच	हवलदार	बी शर्मा	01.07.2010
992	14255273एच	हवलदार	बलवीर सिंह	01.03.2010
993	14255224ए	हवलदार	बेनी सिंह	01.03.2010
994	14254315एक्स	हवलदार	बरखा राम	01.02.2010
995	15352804पी	हवलदार	बसंता कुमार बेहेरा	01.04.2010
996	14255011एम	हवलदार	बी संजय वी	01.03.2010
997	15352036वाइ	हवलदार	भाग सिंह	01.03.2010
998	14256462वाइ	हवलदार	भगवान सिंह	01.04.2010
999	15352073एम	हवलदार	भगवान सिंह	01.03.2010
1000	15353121एन	हवलदार	भाट विनायक आर	01.04.2010
1001	15352127एच	हवलदार	भीमा बिसोइ	01.03.2010
1002	14255752के	हवलदार	बी मिस्त्री	01.04.2010
1003	14255749के	हवलदार	बिहारी जी सिंह	01.04.2010
1004	14258469एफ	हवलदार	बिनोद बिहारी प्रधान	01.07.2010
1005	14258357एफ	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.08.2010
1006	15351507पी	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.02.2010
1007	14257156डब्ल्यू	हवलदार	बिपिन कुमार सिंह	01.06.2010
1008	15352513पी	हवलदार	बिश्वजीत घोष	01.04.2010

1009	15353238एम	हवलदार	बिश्वजीत घोष	01.04.2010
1010	15351294एम	हवलदार	बोरा वी राव	01.02.2010
1011	14256080पी	हवलदार	ब्रहमानंद	01.04.2010
1012	14254600डब्ल्यू	हवलदार	बृज किशोर प्रसाद	01.02.2010
1013	14256450के	हवलदार	बी सिंह	01.04.2010
1014	14258144एन	हवलदार	सी ए दत्तात्रिया	01.07.2010
1015	15353045एम	हवलदार	सी नारायना सामी	01.04.2010
1016	14256839एक्स	हवलदार	चक्का चंद्रा एम	01.06.2010
1017	14254411एम	हवलदार	चमन लाल	01.02.2010
1018	15351376पी	हवलदार	चमेल कुमार	01.02.2010
1019	14256691के	हवलदार	सी रंगा स्वामी	01.05.2010
1020	15351116के	हवलदार	चौधरी दिलीप एम	01.02.2010
1021	15352489के	हवलदार	छाबिन्द्रा प्रधान	01.03.2010
1022	14258096वाइ	हवलदार	छज्जू राम	01.05.2010
1023	14256943एल	हवलदार	चितरन्जन बी	01.06.2010
1024	15353110एफ	हवलदार	दलबीर सिंह	01.04.2010
1025	3383367एक्स	हवलदार	दलबीर सिंह	01.04.2010
1026	14258646डब्ल्यू	हवलदार	दलीप सिंह	01.08.2010
1027	14257987पी	हवलदार	दलजीत सिंह	01.07.2010
1028	14254909एम	हवलदार	दामोदर लाल	01.03.2010
1029	15351921एन	हवलदार	डर्लपून्टी. वी आर	01.03.2010
1030	14258830एफ	हवलदार	डी. लाल सिंह	01.08.2010
1031	14257160वाइ	हवलदार	देविन्द्र कुमार	01.06.2010
1032	14258360एफ	हवलदार	देव शंकर तिवारी	01.08.2010
1033	14256264एन	हवलदार	धर्म बीर सिंह	01.04.2010
1034	14256095एक्स	हवलदार	धर्म बीर सिंह	01.04.2010
1035	14255368एच	हवलदार	धर्म नाथ राय	01.03.2010
1036	14254969एफ	हवलदार	धर्म नाथ शर्मा	01.03.2010
1037	14259008के	हवलदार	धर्म पाल	01.07.2010
1038	14257110एन	हवलदार	धर्म नाथ यादव	01.02.2010
1039	15354420वाइ	हवलदार	धर्मेन्द्र नारायण	01.07.2010
1040	14254261एफ	हवलदार	दिलीप कुमार मोहती	01.02.2010
1041	14255748एफ	हवलदार	दिलीप कुमार पांडे	01.04.2010
1042	15351829पी	हवलदार	दीना नाथ दास	01.03.2010
1043	15351777के	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.03.2010
1044	14258156एच	हवलदार	दीपक ऋषि कवादे	01.07.2010
1045	14255318एक्स	हवलदार	डी. चन्द	01.03.2010
1046	14257445एल	हवलदार	दुर्ग बहादुर बिष्ट	01.04.2010
1047	15352299एक्स	हवलदार	इल्लप्पा राव	01.03.2010
1048	15352782एफ	हवलदार	फण्डे प्रशांत शिवाजी	01.04.2010
1049	15352898एक्स	हवलदार	जी. जी. सिंह यूततेट	01.04.2010

1050	14256214एच	हवलदार	गणेश भगत	01.04.2010
1051	14258645एन	हवलदार	गणेश चंद्रा कंदपाल	01.08.2010
1052	14254069एक्स	हवलदार	जी. यू. सुखादियो	01.02.2010
1053	15354891एम	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.08.2010
1054	14257063एफ	हवलदार	गिरान्द सिंह	01.06.2010
1055	14256672वाइ	हवलदार	गोविंद नारायण जाट	01.05.2010
1056	14258833पी	हवलदार	गिरीश चंद्रा	01.08.2010
1057	14255634डब्ल्यू	हवलदार	गुलाब चन्द	01.04.2010
1058	14254448एन	हवलदार	गुलजार सिंह	01.02.2010
1059	15354023ए	हवलदार	हर नारायण	01.06.2010
1060	15352189एच	हवलदार	हरेन्द्र सिंह	01.03.2010
1061	14256790एम	हवलदार	हरगुन सिंह	01.05.2010
1062	14256743पी	हवलदार	हरी चंद्रन नायर बी	01.05.2010
1063	14256391एच	हवलदार	हरी केओएम शर्मा	01.04.2010
1064	14257212के	हवलदार	हरी सिंह आर्य	01.06.2010
1065	14255538एफ	हवलदार	हरीलाल हजोन्ना	01.04.2010
1066	14256987एच	हवलदार	हरकेश सिंह	01.05.2010
1067	3383635डब्ल्यू	हवलदार	हरपाल सिंह	01.05.2010
1068	14256697एल	हवलदार	हरस्वरूप सिंह गूजर	01.05.2010
1069	14257092डब्ल्यू	हवलदार	हीरा सिंघा	01.06.2010
1070	14254563एन	हवलदार	हीरालाल सिंह	01.02.2010
1071	15352413के	हवलदार	हितेन्द्र पाल शर्मा	01.04.2010
1072	14257998एफ	हवलदार	इन्द्रा लाल यादव	01.07.2010
1073	15354320एन	हवलदार	ईन्गवाले सी एल	01.07.2010
1074	15354855एफ	हवलदार	जगत सिंह	01.08.2010
1075	14257076वाइ	हवलदार	जगदीश	01.06.2010
1076	14256088एफ	हवलदार	जगदीश चन्द	01.04.2010
1077	14254383एल	हवलदार	जगदीश चंद्र	01.02.2010
1078	14256491एन	हवलदार	जगदीश कुमार	01.04.2010
1079	14258334ए	हवलदार	जगदीश सिंह	01.08.2010
1080	14254864एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	01.04.2010
1081	14256073वाइ	हवलदार	जगरूप सिंह	01.04.2010
1082	14254372वाइ	हवलदार	जय भगवान सिंह	01.02.2010
1083	14255893वाइ	हवलदार	जय प्रकाश भक्ता	01.04.2010
1084	14256487एल	हवलदार	जयवीर सिंह	01.04.2010
1085	14254802एक्स	हवलदार	जनार्दन सिंह	01.02.2010
1086	15354805एल	हवलदार	जरनैल सिंह	01.08.2010
1087	14257363एच	हवलदार	जवाहर प्रसाद सिंह	01.04.2010
1088	14256277एल	हवलदार	जीत सिंह	01.04.2010
1089	14256504ए	हवलदार	जिलेदार सिंह	01.04.2010
1090	15353270एफ	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.04.2010



1091	15352090एम	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार सिंह	01.03.2010
1092	14255147डब्ल्यू	हवलदार	जोग राज	01.03.2010
1093	14256677एक्स	हवलदार	जोगेश्वर गोहीना	01.05.2010
1094	14256579एक्स	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2010
1095	14257421एफ	हवलदार	जॉन जोसफ	01.04.2010
1096	15353713एक्स	हवलदार	ज्योति कुमार जे	01.04.2010
1097	15352851एम	हवलदार	के अर्जुनन	01.04.2010
1098	14258814के	हवलदार	के जे सागा दीवान	01.08.2010
1099	15351270एच	हवलदार	के एम थिरु कुमार	01.02.2010
1100	15351867एल	हवलदार	के पी अलागर सामी	01.03.2010
1101	14254960एम	हवलदार	के पी वीश्वकर्मा	01.03.2010
1102	15354920डब्ल्यू	हवलदार	के सोनई मुथु	01.08.2010
1103	14256230ए	हवलदार	कैलाश प्रसाद	01.04.2010
1104	14255128एल	हवलदार	कमल बिहारी मिश्रा	01.03.2010
1105	14256783डब्ल्यू	हवलदार	कमल कुमार सिंह	01.05.2010
1106	14257045वाइ	हवलदार	कमलेश प्रसाद सिंह	01.06.2010
1107	14255138पी	हवलदार	कमला कांत चाउबे	01.03.2010
1108	14258578एन	हवलदार	कन्हैया पाल प्रजापति	01.08.2010
1109	14255869एच	हवलदार	कांता प्रसाद	01.04.2010
1110	15354453के	हवलदार	करनैल सिंह	01.06.2010
1111	14255022वाइ	हवलदार	केशव सिंह यादव	01.03.2010
1112	14255618वाइ	हवलदार	केवल सिंह	01.04.2010
1113	14255840ए	हवलदार	खेम चन्द	01.04.2010
1114	15351540एम	हवलदार	किरन कुमार	01.02.2010
1115	15353328एन	हवलदार	कष्णन कुमार	01.04.2010
1116	14257361एक्स	हवलदार	कष्णन नंदन तिवारी	01.04.2010
1117	4254709वाइ	हवलदार	कष्णन सिंह	01.07.2010
1118	14257249एल	हवलदार	कृष्णा कच्छी	01.07.2010
1119	14256718डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा सिंह	01.05.2010
1120	14256144पी	हवलदार	कुर्णा चंद्रा घोस	01.04.2010
1121	14255209एल	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2010
1122	15351539एक्स	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.02.2010
1123	15353137वाइ	हवलदार	कुम्भार दत्तत्रे गणपति	01.04.2010
1124	15354777पी	हवलदार	कुशाल सिंह	01.08.2010
1125	15354205एन	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.06.2010
1126	14257676एफ	हवलदार	लाल सिंह	01.05.2010
1127	14257094एफ	हवलदार	लाल सिंह गुर्जर	01.06.2010
1128	15351198एक्स	हवलदार	ललन प्रसाद सिंह	01.02.2010
1129	14257298एन	हवलदार	एम भट्टाचार्य	01.03.2010
1130	14256056वाइ	हवलदार	एम राजेन्द्रियन	01.04.2010
1131	14255819एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.04.2010

1132	14256913एन	हवलदार	माधव चंद्रा मंडल	01.06.2010
1133	15352344वाइ	हवलदार	महा सिंह जाखर	01.04.2010
1134	14257153एच	हवलदार	महादेव प्रसाद वी	01.06.2010
1135	14255617डब्ल्यू	हवलदार	एम सिंह	01.04.2010
1136	14255181डब्ल्यू	हवलदार	महेन्द्र चंद्रा भराली	01.03.2010
1137	14254492एक्स	हवलदार	महेन्द्र कुमार	01.02.2010
1138	14257209के	हवलदार	महेन्द्र नाथ	01.06.2010
1139	14256507एन	हवलदार	महेश चंद्रा यादव	01.04.2010
1140	15354131के	हवलदार	महीलाल सिंह	01.06.2010
1141	14256617एच	हवलदार	महीपाल	01.05.2010
1142	14257783एच	हवलदार	महीपाल	01.07.2010
1143	14257479वाइ	हवलदार	मान चन्द कुमार	01.07.2010
1144	15351878एक्स	हवलदार	मान एल वसंत राव	01.03.2010
1145	14257065एम	हवलदार	एम भरत लक्ष्मण	01.06.2010
1146	14258356वाइ	हवलदार	मनी कांत सिन्हा	01.08.2010
1147	15351364ए	हवलदार	मनोहर सिंह	01.02.2010
1148	14257199एल	हवलदार	मनु सिंह यादव	01.06.2010
1149	15352439वाइ	हवलदार	माता दीन	01.04.2010
1150	14254547डब्ल्यू	हवलदार	मेथु एम के	01.02.2010
1151	15353100एक्स	हवलदार	मोहम्मद जेड	01.04.2010
1152	15352216एच	हवलदार	एम जॉन पटेल	01.03.2010
1153	14254079एफ	हवलदार	मोहन सिंह	01.02.2010
1154	14256452पी	हवलदार	मोहन सिंह रावत	01.04.2010
1155	15352161एच	हवलदार	मोनी लाल सिंघा	01.03.2010
1156	15354459एल	हवलदार	मोती लाल मीना	01.07.2010
1157	15354554एक्स	हवलदार	मुकेश चन्द	01.07.2010
1158	14256202एन	हवलदार	सुरारी राम	01.04.2010
1159	14254287डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.02.2010
1160	14256717एन	हवलदार	सुरेश्वर ठाकुर	01.05.2010
1161	15354067एक्स	हवलदार	सुरेश्वर सिंह	01.06.2010
1162	14257761के	हवलदार	सुरेश्वर सिंह	01.06.2010
1163	15354457ए	हवलदार	सुरेश्वर कुमार दत्ता	01.07.2010
1164	14255856एल	हवलदार	सुरेश्वर प्रसाद शैय	01.04.2010
1165	15352450एक्स	हवलदार	सुरेश्वर कुमार शर्मा	01.04.2010
1166	15351936डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश्वर सिंह	01.03.2010
1167	15354039एल	हवलदार	सुरेश्वर सिंह नेगी	01.06.2010
1168	14257285डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.07.2010
1169	15353927एन	हवलदार	सुरेश प्रसाद तिवारी	01.06.2010
1170	14257256एफ	हवलदार	सुरेश किशोर सिंह	01.07.2010
1171	15354578एफ	हवलदार	सुरेश चंद्रा शैय	01.07.2010
1172	14256433के	हवलदार	सुरेश इस्लाम शेख	01.04.2010

1173	14257415एन	हवलदार	ओम पाल	गणतन्त्र	01.04.2010
1174	14256439एल	हवलदार	ओम प्रकाश	गणतन्त्र	01.04.2010
1175	14256262डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	गणतन्त्र	01.03.2010
1176	14255377के	हवलदार	ओमकार चन्द	गणतन्त्र	01.03.2010
1177	14254307वाइ	हवलदार	ओमपाल	गणतन्त्र	01.02.2010
1178	14257340एफ	हवलदार	पी क शीवास्तावा	गणतन्त्र	01.04.2010
1179	14251420एघ	हवलदार	पी राजा मनी	गणतन्त्र	01.04.2010
1180	14255427के	हवलदार	पगारे रवीन्द्र पी	गणतन्त्र	01.03.2010
1181	14257691डब्ल्यू	हवलदार	पंचम राम	गणतन्त्र	01.05.2010
1182	14255154एम	हवलदार	पी पांडे	गणतन्त्र	01.03.2010
1183	15351445ए	हवलदार	पयोली सुधासु एम बी	गणतन्त्र	01.02.2010
1184	14255252एम	हवलदार	पगति सिंह	गणतन्त्र	01.03.2010
1185	14256962डब्ल्यू	हवलदार	पवन कुमार	गणतन्त्र	01.06.2010
1186	15351801पी	हवलदार	पवन कुमार	गणतन्त्र	01.02.2010
1187	14263519एल	हवलदार	पीके वेकट रत्नम	गणतन्त्र	01.07.2010
1188	14255741एक्स	हवलदार	प्रदीप कुमार	गणतन्त्र	01.04.2010
1189	15354038एघ	हवलदार	प्रदीप सिंह खाती	गणतन्त्र	01.06.2010
1190	14254829पी	हवलदार	प्रदीप चंद्रा साकिया	गणतन्त्र	01.02.2010
1191	14255390एन	हवलदार	प्रदीप कुमार नाइक	गणतन्त्र	01.03.2010
1192	14254470वाइ	हवलदार	प्रहलाद गिरि	गणतन्त्र	01.02.2010
1193	15352422एल	हवलदार	प्रणब ज्योती दत्ता	गणतन्त्र	01.04.2010
1194	15353393एन	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	गणतन्त्र	01.04.2010
1195	14256811एक्स	हवलदार	पी प्रसाद	गणतन्त्र	01.06.2010
1196	15354763पी	हवलदार	पूरनमल एस	गणतन्त्र	01.08.2010
1197	14257724डब्ल्यू	हवलदार	पुरुषोत्तम कुमार सिंह	गणतन्त्र	01.06.2010
1198	14258708एल	हवलदार	आर बालाजी	गणतन्त्र	01.08.2010
1199	14257316एल	हवलदार	आर श्री कुमारन नायर	गणतन्त्र	01.03.2010
1200	15354564एफ	हवलदार	रबी गुरग	गणतन्त्र	01.07.2010
1201	14257754एन	हवलदार	रवीन्द्र कुमार पंडा	गणतन्त्र	01.06.2010
1202	14254899एन	हवलदार	राधा कण्ठन	गणतन्त्र	01.03.2010
1203	15354778एक्स	हवलदार	रघुबीर सिंह	गणतन्त्र	01.08.2010
1204	14256727एक्स	हवलदार	राज करन राय	गणतन्त्र	01.05.2010
1205	14255968एल	हवलदार	राज सिंह	गणतन्त्र	01.04.2010
1206	14254811वाइ	हवलदार	राजा शेखरन नायर बी	गणतन्त्र	01.02.2010
1207	14255311एन	हवलदार	राजबीर सिंह	गणतन्त्र	01.03.2010
1208	15352908डब्ल्यू	हवलदार	राजदेव राय	गणतन्त्र	01.04.2010
1209	14254865ए	हवलदार	राजीव	गणतन्त्र	01.02.2010
1210	14256685डब्ल्यू	हवलदार	राजेन फुकन	गणतन्त्र	01.05.2010
1211	14258034वाइ	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	गणतन्त्र	01.05.2010
1212	15352872एघ	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	गणतन्त्र	01.04.2010
1213	14258229के	हवलदार	राजेंद्रा तिवारी	गणतन्त्र	01.07.2010

1214	14254778एम	हवलदार	राजेन्द्रन के	01.02.2010
1215	15354104ए	हवलदार	राजेश कुमार तिवारी	01.06.2010
1216	14257901एल	हवलदार	राजकुमार एस	01.07.2010
1217	15353745ए	हवलदार	राजू राम हूदा	01.05.2010
1218	15352428एम	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2010
1219	15352658ए	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2010
1220	14255901एम	हवलदार	राम अवध राम	01.04.2010
1221	14258495एच	हवलदार	राम बाबू	01.08.2010
1222	15352442वाइ	हवलदार	राम करन सियाक	01.04.2010
1223	14254178के	हवलदार	राम किशन	01.02.2010
1224	14255188ए	हवलदार	राम कृष्णा रजाक	01.03.2010
1225	14255329के	हवलदार	राम नारायन	01.03.2010
1226	14256778एल	हवलदार	राम नयन	01.05.2010
1227	14256139के	हवलदार	राम निवास	01.04.2010
1228	14257116पी	हवलदार	राम निवास तिवारी	01.06.2010
1229	14255875डब्ल्यू	हवलदार	राम पाल सिंह	01.04.2010
1230	14258276एफ	हवलदार	राम पाल सिंह	01.08.2010
1231	14258200एफ	हवलदार	राम राज सिंह यादव	01.05.2010
1232	14254638ए	हवलदार	राम सिंह	01.02.2010
1233	14257496वाइ	हवलदार	राम सिंह यादव	01.07.2010
1234	14254258एफ	हवलदार	रमा कांता बोराह	01.02.2010
1235	14257771एन	हवलदार	रामआशीष चौधरी	01.06.2010
1236	15351944पी	हवलदार	रामायण प्रसाद शमा	01.03.2010
1237	14258391एफ	हवलदार	आर यादव	01.05.2010
1238	14257836डब्ल्यू	हवलदार	रामेन्द्र सिंह	01.06.2010
1239	14255790ए	हवलदार	रमेश चन्द मलिक	01.04.2010
1240	14258558ए	हवलदार	रमेश चंद्रा परीद	01.08.2010
1241	14254963ए	हवलदार	रमेश कुमार	01.03.2010
1242	15352461के	हवलदार	रमेश कुमार	01.03.2010
1243	14258484डब्ल्यू	हवलदार	रामेश्वर प्रसाद यादव	01.08.2010
1244	14256346डब्ल्यू	हवलदार	रामेश्वर सिंह यादव	01.04.2010
1245	14256414वाइ	हवलदार	रामजी तिवारी	01.04.2010
1246	14258834एक्स	हवलदार	रामऔतार	01.08.2010
1247	14254252ए	हवलदार	रामवीर	01.02.2010
1248	14256914डब्ल्यू	हवलदार	रंजन कुमार मोन्डल	01.06.2010
1249	14254442एम	हवलदार	रंजीत सिंह मीना	01.02.2010
1250	15353315डब्ल्यू	हवलदार	रंजीत चंद्रा रौय	01.04.2010
1251	14256040एन	हवलदार	रंजीत सिंह	01.04.2010
1252	14256047एक्स	हवलदार	रनवीर सिंह	01.04.2010
1253	15354702एक्स	हवलदार	रतन लाल	01.07.2010
1254	14258818ए	हवलदार	रवि कुमार आर	01.08.2010

1255	14255736एम	हवलदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	01.04.2010
1256	15351949एन	हवलदार	रवीश कुमार	01.03.2010
1257	15353810पी	हवलदार	आर नायर टी के	01.06.2010
1258	14257292एम	हवलदार	रोहन सिंह	01.03.2010
1259	14258371एन	हवलदार	रोहित कुमार महतो	01.05.2010
1260	14257229एक्स	हवलदार	रूप लाल	01.06.2010
1261	14257468एम	हवलदार	रोशन लाल	01.06.2010
1262	14256490एल	हवलदार	आर पाल सिंह	01.04.2010
1263	15351397एल	हवलदार	रुदल सिंह	01.02.2010
1264	15350683ए	हवलदार	रूप सिंह चौहान	01.08.2010
1265	14257134एक्स	हवलदार	एस बी प्रसाद यादव	01.06.2010
1266	15352801एफ	हवलदार	एस के एल अल्ली	01.04.2010
1267	14255586एफ	हवलदार	एस पी चाउरासिआ	01.04.2010
1268	14256219एफ	हवलदार	सभाजीत दुबे	01.04.2010
1269	14256747एल	हवलदार	एस कुजुर	01.05.2010
1270	15352667एफ	हवलदार	सलीमुद्दीन लश्कर	01.04.2010
1271	14257198एच	हवलदार	संजय कुमार	01.06.2010
1272	15351763के	हवलदार	सनवालिया	01.03.2010
1273	15352481एक्स	हवलदार	शशि कुमार वी	01.03.2010
1274	15352793एन	हवलदार	शशि पी वी	01.04.2010
1275	14254951एल	हवलदार	सतबीर सिंह	01.03.2010
1276	14257664एम	हवलदार	सतबीर सिंह	01.05.2010
1277	15351088एच	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2010
1278	14258464एच	हवलदार	सतीश कुमार तिवारी	01.07.2010
1279	14255983ए	हवलदार	सत्य नारायण साहू	01.02.2010
1280	14256059एम	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.04.2010
1281	14255988वाइ	हवलदार	सत्यावान	01.04.2010
1282	14255989एफ	हवलदार	सत्यविर सिंह	01.04.2010
1283	14256357एच	हवलदार	सिराज मोहम्मद खान	01.04.2010
1284	15354906के	हवलदार	शाजीमोन एम सी	01.08.2010
1285	14265949एन	हवलदार	शक्ती चन्द वर्मा	01.04.2010
1286	15353167डब्ल्यू	हवलदार	शमशेर सिंह	01.04.2010
1287	15352508के	हवलदार	शंकर बी	01.04.2010
1288	14257682पी	हवलदार	शंकर गोड़	01.05.2010
1289	15353256पी	हवलदार	शिव गंगा	01.04.2010
1290	14254182एम	हवलदार	शिव कुमार त्रिपाठी	01.02.2010
1291	14257849एन	हवलदार	शिवा चंद्रा राय	01.07.2010
1292	14255655एम	हवलदार	शिवलाल सैनी	01.04.2010
1293	14257324के	हवलदार	शिवेश्वर पांडे	01.03.2010
1294	14257473एक्स	हवलदार	श्री चंद्रा गुर्जर	01.06.2010
1295	14254368डब्ल्यू	हवलदार	श्री भगवान	01.02.2010

1296	014257380एच	हवलदार	श्री श्री निवास राय	01/04/2010
1297	014254310वाइ	हवलदार	श्याम किशोर यादव	01/02/2010
1298	014254948एल	हवलदार	श्याम लाल साह	01/03/2010
1299	014257205एन	हवलदार	श्याम नारायण यादव	01/06/2010
1300	014256052एच	हवलदार	श्याम नारायण सिंह	01/04/2010
1301	014257331ए	हवलदार	श्याम सुंदर बेहेरा	01/04/2010
1302	015353723एफ	हवलदार	सीताकान्ता कर	01/05/2010
1303	014257035पी	हवलदार	सिवा कुमार टी	01/06/2010
1304	014254795एम	हवलदार	सिवानन्धा कुमार पी वी	01/02/2010
1305	014257270एन	हवलदार	सिया राम शर्मा	01/07/2010
1306	014254325एफ	हवलदार	सोमेश्वरन एल	01/02/2010
1307	014258363पी	हवलदार	श्री बाबू सिंह	01/08/2010
1308	015354819डब्ल्यू	हवलदार	श्री भगवान	01/08/2010
1309	014254244एफ	हवलदार	सुबल चंद्रा विश्वास	01/02/2010
1310	015352349एक्स	हवलदार	सूबे सिंह	01/04/2010
1311	014256009एफ	हवलदार	सुभाष चन्द्र	01/04/2010
1312	014255143ए	हवलदार	सुभाष चन्द्र राना	01/03/2010
1313	014255652वाइ	हवलदार	सुभाष चंद्र	01/04/2010
1314	014260314एल	हवलदार	सुदाम चरण स्वेन	01/02/2010
1315	014257867ए	हवलदार	सुधीर कांता दास	01/05/2010
1316	014258393एम	हवलदार	सुधीर सिंह	01/06/2010
1317	015355034वाइ	हवलदार	सुजीत दास गुप्ता	01/08/2010
1318	014257164पी	हवलदार	सुखवीर सिंह	01/06/2010
1319	015354786डब्ल्यू	हवलदार	सुखदेव सिंह	01/08/2010
1320	015352353ए	हवलदार	सुमेर सिंह शर्मा	01/04/2010
1321	014258474एम	हवलदार	सुंदर लाल	01/07/2010
1322	015352229वाइ	हवलदार	सुंदर पाल	01/03/2010
1323	014258029एन	हवलदार	सुंदर सिंह	01/05/2010
1324	014254866एच	हवलदार	सुनील दास	01/02/2010
1325	015354953एफ	हवलदार	सुनील कुमार	01/08/2010
1326	014254986एफ	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार	01/03/2010
1327	014258648एफ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01/08/2010
1328	015354523एक्स	हवलदार	सुरेश बिहादुर सिंह	01/07/2010
1329	015353454ए	हवलदार	सुरेश चंद्रा पी	01/04/2010
1330	014258037एम	हवलदार	सुरेश कुमार	01/05/2010
1331	014256142के	हवलदार	सुरेश कुमार	01/04/2010
1332	015352762एन	हवलदार	सुरेश कुमार पी	01/04/2010
1333	014255189एच	हवलदार	सुरेश पी डी कुशवाहा	01/03/2010
1334	015354862एक्स	हवलदार	सुरेश राभा	01/08/2010
1335	014256622एन	हवलदार	सुरेश तिवारी	01/05/2010
1336	014254776एफ	हवलदार	सूरी अनिलाट	01/02/2010

1337	14256856एक्स	हवलदार	सूर्यकांत हवलदार	01.06.2010
1338	14257018पी	हवलदार	सूर्यनाथ सिंह	01.06.2010
1339	14254248एक्स	हवलदार	सुशील कुमार	01.02.2010
1340	14255200डब्ल्यू	हवलदार	स्वर्ण चन्द	01.03.2010
1341	15353062एम	हवलदार	सैयद एन	01.04.2010
1342	15354404एफ	हवलदार	टी के बालाकृष्णन	01.07.2010
1343	14256054एफ	हवलदार	तपन कुमार बेहेरा	01.03.2010
1344	14254339एफ	हवलदार	तारकेशवर सिंह	01.02.2010
1345	14256246एल	हवलदार	तरुणा सरकार	01.04.2010
1346	14254678एफ	हवलदार	था मनीहार सिंघा	01.02.2010
1347	15352822एक्स	हवलदार	तन्तलपू ए	01.04.2010
1348	15353039वाइ	हवलदार	टी प्रकाश कुमार	01.04.2010
1349	15354957एक्स	हवलदार	टी मूर्ती आर	01.08.2010
1350	14257171एल	हवलदार	शानेश्वर हज़ारिका	01.06.2010
1351	14255243एल	हवलदार	त्रिलोचन बारिक	01.03.2010
1352	15354937के	हवलदार	यू भगवान वासुदेव	01.08.2010
1353	14254743डब्ल्यू	हवलदार	उमा कांत बोरा	01.02.2010
1354	15353199वाइ	हवलदार	उमेर दीन	01.04.2010
1355	14257124एन	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.06.2010
1356	14257144एफ	हवलदार	उमेश सिंह	01.06.2010
1357	15353226एक्स	हवलदार	उन्नीर्वशन्न नायर जी.	01.04.2010
1358	15353267एफ	हवलदार	वेद प्रकाश	01.04.2010
1359	15351593एल	हवलदार	वेद प्रकाश गोस्वामी	01.02.2010
1360	14255878के	हवलदार	विद्या शंकर सिंह	01.04.2010
1361	14255313वाइ	हवलदार	विद्याधर सिंह	01.03.2010
1362	14255725ए	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2010
1363	14257988एक्स	हवलदार	विजोय कुमार	01.07.2010
1364	15351977ए	हवलदार	वीरेंद्र कुमार	01.03.2010
1365	15354292एम	हवलदार	वीरेंद्र कुमार यादव	01.07.2010
1366	15352339एन	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.04.2010
1367	15352306एच	हवलदार	वीरेंद्र सिंह यादव	01.03.2010
1368	14255287एच	हवलदार	विश्वाकर्मा यादव	01.03.2010
1369	15354228पी	हवलदार	डब्ल्यू रामदास धैरू	01.07.2010
1370	14258661एल	हवलदार	वाइ अरुण सिंघा	01.08.2010
1371	14254869डब्ल्यू	हवलदार	वाइ अपईया	01.02.2010
1372	15351423एफ	हवलदार	झाला मेघराज सिंह बी	01.02.2010
<b>गार्ड्स</b>				
1373	13688282एफ	हवलदार	अजब सिंह	01.08.2010
1374	13685577एम	हवलदार	अमनवस पाल	01.02.2010
1375	13685696एच	हवलदार	अमित कुमार वर्मा	01.02.2010

1376	13685751एन	हवलदार	अरुण कुमार	01.02.2010
1377	13688292एल	हवलदार	भानी राम	01.08.2010
1378	13686054ए	हवलदार	भीम सिंह	01.03.2010
1379	13687994एक्स	हवलदार	बी राम	01.04.2010
1380	13685982के	हवलदार	बीरेन सेकिआ	01.02.2010
1381	13686123एल	हवलदार	चंद्रा नाथ	01.04.2010
1382	13686460ए	हवलदार	दया सिंह	01.03.2010
1383	13688231एन	हवलदार	देव सिंह	01.07.2010
1384	2477495एक्स	हवलदार	धर्म पाल शर्मा	01.06.2010
1385	13685629एक्स	हवलदार	दिल बहादुर थापा	01.02.2010
1386	13688100एच	हवलदार	दुर्गपाल सिंह	01.05.2010
1387	13685929वाइ	हवलदार	गनेश्वर बारो	01.03.2010
1388	13685553एच	हवलदार	हरिपदा सिंह	01.02.2010
1389	13685930एन	हवलदार	हरीश कुमार	01.03.2010
1390	13686253एन	हवलदार	हीरा लाल	01.03.2010
1391	13686081के	हवलदार	आइ कुमार	01.02.2010
1392	13686564एफ	हवलदार	जफार मसूद	01.05.2010
1393	13687024पी	हवलदार	जगवीर	01.08.2010
1394	13686103एक्स	हवलदार	जे प्रसाद सिंह	01.02.2010
1395	13688142पी	हवलदार	करुणा शंकर तिवारी	01.06.2010
1396	13688281वाइ	हवलदार	किशणा सिंह	01.08.2010
1397	13685863एन	हवलदार	मंगल चरण	01.02.2010
1398	13686946एल	हवलदार	मोहन काथात	01.08.2010
1399	13688141एम	हवलदार	नवल किशोर पंत	01.06.2010
1400	13685775एक्स	हवलदार	नेत्रा पाल सिंह	01.02.2010
1401	13688185के	हवलदार	पवन कुमार	01.07.2010
1402	13686262पी	हवलदार	प्रेम सिंह	01.03.2010
1403	13688210एक्स	हवलदार	राम बरन सिंह	01.07.2010
1404	13687984एन	हवलदार	राम करन गुर्जर	01.02.2010
1405	13688203एफ	हवलदार	राम निवास सिंह	01.07.2010
1406	13688294डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चन्द	01.08.2010
1407	13687018एफ	हवलदार	रामेश्वर दयाल	01.08.2010
1408	13686086एच	हवलदार	रामनाथ यादव	01.02.2010
1409	13686620पी	हवलदार	ऋशिकेश	01.04.2010
1410	13688019डब्ल्यू	हवलदार	संजोय चौधरी	01.04.2010
1411	13688071वाइ	हवलदार	श्री निवास	01.05.2010
1412	13685662पी	हवलदार	सीता एस तिवारी	01.02.2010
1413	13686502एफ	हवलदार	सूबे सिंह	01.04.2010
1414	13688036डब्ल्यू	हवलदार	सुदर्शन कुमार	01.04.2010
1415	13688032ए	हवलदार	तिलक राज	01.04.2010
1416	13686798एल	हवलदार	उमेश चंद्र	01.06.2010



1417 13686084एक्स हवलदार विजय कुमार यादव 01.02.2010  
पैराशूट रेजीमेन्ट

1418	13616664पी	हवलदार	अरबिंद कुमार	01.06.2010
1419	13615516एक्स	हवलदार	भागवत सिंह	01.06.2010
1420	13616558डब्ल्यू	हवलदार	बीरपाल सिंह	01.04.2010
1421	13616702ए	हवलदार	छगन सिंह	01.07.2010
1422	13616501एफ	हवलदार	दलीप सिंह	01.02.2010
1423	13616738वाइ	हवलदार	दराग विजय सिंह	01.08.2010
1424	13615491डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल चन्द	01.05.2010
1425	13616584एक्स	हवलदार	जे सिंह	01.04.2010
1426	13616545वाइ	हवलदार	कैलाश चंद्र	01.04.2010
1427	13616539एल	हवलदार	कपूर सिंह	01.04.2010
1428	13616700पी	हवलदार	लाल चन्द	01.07.2010
1429	13615503ए	हवलदार	माधो सिंह	01.05.2010
1430	13615555डब्ल्यू	हवलदार	नारायण राम	01.06.2010
1431	13616674वाइ	हवलदार	परमेल सिंह	01.06.2010
1432	13615425एन	हवलदार	प्रभु	01.02.2010
1433	4180605ए	हवलदार	राम ए यादव	01.02.2010
1434	13616722एन	हवलदार	राम चंद्रा	01.08.2010
1435	13616629एम	हवलदार	रमेश कुमार	01.05.2010
1436	13615469एल	हवलदार	रामेश्वर दास	01.04.2010
1437	13615660एम	हवलदार	रामेश्वर लाल	01.07.2010
1438	13615710एम	हवलदार	रंजु गुरंग	01.08.2010
1439	13615723के	हवलदार	संकर दास	01.08.2010
1440	13616589डब्ल्यू	हवलदार	शीश राम	01.04.2010
1441	13615540एन	हवलदार	श्री प्रहलाद सिंह तोमर	01.06.2010
1442	13616530डब्ल्यू	हवलदार	सुलेन्द्र पाल	01.03.2010
1443	5751423एक्स	हवलदार	दुल बहादुर थापा	01.08.2010
1444	13616625डब्ल्यू	हवलदार	उमेश नाथ	01.05.2010
1445	13616605एच	हवलदार	वी राम विश्नोई	01.05.2010
1446	13688070डब्ल्यू	हवलदार	यशपाल सिंह	01.05.2010

**मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट**

1447	14912120एक्स	हवलदार	आनंद कुमार	01.03.2010
1448	14912650एम	हवलदार	एवी नगेन्द्रा कुमार	01.06.2010
1449	14911657के	हवलदार	बाबू नंदन यादव	01.03.2010
1450	14911788पी	हवलदार	बैरसंतर सिंह	01.03.2010
1451	14911500के	हवलदार	भरत भूषण यादव	01.02.2010
1452	14912249एल	हवलदार	बिजया कुमार बेहेरा	01.04.2010
1453	14911660के	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार पंडा	01.03.2010

1454	14914095एच	हवलदार	बूदद दियो	01.08.2010
1455	14911467एक्स	हवलदार	सी मोती राम के भाई	01.02.2010
1456	14912930ए	हवलदार	चंद्रा भानु के पी	01.07.2010
1457	14914088एम	हवलदार	डी. त्यागराजन	01.07.2010
1458	14911760पी	हवलदार	डी. प्रसाद यादव	01.03.2010
1459	14914115एल	हवलदार	देबा हरी जैना	01.08.2010
1460	14913976पी	हवलदार	धन बहादुर	01.02.2010
1461	14913047डब्ल्यू	हवलदार	धर्मबीर सिंह	01.08.2010
1462	14913969वाइ	हवलदार	जी. कोडंडा राव	01.02.2010
1463	14914057एम	हवलदार	गंगा सिंह नायल	01.06.2010
1464	14912408एक्स	हवलदार	गोनेश बरुयह	01.04.2010
1465	14912541ए	हवलदार	गोपाल कृष्णा कुरुप वी	01.05.2010
1466	14913974के	हवलदार	गौरांग चरण साहू	01.02.2010
1467	14911570एच	हवलदार	हरन दास	01.02.2010
1468	14912383डब्ल्यू	हवलदार	हरदीप सिंह	01.04.2010
1469	14912632के	हवलदार	हरदीप सिंह	01.06.2010
1470	14911528के	हवलदार	हीरामन महतो	01.02.2010
1471	14912967एफ	हवलदार	इन्द्रा बहादुर थापा	01.07.2010
1472	14912572ए	हवलदार	इन्द्रा भानु पटेल	01.05.2010
1473	14912356एम	हवलदार	जे सिंह	01.04.2010
1474	2983343पी	हवलदार	जय पाल	01.02.2010
1475	14912671एच	हवलदार	जसबीर सिंह	01.06.2010
1476	14912545डब्ल्यू	हवलदार	कालू राम	01.02.2010
1477	14911520एक्स	हवलदार	कर्मा ओरान	01.02.2010
1478	14912800एक्स	हवलदार	के किशोर सिंह	01.07.2010
1479	14912071ए	हवलदार	केश बहादुर थापा	01.03.2010
1480	14913027एच	हवलदार	के राम जानी	01.04.2010
1481	14914001ए	हवलदार	किशन सिंह	01.05.2010
1482	14914111पी	हवलदार	एल अर्जुन	01.08.2010
1483	14911891ए	हवलदार	एम सिंह यादव	01.03.2010
1484	14911981एफ	हवलदार	महेश प्रसाद	01.03.2010
1485	14913070के	हवलदार	मेहर चन्द यादव	01.08.2010
1486	14912640एच	हवलदार	मेहर सिंह	01.06.2010
1487	14912774एफ	हवलदार	मोहन लाल प्रसाद पटेल	01.07.2010
1488	14911736वाइ	हवलदार	नवल किशोर सिंह	01.03.2010
1489	14912542एच	हवलदार	नेम चंद्रा	01.05.2010
1490	14911960एल	हवलदार	निम बहादुर राना	01.03.2010
1491	14912794पी	हवलदार	ओम प्रकाश	01.07.2010
1492	14911461डब्ल्यू	हवलदार	पी ए एस चंद्रा सिंह	01.02.2010
1493	14911896वाइ	हवलदार	परिमल चंद्रा राय	01.03.2010
1494	14912460ए	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.05.2010

1495	14914060एम	हवलदार	प्रभु यादव	01.06.2010
1496	14913036के	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.08.2010
1497	14912459एल	हवलदार	प्रकाश सिंह नेगी	01.04.2010
1498	14911758एक्स	हवलदार	रबीन्द्र सिंह	01.03.2010
1499	2986072एन	हवलदार	राज कुमार	01.08.2010
1500	14913114डब्ल्यू	हवलदार	राम किशन	01.08.2010
1501	14912343पी	हवलदार	राम निवास	01.04.2010
1502	14913000एल	हवलदार	राम विलास यादव	01.08.2010
1503	14913972वाइ	हवलदार	रामाश्रय सिंह यादव	01.02.2010
1504	14912731एम	हवलदार	रामदेव सिंह रावत	01.06.2010
1505	14911728ए	हवलदार	रमेश रौय	01.03.2010
1506	14911665एच	हवलदार	रामेश्वर यादव	01.03.2010
1507	2983560एल	हवलदार	रण सिंह	01.02.2010
1508	14912190डब्ल्यू	हवलदार	रनबीर चन्द	01.03.2010
1509	14911881डब्ल्यू	हवलदार	रंजन सी	01.03.2010
1510	14913104एम	हवलदार	रतन लाल पारीक	01.08.2010
1511	14912425एक्स	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.04.2010
1512	14912928एच	हवलदार	रोहताश सिंह	01.07.2010
1513	14912022एक्स	हवलदार	रोमेश सिंह	01.03.2010
1514	14912966वाइ	हवलदार	एस कनागा राज	01.07.2010
1515	14914043एम	हवलदार	समीर तरफदार	01.06.2010
1516	14912443ए	हवलदार	सरवेन्द्रा प्रसाद	01.04.2010
1517	14911598एच	हवलदार	सत्येन्द्र राम	01.02.2010
1518	14912935वाइ	हवलदार	शाजी एन	01.07.2010
1519	14911675एम	हवलदार	शिवपुजन राउत	01.03.2010
1520	14911678ए	हवलदार	शिव कुमार यादव	01.03.2010
1521	14912336वाइ	हवलदार	श्याम बिहारी राय	01.04.2010
1522	14912991एक्स	हवलदार	एस सिंघा	01.07.2010
1523	14912607एल	हवलदार	सोन पाल सिंह	01.06.2010
1524	14912109एक्स	हवलदार	सुल्तान सिंह	01.03.2010
1525	14914052एन	हवलदार	सुनील प्रसाद सिंह	01.06.2010
1526	14912367वाइ	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.04.2010
1527	14912885वाइ	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.07.2010
1528	14912752एच	हवलदार	सुरेश कुमार	01.07.2010
1529	13700387ए	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.05.2010
1530	14914024एफ	हवलदार	तपन कान्ति घोष	01.06.2010
1531	14911790एम	हवलदार	तेज सिंह	01.03.2010
1532	14912375एक्स	हवलदार	थंकाचन्न आर	01.04.2010
1533	14914015ए	हवलदार	तिलक धारी	01.05.2010
1534	14911983एम	हवलदार	उदयवीर सिंह	01.03.2010
1535	14912075डब्ल्यू	हवलदार	उमेश प्रसाद यादव	01.03.2010

1536	14911953पी	हवलदार	वेद प्रकाश पांडे	01.03.2010
1537	14914105एफ	हवलदार	विजय सिंह	01.08.2010
1538	14911903के	हवलदार	विनोद कुमार सिंह	01.04.2010
<b>पंजाब रेजीमेंट</b>				
1539	2477169पी	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.02.2010
1540	2478816डब्ल्यू	हवलदार	अवतार सिंह	01.05.2010
1541	2477337एच	हवलदार	बी आर रेडी	01.04.2010
1542	2477357डब्ल्यू	हवलदार	बख्शीश सिंह	01.04.2010
1543	2477016एल	हवलदार	बाल कषणन	01.02.2010
1544	2476990के	हवलदार	छोटे लाल	01.02.2010
1545	2477345एफ	हवलदार	चुनी लाल डोगरा	01.04.2010
1546	2477397एक्स	हवलदार	दर्शन लाल	01.04.2010
1547	2477432पी	हवलदार	धर्मबीर सिंह	01.05.2010
1548	2478706एफ	हवलदार	ध्यान सिंह	01.02.2010
1549	2478822के	हवलदार	गुरदीप सिंह	01.05.2010
1550	2478955ए	हवलदार	जसपाल सिंह	01.08.2010
1551	2477182वाइ	हवलदार	कमलजीत	01.02.2010
1552	2477124पी	हवलदार	कर्म चन्द	01.02.2010
1553	2477197एफ	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.02.2010
1554	2478719वाइ	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.03.2010
1555	2477648डब्ल्यू	हवलदार	एम अन्नप्पा लक्ष्मन	01.08.2010
1556	2477646एल	हवलदार	एमजी पिल्लई	01.08.2010
1557	2477015एच	हवलदार	नंदन राम	01.02.2010
1558	2478870के	हवलदार	परमजीत सिंह	01.06.2010
1559	2477255ए	हवलदार	परवीन्दर सिंह	01.03.2010
1560	2476999वाइ	हवलदार	प्रेम चन्द	01.02.2010
1561	2477518एन	हवलदार	प्रीत पाल सिंह एसएम	01.06.2010
1562	2477107पी	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.02.2010
1563	2478894एन	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.07.2010
1564	2477242एच	हवलदार	रशपाल सिंह	01.02.2010
1565	2477053वाइ	हवलदार	रवि कुमार	01.02.2010
1566	2478862एल	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.06.2010
1567	2478847डब्ल्यू	हवलदार	रूप सिंह	01.06.2010
1568	2477220के	हवलदार	सर्बजीत सिंह	01.02.2010
1569	2478967पी	हवलदार	श्रवण सिंह	01.08.2010
1570	2477077एच	हवलदार	शाम लाल शर्मा	01.02.2010
1571	2477451ए	हवलदार	सुशील कुमार	01.05.2010
1572	2476976एक्स	हवलदार	उत्तातम सिंह	01.02.2010
1573	2477006एफ	हवलदार	विजय पाल सिंह	01.02.2010

मद्रास रेजीमेन्ट

1574	2590940वाइ	हवलदार	अनिल कुमार पीसी	01.05.2010
1575	2590935एन	हवलदार	अनिल कुमार एस	01.05.2010
1576	2591282के	हवलदार	बी प्रसाद	01.08.2010
1577	2590749एक्स	हवलदार	बासप्पा एम	01.03.2010
1578	2590804एच	हवलदार	बसवराज चोगले	01.04.2010
1579	2591058एक्स	हवलदार	बोद्धू नागोस्वर रात्र	01.06.2010
1580	15107290एम	हवलदार	डी. रवि	01.02.2010
1581	2590576एल	हवलदार	देवेन्द्रन सी	01.03.2010
1582	2590796पी	हवलदार	गिरि गोड़ा पाटिल	01.04.2010
1583	2590665के	हवलदार	गुजाला एस	01.03.2010
1584	2591155पी	हवलदार	एच विशेश्वर राव	01.08.2010
1585	2590564डब्ल्यू	हवलदार	जे तमिल सेलवन	01.03.2010
1586	2590546एन	हवलदार	जैकब जे	01.02.2010
1587	2590619पी	हवलदार	जयप्रकश	01.03.2010
1588	3987829एन	हवलदार	जॉन टीके	01.07.2010
1589	2588058एम	हवलदार	के गणेशन	01.05.2010
1590	2591217के	हवलदार	के मुथुसामी	01.08.2010
1591	2591101एन	हवलदार	के सत्या मूर्ती	01.07.2010
1592	2591009पी	हवलदार	के शण्मुगमै	01.06.2010
1593	2590691एल	हवलदार	के सुब्रामन्यम	01.03.2010
1594	2591050एल	हवलदार	के सत्यनारायना	01.06.2010
1595	2590764एम	हवलदार	के मोलाली	01.03.2010
1596	2590887वाइ	हवलदार	के कटेरिया	01.04.2010
1597	2590912एम	हवलदार	के वी सूर्यनारायण	01.04.2010
1598	2591000ए	हवलदार	एल गोड़	01.06.2010
1599	2591048एन	हवलदार	एम पेरुमल	01.06.2010
1600	2590611एच	हवलदार	मदिराला पुल्लैह	01.03.2010
1601	2476964एच	हवलदार	मान सरीफ एस	01.02.2010
1602	2591307एल	हवलदार	मारिया पांडि	01.08.2010
1603	2590537एम	हवलदार	मुरलीधरन नायर बी	01.02.2010
1604	2590649एम	हवलदार	मुरुगेशन टी	01.03.2010
1605	25911276डब्ल्यू	हवलदार	एन बाला वेंकट रेडी	01.08.2010
1606	2591299एक्स	हवलदार	एन गोविंदस्वामी	01.08.2010
1607	2590903एल	हवलदार	नारायनन कुट्टी ए	01.04.2010
1608	2590651के	हवलदार	पी कुमार	01.03.2010
1609	2590655ए	हवलदार	पी मुनिरथनम	01.03.2010
1610	2591278एफ	हवलदार	पी रेगनातन	01.08.2010
1611	2590598के	हवलदार	पद्माभन एमसी	01.03.2010
1612	2590861एच	हवलदार	पांडि डी. राव	01.04.2010

1613	2590559एल	हवलदार	पनीर सेलवम पी	01.03.2010
1614	2591257एल	हवलदार	पवार सुनील बाबन	01.08.2010
1615	2590561एच	हवलदार	पेरियप्पा सी	01.03.2010
1616	2590633एफ	हवलदार	प्रबात के.एम	01.03.2010
1617	2590527एच	हवलदार	प्रेम कुमार आर	01.02.2010
1618	2590692एन	हवलदार	आर गोविंदस्वामी	01.03.2010
1619	2590738एल	हवलदार	आर रघु	01.03.2010
1620	2590705ए	हवलदार	राधाकृष्ण नायर केजी	01.03.2010
1621	2591199एम	हवलदार	रगुपथी एस	01.08.2010
1622	2588728एच	हवलदार	राजन नायक	01.06.2010
1623	2590511एक्स	हवलदार	राजीव जी.	01.02.2010
1624	2590498वाइ	हवलदार	राम किशोर यादव	01.02.2010
1625	2590943एम	हवलदार	राम कृष्णापाल	01.05.2010
1626	2591212एल	हवलदार	एस अब्दुल मलिक	01.08.2010
1627	2590525एक्स	हवलदार	एस जॉन नैल्सन राजाकुमार	01.02.2010
1628	2588255पी	हवलदार	एस उलागनाथन	01.06.2010
1629	2590968वाइ	हवलदार	शेक रफी अहम्मद	01.06.2010
1630	2591111एक्स	हवलदार	एस कुमार रौय	01.07.2010
1631	2590821एच	हवलदार	एस पिल्लई आर	01.04.2010
1632	2588649एन	हवलदार	स्टीफेनसन वी	01.08.2010
1633	2587884ए	हवलदार	सुभा चन्द	01.05.2010
1634	2590726डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार एम	01.03.2010
1635	2590746के	हवलदार	सुरेश पी	01.03.2010
1636	2591061एक्स	हवलदार	सैयद महारुब बाशा	01.06.2010
1637	2591305ए	हवलदार	टी थिरुपाथिहाह	01.08.2010
1638	2590517वाइ	हवलदार	यू मनोहरन	01.02.2010
1639	2590621एम	हवलदार	उन्नीकृष्णा पिल्लई के	01.03.2010
1640	2590759एफ	हवलदार	वी गोविन्द राजन	01.03.2010
1641	2591067वाइ	हवलदार	वी मनोगरन	01.07.2010
1642	2588029एक्स	हवलदार	विजयाकुमारन उन्निथन बी	01.05.2010
1643	2591017एन	हवलदार	वी फिलिप	01.06.2010
1644	2591214डब्ल्यू	हवलदार	वाइ नगेन्द्रा बाबू	01.08.2010

ग्रेनेडियर्स

1645	2680602एच	हवलदार	अभियाश सिंह	01.05.2010
1646	2680744ए	हवलदार	अमर नाथ	01.07.2010
1647	2679406डब्ल्यू	हवलदार	अमर सिंह	01.07.2010
1648	2680476एफ	हवलदार	अमित कुमार विश्वास	01.03.2010
1649	13967958के	हवलदार	बाबू लाल	01.05.2010
1650	2678798एच	हवलदार	बलवंत सिंह	01.02.2010
1651	2678951एन	हवलदार	बिशन सिंह	01.03.2010

1652	2680480के	हवलदार	सी चार्लस	01.04.2010
1653	2680482पी	हवलदार	चीना सुब्बा रेडी वी	01.04.2010
1654	2678839एफ	हवलदार	धर्मबीर सिंह	01.03.2010
1655	2679527एक्स	हवलदार	गिरि राज सिंह	01.08.2010
1656	2680647एच	हवलदार	गोकुला चंद्रा जी.	01.06.2010
1657	2680458वाइ	हवलदार	हरी बख्श	01.02.2010
1658	2680782डब्ल्यू	हवलदार	काना काथात	01.08.2010
1659	2680805एम	हवलदार	कनक डेका	01.08.2010
1660	2680544के	हवलदार	केशो सिंह यादव	01.05.2010
1661	2680479पी	हवलदार	कष्णन कुमार	01.03.2010
1662	2680792ए	हवलदार	कष्णन प्रकाश सिंह	01.08.2010
1663	2679270एक्स	हवलदार	कृष्णन उन्नी	01.06.2010
1664	2678909पी	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2010
1665	2680779डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.07.2010
1666	2680637वाइ	हवलदार	एल कुमार	01.06.2010
1667	2680546पी	हवलदार	महेन्द्र यादव	01.05.2010
1668	2679216के	हवलदार	मोहम्मद अनीस	01.06.2010
1669	2679463एक्स	हवलदार	मुमताज अली खान	01.07.2010
1670	2680785के	हवलदार	नन्द किशोर सिंह	01.08.2010
1671	2680677ए	हवलदार	नसीब दास	01.06.2010
1672	2680727ए	हवलदार	पप्पू लाल	01.07.2010
1673	2680696एल	हवलदार	परभू राम	01.06.2010
1674	2680755एम	हवलदार	पवन कुमार	01.07.2010
1675	2678908एम	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.03.2010
1676	2678924के	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.03.2010
1677	2680473एन	हवलदार	राम धनी चौधरी	01.03.2010
1678	2679442एफ	हवलदार	राम स्वरूप	01.02.2010
1679	2680483एक्स	हवलदार	रमेश राम	01.04.2010
1680	2679136एम	हवलदार	रण बीर सिंह	01.04.2010
1681	2680841एक्स	हवलदार	रनवीर सिंह	01.08.2010
1682	2680743एक्स	हवलदार	राश पाल सिंह	01.07.2010
1683	2680636डब्ल्यू	हवलदार	रतन लाल	01.06.2010
1684	2680714एच	हवलदार	रूप सिंह	01.07.2010
1685	2679022एफ	हवलदार	रोशन लाल	01.04.2010
1686	2679192एल	हवलदार	एस लाल	01.05.2010
1687	2680746एल	हवलदार	एस सिंह	01.07.2010
1688	2680664एच	हवलदार	सतीश कुमार	01.06.2010
1689	2680503ए	हवलदार	शक्ती दान	01.04.2010
1690	2679664डब्ल्यू	हवलदार	शंकर लाल शर्मा	01.08.2010
1691	2680814एन	हवलदार	शशि बहादुर के	01.08.2010
1692	2679673एक्स	हवलदार	शशि कांत सिंह	01.08.2010

1693	2680778एन	हवलदार	श्याम सिंह सारंग डी.	01.07.2010
1694	2678818एल	हवलदार	सुंदर लाल	01.02.2010
1695	2680570एल	हवलदार	उमेद सिंह	01.05.2010
1696	13967966एच	हवलदार	वी गोपालन	01.05.2010
1697	2680507डब्ल्यू	हवलदार	वीर सिंह	01.05.2010
1698	2678734एक्स	हवलदार	वी शर्मा	01.02.2010
1699	2680715एल	हवलदार	विश्वा नाथ	01.07.2010

### मराठा लघु सेना

1700	2780540एच	हवलदार	अजय कुमार किस्कु	01.07.2010
1701	2783038वाइ	हवलदार	बिजया कुमार बारिक	01.08.2010
1702	2782589एक्स	हवलदार	देशमुख काका एस	01.02.2010
1703	2779992वाइ	हवलदार	फ्रांसेस डेनिअल डी. सूजा	01.03.2010
1704	2782618एफ	हवलदार	गालान्दे बी एम	01.02.2010
1705	2782615एन	हवलदार	काड पांडुरंग बाला	01.02.2010
1706	2783021एल	हवलदार	कदम सुनील शंकर	01.08.2010
1707	2782777वाइ	हवलदार	कनासे हिम्मत बाजीराव	01.03.2010
1708	2782553वाइ	हवलदार	मारुति रघुनाथ देसे	01.02.2010
1709	2780203एन	हवलदार	पी सूर्यकांत टी	01.04.2010
1710	2780564एम	हवलदार	राम भगत	01.07.2010
1711	2782708एच	हवलदार	सिद्धाप्या	01.02.2010
1712	2782544एक्स	हवलदार	एस मल्लीनाथ वी	01.02.2010
1713	2780499एक्स	हवलदार	तानाजी श्यामराव बी	01.07.2010

### राजपूताना राईफल्स

1714	2983324के	हवलदार	बाबू सिंह	01.02.2010
1715	2883427एन	हवलदार	भगवान दास	01.03.2010
1716	2985893डब्ल्यू	हवलदार	भाना राम	01.06.2010
1717	2883412एल	हवलदार	भंवर सिंह	01.03.2010
1718	2883840के	हवलदार	बी कुमार	01.07.2010
1719	2881291डब्ल्यू	हवलदार	चन्दन सिंह मरतिया	01.02.2010
1720	2881410एफ	हवलदार	चिमन सिंह	01.03.2010
1721	2883599एच	हवलदार	चुना राम डी.	01.05.2010
1722	2883405पी	हवलदार	दिगम्बर सिंह	01.03.2010
1723	2883519ए	हवलदार	हरबीर सिंह	01.04.2010
1724	2883368एम	हवलदार	इंदराज सिंह	01.02.2010
1725	2881954डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश सिंह	01.07.2010
1726	2884575एल	हवलदार	जस्मत	01.04.2010
1727	2883956ए	हवलदार	जयराज सिंह	01.08.2010
1728	2883928एन	हवलदार	जेठा राम चौधरी	01.07.2010
1729	3987803वाइ	हवलदार	जोगेंद्र सिंह	01.06.2010



1730	3987466पी	हवलदार	कंवर पाल	01.05.2010
1731	2883468एक्स	हवलदार	करन सिंह	01.04.2010
1732	2884669एच	हवलदार	कष्णन सिंह	01.05.2010
1733	2883305के	हवलदार	कुजू राम	01.02.2010
1734	2883523एच	हवलदार	महेन्द्र सिंह आर	01.04.2010
1735	2883932डब्ल्यू	हवलदार	माला राम सियाग	01.07.2010
1736	2881825डब्ल्यू	हवलदार	मान सिंह	01.06.2010
1737	2883783एन	हवलदार	मोहम्मद एस	01.06.2010
1738	2881460एम	हवलदार	यू मनोहरन	01.03.2010
1739	2883291पी	हवलदार	मुन्ना लाल एसएम	01.02.2010
1740	2882047एच	हवलदार	आर जगन नाथन	01.08.2010
1741	2883316डब्ल्यू	हवलदार	आर सिंह	01.02.2010
1742	2881570एफ	हवलदार	राम मेहर	01.04.2010
1743	13967631एल	हवलदार	रमेश	01.04.2010
1744	2883450एफ	हवलदार	रनबीर सिंह	01.04.2010
1745	2881642ए	हवलदार	रविन्द्र सिंह	01.05.2010
1746	2883781एच	हवलदार	आर अहमद	01.06.2010
1747	2883721एन	हवलदार	साजन कुमार थोलिया	01.06.2010
1748	2883775पी	हवलदार	समरजीत सिंह	01.06.2010
1749	2883914एन	हवलदार	सरदार सिंह	01.07.2010
1750	2881911एफ	हवलदार	सतबीर सिंह	01.07.2010
1751	2882489एफ	हवलदार	सतीश कुमार सिंह	01.03.2010
1752	2883850एन	हवलदार	शिव लाल	01.07.2010
1753	2883769एफ	हवलदार	एस कुमार	01.06.2010
1754	2882114एच	हवलदार	सुबाष सिंह यादव	01.08.2010
1755	2883693एम	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2010
1756	2883563के	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार राना	01.05.2010
1757	2881405डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2010
1758	2883571एच	हवलदार	तेजा राम के	01.05.2010
1759	2883828एच	हवलदार	तेजबीर सिंह	01.06.2010
1760	2883313एच	हवलदार	विरेंद्र सिंह	01.02.2010

**राजपूत रेजीमेन्ट**

1761	2984462एक्स	हवलदार	अजय पाल सिंह	01.06.2010
1762	2985801वाइ	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2010
1763	2985925एन	हवलदार	अंजनी कुमार सिंह	01.06.2010
1764	2986086एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.08.2010
1765	2984539पी	हवलदार	भंवर सिंह	01.08.2010
1766	2985824ए	हवलदार	देव करन	01.05.2010
1767	2984414एक्स	हवलदार	देव करन गूजर	01.07.2010
1768	2985873एच	हवलदार	देव राज	01.05.2010

1769	2985987एन	हवलदार	धूप सिंह गुर्जर	01.07.2010
1770	2985810ए	हवलदार	गजेन्द्र सिंह तोमर	01.04.2010
1771	2985957डब्ल्यू	हवलदार	गजराज सिंह	01.06.2010
1772	2984299एच	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.05.2010
1773	2985953ए	हवलदार	एच पी एस सैंगर	01.06.2010
1774	2985911एन	हवलदार	हरी शंकर सिंह	01.06.2010
1775	2985832वाइ	हवलदार	जे एस कुशवाह	01.05.2010
1776	2985978एम	हवलदार	जाले सिंह	01.07.2010
1777	2984446ए	हवलदार	कप्तान सिंह	01.07.2010
1778	2985878एफ	हवलदार	कृष्णा कुमार सिंह	01.05.2010
1779	3386398एच	हवलदार	कुंदन सिंह	01.03.2010
1780	2986067एच	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.08.2010
1781	2985866एम	हवलदार	एम एस चौहान	01.05.2010
1782	2984460एम	हवलदार	मुनेश्वर सिंह	01.06.2010
1783	2985929के	हवलदार	नरेश सिंह	01.06.2010
1784	2983905एफ	हवलदार	नसीर अहमद	01.03.2010
1785	2985999एच	हवलदार	निर्भय सिंह	01.07.2010
1786	2985760ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.02.2010
1787	2984185एक्स	हवलदार	प्रेम चन्द	01.04.2010
1788	2985780एन	हवलदार	प्रेम चंद्रा	01.04.2010
1789	2986126के	हवलदार	आर बी एस भदोरिया	01.08.2010
1790	2985845डब्ल्यू	हवलदार	राम नाथ गुर्जर	01.05.2010
1791	2985843एल	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.05.2010
1792	2984015एन	हवलदार	आर प्रसाद	01.04.2010
1793	2984401ए	हवलदार	साजन कुमार	01.07.2010
1794	2986048एक्स	हवलदार	सेवा राम	01.08.2010
1795	2983669एल	हवलदार	एस मियां	01.03.2010
1796	2984315पी	हवलदार	सुरेश कुमार	01.06.2010
1797	2985762एल	हवलदार	विक्रम बहादुर सिंह	01.02.2010

**जाट रेजीमेन्ट**

1798	3178409एल	हवलदार	अमर सिंह	01.07.2010
1799	15108297एच	हवलदार	आशीश चंद्रा ओझा	01.03.2010
1800	3179410एम	हवलदार	बिर्मा राम	01.02.2010
1801	3179776के	हवलदार	भंवर लाल	01.08.2010
1802	3179714के	हवलदार	भ्रम पाल	01.07.2010
1803	3179409एक्स	हवलदार	बिजय सिंह	01.02.2010
1804	3178332एन	हवलदार	चैना राम	01.06.2010
1805	3179518के	हवलदार	चंद्र सिंह	01.05.2010
1806	3179583के	हवलदार	छोटू राम	01.06.2010
1807	3179000डब्ल्यू	हवलदार	डी. पी शुक्ला	01.04.2010

1808	3179601एफ	हवलदार	दिलावर सिंह	01.06.2010
1809	3178062के	हवलदार	गज राज	01.03.2010
1810	3179764पी	हवलदार	जीवन राम	01.08.2010
1811	3179718ए	हवलदार	कप्तान	01.07.2010
1812	3179569एक्स	हवलदार	कर्मवीर सिंह	01.06.2010
1813	3179540पी	हवलदार	कष्णन लाल	01.05.2010
1814	3179833ए	हवलदार	कष्णन सिंह	01.08.2010
1815	3179645वाइ	हवलदार	लक्ष्मी दत्त जोशी	01.06.2010
1816	3179445एच	हवलदार	एम राम जाट	01.03.2010
1817	3179809के	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.08.2010
1818	3178235डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.06.2010
1819	3179862पी	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.08.2010
1820	3179474एक्स	हवलदार	मल्खान सिंह	01.04.2010
1821	3179506ए	हवलदार	मान सिंह	01.05.2010
1822	3179536एम	हवलदार	मवासी राम	01.05.2010
1823	3178084एच	हवलदार	नयन पाल सिंह	01.04.2010
1824	3179881ए	हवलदार	प्रभु नंदन साही	01.08.2010
1825	3179836एन	हवलदार	प्रेम सिंह	01.08.2010
1826	3179830एम	हवलदार	प्रीतम चन्द	01.08.2010
1827	3179591एच	हवलदार	आर जया संकर	01.06.2010
1828	3177808एच	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.02.2010
1829	3179534एफ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.05.2010
1830	3179404वाइ	हवलदार	राजेश कुमार	01.02.2010
1831	3179786एन	हवलदार	रकम सिंह	01.08.2010
1832	3179466वाइ	हवलदार	राम किशन	01.04.2010
1833	3179611एल	हवलदार	राम निवास	01.06.2010
1834	3179827एम	हवलदार	राम निवास	01.08.2010
1835	3179598एम	हवलदार	राम पाल सिंह	01.06.2010
1836	3179705एच	हवलदार	साधु राम नैन	01.07.2010
1837	3179559एन	हवलदार	श्याम सिंह	01.05.2010
1838	3179677एफ	हवलदार	सूबे सिंह	01.07.2010
1839	3179469एम	हवलदार	सुखपाल सिंह	01.04.2010
1840	3179762के	हवलदार	सूरज भान	01.08.2010
1841	3179832एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा	01.08.2010
1842	3177880वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.03.2010
1843	3179781पी	हवलदार	उमेश कैमार	01.08.2010
1844	3179508ए	हवलदार	वी लाल जाट	01.05.2010
1845	3179839एफ	हवलदार	विजय पाल	01.08.2010
1846	3179761एफ	हवलदार	वकील	01.08.2010

सिख रेजीमेन्ट

1847	3386164वाइ	हवलदार	बहादुर	01.02.2010
1848	3386452एल	हवलदार	बलदेव सिंह	01.05.2010
1849	3386450ए	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2010
1850	3386703के	हवलदार	दनेश सिंह	01.07.2010
1851	3382876के	हवलदार	दिलावर सिंह	01.02.2010
1852	3386287एल	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.02.2010
1853	3386409के	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
1854	3382930एम	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.03.2010
1855	3386656एक्स	हवलदार	जीत सिंह	01.07.2010
1856	3386521डब्ल्यू	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.05.2010
1857	3386224एच	हवलदार	करतार सिंह	01.02.2010
1858	3382879एक्स	हवलदार	कैरोधर	01.02.2010
1859	3386306एल	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.03.2010
1860	3386212एन	हवलदार	मधुकर के सरदार	01.02.2010
1861	3386728डब्ल्यू	हवलदार	महातम सिंह	01.08.2010
1862	3386276वाइ	हवलदार	माखन सिंह	01.02.2010
1863	3383497ए	हवलदार	मेहरू राम	01.04.2010
1864	3382864पी	हवलदार	रतन चन्द	01.02.2010
1865	3386729वाइ	हवलदार	आर सिंह	01.08.2010
1866	3386739एच	हवलदार	सैलेन्द्रा सरकार	01.08.2010
1867	3386679वाइ	हवलदार	एस सिंह	01.07.2010
1868	3386617वाइ	हवलदार	सोहन सिंह	01.06.2010
1869	3383215डब्ल्यू	हवलदार	सुदामा भगत	01.03.2010
1870	3386298एक्स	हवलदार	एस राम	01.02.2010
1871	3386456एफ	हवलदार	सुखपाल सिंह	01.05.2010
1872	3383314वाइ	हवलदार	सुशील कुमार सिंह	01.04.2010
1873	3386716एफ	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2010
1874	3386704एम	हवलदार	विनोद कुमार	01.07.2010

सिख लघु पैदल सेना

1875	13966788वाइ	हवलदार	आशा राम	01.02.2010
1876	4466781एल	हवलदार	अवतार सिंह	01.04.2010
1877	4466906एक्स	हवलदार	बहादुर सिंह	01.04.2010
1878	4466833डब्ल्यू	हवलदार	बलबीर सिंह	01.04.2010
1879	4466662पी	हवलदार	बलजीत सिंह	01.04.2010
1880	4466920के	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.04.2010
1881	4466776ए	हवलदार	बी सिंह	01.04.2010
1882	4464225डब्ल्यू	हवलदार	भाग सिंह	01.02.2010
1883	4467172एन	हवलदार	भुपिन्द्र सिंह	01.05.2010

1884	4466701एच	हवलदार	बीरपाल सिंह	01.04.2010
1885	4466809ए	हवलदार	चरनजीत सिंह	01.04.2010
1886	4466598एच	हवलदार	दरबारा सिंह	01.04.2010
1887	4466428वाइ	हवलदार	दर्शन सिंह	01.02.2010
1888	4464185ए	हवलदार	धर्म सिंह	01.02.2010
1889	4467205एन	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.08.2010
1890	4464262के	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.03.2010
1891	4466624वाइ	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
1892	4466551एक्स	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.03.2010
1893	4466779एन	हवलदार	हंस राज	01.04.2010
1894	4467045वाइ	हवलदार	हरदम सिंह	01.04.2010
1895	4466632एक्स	हवलदार	हरजिन्द्र सिंह	01.04.2010
1896	4466527एफ	हवलदार	हरमेल सिंह	01.03.2010
1897	4466497पी	हवलदार	हरपाल सिंह	01.03.2010
1898	4466541एन	हवलदार	इश्वर चंद्रा बेहेरा	01.03.2010
1899	4466653एन	हवलदार	जे सिंह	01.04.2010
1900	4464170एक्स	हवलदार	जंगा सिंह	01.02.2010
1901	4466902एफ	हवलदार	जसपाल सिंह	01.04.2010
1902	4466987एच	हवलदार	जसवंत सिंह	01.04.2010
1903	4466569एन	हवलदार	कवलजीत सिंह	01.03.2010
1904	4466865वाइ	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.04.2010
1905	4467102पी	हवलदार	लाल सिंह	01.04.2010
1906	4466966एम	हवलदार	मान सिंह	01.04.2010
1907	4464349एल	हवलदार	मेघ नाथ	01.04.2010
1908	4464513एच	हवलदार	मोहन लाल	01.08.2001
1909	4466820वाइ	हवलदार	मोहिन्दर पाल	01.04.2010
1910	4466648एच	हवलदार	नौरंग सिंह	01.04.2010
1911	4466447के	हवलदार	एन किसपोत्ता	01.02.2010
1912	4467041एच	हवलदार	ओंकार सिंह	01.04.2010
1913	4466962डब्ल्यू	हवलदार	परमजीत सिंह	01.04.2010
1914	4466778एल	हवलदार	परमजीत सिंह	01.04.2010
1915	4466739एम	हवलदार	रछपाल सिंह	01.04.2010
1916	4466422एक्स	हवलदार	राजपाल सिंह	01.02.2010
1917	4466761एक्स	हवलदार	राम सरूप सिंह	01.04.2010
1918	4466603एच	हवलदार	राम सिंह	01.04.2010
1919	4466613एम	हवलदार	राम सिंह	01.04.2010
1920	4464221ए	हवलदार	रणधीर सिंह	01.02.2010
1921	4466480एफ	हवलदार	सालविन्दर सिंह	01.03.2010
1922	4466630एम	हवलदार	सतनाम सिंह	01.04.2010
1923	4466591वाइ	हवलदार	सतपाल सिंह	01.04.2010
1924	4467131के	हवलदार	एस सिंह	01.04.2010

1925	4467155एन	हवलदार	सेवा सिंह	01.04.2010
1926	4466786के	हवलदार	शमशेर सिंह	01.04.2010
1927	4467031वाइ	हवलदार	शंगारा सिंह	01.04.2010
1928	4466815एन	हवलदार	सुखवंत सिंह	01.04.2010
1929	4466600पी	हवलदार	त्रिलोचन सिंह	01.04.2010
1930	4466484एक्स	हवलदार	वी मतिलियगन	01.03.2010
1931	4464491पी	हवलदार	जेंदे प्रकाश ततोबा	01.08.2010

### डोगरा रेजीमेन्ट

1932	3987088एफ	हवलदार	बी एस बटारिया	01.02.2010
1933	3985208डब्ल्यू	हवलदार	बचन सिंह	01.03.2010
1934	3987421पी	हवलदार	बहादुर सिंह	01.04.2010
1935	3987124एफ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2010
1936	3987418पी	हवलदार	बसत सिंह चौहान	01.04.2010
1937	3987165एल	हवलदार	भगत सिंह	01.03.2010
1938	3987825एक्स	हवलदार	भगवान दास	01.07.2010
1939	3985244एफ	हवलदार	भगवान सिंह	01.03.2010
1940	3987269एम	हवलदार	भुपिन्द्र सिंह	01.03.2010
1941	3987597ए	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.05.2010
1942	3987644एम	हवलदार	बिशन सिंह	01.05.2010
1943	3985668एक्स	हवलदार	डी. राम	01.07.2010
1944	3987685डब्ल्यू	हवलदार	दलजीत कुमार	01.05.2010
1945	3987061के	हवलदार	दलजीत सिंह	01.02.2010
1946	3987234डब्ल्यू	हवलदार	दीपक सिंह	01.03.2010
1947	3987805के	हवलदार	देस राज	01.06.2010
1948	3987595पी	हवलदार	देव राज	01.05.2010
1949	3987667एन	हवलदार	डी. दत्ता	01.05.2010
1950	3987321के	हवलदार	दुर्गा दास	01.04.2010
1951	3987148एल	हवलदार	दुर्गा सिंह	01.03.2010
1952	3987244ए	हवलदार	एफ. सिंह	01.03.2010
1953	3985561एच	हवलदार	गोपाल दास शर्मा	01.07.2010
1954	3987632एक्स	हवलदार	हरी राम	01.05.2010
1955	3987573डब्ल्यू	हवलदार	हरनाम सिंह	01.05.2010
1956	3987591वाइ	हवलदार	हीरा लाल	01.05.2010
1957	3985288वाइ	हवलदार	ईशर सिंह	01.03.2010
1958	3987512वाइ	हवलदार	जय चन्द	01.05.2010
1959	3985599एम	हवलदार	कैलाश चंद्र	01.07.2010
1960	3987156के	हवलदार	कशोरी लाल	01.03.2010
1961	3987084एल	हवलदार	केहर सिंह	01.02.2010
1962	3987435पी	हवलदार	केवल कष्णन	01.04.2010
1963	3986953एच	हवलदार	कुलदीप राज	01.02.2010

1964	3987174एम	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2010
1965	3987330एल	हवलदार	एल अहमद	01.04.2010
1966	3985217एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.03.2010
1967	3987572एन	हवलदार	माधो राम	01.05.2010
1968	3987816डब्ल्यू	हवलदार	महिंद्र देव	01.07.2010
1969	3987564पी	हवलदार	मनबीर पौल	01.05.2010
1970	3987502पी	हवलदार	मनोज कुमार	01.05.2010
1971	3985554एम	हवलदार	निकका राम	01.07.2010
1972	3987684एन	हवलदार	पी सी चौहान एस सी	01.05.2010
1973	3987666एल	हवलदार	परम देव	01.05.2010
1974	3987120एल	हवलदार	पर्शोतम पौल	01.02.2010
1975	3985074एच	हवलदार	पी कुमार	01.02.2010
1976	3987638वाइ	हवलदार	प्रेम चन्द	01.05.2010
1977	3985240एल	हवलदार	पूरन चन्द	01.03.2010
1978	3987453एक्स	हवलदार	राज कुमार	01.04.2010
1979	3985758वाइ	हवलदार	राज कुमार	01.08.2010
1980	3987454ए	हवलदार	राज कुमार	01.04.2010
1981	3987262एच	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.03.2010
1982	3987268के	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2010
1983	3985103एम	हवलदार	राम लाल	01.02.2010
1984	3987099एन	हवलदार	राम पाल	01.02.2010
1985	3987333वाइ	हवलदार	रमेश चन्द	01.04.2010
1986	3986964पी	हवलदार	रंजीत सिंह	01.02.2010
1987	3987500के	हवलदार	रतन चन्द	01.05.2010
1988	3985384एन	हवलदार	रतन पौल	01.05.2010
1989	3987747एल	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.05.2010
1990	2985903पी	हवलदार	रोशन लाल	01.06.2010
1991	3986939डब्ल्यू	हवलदार	सादी लाल	01.02.2010
1992	3987446एफ	हवलदार	श्रवण कुमार	01.04.2010
1993	3987511डब्ल्यू	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2010
1994	3987759ए	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2010
1995	3985600डब्ल्यू	हवलदार	शाम लाल	01.07.2010
1996	3987157एम	हवलदार	शाम लाल	01.03.2010
1997	3986985एल	हवलदार	शाम लाल	01.02.2010
1998	3985962एक्स	हवलदार	शेर सिंह	01.04.2010
1999	3986978पी	हवलदार	शिव सिंह	01.02.2010
2000	3985630एन	हवलदार	श्याम सिंह	01.07.2010
2001	3987631पी	हवलदार	सिकंदर कुमार	01.05.2010
2002	3985550डब्ल्यू	हवलदार	एस राम	01.07.2010
2003	3987110एफ	हवलदार	सोहन लाल	01.02.2010
2004	3987601एक्स	हवलदार	सोम राज	01.05.2010

2005	3987778एल	हवलदार	सुभाष चन्द	01.05.2010
2006	3987344एल	हवलदार	सुभाष चन्द	01.04.2010
2007	3985618एम	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.07.2010
2008	3987302वाइ	हवलदार	सुभाष सिंह	01.04.2010
2009	3987642एफ	हवलदार	सुंदर पाल	01.05.2010
2010	3985512ए	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2010
2011	3987658एम	हवलदार	सुरेश चन्द	01.05.2010
2012	3987475डब्ल्यू	हवलदार	तारा चन्द	01.05.2010
2013	3987762ए	हवलदार	तिलक राज	01.05.2010
2014	13616711एफ	हवलदार	उत्तातम सिंह	01.07.2010
2015	3987370एम	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2010
2016	3985417एन	हवलदार	विजय सिंह	01.05.2010
2017	3985597एफ	हवलदार	यश पौल	01.07.2010

### गढवाल राईफल्स

2018	4069313एच	हवलदार	आनंद सिंह	01.03.2010
2019	4069199डब्ल्यू	हवलदार	अनुसूया सिंह	01.02.2010
2020	4069327एच	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.03.2010
2021	4067648एफ	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.08.2010
2022	4067537के	हवलदार	बलवंत सिंह	01.08.2010
2023	4067059एल	हवलदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
2024	4067172ए	हवलदार	बलवंत सिंह	01.04.2010
2025	4067310डब्ल्यू	हवलदार	बी लाल	01.06.2010
2026	4067124ए	हवलदार	बेलम सिंह	01.04.2010
2027	4069368एम	हवलदार	भूवन सिंह	01.03.2010
2028	4069385एम	हवलदार	चंद्र मोहन सिंह नेगी	01.04.2010
2029	4067234पी	हवलदार	चंद्र सिंह	01.05.2010
2030	4069495एफ	हवलदार	चंद्रा मोहन सिंह	01.06.2010
2031	4069512डब्ल्यू	हवलदार	चित्रा मनी	01.08.2010
2032	4069362एल	हवलदार	दलबीर सिंह	01.03.2010
2033	4069271एफ	हवलदार	दलबीर सिंह रावत	01.03.2010
2034	4069294एच	हवलदार	दलपत सिंह	01.03.2010
2035	4069388ए	हवलदार	दर्शन सिंह	01.04.2010
2036	4069234एन	हवलदार	दीन दयाल सिंह	01.03.2010
2037	4069127एम	हवलदार	डी. सिंह	01.02.2010
2038	4069445डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.05.2010
2039	4067353एल	हवलदार	गंगा सिंह	01.06.2010
2040	4066991एक्स	हवलदार	गंगा सिंह	01.02.2010
2041	4069403के	हवलदार	हर्षवरधन सिंह	01.04.2010
2042	4067062एल	हवलदार	हीरा सिंह	01.04.2010
2043	4067635के	हवलदार	जबार सिंह	01.08.2010



2044	4069129एक्स	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.02.2010
2045	4069406एक्स	हवलदार	जय देव सिंह	01.04.2010
2046	4069316डब्ल्यू	हवलदार	जसपाल सिंह	01.03.2010
2047	4069475एन	हवलदार	कैलाश चंद्रा	01.06.2010
2048	4069263एच	हवलदार	किशन लाल	01.03.2010
2049	4069484पी	हवलदार	कुशल नन्द	01.06.2010
2050	4069157के	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.02.2010
2051	4069174के	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.02.2010
2052	4069220एन	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2010
2053	4069439एच	हवलदार	मेहरबान सिंह	01.05.2010
2054	3179651एम	हवलदार	मोर सिंह	01.06.2010
2055	4069192एम	हवलदार	मोर सिंह	01.02.2010
2056	4067150एफ	हवलदार	एम सिंह	01.04.2010
2057	4069431डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.05.2010
2058	13958604ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.06.2010
2059	4066951डब्ल्यू	हवलदार	पदम चन्द	01.02.2010
2060	4069222वाइ	हवलदार	पदम सिंह	01.03.2010
2061	4069366एफ	हवलदार	पितांबर दत्ता	01.03.2010
2062	4067128डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम सिंह रावत	01.04.2010
2063	4069226पी	हवलदार	रघुबीर सिंह	01.03.2010
2064	4067044एच	हवलदार	शेरी लाल	01.03.2010
2065	4069310पी	हवलदार	शिवराज सिंह	01.03.2010
2066	4069295एल	हवलदार	सोबन सिंह	01.03.2010
2067	4069272के	हवलदार	सोबत सिंह	01.03.2010
2068	4069145पी	हवलदार	टी सिंह	01.02.2010
2069	4069435एम	हवलदार	त्रिलोक सिंह	01.05.2010
2070	4069153एन	हवलदार	उमेश चंद्रा	01.02.2010
2071	4067063एन	हवलदार	उम्मेद सिंह	01.04.2010
2072	4067097एफ	हवलदार	विक्रम सिंह नेगी	01.04.2010
2073	4069217एन	हवलदार	यशपाल सिंह	01.03.2010
2074	4069281एल	हवलदार	यशपाल सिंह रावत	01.03.2010

**कुमाँउ रेजीमेन्ट**

2075	4180724डब्ल्यू	हवलदार	अचदान	01.04.2010
2076	4178803एम	हवलदार	आनंद बल्लभ	01.03.2010
2077	4179340पी	हवलदार	आनंद बल्लभ	01.08.2010
2078	4178670एफ	हवलदार	भगवान सिंह	01.02.2010
2079	4180604एक्स	हवलदार	चंद्रा शेखर गोप	01.02.2010
2080	4178643एक्स	हवलदार	दयाल सिंह	01.02.2010
2081	4180773वाइ	हवलदार	डियोत्ता दीन	01.06.2010
2082	4180652एक्स	हवलदार	गजेन्द्र सिंह काकी	01.03.2010

2083	4179027के	हवलदार	गनेश सिंह बिष्ट	01.06.2010
2084	4179015पी	हवलदार	गंगा सिंह	01.06.2010
2085	4179328एन	हवलदार	गोविंद सिंह	01.08.2010
2086	4178751एफ	हवलदार	गोविंद सिंह धामी	01.03.2010
2087	4178928के	हवलदार	गुमान सिंह	01.06.2010
2088	4179171वाइ	हवलदार	हरीश राम	01.07.2010
2089	4178705एम	हवलदार	हीरा सिंह	01.03.2010
2090	4178654के	हवलदार	जे एस पोखरिया	01.02.2010
2091	4180568एक्स	हवलदार	जगमाल सिंह	01.02.2010
2092	4180577वाइ	हवलदार	कल्याण सिंह भाटी	01.02.2010
2093	2883931एन	हवलदार	कष्पन कुमार यादव	01.07.2010
2094	4178723पी	हवलदार	कुंदन सिंह	01.03.2010
2095	4180655एल	हवलदार	कुशाल राम	01.03.2010
2096	4178985एल	हवलदार	मदन मोहन त्रिपाठी	01.07.2010
2097	4179054एन	हवलदार	मोहन सिंह	01.06.2010
2098	4179131एक्स	हवलदार	एन के श्रीवास	01.07.2010
2099	4179016एक्स	हवलदार	नारायण सिंह	01.06.2010
2100	4178807एच	हवलदार	नरेंद्र सिंह	01.03.2010
2101	2883685एन	हवलदार	पोरास	01.06.2010
2102	4178993के	हवलदार	पुशकर सिंह	01.07.2010
2103	3177691पी	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.02.2010
2104	14701725पी	हवलदार	राजेंद्रा चन्द	01.02.2010
2105	4178675ए	हवलदार	राम बाबू	01.02.2010
2106	4179350वाइ	हवलदार	राम बिलास सिंह यादव	01.08.2010
2107	2883843एक्स	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2010
2108	4178681एन	हवलदार	रंजीत सिंह ए	01.02.2010
2109	4179300एन	हवलदार	एस सिंह	01.08.2010
2110	4178831वाइ	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.04.2010
2111	4178714एन	हवलदार	शिव सिंह	01.03.2010
2112	4178739ए	हवलदार	उमराव सिंह	01.03.2010
2113	4178746डब्ल्यू	हवलदार	विपिन कुमार	01.03.2010

### आसाम रेजीमेन्ट

2114	4357760वाइ	हवलदार	बिजय सेना सिन्हा	01.03.2010
2115	4357416एन	हवलदार	जग नारायण राम	01.02.2010
2116	4357491एक्स	हवलदार	माधव चंद्रा सेकिआ	01.02.2010
2117	4357818एल	हवलदार	एम सिंघा	01.04.2010
2118	4358074एक्स	हवलदार	निरंजन देब बर्मा	01.07.2010
2119	4426730पी	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.04.2010
2120	4357876पी	हवलदार	राबिन च. एम	01.05.2010
2121	4426718एन	हवलदार	राम किशन	01.05.2010

2122	4357790डब्ल्यू	हवलदार	रणधीर सिन्हा	01.03.2010
2123	4357476एच	हवलदार	रातुल चन्द कलिता	01.02.2010
2124	4358134एफ	हवलदार	श्याम बहादुर गुरंग	01.08.2010
2125	4426640एन	हवलदार	एस राय	01.03.2010
2126	4357578वाइ	हवलदार	एस मूछाहारे	01.03.2010
2127	4358069एम	हवलदार	सुदीश राम	01.07.2010
2128	4357723एल	हवलदार	एस कुमार सिंह	01.03.2010
2129	4357549के	हवलदार	सुरेन्द्रा सिन्हा	01.03.2010

बिहार रेजीमेन्ट

2130	4264112के	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	01.03.2010
2131	4264704एन	हवलदार	अरुण कुमार ठाकुर	01.06.2010
2132	4264482के	हवलदार	अशोक कुमार प्रसाद	01.03.2010
2133	4263943डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.02.2010
2134	4265893पी	हवलदार	बाबू शैय महतो	01.07.2010
2135	4265795पी	हवलदार	भरत भूषण	01.06.2010
2136	4265843के	हवलदार	भरत कुमार यादव	01.06.2010
2137	4265702पी	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार शर्मा	01.05.2010
2138	4265792एफ	हवलदार	चंदेश्वर यादव	01.06.2010
2139	4265773डब्ल्यू	हवलदार	सी ओरान	01.06.2010
2140	4264303वाइ	हवलदार	देवासिस घो	01.04.2010
2141	4265606ए	हवलदार	धीरेन्द्र चंद्रा राय	01.02.2010
2142	4265934एन	हवलदार	दोले गोविन्द माझी	01.08.2010
2143	4264621एच	हवलदार	ईश्वरनाथ शर्मा	01.06.2010
2144	4265860के	हवलदार	ईतावा ओरान	01.06.2010
2145	4264352एफ	हवलदार	फारांसिस जे खाखा	01.05.2010
2146	4264715ए	हवलदार	गोलाप चंद्रा साहू	01.07.2010
2147	4263915के	हवलदार	गुलाब चन्द ठाकुर	01.03.2010
2148	4265957पी	हवलदार	कामेश्वर पांडे	01.08.2010
2149	4263926डब्ल्यू	हवलदार	कामेश्वर प्रसाद	01.03.2010
2150	4263856एच	हवलदार	कंद्रा माझी	01.03.2010
2151	4264368एम	हवलदार	कान्हु चरणा नाइक	01.05.2010
2152	4265891के	हवलदार	कपिलेश्वर लाल देव	01.07.2010
2153	4264136एन	हवलदार	कैदार ठाकुर	01.03.2010
2154	4265765एक्स	हवलदार	कृष्णा सिंह	01.06.2010
2155	4265674एन	हवलदार	एल प्रधान	01.05.2010
2156	4264081पी	हवलदार	मदन राम	01.03.2010
2157	4264763ए	हवलदार	महेश कुमार सिंह	01.06.2010
2158	4264187एफ	हवलदार	मोहन लाल शर्मा	01.03.2010
2159	4264427एन	हवलदार	पी होरो	01.05.2010
2160	4265737एल	हवलदार	प्रकाश चंद्रा बी	01.06.2010

2161	4265730एफ	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.05.2010
2162	4263861एन	हवलदार	प्रवाकर जैना	01.03.2010
2163	4264290एम	हवलदार	राज किशोर सिंह	01.04.2010
2164	4265912पी	हवलदार	राम बाबू सिंह	01.07.2010
2165	4265701एम	हवलदार	राम बी कुमार	01.05.2010
2166	4263816एफ	हवलदार	राम कृष्ण मिश्रा	01.02.2010
2167	4264765एल	हवलदार	राम प्रवेश दास	01.06.2010
2168	4264092एफ	हवलदार	राम प्रवेश यादव	01.03.2010
2169	4265699ए	हवलदार	राम उदेशवर सिंह	01.05.2010
2170	4265641एच	हवलदार	रामओतार राय	01.03.2010
2171	4265978एल	हवलदार	आर भगत	01.08.2010
2172	4265967वाइ	हवलदार	रनबीर सिंह	01.07.2010
2173	4264195ए	हवलदार	रवीन्द्र प्रसाद सिंह	01.03.2010
2174	4263593पी	हवलदार	ऋषि नंदन सिंह	01.02.2010
2175	4265878ए	हवलदार	सनीका ओराम	01.07.2010
2176	4265616के	हवलदार	सरदार एम	01.02.2010
2177	4264533एम	हवलदार	सतेंद्र प्रसाद राय	01.06.2010
2178	4263604डब्ल्यू	हवलदार	शेष नाथ सिंह	01.02.2010
2179	4265696एम	हवलदार	शिव कुमार प्रसाद	01.05.2010
2180	4265828पी	हवलदार	सुकेसन के	01.07.2010
2181	4263885एक्स	हवलदार	सुरेश तिवारी	01.03.2010
2182	4264449एम	हवलदार	सुरेश यादव	01.05.2010
2183	4264033पी	हवलदार	टी शर्मा	01.03.2010
2184	4265690एल	हवलदार	विजय कुमार सिंह	01.05.2010
2185	4264254एफ	हवलदार	वकील सिंह	01.04.2010
2186	7430707एफ	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद कुशवाहा	01.04.2010

### महार रेजीमेन्ट

2187	4558238एम	हवलदार	अरूलानद	01.02.2010
2188	4558269एम	हवलदार	अशोक प्रसाद	01.02.2010
2189	4556923वाइ	हवलदार	बापू राम चंद्रा यादव	01.07.2010
2190	4558436एक्स	हवलदार	भीम सिंह	01.08.2010
2191	4555826पी	हवलदार	भूम सिंह	01.03.2010
2192	4556991एम	हवलदार	बिनोद कुमार प्रधान	01.07.2010
2193	4556730वाइ	हवलदार	गजानन	01.06.2010
2194	4558317एफ	हवलदार	जगबीर सिंह	01.04.2010
2195	4556509ए	हवलदार	जगदीश	01.04.2010
2196	4556115एफ	हवलदार	जय भगवान बाल्मीकि	01.04.2010
2197	4558408एल	हवलदार	महीपाल सिंह पुजारी	01.07.2010
2198	4558434एम	हवलदार	पी एम समसुद्दीन	01.08.2010
2199	4558281एन	हवलदार	पी बालासाहेब बाबूराव	01.02.2010

2200	4558282डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार	01.02.2010
2201	4558388एच	हवलदार	रंजन	01.06.2010
2202	4555590एल	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.02.2010
2203	4558307एक्स	हवलदार	सेवा राम	01.03.2010
2204	4556050वाइ	हवलदार	श्याम प्रसाद गिरि	01.03.2010
2205	4558245एच	हवलदार	श्रीमन शंकर कुमार घोष	01.02.2010
2206	4558427डब्ल्यू	हवलदार	वी सिंह कुशवाह	01.08.2010
<b>जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स</b>				

2207	13749377ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2010
2208	13750069एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.08.2010
2209	13749695के	हवलदार	बालम सिंह	01.03.2010
2210	13751096एच	हवलदार	बलवंत सिंह	01.05.2010
2211	13751211एक्स	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.08.2010
2212	13749370डब्ल्यू	हवलदार	भाग मल	01.02.2010
2213	13749182पी	हवलदार	बिंदु राम	01.02.2010
2214	13749361पी	हवलदार	बी कुमार	01.02.2010
2215	13749445एच	हवलदार	सी शक्ती वेलू	01.02.2010
2216	13751179एन	हवलदार	दीप सिंह	01.08.2010
2217	13749687एल	हवलदार	देस राज	01.03.2010
2218	13749439पी	हवलदार	देस राज	01.02.2010
2219	13749359एक्स	हवलदार	देश राज	01.02.2010
2220	13749871डब्ल्यू	हवलदार	धर्म बीर	01.05.2010
2221	13749842एफ	हवलदार	हेम राज	01.05.2010
2222	13749518के	हवलदार	जे सिंह	01.03.2010
2223	13749836एन	हवलदार	जिया लाल	01.05.2010
2224	13749717एक्स	हवलदार	जोगिंदर पौल	01.03.2010
2225	13749840डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश कुमार	01.05.2010
2226	13749630डब्ल्यू	हवलदार	किशोर चन्द	01.03.2010
2227	13749391एम	हवलदार	कष्णन सिंह	01.03.2010
2228	13749585पी	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2010
2229	13750008पी	हवलदार	कुलवंत राज	01.07.2010
2230	13751004एल	हवलदार	लाल बहादुर थापा	01.02.2010
2231	13749459एच	हवलदार	मदन लाल	01.03.2010
2232	13749845पी	हवलदार	मेहर सिंह	01.05.2010
2233	13751112पी	हवलदार	एन खान	01.06.2010
2234	13749854डब्ल्यू	हवलदार	निकू चन्द	01.05.2010
2235	13749512एच	हवलदार	प्रीतम चन्द	01.03.2010
2236	13749295एक्स	हवलदार	राज कुमार	01.02.2010
2237	13751166डब्ल्यू	हवलदार	आर एस	01.08.2010
2238	13750054के	हवलदार	राम अशरे प्रसाद	01.08.2010

2239	13749678के	हवलदार	राम लाल	01.03.2010
2240	13751174पी	हवलदार	राम पाल	01.08.2010
2241	13749473पी	हवलदार	रमेश चंद्र	01.03.2010
2242	13751364एफ	हवलदार	रतन सिंह	01.03.2010
2243	13749938के	हवलदार	रवि दत्ता	01.06.2010
2244	13751167वाइ	हवलदार	रवीन्द्र पाल सिंह	01.08.2010
2245	13749841वाइ	हवलदार	रिखी राम छमबयाल	01.05.2010
2246	13749998वाइ	हवलदार	रोमेश चंद्र	01.07.2010
2247	13751055वाइ	हवलदार	समर बहादुर	01.04.2010
2248	13751157पी	हवलदार	संतोष भुजल	01.07.2010
2249	13749650के	हवलदार	एस सिंह	01.03.2010
2250	13749849एल	हवलदार	शशि कुमार	01.05.2010
2251	13750095एन	हवलदार	श्याम लाल	01.08.2010
2252	13751031पी	हवलदार	सुदेश सिंह थापा	01.03.2010
2253	13750049वाइ	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.08.2010
2254	13751051एच	हवलदार	सूर्या नारायण श्रेष्ठा	01.04.2010
2255	13749722एच	हवलदार	तरसेम लाल	01.03.2010
2256	13749380ए	हवलदार	टी चन्द	01.02.2010
2257	13749369एफ	हवलदार	उमद सिंह	01.02.2010
2258	13749508ए	हवलदार	वी प्रसाद	01.03.2010
2259	13751190एम	हवलदार	विजय कुमार सिंह	01.08.2010
2260	13751032एक्स	हवलदार	विजय सिंह थापा	01.03.2010
2261	13749595वाइ	हवलदार	योध सिंह	01.03.2010

लघ्दाख स्काउट

2262	9923068एक्स	हवलदार	फुनचोक अंगचौक	01.03.2010
------	-------------	--------	---------------	------------

नागा रेजीमेन्ट

2263	14701835के	हवलदार	ए सालियो	01.03.2010
2264	14701781एन	हवलदार	अवतार सिंह	01.02.2010
2265	4180693एफ	हवलदार	बी बी राना	01.04.2010
2266	14701775ए	हवलदार	गंगा सिंह	01.02.2010
2267	14701776एच	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.02.2010
2268	14702168एन	हवलदार	खिम सिंह	01.02.2010
2269	14701919एक्स	हवलदार	कूमसा सेमा	01.04.2010
2270	14701673के	हवलदार	महेन्द्र कुमार	01.02.2010
2271	14701767एफ	हवलदार	मेघ बहादुर थापा	01.02.2010
2272	14701753एफ	हवलदार	नंदन सिंह	01.02.2010
2273	4178778वाइ	हवलदार	नन्हू मल शर्मा	01.03.2010
2274	14701771के	हवलदार	प्रेम चंद्रा	01.02.2010
2275	14701867एम	हवलदार	राज कुमार प्रधान	01.03.2010

2276	14701783वाइ	हवलदार	रंजीत सिंह	01.02.2010
2277	14702247एच	हवलदार	एस होनपाम	01.04.2010
2278	14701788एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह जी.	01.03.2010
<b>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल</b>				
2279	9085878एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.05.2010
2280	9085925वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
2281	9086060के	हवलदार	बलवंत सिंह	01.07.2010
2282	9086146एच	हवलदार	बशीर अहमद शीर जी.	01.08.2010
2283	9088057एच	हवलदार	भगवान दास	01.05.2010
2284	9085809डब्ल्यू	हवलदार	गंगा बहादुर थापा	01.02.2010
2285	9085922एल	हवलदार	गिरधारी लाल	01.06.2010
2286	9088141एच	हवलदार	जगदेव राम	01.08.2010
2287	9086032एक्स	हवलदार	जनक राज	01.06.2010
2288	9085999एन	हवलदार	जनक सिंह	01.06.2010
2289	9086187एम	हवलदार	जसवंत सिंह	01.08.2010
2290	9085941डब्ल्यू	हवलदार	जसवंत सिंह	01.05.2010
2291	9085859एफ	हवलदार	कलनधर शेख	01.05.2010
2292	9086219के	हवलदार	कल्याण सिंह	01.08.2010
2293	9086099डब्ल्यू	हवलदार	कर्म दाद	01.07.2010
2294	9086246एन	हवलदार	मोहम्मद इब्राहिम शेख	01.08.2010
2295	9088065एफ	हवलदार	मोहम्मद वाइ शेख	01.06.2010
2296	9088073ए	हवलदार	नसीब चन्द्र	01.06.2010
2297	9086122वाइ	हवलदार	नसीब सिंह	01.08.2010
2298	9086166डब्ल्यू	हवलदार	राधा कष्णन	01.08.2010
2299	9086003एच	हवलदार	रगबीर सिंह	01.06.2010
2300	9088109एन	हवलदार	राज मोहम्मद	01.07.2010
2301	9086154एफ	हवलदार	रोशन लाल	01.08.2010
2302	9088044एल	हवलदार	संतोष कुमार	01.03.2010
2303	9088071पी	हवलदार	सत पौल	01.06.2010
2304	9088139एल	हवलदार	तारा सिंह	01.08.2010
<b>1 गोरखा राईफल्स</b>				
2305	5043433ए	हवलदार	बी बहादुर गुरंग	01.06.2010
2306	5043480एक्स	हवलदार	धन राज बी	01.07.2010
2307	5043848पी	हवलदार	दुर्गा बहादुर थापा	01.02.2010
2308	5043872एल	हवलदार	निर बहादुर थापा	01.04.2010
2309	5043868एच	हवलदार	संत राम गुरंग	01.04.2010
2310	5043845एफ	हवलदार	सतनाम सिंह	01.02.2010

**3 गोरखा राईफल्स**

2311	5245376एम	हवलदार	धन सिंह थापा	01.07.2010
2312	5245367एल	हवलदार	केशल प्रसाद श्रेष्ठा	01.05.2010
2313	5245356वाइ	हवलदार	शम्भू सिंह	01.03.2010

**4 गोरखा राईफल्स**

2314	5345778वाइ	हवलदार	अबतार श्रेष्ठा	01.06.2010
2315	5345755एक्स	हवलदार	भरत लाल पांडे	01.04.2010
2316	5345362एफ	हवलदार	देश राज	01.04.2010
2317	1087813ए	हवलदार	धन बहादुर	01.08.2010
2318	5345476एम	हवलदार	हरका बहादुर गुरंग	01.08.2010
2319	5345811एल	हवलदार	मान बहादुर अले	01.08.2010
2320	5345789एल	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.06.2010
2321	5345437एन	हवलदार	पेहल सिंह थापा	01.07.2010
2322	5345769एक्स	हवलदार	श्याम बहादुर थापा	01.04.2010
2323	5345373एन	हवलदार	श्याम लाल	01.05.2010

**5 गोरखा राईफल्स**

2324	5450142डब्ल्यू	हवलदार	ई कुमार थापा मगर	01.03.2010
2325	5450173डब्ल्यू	हवलदार	नारायण शिंग थापा	01.04.2010
2326	5450219एन	हवलदार	पद्मा आर	01.05.2010
2327	5450126वाइ	हवलदार	राम बहादुर राना	01.03.2010
2328	5450163एम	हवलदार	रण बहादुर गुरंग	01.04.2010
2329	5751378डब्ल्यू	हवलदार	श्याम बहादुर खादका छत्री	01.04.2010

**8 गोरखा राईफल्स**

2330	5751016पी	हवलदार	सी रजाक	01.06.2010
2331	5750964एम	हवलदार	दल बहादुर सारकी	01.04.2010
2332	5751371एम	हवलदार	गोकरना बहादुर थापा	01.04.2010
2333	5751336के	हवलदार	एच बहादुर थापा	01.03.2010
2334	5751345एल	हवलदार	कृष्णा बहादुर गुरंग	01.03.2010
2335	5750932के	हवलदार	एन लाल	01.02.2010
2336	14912528डब्ल्यू	हवलदार	रामजीत सिंह	01.05.2010
2337	5751322के	हवलदार	सोम बहादुर श्रेष्ठा	01.02.2010
2338	5751370के	हवलदार	सूर्या लाल गुरंग	01.04.2010

**9 गोरखा राईफल्स**

2339	5846283एफ	हवलदार	देव चंद्रा मल्ला	01.06.2010
2340	5846261एच	हवलदार	धन मसीह सोरंग	01.03.2010
2341	5846290एक्स	हवलदार	कृष्णा बहादुर अधिकारी	01.07.2010



2342	5845707ए	हवलदार	ओम प्रकाश बसल	01.02.2010
2343	5845728डब्ल्यू	हवलदार	तोप बहादुर भंडारी	01.03.2010
2344	5846291ए	हवलदार	याम बहादुर अधिकारी	01.07.2010
<b>11 गोरखा राईफल्स</b>				
2345	9418651ए	हवलदार	बाल बहादुर एल	01.04.2010
2346	9418006एल	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार राय	01.03.2010
2347	9418600एम	हवलदार	छात्रा बहादुर राय	01.03.2010
2348	9418619एल	हवलदार	छात्रा पाल राय	01.04.2010
2349	9418561वाइ	हवलदार	धन राज के	01.02.2010
2350	9417996पी	हवलदार	गंगा बहादुर राय	01.02.2010
2351	1082719एम	हवलदार	गिरधारी	01.08.2010
2352	9418597एक्स	हवलदार	हरका बहादुर राय	01.03.2010
2353	9418586एल	हवलदार	हरका बहादुर राय	01.02.2010
2354	9418610डब्ल्यू	हवलदार	जमालुद्दीन एम	01.04.2010
2355	9418608वाइ	हवलदार	केशव सिंह	01.03.2010
2356	9418589वाइ	हवलदार	लोखिन्दर बहादुर	01.03.2010
2357	9418060वाइ	हवलदार	पदम कुमार लिम्बू	01.05.2010
2358	9418594के	हवलदार	प्रेम बहादुर प्रधान	01.03.2010
2359	9418637एन	हवलदार	प्रेम बहादुर तमंग	01.04.2010
2360	9418625वाइ	हवलदार	रघु नाथ बेहेरा	01.04.2010
2361	9418647एक्स	हवलदार	सपता मान राय	01.04.2010
2362	9418605एल	हवलदार	एस राय	01.03.2010
2363	9418567ए	हवलदार	सर्जन सुब्बा	01.02.2010
<b>सेना सेवा कोर दक्षिण</b>				
2364	6380128ए	हवलदार	ए कन्नाई राम	01.03.2010
2365	6379782के	हवलदार	आदित्य यादव	01.03.2010
2366	6381443एच	हवलदार	अदिवेष्पा एस एच	01.02.2010
2367	6380683एन	हवलदार	अजय कुमार नाइक	01.08.2010
2368	6380659एक्स	हवलदार	अखिलेश्वर तिवारी	01.08.2010
2369	13897096डब्ल्यू	हवलदार	अमल विश्वास	01.03.2010
2370	5845661एच	हवलदार	अमरजीत	01.02.2010
2371	15352143ए	हवलदार	अमिताव मंडल	01.03.2010
2372	6382133के	हवलदार	अमजद उल्लाह खान	01.08.2010
2373	6380053एन	हवलदार	अमरीक सिंह	01.04.2010
2374	6380271एम	हवलदार	अनिल चंद्रा दास	01.05.2010
2375	13895955एक्स	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.03.2010
2376	6380600एक्स	हवलदार	अनटोनी एस	01.07.2010
2377	6380460डब्ल्यू	हवलदार	अपूर्व जे बोरा	01.06.2010
2378	6381881एल	हवलदार	ए वेन्कटेश्वरलु	01.07.2010

2379	6380097एल	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.04.2010
2380	6380486एल	हवलदार	अरुण कुमार शर्मा	01.06.2010
2381	6380616एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2010
2382	13894994के	हवलदार	अशोक कुमार प्रसाद	01.06.2010
2383	13894221के	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.02.2010
2384	13897277एफ	हवलदार	अयोध्या यादव	01.04.2010
2385	6381777एक्स	हवलदार	बच्चू साह	01.06.2010
2386	6381438एक्स	हवलदार	बाई पल्ली वी राव	01.02.2010
2387	13897494एक्स	हवलदार	बालाप्पा जगातप	01.07.2010
2388	6380160पी	हवलदार	बालकृशना रसैली	01.04.2010
2389	13897462पी	हवलदार	भगरथ वी	01.06.2010
2390	6381726के	हवलदार	भैया लाल पांडे	01.06.2010
2391	6380140एफ	हवलदार	भाल चंद्र शर्मा	01.04.2010
2392	6380389एन	हवलदार	भंवर सिंह	01.07.2010
2393	6476294एल	हवलदार	भीरा राम	01.07.2010
2394	6382089एल	हवलदार	भीकाजी रंगनाथ कुलकर्णी	01.08.2010
2395	6380515पी	हवलदार	भीम सेन	01.06.2010
2396	6381765एच	हवलदार	भूपाल सिंह	01.06.2010
2397	6380240एम	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
2398	13897386एन	हवलदार	बिसनु देव मिश्रा	01.05.2010
2399	13894687एम	हवलदार	बोस ए	01.02.2010
2400	6381661एफ	हवलदार	ब्रिजेश कुमार शर्मा	01.05.2010
2401	13894894वाइ	हवलदार	सी काशीनाथ	01.03.2010
2402	13894615एच	हवलदार	सी एस पुरुषाथम	01.04.2010
2403	6381798एन	हवलदार	सी सिवनेसन	01.07.2010
2404	6380338ए	हवलदार	चामार कान्ति भाई मगन भाई	01.05.2010
2405	6380458वाइ	हवलदार	चंचल साहा	01.06.2010
2406	13895100पी	हवलदार	चंद्रा कांत एच	01.07.2010
2407	6382043एच	हवलदार	सी नाना शामा राव	01.08.2010
2408	6380364एफ	हवलदार	चत्तर पाल शर्मा	01.05.2010
2409	6380093पी	हवलदार	छोटेलाल	01.04.2010
2410	14494265के	हवलदार	चितरन्जन पाणिग्रही	01.03.2010
2411	13894330डब्ल्यू	हवलदार	डी. एलांगुवान	01.02.2010
2412	6476140वाइ	हवलदार	देबेन्द्र बेहेरा	01.04.2010
2413	6380137एफ	हवलदार	देव पाल सिंह	01.04.2010
2414	6379920ए	हवलदार	देव सिंह	01.03.2010
2415	6380257ए	हवलदार	देव सिंह	01.05.2010
2416	6380241पी	हवलदार	देवेंदर सिंह	01.04.2010
2417	13891973एच	हवलदार	धुबा चरण बारिक	01.02.2010
2418	13895989एल	हवलदार	दिनेश कुमार	01.07.2010
2419	13897242एल	हवलदार	दिनेश राम	01.04.2010

2420	6382101एफ	हवलदार	दुरई सामी पी	01.08.2010
2421	6381999एम	हवलदार	दुर्गा माधव सेठी	01.08.2010
2422	6380605डब्ल्यू	हवलदार	दुर्योधन चौहान	01.07.2010
2423	6380104डब्ल्यू	हवलदार	फन्डे सुनील अशरूबा	01.04.2010
2424	6380126पी	हवलदार	जी. चिन्ना दुरई	01.03.2010
2425	6380562एम	हवलदार	जी. सूर्यनारायण	01.07.2010
2426	6380131ए	हवलदार	गज सिंह राजपूत	01.03.2010
2427	6381873एम	हवलदार	गजराज प्रसाद	01.07.2010
2428	6380371एक्स	हवलदार	गांधी शाह	01.05.2010
2429	6381676के	हवलदार	गिरधारी लाल	01.06.2010
2430	4263776एल	हवलदार	गिरीश कुमार	01.02.2010
2431	6380564एक्स	हवलदार	गोबरधन भट्ट	01.07.2010
2432	6380230एच	हवलदार	गौरांग सरकार	01.04.2010
2433	13894889एन	हवलदार	गोविन्द स्वामी	01.03.2010
2434	6380066एल	हवलदार	गुना सेकारन पी	01.04.2010
2435	13894885एक्स	हवलदार	हरीकृष्ण सिंह	01.03.2010
2436	13897245वाइ	हवलदार	हवा सिंह	01.04.2010
2437	13894824ए	हवलदार	हयात सिंह मेहता	01.03.2010
2438	13897358एफ	हवलदार	हीरा राम	01.04.2010
2439	6380174पी	हवलदार	इन्द्रजीत पांडे	01.04.2010
2440	6381739एफ	हवलदार	इश्वर सिंह	01.06.2010
2441	6380337एक्स	हवलदार	जे सिंह	01.05.2010
2442	15353427डब्ल्यू	हवलदार	जगदीशन थारम्मल	01.04.2010
2443	6381419एम	हवलदार	जगदाले विजय कुमार जनार्दन	01.02.2010
2444	6380962वाइ	हवलदार	जगदीश चंद्रा	01.04.2010
2445	6380696एल	हवलदार	जय प्रकाश	01.08.2010
2446	13894589एम	हवलदार	जय प्रकाश सिंह	01.03.2010
2447	6382013एल	हवलदार	जसवंत सिंह	01.08.2010
2448	6482142ए	हवलदार	जे रंजन नाथ	01.07.2010
2449	6382105एक्स	हवलदार	के शम्भुगमै	01.08.2010
2450	6381749एल	हवलदार	कैलाश चंद्रा बेहेरा	01.06.2010
2451	13894478पी	हवलदार	कैलाश चंद्रा मुदली	01.03.2010
2452	13894728एल	हवलदार	के जनार्दन	01.03.2010
2453	6381628के	हवलदार	कलुआ राम	01.05.2010
2454	13894954एच	हवलदार	कल्याण ब्रता दास	01.06.2010
2455	13894234एफ	हवलदार	कमल देव ठाकुर	01.02.2010
2456	13894217एफ	हवलदार	के सिंह	01.02.2010
2457	6381668एल	हवलदार	कमलेश रंजन	01.05.2010
2458	6381639डब्ल्यू	हवलदार	कर्म सिंह	01.05.2010
2459	13894904एक्स	हवलदार	करुणा के	01.05.2010
2460	13897222एक्स	हवलदार	केशव यादव	01.03.2010

2461	6379759डब्ल्यू	हवलदार	किशन सिंह	01.02.2010
2462	6380459एफ	हवलदार	किसोन देव राम	01.06.2010
2463	13894633एल	हवलदार	किशोर चंद्रा प्रधान	01.04.2010
2464	6379743एल	हवलदार	कृष्णन सिंह	01.02.2010
2465	13894299पी	हवलदार	कृष्णा एच एस	01.02.2010
2466	6380328डब्ल्यू	हवलदार	के गोविंद गयानोबा	01.05.2010
2467	6379716एफ	हवलदार	के सिंह	01.02.2010
2468	13897112एच	हवलदार	लाल बाबू सिंह	01.03.2010
2469	13895011डब्ल्यू	हवलदार	लाल देवगम	01.06.2010
2470	6379808एन	हवलदार	ललन साह	01.03.2010
2471	6379698के	हवलदार	लालजी	01.02.2010
2472	6382004के	हवलदार	एल भास्कर राव	01.08.2010
2473	6380479पी	हवलदार	लक्ष्मन सिंह रावत	01.06.2010
2474	13897241एच	हवलदार	लक्ष्मी नारायण	01.04.2010
2475	6381851एन	हवलदार	लोगानाथन ए	01.07.2010
2476	6381877एच	हवलदार	एम राम बाबू	01.07.2010
2477	6380676एक्स	हवलदार	महेश श्रीवास्तव	01.08.2010
2478	6381993एल	हवलदार	मकवाना भीखा मंगा भाई	01.08.2010
2479	13895172वाइ	हवलदार	माने मोहन साहू	01.07.2010
2480	6382044एल	हवलदार	एम राजेंद्रा जगन्नाथ	01.08.2010
2481	6379727एन	हवलदार	मनोज कुमार	01.02.2010
2482	13895104एल	हवलदार	मारुति कुगाजी	01.07.2010
2483	13897064एन	हवलदार	मोहम्मद अब्दुल हुसैन मजूमदार	01.02.2010
2484	13894278वाइ	हवलदार	मोहम्मद मुस्ताफा	01.02.2010
2485	6380242एक्स	हवलदार	मेवा सिंह	01.04.2010
2486	13894279एफ	हवलदार	मोहम्मद क्यू अंसारी	01.02.2010
2487	13891972ए	हवलदार	मोहन लाल	01.02.2010
2488	13891919पी	हवलदार	मोहन प्रसाद सिंह	01.02.2010
2489	13897440डब्ल्यू	हवलदार	एम हक लश्कर	01.06.2010
2490	6381425ए	हवलदार	मूर्ती एस	01.02.2010
2491	6382005एम	हवलदार	एम रमा राव	01.08.2010
2492	6380391एल	हवलदार	एम सिंह	01.06.2010
2493	13894331वाइ	हवलदार	एन मणिकंदन	01.02.2010
2494	6380287एक्स	हवलदार	नन्द कुमार यादव	01.05.2010
2495	13895126के	हवलदार	नंदा लाल सिंह	01.06.2010
2496	6381852डब्ल्यू	हवलदार	नवजीत सिंह	01.07.2010
2497	13897059एच	हवलदार	निमाइ चन्द सील	01.02.2010
2498	6379942वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश तिवारी	01.04.2010
2499	6382047वाइ	हवलदार	पी देहरी	01.08.2010
2500	6381588एन	हवलदार	परमा नन्द	01.04.2010
2501	13894200एन	हवलदार	पर्शातम लाल	01.02.2010

2502	6380302एफ	हवलदार	पी सिंह शेखावत	01.05.2010
2503	6380633एच	हवलदार	पाती राम	01.08.2010
2504	6381994एन	हवलदार	पवन कुमार	01.07.2010
2505	6379863के	हवलदार	प्रभु नाथ यादव	01.03.2010
2506	6381717एच	हवलदार	प्रसानथन पी	01.06.2010
2507	6380250डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप सिंह	01.05.2010
2508	6476198डब्ल्यू	हवलदार	प्रवीन सिंह	01.05.2010
2509	15354280एक्स	हवलदार	प्रकाश पी वी	01.07.2010
2510	6381828ए	हवलदार	पुष्पेन्द्र शर्मा	01.07.2010
2511	13897082डब्ल्यू	हवलदार	आर कान्ना पी	01.03.2010
2512	6476308ए	हवलदार	आर एस मुरुघन	01.07.2010
2513	6381839एम	हवलदार	आर तकपान्टियन	01.07.2010
2514	13897151एफ	हवलदार	राधा कृष्णन नायर	01.03.2010
2515	13897157एच	हवलदार	राधे श्याम	01.03.2010
2516	6381715एक्स	हवलदार	रघु राजन के	01.06.2010
2517	6380505एल	हवलदार	रघुवीर सिंह चौधरी	01.06.2010
2518	13897567वाइ	हवलदार	राज किशोर सिंह	01.07.2010
2519	6380091के	हवलदार	राज कुमार	01.04.2010
2520	13894987एन	हवलदार	राजेंद्र शर्मा	01.05.2010
2521	6382124एच	हवलदार	रजनेश कुमार	01.08.2010
2522	13895163एक्स	हवलदार	राजू लाल	01.07.2010
2523	6379953एल	हवलदार	राकेश कुमार	01.04.2010
2524	6476201एल	हवलदार	राकेश कुमार मिश्रा	01.05.2010
2525	6380110के	हवलदार	आर शिवाजी वेंकट राव	01.04.2010
2526	13897565एन	हवलदार	राम अवतार सिंह	01.07.2010
2527	6380430वाइ	हवलदार	राम बाबू कटियार	01.06.2010
2528	13895056डब्ल्यू	हवलदार	राम बिहारी प्रजापति	01.06.2010
2529	6379822ए	हवलदार	राम चन्द बैठा	01.03.2010
2530	13894410एन	हवलदार	राम कृष्णा	01.02.2010
2531	6379793डब्ल्यू	हवलदार	राम मूरत सिंह	01.03.2010
2532	13897577एच	हवलदार	राम नन्द झा	01.07.2010
2533	6381910पी	हवलदार	राम निवास	01.07.2010
2534	13894226एच	हवलदार	राम निवास पांडे	01.02.2010
2535	6380424एल	हवलदार	राम एस तिवारी	01.06.2010
2536	6379958के	हवलदार	राम सिंह	01.04.2010
2537	6379843डब्ल्यू	हवलदार	राम विजय ठाकुर	01.03.2010
2538	6380219के	हवलदार	रमा शंकर मिश्रा	01.04.2010
2539	6380175एक्स	हवलदार	रमेश चन्द	01.04.2010
2540	13894873एच	हवलदार	रमेश चंद्रा बी	01.05.2010
2541	6381737डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्रा साहू	01.06.2010
2542	13894612पी	हवलदार	रामजी सिंह	01.04.2010

2543	6382074एच	हवलदार	रामजी सिंह	01.08.2010
2544	13894487डब्ल्यू	हवलदार	रामवीर सिंह	01.03.2010
2545	6380375एन	हवलदार	रवि कुमार आर	01.05.2010
2546	13891949एम	हवलदार	रवीन्द्र शर्मा	01.02.2010
2547	13894825एच	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.03.2010
2548	6381547के	हवलदार	रवीन्द्र सिंह गुसाई	01.04.2010
2549	13897578एल	हवलदार	आर प्रसाद सिंह	01.07.2010
2550	13894329एफ	हवलदार	आर पाल सिंह	01.02.2010
2551	13897430एम	हवलदार	रौय पी	01.06.2010
2552	13897226एन	हवलदार	रूप नारायण सिंह	01.03.2010
2553	13895144एम	हवलदार	एस नन्द सिंह	01.07.2010
2554	13894481पी	हवलदार	सकल सिंह	01.03.2010
2555	6382092एल	हवलदार	समय सिंह	01.08.2010
2556	13895969एक्स	हवलदार	संत देव सिंह	01.04.2010
2557	6379785एक्स	हवलदार	सरदार बेग मोगल	01.03.2010
2558	6380580पी	हवलदार	सरदार सिंह ठाकुर	01.07.2010
2559	15354276पी	हवलदार	ससिनदरन नायर ईके.	01.07.2010
2560	13894756एक्स	हवलदार	सतपाल सिंह	01.04.2010
2561	6381685एल	हवलदार	सत्य नारायण	01.06.2010
2562	6382067एम	हवलदार	सत्यबीर	01.08.2010
2563	6380303के	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.05.2010
2564	13894724पी	हवलदार	शैलेन्द्र कुमार मौर्या	01.03.2010
2565	13897143एच	हवलदार	शिव प्रसाद सिंह	01.03.2010
2566	6380252एफ	हवलदार	शिवू राम	01.05.2010
2567	6381762पी	हवलदार	शिंदे रमेश गोपाल	01.06.2010
2568	6380173एम	हवलदार	शिव कुमार	01.04.2010
2569	13894296एफ	हवलदार	शिव प्रसाद महतो	01.02.2010
2570	6381529एफ	हवलदार	शिवा पी	01.04.2010
2571	6380573वाइ	हवलदार	शिवाजी बी	01.07.2010
2572	13894450पी	हवलदार	शिवजी यादव	01.03.2010
2573	6379925वाइ	हवलदार	शिवलाल सिंह	01.04.2010
2574	6380208एक्स	हवलदार	श्री निवास प्रसाद	01.04.2010
2575	13891940एक्स	हवलदार	श्रीनाथ प्रसाद	01.02.2010
2576	15351886डब्ल्यू	हवलदार	श्याम लाल	01.03.2010
2577	13897445पी	हवलदार	सिरीश चंद्रा नायक	01.06.2010
2578	13897267एक्स	हवलदार	सीता नाथ सेठी	01.04.2010
2579	6381844एक्स	हवलदार	शिवासंकरन पी	01.07.2010
2580	6382080डब्ल्यू	हवलदार	सुबास दुबे	01.08.2010
2581	6380422ए	हवलदार	सुदामा राम	01.06.2010
2582	6381848एन	हवलदार	एस लाल पी	01.07.2010
2583	6381469एक्स	हवलदार	सुधेश कुमार घोष	01.02.2010

2584	13897178वाइ	हवलदार	सुधीर कुमार सिंह	01.02.2010
2585	13891975एन	हवलदार	सुजान सिंह	01.02.2010
2586	6381856एम	हवलदार	सुख लाल	01.07.2010
2587	6382082एफ	हवलदार	सुकराम पाल	01.08.2010
2588	6381962एल	हवलदार	सुकुमारा पिल्लई जे	01.07.2010
2589	3383307एच	हवलदार	सूरत सिंह	01.04.2010
2590	6381984के	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2010
2591	1474679पी	हवलदार	सुरेश डी.	01.04.2010
2592	6380593एम	हवलदार	सुर्जसे उल्हास वी	01.07.2010
2593	6380028पी	हवलदार	सुशील कुमार झा	01.04.2010
2594	13894257एच	हवलदार	तारकेशवर प्रसाद	01.02.2010
2595	13894828डब्ल्यू	हवलदार	तेज बहादुर वर्मा	01.03.2010
2596	13897156ए	हवलदार	ठाकुर आर भाई लाडु भाई	01.03.2010
2597	6382040पी	हवलदार	टी बालकृशना दन्यानदेव	01.08.2010
2598	6380059पी	हवलदार	उमापति एम	01.04.2010
2599	6381850एल	हवलदार	उन्नीर्कशन्न नायर जी.	01.07.2010
2600	13894914एफ	हवलदार	उत्पल कान्ति धर	01.05.2010
2601	6380067एन	हवलदार	वी महादेवन	01.04.2010
2602	6380114ए	हवलदार	वघेला बी के	01.04.2010
2603	6381426एच	हवलदार	वेंकट चलम के	01.02.2010
2604	13897293वाइ	हवलदार	विद्या नन्द यादव	01.05.2010
2605	6381939एक्स	हवलदार	विजय पाल सिंह	01.07.2010
2606	6380096एच	हवलदार	विजय पाल सिंह राघव	01.04.2010
2607	6380450एम	हवलदार	विजयन पी	01.06.2010
2608	13894273ए	हवलदार	विमल सिंह	01.02.2010
2609	15351292एफ	हवलदार	विनोद कुमार	01.02.2010
2610	6379824एल	हवलदार	विरेन्द्र कुमार	01.03.2010
2611	15352023एफ	हवलदार	यश पाल सिंह चौहान	01.03.2010
2612	13894280डब्ल्यू	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद	01.02.2010
2613	13897613एच	हवलदार	जिले सिंह	01.08.2010

### सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

2614	6476237के	हवलदार	अब्दुल आरओबी	01.05.2010
2615	6476276एच	हवलदार	बलबीर सिंह	01.06.2010
2616	6476298एफ	हवलदार	बलबीर सिंह धनकर	01.07.2010
2617	6476531के	दफादार	बामा चरण मोन्डल	01.08.2010
2618	6476207एम	हवलदार	बासु देबा साहू	01.05.2010
2619	6476145एक्स	दफादार	भरत प्रसाद तिवारी	01.04.2010
2620	6476354पी	हवलदार	चंदेश्वर सिंह	01.08.2010
2621	6482071के	हवलदार	चांदी दास अधिकारी	01.04.2010
2622	6476386एक्स	हवलदार	दादू लाल शुक्ला	01.08.2010

2623	6482166के	हवलदार	दरबार सिंह	01.08.2010
2624	6482066वाइ	दफादार	दरेन्द्र बी	01.04.2010
2625	3383210एक्स	हवलदार	दयाल सिंह	01.03.2010
2626	6476079ए	हवलदार	दिनेश कुम्र	01.02.2010
2627	6476406ए	दफादार	डी. पाती कोटैया	01.08.2010
2628	6476146ए	हवलदार	एफ लाल	01.04.2010
2629	6476223के	हवलदार	गंगा राम मोन्डल	01.06.2010
2630	6476391एच	दफादार	हकीम सिंह	01.08.2010
2631	3382763एफ	हवलदार	हरभजन सिंह	01.02.2010
2632	6476373ए	हवलदार	हरीषा ए एम	01.08.2010
2633	6476162एक्स	हवलदार	हरफूल सिंह ढाका	01.04.2010
2634	6381630एफ	हवलदार	जरनैल सिंह	01.04.2010
2635	6379714डब्ल्यू	हवलदार	जय शंकर सिंह	01.02.2010
2636	6476296डब्ल्यू	हवलदार	जीवन सिंह	01.07.2010
2637	6476024डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश सिंह	01.02.2010
2638	6476314एन	हवलदार	किशन कुमार	01.07.2010
2639	6476035एच	हवलदार	कष्णन मुरारी लाल	01.02.2010
2640	6476256पी	दफादार	लोगू पी	01.06.2010
2641	6476180ए	हवलदार	एम डी. टी इस्लाम अहमद	01.05.2010
2642	6476077पी	हवलदार	एम यादव	01.02.2010
2643	13686498के	हवलदार	एन एल बी	01.04.2010
2644	6476230ए	हवलदार	निहाल सिंह	01.05.2010
2645	6476242पी	हवलदार	पदम कुमार पी	01.06.2010
2646	6476295एन	दफादार	प्रेम बहादुर	01.07.2010
2647	6476352के	दफादार	रबीन्द्र कुमार सिंह	01.08.2010
2648	6476270एफ	हवलदार	राजामोहान्न के	01.06.2010
2649	6476065ए	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01.02.2010
2650	6482178वाइ	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01.08.2010
2651	6482089ए	दफादार	राम करन सिंह कुशवाह	01.05.2010
2652	6476197एन	हवलदार	राम किशन	01.05.2010
2653	6476051ए	दफादार	राम किशन	01.02.2010
2654	6476194ए	हवलदार	राम नाथ प्रसाद	01.05.2010
2655	6476076एम	दफादार	राम प्रवेश रौय	01.02.2010
2656	6476118एन	हवलदार	रामजीत सिंह	01.03.2010
2657	6476111के	हवलदार	एस बी राजेंद्र प्रसाद आर	01.03.2010
2658	6482107एक्स	हवलदार	एस एम भैरू	01.05.2010
2659	6476032पी	हवलदार	एस रामचन्द्रन	01.02.2010
2660	6476115ए	हवलदार	शेखर चंद्रा अमानी	01.03.2010
2661	6476218वाइ	हवलदार	शेक यूनुस	01.05.2010
2662	6476215एल	हवलदार	शिवाजी राजा राग शिंदे	01.05.2010
2663	3382729एफ	हवलदार	सिमरजीत सिंह	01.02.2010



2664	6476109एम	हवलदार	सोमन के	01.03.2010
2665	6476409एन	हवलदार	सुबाष चंद्रा बारिक	01.08.2010
2666	6476104एन	दफादार	उपेंद्र प्रसाद	01.03.2010
2667	6476326एच	हवलदार	वी एम शन्मुखम	01.07.2010
2668	6476023एन	हवलदार	वी एस बी पी भाई	01.02.2010
2669	6476132ए	हवलदार	विजय सिंह	01.03.2010
2670	6476164एच	दफादार	वीर बहादुर सिंह	01.04.2010
2671	6381771डब्ल्यू	हवलदार	वीरेंद्र कुमार	01.06.2010
2672	6476027के	दफादार	योहानन वी के	01.02.2010

सेना चिकित्सा कोर

2673	13966401एल	हवलदार	ए बी जनार्दन	01.02.2010
2674	13957790पी	हवलदार	अहिबरन सिंह	01.04.2010
2675	13957720डब्ल्यू	हवलदार	अजब सिंह	01.04.2010
2676	13958262एक्स	हवलदार	अजय पॉल सिंह	01.05.2010
2677	13957902के	हवलदार	अजया कुमार प्रधान	01.04.2010
2678	13957853एम	हवलदार	अजीत कुमार दत्ता	01.04.2010
2679	13957788एक्स	हवलदार	अमर सिंह चौहान	01.04.2010
2680	13968566एच	हवलदार	अनिल कुमार	01.07.2010
2681	13957181एल	हवलदार	अनूप एम	01.03.2010
2682	13957625के	हवलदार	अनूप सिंह	01.04.2010
2683	13969124डब्ल्यू	हवलदार	अरुण कुमार शर्मा	01.08.2010
2684	13957050ए	हवलदार	आशाराम देशमुख	01.03.2010
2685	13956772ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2010
2686	13957967एक्स	हवलदार	अशोक कुमार दुबे	01.04.2010
2687	13957105वाइ	हवलदार	अशोक कुमार महतो	01.03.2010
2688	13957596ए	हवलदार	अशोक कुमार टी	01.04.2010
2689	13968592के	हवलदार	बी बी साधूजी	01.07.2010
2690	13958202एच	हवलदार	बी मधु दालन	01.05.2010
2691	13968921पी	हवलदार	बी टी मोकासे	01.08.2010
2692	13968501पी	हवलदार	बच्छा प्रसाद सिंह	01.07.2010
2693	13958337के	हवलदार	बाल कर्णान	01.05.2010
2694	13957447एम	हवलदार	बाल राज सिंह	01.04.2010
2695	13958283एन	हवलदार	बलेश्वर भक्ता	01.05.2010
2696	13957686एफ	हवलदार	बलकार सिंह	01.04.2010
2697	13958582एम	हवलदार	भरत चंद्रा वलाई	01.06.2010
2698	13956737एक्स	हवलदार	भोज राज	01.02.2010
2699	13956797एम	हवलदार	भोलानाथ पांडे	01.02.2010
2700	13957852के	हवलदार	भूपेन बुरा गोहीना	01.04.2010
2701	13957925एल	हवलदार	बिजया कुमार नायक	01.04.2010
2702	13958051पी	हवलदार	बिजेन्द्र सिंह राठी	01.04.2010

2703	13956640एम	हवलदार	बिनय कुमार प्रसाद	01.02.2010
2704	13957074के	हवलदार	बी मोन्दल	01.03.2010
2705	13957571एन	हवलदार	ब्रम प्रकाश	01.04.2010
2706	13957606वाइ	हवलदार	ब्रहमानन्दा दास	01.04.2010
2707	13957499एच	हवलदार	सी एस सिंह	01.04.2010
2708	13957010वाइ	हवलदार	चंद्रा भान	01.02.2010
2709	13958059एफ	हवलदार	चंद्रा प्रकाश	01.05.2010
2710	13957695एच	हवलदार	चंद्रन के	01.04.2010
2711	13957957एन	हवलदार	चंद्रिका प्रसाद	01.04.2010
2712	13956638पी	हवलदार	छोटे लाल	01.02.2010
2713	13957553एल	हवलदार	चौधरी चौहान	01.04.2010
2714	13956672पी	हवलदार	डी. एच आर सरगार	01.02.2010
2715	13958261पी	हवलदार	डी. के श्रीवास	01.05.2010
2716	13956993एम	हवलदार	डी. सिंह बिष्ट	01.02.2010
2717	13958281एच	हवलदार	दामोदर सिंह	01.05.2010
2718	13957215एन	हवलदार	दीन बंधु	01.03.2010
2719	13957297एफ	हवलदार	धर्म पाल	01.03.2010
2720	13957984एक्स	हवलदार	डी. सिंह	01.04.2010
2721	13956941डब्ल्यू	हवलदार	धर्मशवर राय	01.02.2010
2722	13957003एच	हवलदार	ध्यान सिंह	01.02.2010
2723	13958087एन	हवलदार	दीन बंधु सिंह	01.05.2010
2724	13957492वाइ	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.04.2010
2725	13957682एल	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.04.2010
2726	13957552एच	हवलदार	दिवाकर मिश्रा	01.04.2010
2727	13957539वाइ	हवलदार	दुर्गा शरण मिश्रा	01.04.2010
2728	13956810एल	हवलदार	जी. के त्रिपाठी	01.02.2010
2729	13957612एम	हवलदार	जी. एस सी	01.04.2010
2730	13957900वाइ	हवलदार	गयाधर साहू	01.04.2010
2731	13957801डब्ल्यू	हवलदार	जोर्ज सी डी.	01.04.2010
2732	13957014पी	हवलदार	जी. पात्रा	01.02.2010
2733	13957807एक्स	हवलदार	गुलाब सिंह	01.04.2010
2734	13957722एफ	हवलदार	गुरमेल चन्द	01.04.2010
2735	13957687के	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.04.2010
2736	13956955डब्ल्यू	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.02.2010
2737	13957344एन	हवलदार	हंस राज	01.03.2010
2738	13957285एम	हवलदार	हरेन्द्र कुमार सिंह	01.03.2010
2739	13957399एक्स	हवलदार	हरेन्द्र राय	01.04.2010
2740	13958124डब्ल्यू	हवलदार	हरीश चंद्रा झा	01.05.2010
2741	13958033एम	हवलदार	आइ बीर सिंह	01.04.2010
2742	13957513के	हवलदार	इन्द्रजीत रौय	01.04.2010
2743	13958282एल	हवलदार	जे के तिवारी	01.05.2010

2744	13957011एफ	हवलदार	जे एस कुशवाहा	01.02.2010
2745	13957641एफ	हवलदार	जगबीर सिंह	01.04.2010
2746	13957572डब्ल्यू	हवलदार	जगपाल	01.04.2010
2747	13957433एम	हवलदार	जय पाल सिंह	01.03.2010
2748	13956845एफ	हवलदार	जेओआर सिंह	01.02.2010
2749	13957504एच	हवलदार	जोरा सिंह	01.04.2010
2750	13957834एफ	हवलदार	के गुरु सामी	01.04.2010
2751	13958362एच	हवलदार	के के यशवंत धुंदु	01.05.2010
2752	13956688ए	हवलदार	के कमला वी	01.02.2010
2753	13957601ए	हवलदार	के पी श्रीवास्तव	01.04.2010
2754	13958084ए	हवलदार	कमलेश मिश्रा	01.05.2010
2755	13957056एफ	हवलदार	कन्हैया कुमार सिंह	01.03.2010
2756	13956682वाइ	हवलदार	कन्नन टी	01.02.2010
2757	13957421एक्स	हवलदार	करन सिंह	01.03.2010
2758	13957262एल	हवलदार	कर्मवीर सिंह	01.03.2010
2759	13957250डब्ल्यू	हवलदार	करुणेश कुमार सिंह	01.03.2010
2760	13957233डब्ल्यू	हवलदार	कासी प्रसाद लाल	01.03.2010
2761	13958305एफ	हवलदार	के नान्चरिया	01.05.2010
2762	13958321वाइ	हवलदार	के बोरा	01.05.2010
2763	13958199एन	हवलदार	ख्याली राम	01.05.2010
2764	13957960एन	हवलदार	कीर्ती सिंह	01.04.2010
2765	13957963एफ	हवलदार	कष्णन कुमार	01.04.2010
2766	13958381एन	हवलदार	एल धर राम	01.05.2010
2767	13969106एन	हवलदार	लक्ष्मी कांत नंदी	01.08.2010
2768	13958179ए	हवलदार	लाल बहादुर यादव	01.05.2010
2769	13956754एक्स	हवलदार	लोगानाथन एस	01.02.2010
2770	13956799एक्स	हवलदार	एम पी कमारा	01.02.2010
2771	13958191एफ	हवलदार	एम पी पासवान	01.05.2010
2772	13956928एम	हवलदार	एम एस बेपारी	01.02.2010
2773	13958139वाइ	हवलदार	एम टी गवारे	01.05.2010
2774	13969024एल	हवलदार	माधो राम ओझा	01.08.2010
2775	13957129एच	हवलदार	महाबीर	01.03.2010
2776	13958228एक्स	हवलदार	मानन यादव	01.05.2010
2777	13957629ए	हवलदार	माने हनमंत हरीबा	01.04.2010
2778	13958235एन	हवलदार	मनजीत सिंह	01.05.2010
2779	13958371के	हवलदार	एम श्रीनिवासुलु	01.05.2010
2780	13956611एक्स	हवलदार	मोहम्मद अनुल एचएके	01.02.2010
2781	13969131एम	हवलदार	मोहम्मद एन अली	01.08.2010
2782	13968517ए	हवलदार	मोमिन बाबू सैयद	01.07.2010
2783	13957099डब्ल्यू	हवलदार	मोती राम	01.03.2010
2784	13957789ए	हवलदार	नगीना प्रसाद यादव	01.04.2010

2785	13956763	वाइ	हवलदार	नानी गोपाल साहा	01.02.2010
2786	13969060	डब्ल्यू	हवलदार	नरेश कुमार	01.08.2010
2787	13957920	एम	हवलदार	ओम प्रकाश	01.04.2010
2788	13957137	एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.03.2010
2789	13957661	पी	हवलदार	पी सी रामदू	01.04.2010
2790	13956924	डब्ल्यू	हवलदार	पी के काम्बले	01.02.2010
2791	13957308	एच	हवलदार	पी मुथुसामी	01.03.2010
2792	13958125	वाइ	हवलदार	पी आर डी. राव	01.05.2010
2793	13956666	एफ	हवलदार	पी शण्मुगमै	01.02.2010
2794	13968547	एक्स	हवलदार	पी वेंकट रेडी	01.07.2010
2795	13958217	एल	हवलदार	पाले राम	01.05.2010
2796	13686018	पी	हवलदार	पांडव साहू	01.03.2010
2797	13957159	ए	हवलदार	परमजीत	01.03.2010
2798	13958190	वाइ	हवलदार	पी राम	01.05.2010
2799	13957602	एच	हवलदार	पियू कान्ति चंदा	01.04.2010
2800	13956867	ए	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.02.2010
2801	13958726	के	हवलदार	प्रकाश चंद्रा	01.06.2010
2802	13957927	डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश पात्रा	01.04.2010
2803	13956826	डब्ल्यू	हवलदार	प्रसादन के वी	01.02.2010
2804	13685855	पी	हवलदार	प्रेम सागर	01.02.2010
2805	13957926	एन	हवलदार	पूर्णा चंद्रा जैना	01.04.2010
2806	13956837	एच	हवलदार	आर सी पिल्लई ए	01.02.2010
2807	13957503	ए	हवलदार	आर एस घनघास	01.04.2010
2808	13686791	एफ	हवलदार	आर तिरुपति	01.05.2010
2809	13956883	एक्स	हवलदार	राधाकृष्ण आर	01.02.2010
2810	13957922	एक्स	हवलदार	राज कुमार	01.04.2010
2811	13957688	एम	हवलदार	राज कुमार	01.04.2010
2812	13969026	डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.08.2010
2813	13958067	ए	हवलदार	राजबीर सिंह	01.05.2010
2814	13957729	एल	हवलदार	राजबीर सिंह	01.04.2010
2815	13957431	एफ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.03.2010
2816	13957831	एन	हवलदार	राजेन्द्रियन	01.04.2010
2817	13956888	डब्ल्यू	हवलदार	राजेन्द्रन एन	01.02.2010
2818	13957849	के	हवलदार	आर के आर	01.04.2010
2819	13956649	एफ	हवलदार	राम बहादुर वर्मा	01.02.2010
2820	13957131	ए	हवलदार	राम दत्त	01.03.2010
2821	13958304	वाइ	हवलदार	राम मेहर	01.05.2010
2822	13957254	एम	हवलदार	राम नरेश	01.03.2010
2823	13957972	एच	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.04.2010
2824	13957728	एच	हवलदार	राम पाल	01.04.2010
2825	13957434	पी	हवलदार	राम फल	01.03.2010

2826	13957302एफ	हवलदार	राम फल	01.03.2010
2827	13958056एन	हवलदार	राम सेवक ओझा एसएम	01.05.2010
2828	13957406एच	हवलदार	राम शरण पटेल	01.03.2010
2829	13957125एम	हवलदार	राम सिंह	01.03.2010
2830	13958255एफ	हवलदार	राम टी यादव	01.05.2010
2831	13968973एल	हवलदार	राम उजागर पटेल	01.08.2010
2832	13956704एम	हवलदार	रमा कृष्णा रेडी बी	01.02.2010
2833	13958111वाइ	हवलदार	रामानन्द पासवान	01.05.2010
2834	13957054डब्ल्यू	हवलदार	रामानन्द सिंह	01.03.2010
2835	13957118डब्ल्यू	हवलदार	रामानन्द ठाकुर	01.03.2010
2836	13958044वाइ	हवलदार	रामवतार सिंह	01.04.2010
2837	13957591एफ	हवलदार	रामायण राम	01.04.2010
2838	13957328डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चन्द	01.03.2010
2839	13957041वाइ	हवलदार	रमेश चंद्र	01.02.2010
2840	13957867एम	हवलदार	रमेश कुमार	01.04.2010
2841	13957185एफ	हवलदार	रामेश्वर प्रसाद	01.03.2010
2842	13969127के	हवलदार	रामजी लाल	01.08.2010
2843	13957731एच	हवलदार	रंजीत सिंह	01.04.2010
2844	13957058एम	हवलदार	आर यादव	01.03.2010
2845	13969107डब्ल्यू	हवलदार	एस के जी. अली	01.08.2010
2846	13958020पी	हवलदार	एस एन डंठानिया	01.04.2010
2847	13968964के	हवलदार	एस पी सिंह	01.08.2010
2848	13958018एक्स	हवलदार	एस एस कुशावाहा	01.04.2010
2849	13957999ए	हवलदार	एस एस पांडुरंग	01.04.2010
2850	13956645एल	हवलदार	एस सुब्रमण्यन	01.02.2010
2851	13957532पी	हवलदार	सदन कुमार	01.04.2010
2852	13957761ए	हवलदार	सदानन्द ठाकुर	01.04.2010
2853	13957271एम	हवलदार	सादिक मसीह	01.03.2010
2854	13956921एच	हवलदार	समहुत राय	01.02.2010
2855	13958360एक्स	हवलदार	समुंद्र सिंह	01.05.2010
2856	13957049एल	हवलदार	संजय श्रीवास्तव	01.03.2010
2857	13957395एफ	हवलदार	ससिधरन पिल्लई बी	01.04.2010
2858	13957441एल	हवलदार	ससिनदरन एम	01.03.2010
2859	13969101पी	हवलदार	ससवाता कुमार पाल	01.08.2010
2860	13957130एक्स	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.03.2010
2861	13957330एन	हवलदार	सत्यावान सिंह मान	01.03.2010
2862	13958206वाइ	हवलदार	सावंत विनोद वामन	01.05.2010
2863	13968703डब्ल्यू	हवलदार	एस सिंह ढाका	01.07.2010
2864	13958229ए	हवलदार	शमीम अंसारी	01.05.2010
2865	13957751डब्ल्यू	हवलदार	शिंदे डी. बी	01.04.2010
2866	13956699एम	हवलदार	शियो नाथ बैठा	01.02.2010

2867	13956769ए	हवलदार	श्याम सुंदर	01.02.2010
2868	13957905एक्स	हवलदार	सीश राम	01.04.2010
2869	13957773पी	हवलदार	सीता राम	01.04.2010
2870	13957610एफ	हवलदार	शिव नारायण सिंह	01.04.2010
2871	13956740एक्स	हवलदार	श्रीधर त्रिपाठी	01.02.2010
2872	13957124के	हवलदार	सूबे सिंह	01.03.2010
2873	13956597डब्ल्यू	हवलदार	सुभाष तिवारी	01.02.2010
2874	13957212ए	हवलदार	सुकेश कुमार	01.03.2010
2875	13957480के	हवलदार	एस कुमार पाल	01.04.2010
2876	13957630पी	हवलदार	सुमन पाल	01.04.2010
2877	13957628एक्स	हवलदार	सुमेर सिंह	01.04.2010
2878	13969179ए	हवलदार	सुनेरमल पौल	01.08.2010
2879	13957317के	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.03.2010
2880	13957715एल	हवलदार	सुरेश कुमार	01.04.2010
2881	13956957एफ	हवलदार	सुरेश पौल	01.02.2010
2882	13958209एम	हवलदार	टी कोटेश्वर राव	01.05.2010
2883	13957768के	हवलदार	टी एल बी	01.04.2010
2884	13969110डब्ल्यू	हवलदार	तन्मई भट्टाचारजी	01.08.2010
2885	13956778एफ	हवलदार	तपन कुम्र विश्वास	01.02.2010
2886	13958075वाइ	हवलदार	तरसेम लाल	01.05.2010
2887	13957264डब्ल्यू	हवलदार	तेज प्रताप सिंह	01.03.2010
2888	13957435एक्स	हवलदार	ठाकुर दास	01.03.2010
2889	13957098एन	हवलदार	उदयबीर सिंह	01.03.2010
2890	13958285वाइ	हवलदार	उमेश दास	01.05.2010
2891	13956850एम	हवलदार	वी रेडिया	01.02.2010
2892	13957881वाइ	हवलदार	विजय पाल	01.04.2010
2893	13958077के	हवलदार	विजया कुमार के	01.05.2010
2894	13958159एम	हवलदार	विजयन नायर बी	01.05.2010
2895	13957935पी	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	01.04.2010
2896	13957615ए	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	01.04.2010
2897	13956632एन	हवलदार	विश्वनाथन के के	01.02.2010

### सेना आयुध कोर

2898	6924475के	हवलदार	ए राजू	01.02.2010
2899	6920144एल	हवलदार	अब्दुल सलाम	01.03.2010
2900	3383856एच	हवलदार	अजायब सिंह	01.06.2010
2901	6924552एन	हवलदार	अल्ला बख्श	01.02.2010
2902	6920609ए	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.05.2010
2903	6925743पी	हवलदार	आशीस कुमार आटा	01.08.2010
2904	6921004एल	हवलदार	अशोक कुमार एम	01.07.2010
2905	6925703एन	हवलदार	अशोक सिंह	01.08.2010

2906	6924989एफ	हवलदार	अशोकन एम	01.04.2010
2907	6921033ए	हवलदार	अवधेश कुमार राय	01.07.2010
2908	6925730एक्स	हवलदार	अयोध्या चंद्रा बंसी	01.08.2010
2909	6920393के	हवलदार	बाबू लाल पिछीया	01.04.2010
2910	6924672एम	हवलदार	बलवीर शर्मा	01.02.2010
2911	6920174एच	हवलदार	बांके लाल	01.03.2010
2912	6920902एक्स	हवलदार	बनवारी लाल	01.06.2010
2913	6920480एक्स	हवलदार	भगवान यादव	01.04.2010
2914	6924824एच	हवलदार	भीम सिंह	01.04.2010
2915	6925724के	हवलदार	भुपेन्द्र कुमार चटजी	01.08.2010
2916	6925761एक्स	हवलदार	बिजय गिरि	01.08.2010
2917	6920245वाइ	हवलदार	सी पी एस चौहान	01.04.2010
2918	6920104के	हवलदार	छोटे लाल	01.02.2010
2919	6924470एल	हवलदार	चूढामन	01.02.2010
2920	6924503एल	हवलदार	डी कोमगान	01.02.2010
2921	6920019एफ	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.02.2010
2922	8030307एक्स	हवलदार	दीना नाथ यादव	01.05.2010
2923	6925274एक्स	हवलदार	दीप कलिता	01.05.2010
2924	6920286एच	हवलदार	फतेह बहादुर सिंह पाल	01.04.2010
2925	6920106पी	हवलदार	जी. के मन्जोत्रा	01.02.2010
2926	13958704एल	हवलदार	गोपाल प्रसाद यादव	01.06.2010
2927	6924837ए	हवलदार	गोविंद सिंह	01.04.2010
2928	6920467एन	हवलदार	एच सिंह	01.04.2010
2929	6925432पी	हवलदार	हरीकरुशना राय	01.06.2010
2930	6924694एल	हवलदार	हरी बाबू	01.03.2010
2931	6920057एक्स	हवलदार	हरी तिवारी	01.02.2010
2932	3383836पी	हवलदार	हरजीत सिंह	01.06.2010
2933	6925619एन	हवलदार	हर्मन केर्केट्टा	01.07.2010
2934	6920200वाइ	हवलदार	जगदीश सिंह	01.03.2010
2935	13958930एच	हवलदार	जय प्रकाश राठी	01.05.2010
2936	6920836ए	हवलदार	जे दास	01.06.2010
2937	3383230एल	हवलदार	जसपाल सिंह	01.03.2010
2938	6920197के	हवलदार	जवाहिर राम	01.03.2010
2939	6920481ए	हवलदार	जोर्ज बी	01.04.2010
2940	6920988एफ	हवलदार	के वी डेनियानोभा	01.06.2010
2941	6920562ए	हवलदार	के वेनटेशन	01.05.2010
2942	6920276वाइ	हवलदार	काका एस राव	01.04.2010
2943	6925657के	हवलदार	काला मोहाना राव	01.08.2010
2944	6920967एल	हवलदार	कानेश्वर शर्मा	01.06.2010
2945	6920109एच	हवलदार	कन्नन आर	01.02.2010
2946	6920955डब्ल्यू	हवलदार	कोशल कुमार	01.06.2010

2947	6920234एम	हवलदार	खुशाल प्रसाद	01.03.2010
2948	6924569एफ	हवलदार	किष्णा राम	01.02.2010
2949	6921193ए	हवलदार	कृष्ण सिंह	01.08.2010
2950	8030334एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.05.2010
2951	6920150वाइ	हवलदार	कुमारन टी के	01.03.2010
2952	6920313एफ	हवलदार	लक्ष्मी नारायण	01.03.2010
2953	6921027एम	हवलदार	लेख राज	01.07.2010
2954	6920182ए	हवलदार	मधु लाल साह	01.03.2010
2955	6921046एक्स	हवलदार	मधु सूदन गेन	01.07.2010
2956	6921497एक्स	हवलदार	मल्कीत सिंह	01.06.2010
2957	6921828एन	हवलदार	मान बिरेन्द्र सिंह	01.08.2010
2958	6920381पी	हवलदार	मान सिंह	01.03.2010
2959	6924759एन	हवलदार	एम कुमार शर्मा	01.03.2010
2960	6924753एम	हवलदार	मंगल सिंह	01.03.2010
2961	6924802के	हवलदार	मोहम्मद शमसुल खान	01.03.2010
2962	6920156ए	हवलदार	मोहम्मद शरीफ	01.03.2010
2963	6920983एच	हवलदार	मोहन लाल	01.06.2010
2964	6925431वाइ	हवलदार	मलय पाल	01.06.2010
2965	6920970एल	हवलदार	मुरुगेशन सी	01.06.2010
2966	6921125एम	हवलदार	नगलिगप्पा एस	01.08.2010
2967	6921122वाइ	हवलदार	नन्द किशोर	01.08.2010
2968	6920741ए	हवलदार	नन्द किशोर यादव	01.05.2010
2969	6921155के	हवलदार	नरेंद्र कुमार	01.05.2010
2970	6920039पी	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार ठाकुर	01.02.2010
2971	6921211एक्स	हवलदार	एन सिंघा	01.08.2010
2972	6920964एक्स	हवलदार	पी यादव	01.06.2010
2973	6920455वाइ	हवलदार	प्रदीप कोनवर	01.04.2010
2974	6921958डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश सिंह	01.04.2010
2975	6921056एफ	हवलदार	प्रताप सिंह	01.07.2010
2976	6920639एक्स	हवलदार	रहीस पाल सिंह	01.05.2010
2977	6924675ए	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.02.2010
2978	6920105एम	हवलदार	राम बरन सिंह	01.02.2010
2979	6925238एम	हवलदार	राम गनेश सिंह	01.04.2010
2980	6921199एफ	हवलदार	राम कुमार मिश्रा	01.08.2010
2981	6921139एम	हवलदार	राम नारायण	01.08.2010
2982	6920209एन	हवलदार	राम निवास	01.03.2010
2983	6924969एन	हवलदार	राम संकर के	01.04.2010
2984	6920175एल	हवलदार	रामायण दास तिवारी	01.03.2010
2985	6920297पी	हवलदार	आर घोष	01.04.2010
2986	6920142ए	हवलदार	रवीन्द्र तिवारी	01.03.2010
2987	6920661एच	हवलदार	रेजा कुमार के	01.05.2010



2988	6920855एल	हवलदार	एस ए ओ ए रहीम	01.06.2010
2989	6924877एफ	हवलदार	एस डर्मार.	01.04.2010
2990	6924505डब्ल्यू	हवलदार	एस राजन	01.02.2010
2991	6920587एम	हवलदार	एस एस बालगोले	01.05.2010
2992	6920058ए	हवलदार	एस एस एस सैंगर	01.02.2010
2993	6924863एफ	हवलदार	सैलेन्द्रा चेट्टरी	01.04.2010
2994	6924912वाइ	हवलदार	सना राम बारो	01.04.2010
2995	6924596एल	हवलदार	संकर प्रमाणिक	01.02.2010
2996	6920199पी	हवलदार	सतीश चन्द	01.03.2010
2997	6920236एक्स	हवलदार	सत्यबीर सिंह	01.03.2010
2998	6920170एम	हवलदार	सत्यदेव सिंह	01.03.2010
2999	6921086वाइ	हवलदार	शाम शेर सिंह	01.07.2010
3000	6920194डब्ल्यू	हवलदार	शिव चंद्रा राम	01.03.2010
3001	6925709पी	हवलदार	शिव दत्ता	01.08.2010
3002	6920157एच	हवलदार	श्याम जेआई पांडे	01.03.2010
3003	6920122एम	हवलदार	सिराज उद्दीन लश्कर	01.02.2010
3004	6921152डब्ल्यू	हवलदार	सोहन लाल पांडे	01.08.2010
3005	6925048ए	हवलदार	सोम पाल	01.04.2010
3006	6920448एच	हवलदार	श्रीकान्त बारिक	01.04.2010
3007	6924524एफ	हवलदार	सुजीत कुमार दास	01.02.2010
3008	6924688एक्स	हवलदार	सुजीत कुमार मंडल	01.03.2010
3009	6920283पी	हवलदार	स्वप्न कुमार विश्वास	01.04.2010
3010	6924898एक्स	हवलदार	यू एम एस सामपत्ती	01.04.2010
3011	6920820पी	हवलदार	यू सिंह	01.06.2010
3012	6920917ए	हवलदार	उदय सिंह	01.06.2010
3013	6920716एफ	हवलदार	उमा एस राय	01.05.2010
3014	6924881के	हवलदार	विजयपाल यादव	01.04.2010
3015	6924949ए	हवलदार	विजया कुमार सी	01.04.2010

### इलेक्ट्रॉनिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

3016	14563551वाइ	हवलदार	अजय कुमार राय	01.02.2010
3017	14567427पी	हवलदार	अमन अली	01.05.2010
3018	14567078डब्ल्यू	हवलदार	अनन्त यशवंत केन्द्रे	01.05.2010
3019	14563762एफ	हवलदार	अन्गपाल सिंह सागवान	01.02.2010
3020	14563933एच	हवलदार	अनिल कुमार	01.03.2010
3021	14569272के	हवलदार	अनिल कुमार श्रीवास्तव	01.07.2010
3022	14568761एच	हवलदार	अनिल कुमार त्रिपाठी	01.07.2010
3023	14563151एम	हवलदार	अनिरुध ठाकुर	01.02.2010
3024	14567394पी	हवलदार	अरबिंद कुमार	01.05.2010
3025	14564902पी	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	01.03.2010
3026	14563188एन	हवलदार	अरुण कुमार तिवारी	01.02.2010

3027	14564215वाइ	हवलदार	अरुण ठाकुर	01.02.2010
3028	14563669ए	हवलदार	अर्विन्द कुमार सिंह	01.02.2010
3029	14568812एल	हवलदार	अशोक भैरू पाटिल	01.07.2010
3030	14564351पी	हवलदार	अशोक कुम्र राउत	01.03.2010
3031	14566249एल	हवलदार	अशोक कुमार	01.04.2010
3032	14564911डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.03.2010
3033	14594359डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार पाल	01.04.2010
3034	14566971के	हवलदार	अशोक कुमार सामल	01.05.2010
3035	14564267पी	हवलदार	आशुतोष नाथ	01.03.2010
3036	14563977ए	हवलदार	असित कुमार मंडल	01.02.2010
3037	14568523डब्ल्यू	हवलदार	ए अनटोनी	01.06.2010
3038	14563883एच	हवलदार	अवधेश झा	01.03.2010
3039	14564848एम	हवलदार	अवधेश कुमार सिंह	01.03.2010
3040	14564679डब्ल्यू	हवलदार	ए मंडल	01.03.2010
3041	14565710के	हवलदार	आज़ाद सिंह	01.04.2010
3042	14563725एन	हवलदार	बी बी प्रसाद सिन्हा	01.02.2010
3043	14563827के	हवलदार	बाबू एपी	01.03.2010
3044	14563791डब्ल्यू	हवलदार	बाबू लाल	01.02.2010
3045	14569377एन	हवलदार	बाबू लाल सी	01.08.2010
3046	14568034एल	हवलदार	बाबुल चंद्रा दास	01.06.2010
3047	14564748एफ	हवलदार	बच्छा प्रसाद सिंह	01.03.2010
3048	14592684एक्स	हवलदार	बाल राम सिंह	01.03.2010
3049	14569232एच	हवलदार	बलबीर सिंह	01.07.2010
3050	14568317एम	हवलदार	बलबीर सिंह चौहान	01.06.2010
3051	14563794के	हवलदार	बाली राम प्रसाद	01.02.2010
3052	14562583पी	हवलदार	बलजीत सिंह	01.02.2010
3053	14566773वाइ	हवलदार	बलराज सिंह	01.05.2010
3054	14564209एल	हवलदार	बलराज सिंह	01.02.2010
3055	14565115ए	हवलदार	बांके बिहारी सिंह	01.03.2010
3056	14570222एल	हवलदार	बन्नी थामस	01.08.2010
3057	14593227डब्ल्यू	हवलदार	बस्ती राम मुनडल	01.04.2010
3058	14597927एफ	हवलदार	बेन्नी चको	01.08.2010
3059	14563135पी	हवलदार	भागीरथी प्रसाद	01.02.2010
3060	14565981एफ	हवलदार	भरत सिंह	01.04.2010
3061	14562799डब्ल्यू	हवलदार	भवानी प्रसाद साहू	01.02.2010
3062	14562825एम	हवलदार	बी दास	01.02.2010
3063	14564368एच	हवलदार	भुवना चंद्रन पीके	01.03.2010
3064	14566905एफ	हवलदार	बी कलिता	01.05.2010
3065	14563941एफ	हवलदार	बिजय कुमार शर्मा	01.03.2010
3066	14564752के	हवलदार	बिजय कुमार सिंह	01.03.2010
3067	14564205पी	हवलदार	बिनोद कुमार ओझा	01.03.2010

3068	14564276डब्ल्यू	हवलदार	बीर बहादुर यादव	01.03.2010
3069	14566330एक्स	हवलदार	बीरेन ठाकुरी ए	01.04.2010
3070	14565117एल	हवलदार	बिरेन्द्रा उपाध्याय	01.03.2010
3071	14563562एल	हवलदार	बिरमा राम चौधरी	01.02.2010
3072	14563154ए	हवलदार	बिशु मोहन राय	01.02.2010
3073	14564357डब्ल्यू	हवलदार	बिशु प्रसाद शर्मा	01.03.2010
3074	14567151के	हवलदार	बी दत्तत्रे	01.05.2010
3075	14564701डब्ल्यू	हवलदार	ब्रमा देव सिंह	01.03.2010
3076	14563132एफ	हवलदार	ब्रज नंदन सिंह	01.02.2010
3077	14593027ए	हवलदार	बी नागेस्वर राव	01.03.2010
3078	14562657वाइ	हवलदार	चंद्र भान	01.02.2010
3079	14566269वाइ	हवलदार	सी नरेश बी	01.04.2010
3080	14563638ए	हवलदार	सी बालाजी जी.	01.02.2010
3081	14568358डब्ल्यू	हवलदार	चरण सिंह	01.06.2010
3082	14566746पी	हवलदार	सी प्रसाद	01.04.2010
3083	14564746डब्ल्यू	हवलदार	छबिला साह	01.03.2010
3084	14562950डब्ल्यू	हवलदार	दलेल सिंह	01.02.2010
3085	14565473एल	हवलदार	दामोदर प्रसाद दुबे	01.04.2010
3086	14562962एल	हवलदार	दवेन्द्र पाल बी	01.02.2010
3087	14568958वाइ	हवलदार	दयानन्द	01.07.2010
3088	14565717एन	हवलदार	देश पाल	01.04.2010
3089	14567111एच	हवलदार	देसराज	01.05.2010
3090	14566595एफ	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.04.2010
3091	14567879एक्स	हवलदार	डेविजत सिंह	01.06.2010
3092	14566737एन	हवलदार	धामले अरुण राम चंद्रा	01.04.2010
3093	14566736एल	हवलदार	धामनकर संबाजी एन	01.04.2010
3094	14564623के	हवलदार	धनंजय कुमार	01.03.2010
3095	14564684एफ	हवलदार	धनेश्वर प्रसाद साहा	01.03.2010
3096	14565548एक्स	हवलदार	धनी राम	01.04.2010
3097	14566602एम	हवलदार	धर्म सिंह	01.04.2010
3098	14564449एच	हवलदार	धरमा राजन टी	01.03.2010
3099	14563471एफ	हवलदार	धर्मबीर सिंह वर्मा	01.02.2010
3100	14563017एफ	हवलदार	धर्मपाल	01.02.2010
3101	14593009एक्स	हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	01.03.2010
3102	14570186एल	हवलदार	दिनेश सिंह भंडारी	01.08.2010
3103	14567894एम	हवलदार	दीपक चकर्बती	01.06.2010
3104	14566689वाइ	हवलदार	डेपेन्मोती नाथ	01.04.2010
3105	14562768डब्ल्यू	हवलदार	जी. एन नायर	01.01.2010
3106	14566930ए	हवलदार	गांधी सिंह	01.05.2010
3107	14564299एक्स	हवलदार	गनेश चंद्रा	01.03.2010
3108	14566445एल	हवलदार	गंगाधर साहू	01.04.2010

3109	14564562एक्स	हवलदार	गौड़ पाडा विश्वास	01.03.2010
3110	14564791एच	हवलदार	गया प्रसाद डी.	01.03.2010
3111	14566539एच	हवलदार	घनशाम राय	01.04.2010
3112	14567817एक्स	हवलदार	गिरीश चंद्रा	01.06.2010
3113	14568571डब्ल्यू	हवलदार	गोबिंदा चंद्रा जैना	01.07.2010
3114	14595131एम	हवलदार	गोपाल चंद्रा के	01.06.2010
3115	14592229पी	हवलदार	गोपिनन्दन. वी	01.03.2010
3116	14564031ए	हवलदार	गोविंद कुमार सिंह	01.02.2010
3117	14565671डब्ल्यू	हवलदार	गुलाब सिंह	01.04.2010
3118	14564367ए	हवलदार	गुरुमेज सिंह	01.03.2010
3119	14569204डब्ल्यू	हवलदार	हाकम सिंह	01.07.2010
3120	14563145वाइ	हवलदार	हकीम अंसारी	01.02.2010
3121	14563697एम	हवलदार	हरभजन सिंह	01.02.2010
3122	14564894एफ	हवलदार	हरे राम राम	01.03.2010
3123	14569743एम	हवलदार	हरी शंकर ओएलआई	01.08.2010
3124	14566356एम	हवलदार	हरी शंकर सिंह	01.04.2010
3125	14566743एफ	हवलदार	हरीश चंद्रा यादव	01.04.2010
3126	14593048डब्ल्यू	हवलदार	हेम चंद्रा	01.03.2010
3127	14562970के	हवलदार	हुकम चन्द	01.02.2010
3128	14568749एफ	हवलदार	इन्द्रजीत दास	01.07.2010
3129	14563710एल	हवलदार	इश्वर सिंह	01.02.2010
3130	14564376एफ	हवलदार	जाड़ेजा रंजीत सिंह	01.03.2010
3131	14562678पी	हवलदार	जगादीश यादवा	01.02.2010
3132	14562851एन	हवलदार	जगन सिंह यादव	01.02.2010
3133	14567217पी	हवलदार	जगदीश सिंह	01.05.2010
3134	14562888पी	हवलदार	जगेश्वर सिंह	01.02.2010
3135	14564846एफ	हवलदार	जय किशोर डी.	01.03.2010
3136	14563163एफ	हवलदार	जय मंगल सिंह	01.02.2010
3137	14564272ए	हवलदार	जय प्रकाश मिश्रा	01.03.2010
3138	14566982डब्ल्यू	हवलदार	जय प्रकाश प्रसाद	01.05.2010
3139	14562645के	हवलदार	जय सिंह	01.02.2010
3140	14563467वाइ	हवलदार	जयबीर सिंह तोमर	01.02.2010
3141	14563040पी	हवलदार	जैनेंद्र प्रसाद सिंह	01.02.2010
3142	14564245डब्ल्यू	हवलदार	जयपाल सिंह	01.03.2010
3143	14567737ए	हवलदार	जान मोहम्मद	01.06.2010
3144	14565219एफ	हवलदार	जनार्दन प्रसाद सिंह	01.03.2010
3145	14566748ए	हवलदार	जसमेर सिंह खरब	01.04.2010
3146	14592450एन	हवलदार	जे राजेंद्रा कुंडलिक	01.03.2010
3147	14563193वाइ	हवलदार	जया दीवान ए	01.11.2009
3148	14562871एफ	हवलदार	जितेन्द्र कुमार	01.02.2010
3149	14570004एम	हवलदार	जीवन सिंह	01.08.2010

3150	14568440एल	हवलदार	जोगेश चंद्रा चौधरी	01.07.2010
3151	14568701एन	हवलदार	जॉनी कुट्टी के	01.07.2010
3152	14564913एफ	हवलदार	जोलन मिंज	01.03.2010
3153	14564266एम	हवलदार	जे अली लश्कर	01.03.2010
3154	14564595एच	हवलदार	के बी थापा	01.03.2010
3155	14564601एल	हवलदार	के सी सेकिआ	01.03.2010
3156	14568970ए	हवलदार	के चंद्रा पानी	01.07.2010
3157	14563843एफ	हवलदार	के सिल्वाराज	01.02.2010
3158	14564340एच	हवलदार	काबिन्द्रा कुमार बिस्वाल	01.03.2010
3159	14566229एक्स	हवलदार	कदम सुभाष चंद्रा	01.04.2010
3160	14567429ए	हवलदार	के चंद्रा मेधी	01.05.2010
3161	14570481एन	हवलदार	काजल कुमार नंदी	01.08.2010
3162	14562592डब्ल्यू	हवलदार	के राम स्वर्गयारे	01.02.2010
3163	14563162वाइ	हवलदार	कमलेशवर ओझा	01.02.2010
3164	14564338एल	हवलदार	कन्हैया ठाकुर	01.03.2010
3165	14570672एच	हवलदार	के प्रसाद यादव	01.08.2010
3166	14566001एफ	हवलदार	करुणाकरन पिल्लई एस	01.04.2010
3167	14563057एच	हवलदार	कश्मीरी लाल शर्मा	01.02.2010
3168	14597958एफ	हवलदार	काशीनाथ महापात्रा	01.08.2010
3169	14590741पी	हवलदार	केदार नाथ यादव	01.02.2010
3170	14563293के	हवलदार	केदार प्रसाद यादव	01.02.2010
3171	14567219ए	हवलदार	केशर सिंह	01.05.2010
3172	14564334पी	हवलदार	किशोरी चंद्रा एम	01.03.2010
3173	14564895के	हवलदार	कष्णन पाल	01.03.2010
3174	14564042एम	हवलदार	कुलबीर सिंह	01.02.2010
3175	14566819डब्ल्यू	हवलदार	कूलधरम जाट	01.05.2010
3176	14566609डब्ल्यू	हवलदार	कुलकणी अरुण देवीदास	01.04.2010
3177	14564345एफ	हवलदार	कुंवर पाल सिंह	01.03.2010
3178	14562866डब्ल्यू	हवलदार	कुर्दा राम	01.02.2010
3179	14569403के	हवलदार	लाधू राम बिश्नोई	01.08.2010
3180	14569368एम	हवलदार	लाल बहादुर चौधरी	01.07.2010
3181	14562782एच	हवलदार	ललित कुमार महाराज	01.02.2010
3182	14563953डब्ल्यू	हवलदार	ललित मोहन सिंह कुंवर	01.02.2010
3183	14566045वाइ	हवलदार	लल्लन सिंह	01.04.2010
3184	14569022एच	हवलदार	लल्लन यादव	01.07.2010
3185	14564789एल	हवलदार	लल्लू राम	01.03.2010
3186	14567610एक्स	हवलदार	लल्लू राम	01.06.2010
3187	14563632वाइ	हवलदार	लोखाण्डे बी डी	01.02.2010
3188	14563404डब्ल्यू	हवलदार	एम सुब्रमनिअन	01.02.2010
3189	14566943एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.05.2010
3190	14568216वाइ	हवलदार	महेन्द्र नाथ	01.06.2010

3191	14563394एक्स	हवलदार	महेंद्र पाल सिंह	01.02.2010
3192	14563705ए	हवलदार	मान सिंह	01.02.2010
3193	14567340एन	हवलदार	मान्दूरामन बी	01.05.2010
3194	14565793ए	हवलदार	मंगल कुमार सिंह	01.04.2010
3195	14569970एम	हवलदार	मनी राम	01.08.2010
3196	14565629एक्स	हवलदार	मानिक कुमार नायक	01.04.2010
3197	14564372एल	हवलदार	मन्नू सिंह	01.03.2010
3198	14570321एन	हवलदार	मनोहर सिंह बिस्ट	01.08.2010
3199	14592098पी	हवलदार	मथाई एन पी	01.03.2010
3200	14563271एल	हवलदार	मोहम्मद आलमगीर अंसारी	01.02.2010
3201	14564213एन	हवलदार	मोहम्मद जुबेर एस	01.02.2010
3202	14564255ए	हवलदार	मोहम्मद एम मोन्दल	01.03.2010
3203	14564414एम	हवलदार	मोहम्मद एम	01.03.2010
3204	14568989वाइ	हवलदार	मोहम्मद आर	01.07.2010
3205	14565455एच	हवलदार	मोहम्मद साहबुद्दीन	01.04.2010
3206	14570088एल	हवलदार	मोहम्मद जआउल एचएजी.	01.08.2010
3207	14566910एम	हवलदार	मिथलेश कुमार	01.05.2010
3208	14570636एक्स	हवलदार	मिथलेश कुमार सिंह	01.08.2010
3209	14563115एफ	हवलदार	मोहम्मद शहाबुद्दीन खलीफा	01.02.2010
3210	14570592एल	हवलदार	मोहन राम जंघू	01.08.2010
3211	14567809वाइ	हवलदार	मोहनदास वी	01.06.2010
3212	14591696ए	हवलदार	मोही राम सोनोवाल	01.03.2010
3213	14564786एक्स	हवलदार	सांसद द्विवेदी	01.03.2010
3214	14563434एन	हवलदार	मुन्द्रीका प्रसाद	01.02.2010
3215	14563472के	हवलदार	एम कुमार	01.02.2010
3216	14566983वाइ	हवलदार	मूनू राम	01.05.2010
3217	14564541एफ	हवलदार	मुरलीधरन नायर	01.03.2010
3218	14563849एच	हवलदार	एन गोविन्द सामी	01.12.2009
3219	14565000एम	हवलदार	एन के शर्मा	01.04.2010
3220	14569363एन	हवलदार	नबाब सिंह	01.07.2010
3221	14565012एफ	हवलदार	नफे सिंह	01.04.2010
3222	14565468ए	हवलदार	नन्द लाल सिंह	01.04.2010
3223	14568402पी	हवलदार	नारायनन के के	01.06.2010
3224	14563440एफ	हवलदार	नारायनन एम वी	01.02.2010
3225	14566586ए	हवलदार	एन पाल सिंह	01.04.2010
3226	14563784ए	हवलदार	नरेन्द्रा पाल सिंह	01.02.2010
3227	14569005एच	हवलदार	नरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2010
3228	14563389एम	हवलदार	नरेंद्रन एम	01.02.2010
3229	14564686एम	हवलदार	नरेश प्रसाद	01.03.2010
3230	14567018एफ	हवलदार	नाथू राम	01.05.2010
3231	14567511पी	हवलदार	नयन सिंह यादव	01.06.2010

3232	14566280	एक्स	हवलदार	नजीम उद्दीन	01.04.2010
3233	14565414	वाइ	हवलदार	निर्मल सेकिआ	01.03.2010
3234	14562648	एक्स	हवलदार	ओम प्रकाश	01.02.2010
3235	14563721	एक्स	हवलदार	ओम प्रकाश	01.02.2010
3236	14566540	एक्स	हवलदार	ओम प्रकाश वर्मा	01.04.2010
3237	14566034	एम	हवलदार	प्यार चन्द	01.02.2010
3238	14565654	डब्ल्यू	हवलदार	परमजीत सिंह	01.04.2010
3239	14563940	वाइ	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.03.2010
3240	14566344	एक्स	हवलदार	परमार सरमन नाथा	01.04.2010
3241	14563748	पी	हवलदार	परसुराम बारिक	01.02.2010
3242	14569532	के	हवलदार	पोनप्पा बीसी	01.08.2010
3243	14563497	डब्ल्यू	हवलदार	प्रदीपन बी	01.02.2010
3244	14563178	के	हवलदार	प्रदीप्त कुमार बराल	01.02.2010
3245	14563023	पी	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.02.2010
3246	14567570	एफ	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.05.2010
3247	14564812	एन	हवलदार	प्रताप चंद्रा सिंघा	01.03.2010
3248	14566268	डब्ल्यू	हवलदार	प्रवीण मंडल	01.04.2010
3249	14564120	वाइ	हवलदार	प्रयाग ठाकुर	01.02.2010
3250	14567508	पी	हवलदार	प्रेम शंकर सिंह	01.05.2010
3251	14564242	एच	हवलदार	प्रेम सिंह	01.03.2010
3252	14564119	के	हवलदार	पृथ्वीराज सिंह वाइ	01.02.2010
3253	14569525	एन	हवलदार	पूरन सिंह	01.08.2010
3254	14567989	एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.06.2010
3255	14563148	एम	हवलदार	पुरुषोत्थम प्रसाद सिंह	01.02.2010
3256	14566287	एफ	हवलदार	आर के सिंघा	01.04.2010
3257	14564876	वाइ	हवलदार	रबीन्द्र नाथ राउत	01.03.2010
3258	14569376	एल	हवलदार	आर वीआर	01.07.2010
3259	14565766	डब्ल्यू	हवलदार	राज किशोर सिंह	01.04.2010
3260	14562926	ए	हवलदार	राज कुमार	01.02.2010
3261	14570169	एल	हवलदार	राज कुमार अवस्थी	01.08.2010
3262	14593196	एफ	हवलदार	राज कुमार तिवारी	01.04.2010
3263	14564815	एफ	हवलदार	राज नारायण रौय	01.03.2010
3264	14564519	डब्ल्यू	हवलदार	राज नारायण तिवारी	01.03.2010
3265	14569639	वाइ	हवलदार	राजन एम	01.08.2010
3266	14564959	के	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.03.2010
3267	14563594	एन	हवलदार	राजेंद्रा प्रकाश	01.02.2010
3268	14593502	एल	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2010
3269	14568870	पी	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.07.2010
3270	14593981	एक्स	हवलदार	राजेन्द्रन आर	01.04.2010
3271	14565471	ए	हवलदार	राजकरण यादव	01.04.2010
3272	14570151	पी	हवलदार	राजपाल सिंह	01.08.2010

3273	13959055एक्स	हवलदार	राजू एस	01.07.2010
3274	14564873एल	हवलदार	राकेश कुमार गौतम	01.03.2010
3275	14567392के	हवलदार	राम बचन सिंह	01.05.2010
3276	14568908एन	हवलदार	राम बाली महतो	01.07.2010
3277	14568839एच	हवलदार	राम बिनश शर्मा	01.07.2010
3278	14564723पी	हवलदार	राम चंद्रा झा	01.03.2010
3279	14598070एल	हवलदार	राम चंद्रा सिंह	01.08.2010
3280	14567274डब्ल्यू	हवलदार	राम दास	01.05.2010
3281	14567379ए	हवलदार	राम देव यादव	01.05.2010
3282	14570192वाइ	हवलदार	राम धनी यादव	01.08.2010
3283	14564897पी	हवलदार	राम किशन विश्वाकर्मा	01.03.2010
3284	14564167के	हवलदार	राम कृष्णापाल सिंह	01.02.2010
3285	14567612एच	हवलदार	राम नरेश	01.06.2010
3286	14569733एच	हवलदार	राम नरेश पीडी तिवारी	01.08.2010
3287	14567307डब्ल्यू	हवलदार	राम पाल सिंह	01.05.2010
3288	14596828एम	हवलदार	राम पाल यादव	01.07.2010
3289	14563541पी	हवलदार	राम राज जी.	01.02.2010
3290	14567834एक्स	हवलदार	राम तेज	01.06.2010
3291	14590736के	हवलदार	रामायण प्रसाद एम	01.02.2010
3292	14565573डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्रा खाती	01.04.2010
3293	14564214डब्ल्यू	हवलदार	रमेश शर्मा	01.02.2010
3294	14570323वाइ	हवलदार	रमेश सिंह बिस्ट	01.08.2010
3295	14564750वाइ	हवलदार	रामेश्वर नाथ पांडे	01.03.2010
3296	14564347एम	हवलदार	रामेश्वर प्रसाद जी.	01.03.2010
3297	14565472एच	हवलदार	रामेश्वर सिंह यादव	01.04.2010
3298	14564059ए	हवलदार	रामजी प्रसाद सिंह	01.02.2010
3299	14563080डब्ल्यू	हवलदार	रामजी सिंह	01.02.2010
3300	14564617डब्ल्यू	हवलदार	रामजी	01.03.2010
3301	14566948डब्ल्यू	हवलदार	रामवीर शर्मा	01.05.2010
3302	14593386एन	हवलदार	रनबीर	01.04.2010
3303	14568725एक्स	हवलदार	रनबीर सिंह	01.07.2010
3304	14564713एल	हवलदार	रंग बहादुर सिंह	01.03.2010
3305	14564479ए	हवलदार	आर पिल्लई आर	01.03.2010
3306	14568567एन	हवलदार	रंजीत कुमार दास	01.07.2010
3307	14563607ए	हवलदार	रणपाल सिंह	01.02.2010
3308	14562556एल	हवलदार	रसबीर सिंह	01.02.2010
3309	14568622वाइ	हवलदार	रति राम	01.07.2010
3310	14568840एक्स	हवलदार	रतन सिंह	01.07.2010
3311	14591348वाइ	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.03.2010
3312	14564758एल	हवलदार	रविन्द्रनाथ सिंह	01.03.2010
3313	14564910एन	हवलदार	ऋषि पाल	01.03.2010



3314	14566702	एक्स	हवलदार	रोशन सिंह	01.04.2010
3315	14566231	पी	हवलदार	रोजन	01.04.2010
3316	14566691	डब्ल्यू	हवलदार	एस आइ सिंघा	01.04.2010
3317	14564942	डब्ल्यू	हवलदार	एस राजावेलू	01.03.2010
3318	14563596	वाइ	हवलदार	साबू टीआर	01.02.2010
3319	14564745	एन	हवलदार	सच्चिदानंद सिंह	01.03.2010
3320	14566708	वाइ	हवलदार	साधु राम	01.04.2010
3321	14564305	ए	हवलदार	सहदेव सिंह बी	01.03.2010
3322	14563968	वाइ	हवलदार	समर कुमार चौधुरी	01.02.2010
3323	14566530	एन	हवलदार	समुंद्र सिंह	01.04.2010
3324	14592977	एच	हवलदार	संजय कुमार	01.03.2010
3325	14563227	एफ	हवलदार	संजीव गोगोई	01.02.2010
3326	14598007	डब्ल्यू	हवलदार	संकर कुमार दास	01.08.2010
3327	14563880	पी	हवलदार	संकर कुमार झा	01.03.2010
3328	14564335	एक्स	हवलदार	सरत चंद्रा प्रधान	01.03.2010
3329	14565674	के	हवलदार	सर्बजीत सिंह	01.04.2010
3330	14563187	एल	हवलदार	सारदा नन्द	01.02.2010
3331	14563465	एन	हवलदार	सतेंद्र कुमार	01.02.2010
3332	14563523	एम	हवलदार	सतीश कुमार के	01.02.2010
3333	14563764	एम	हवलदार	सतीश कुमार	01.02.2010
3334	14562693	के	हवलदार	शत्रुघन राय	01.02.2010
3335	14564912	वाइ	हवलदार	सत्य राम यादव	01.03.2010
3336	14565931	डब्ल्यू	हवलदार	सत्यवरी	01.04.2010
3337	14564377	के	हवलदार	सत्यावान	01.03.2010
3338	14570728	के	हवलदार	शैलेंद्र कुमार	01.08.2010
3339	14566810	एफ	हवलदार	शक्ती सिंह	01.05.2010
3340	14569557	डब्ल्यू	हवलदार	एस कुमार	01.08.2010
3341	14564289	एन	हवलदार	शंकर सिंह	01.03.2010
3342	14562606	एल	हवलदार	शिंदे अशोक वसंत	01.02.2010
3343	14568469	एन	हवलदार	शिव राज सिंह यादव	01.06.2010
3344	14569044	एफ	हवलदार	शिवाजी यादव	01.07.2010
3345	14562948	वाइ	हवलदार	श्री चन्द	01.02.2010
3346	14569860	एक्स	हवलदार	श्रीपाल सिंह	01.08.2010
3347	14564616	एन	हवलदार	श्याम बाबू	01.03.2010
3348	14564161	एच	हवलदार	श्याम सुंदर	01.02.2010
3349	14567783	पी	हवलदार	श्याम सुंदर साहू	01.06.2010
3350	14564968	एल	हवलदार	सिधेश्वर यादव	01.03.2010
3351	14563663	वाइ	हवलदार	सिकंदर प्रसाद	01.02.2010
3352	14567840	एल	हवलदार	एस सिंह	01.06.2010
3353	14564475	के	हवलदार	सिवा प्रसाद के	01.03.2010
3354	14568328	वाइ	हवलदार	सिवान कुट्टी	01.06.2010

3355	14562918एफ	हवलदार	शिवराजन	01.02.2010
3356	14563631डब्ल्यू	हवलदार	एसके. अग्निहोत्री	01.02.2010
3357	14598104एन	हवलदार	एस इस्लाम	01.08.2010
3358	14564503एल	हवलदार	श्री कुमार वी	01.03.2010
3359	14570340वाइ	हवलदार	श्री राम कुंवर	01.08.2010
3360	14566618एक्स	हवलदार	श्री रामेश्वर सिंह	01.04.2010
3361	14563906वाइ	हवलदार	श्रीनिवासन एके.	01.03.2010
3362	14564759एन	हवलदार	सुभाष चंद्रा सिंह	01.03.2010
3363	14564262डब्ल्यू	हवलदार	एस सरकार	01.03.2010
3364	14569926एच	हवलदार	सुभाष चन्द	01.08.2010
3365	14564742ए	हवलदार	सुबोध प्रसाद सिन्हा	01.03.2010
3366	14564253पी	हवलदार	सुब्रता कुमार मोन्डल	01.03.2010
3367	14566046एफ	हवलदार	सुदामा सिंह	01.04.2010
3368	14564877एफ	हवलदार	सुगुनन ए	01.03.2010
3369	14567664वाइ	हवलदार	सुल्तान सिंह	01.05.2010
3370	14568096एल	हवलदार	सुमेर सिंह	01.06.2010
3371	14565278एन	हवलदार	सुमेर सिंह	01.03.2010
3372	14564816के	हवलदार	सुनील कुमार	01.03.2010
3373	14564248के	हवलदार	सूरजमल	01.03.2010
3374	14568775एच	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.07.2010
3375	14570452वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.08.2010
3376	14565021एच	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2010
3377	14564986एन	हवलदार	सुरेन्द्रन पी	01.03.2010
3378	14566238वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.04.2010
3379	14563618एम	हवलदार	सुरेश राम	01.02.2010
3380	14564993के	हवलदार	सूर्यनारायण मिश्रा	01.03.2010
3381	14562841के	हवलदार	सैयद बाबा एस	01.02.2010
3382	14563301एक्स	हवलदार	तारा कांत झा	01.02.2010
3383	14563600डब्ल्यू	हवलदार	टीकम सिंह	01.02.2010
3384	14563704एक्स	हवलदार	उदय राम	01.02.2010
3385	14566827पी	हवलदार	उदया सिंह	01.05.2010
3386	14568345वाइ	हवलदार	उद्यब एस रौय	01.06.2010
3387	14570049एम	हवलदार	उमा शंकर प्रसाद	01.08.2010
3388	14564011एम	हवलदार	उत्तातम कुमार माल	01.02.2010
3389	14567677डब्ल्यू	हवलदार	वी महादेवन	01.06.2010
3390	14563570के	हवलदार	वी पाल सिंह	01.02.2010
3391	14562994एन	हवलदार	वेद प्रकाश पुनिया	01.02.2010
3392	14568963के	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2010
3393	14568753के	हवलदार	विजय शंकर तिवारी	01.07.2010
3394	14562629एम	हवलदार	विजय सिंह	01.02.2010
3395	14563318एल	हवलदार	विजय वी सिंह	01.02.2010

3396	14563377एक्स	हवलदार	विजया कुमारन डी.	01.02.2010
3397	14566355के	हवलदार	विनय कुमार	01.04.2010
3398	14592000डब्ल्यू	हवलदार	विनय कुमार राय	01.03.2010
3399	14562897डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार	01.02.2010
3400	14563616एफ	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.02.2010
3401	14564809एन	हवलदार	वी प्रसाद	01.03.2010
3402	14568954एच	हवलदार	डब्ल्यू राजेंद्रा मांगी	01.07.2010
3403	14562682एक्स	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद	01.02.2010
3404	14562872के	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद	01.02.2010

सेना शिक्षा कोर

3405	9509376वाइ	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार सिंह	01.07.2010
3406	9509668एफ	हवलदार	राम सिंह शेखावत	01.06.2010

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

3407	7239238एफ	दफादार	अम्बिका राम	01.05.2010
3408	7239772वाइ	दफादार	बालीराम सिंह	01.07.2010
3409	7239203एल	दफादार	दरबार सिंह	01.03.2010
3410	7239814ए	दफादार	धर्म सिंह	01.08.2010
3411	7239662के	दफादार	दिलीप कुमार महापात्रा	01.04.2010
3412	7239224एफ	दफादार	कपिल साह	01.05.2010
3413	7239947डब्ल्यू	दफादार	महेंद्र प्रताप	01.08.2010
3414	7239281एच	हवलदार	नेमी पांडे	01.08.2010
3415	7239220एल	दफादार	पाटिल नामदेव एस	01.05.2010
3416	7239242के	दफादार	राम राज सिंह गुर्जर	01.06.2010
3417	7239713एम	हवलदार	रनबीर सिंह	01.06.2010
3418	7239208के	दफादार	शंकर नरहरी चौधरी	01.04.2010
3419	7239688वाइ	दफादार	सुरेन्द्रा कुमार	01.06.2010
3420	7239799डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रन ए	01.08.2010
3421	7239636एच	दफादार	स्वर्णजीत	01.02.2010

आसुचना कोर

3422	2477131एल	हवलदार	लाल चन्द	01.02.2010
3423	15353994वाइ	हवलदार	एम वी राव	01.06.2010
3424	3985297ए	हवलदार	मनोहर लाला जसवाल	01.03.2010
3425	7430430एन	हवलदार	राजेश कुमार	01.07.2010
3426	3177815वाइ	हवलदार	रामबीर सिंह	01.02.2010
3427	3177871एक्स	हवलदार	सुनील राजपूत	01.03.2010
3428	14591984एम	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2010
3429	14567681वाइ	हवलदार	तारा चन्द	01.06.2010
3430	14912848एल	हवलदार	यशपाल सिंह	01.07.2010

सेना पुलिस कोर

3431	7773734एक्स	हवलदार	अनिल टी	01.03.2010
3432	7773811एफ	हवलदार	अनिरुध कुमार सिंह	01.06.2010
3433	7773797ए	हवलदार	अनवर मोहम्मद	01.06.2010
3434	7773804एल	हवलदार	बदन सिंह	01.06.2010
3435	7773942एम	हवलदार	भरत सिंह	01.08.2010
3436	7774123पी	हवलदार	चंद्रा भान	01.08.2010
3437	7775042एफ	हवलदार	सी कलिता	01.03.2010
3438	7773847ए	हवलदार	दलीप सिंह	01.07.2010
3439	7773855वाइ	हवलदार	डी. वेंकट एस आर	01.08.2010
3440	7773639एल	हवलदार	काजल वी	01.02.2010
3441	7775115एच	हवलदार	के जमन	01.06.2010
3442	7774117एफ	हवलदार	एन इस्लाम बरभुईया	01.08.2010
3443	7775028पी	हवलदार	पी महालिंगम	01.02.2010
3444	7773651एम	हवलदार	राधा कष्णन यादव	01.02.2010
3445	7773875एम	हवलदार	राजधर चौबे	01.07.2010
3446	7773668ए	हवलदार	रमेश चंद्रा सिंह	01.02.2010
3447	7773936वाइ	हवलदार	शेष नाथ ठाकुर	01.06.2010
3448	7775131ए	हवलदार	एस करन	01.06.2010
3449	7775082एच	हवलदार	सुजीत कुमार दास	01.04.2010
3450	7773649पी	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.02.2010

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

3451	14395588के	हवलदार	पाटिल समभाजी गंगाधर	01.08.2010
3452	4556119एक्स	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.04.2010
3453	14493742एन	हवलदार	समशेर सिंह	01.03.2010
3454	14395350के	हवलदार	तपन विश्वास	01.08.2010
3455	2780256एम	हवलदार	विलास दत्तू एच	01.04.2010

पायोनियर कोर

3456	8430335एक्स	हवलदार	आनंद पाल सिंह	01.02.2010
3457	8030230ए	हवलदार	हीरालाल जादव	01.02.2010
3458	8031850एच	हवलदार	के राम गूजर	01.06.2010
3459	8031878एच	हवलदार	मोहन लाल	01.07.2010
3460	8031799एन	हवलदार	प्रभाकरण एनजी.	01.04.2010
3461	8030513एफ	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.08.2010
3462	8030279डब्ल्यू	हवलदार	रमेश कुमार	01.04.2010
3463	8031860एम	हवलदार	सरोज नाथ गोस्वामी	01.07.2010
3464	8030397के	हवलदार	शेक बख्शी	01.07.2010
3465	8031884डब्ल्यू	हवलदार	एस फूलचंद एस	01.08.2010

सेना डाक सेवा

3466	8370949एन	हवलदार	अरुण कुमार	01.05.2010
3467	8430371एच	हवलदार	अशोक	01.02.2010
3468	8430325एन	हवलदार	अतर सिंह	01.02.2010
3469	8430364एम	हवलदार	बाबूलाल गुर्जर	01.02.2010
3470	8430593एक्स	हवलदार	बालक राम	01.04.2010
3471	8430621वाइ	हवलदार	दीपांकर मंडल	01.06.2010
3472	8430447एक्स	हवलदार	दीवान सिंह	01.04.2010
3473	8430539के	हवलदार	गुलशन राय वर्मा	01.04.2010
3474	8430523वाइ	हवलदार	जग राम	01.03.2010
3475	8430342एन	हवलदार	जीवन सिंह	01.02.2010
3476	8430522डब्ल्यू	हवलदार	कष्णन लाल	01.03.2010
3477	8430628एच	हवलदार	लक्ष्मन मरांडी	01.06.2010
3478	8430365पी	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.02.2010
3479	8430359एफ	हवलदार	मोहनाकुमार पी	01.02.2010
3480	8430338एल	हवलदार	एन हरी गोपाल सिंघा	01.02.2010
3481	8430455डब्ल्यू	हवलदार	नन्दू राम	01.03.2010
3482	8430524एफ	हवलदार	निंगप्पा	01.04.2010
3483	8430591एम	हवलदार	प्रदीप कोशल	01.04.2010
3484	8430343डब्ल्यू	हवलदार	प्रीतम सिंह ठाकुर	01.02.2010
3485	8430322ए	हवलदार	राजा राम	01.02.2010
3486	8430494पी	हवलदार	रज्जन लाल	01.03.2010
3487	8430356एन	हवलदार	राकेश सिंह	01.02.2010
3488	8430515ए	हवलदार	सजीवन एन	01.03.2010
3489	8430649वाइ	हवलदार	शिव शंकर सिंह	01.06.2010
3490	8430491एफ	हवलदार	श्यामसुंदर द्विवेदी	01.03.2010

रक्षा सुरक्षा कोर

3491	10243172के	हवलदार	अधीर चंद्रा रौय	01.05.2010
3492	10243308एच	हवलदार	ए गोपी मोहन सिंघा	01.07.2010
3493	10326872डब्ल्यू	हवलदार	बीएस एच	01.06.2010
3494	4249062एम	हवलदार	जे प्रसाद त्रिवारी	01.02.2010
3495	10301775एन	हवलदार	खेंगार सिंह	01.05.2010
3496	10180949एक्स	हवलदार	रामनाथ सिंह	01.05.2010
3497	5340730एफ	हवलदार	युद्ध बहादुर बराल	01.08.2010

प्रदेशिक सेना

3498	103290074	हवलदार	ए आनंदम	01.02.2010
3499	10405414एफ	हवलदार	अर्विन्द कुमार	01.07.2010
3500	10227921एल	हवलदार	ए पाटिल	01.04.2010

3501	10291092के	हवलदार	बाबू पुथिया वी	01.06.2010
3502	10374323एन	हवलदार	बाल बहादुर सुब्बा	01.06.2010
3503	10274484एफ	हवलदार	देबाशीश भट्टाचारजी	01.06.2010
3504	10291081एक्स	हवलदार	देवादसन ए	01.06.2010
3505	10227916एम	हवलदार	गजानन चौधरी	01.04.2010
3506	10466336एल	हवलदार	हरबंस सिंह	01.05.2010
3507	10361996के	हवलदार	कन्हैया लाल	01.07.2010
3508	10361994वाइ	हवलदार	किशोरी लाल ठाकुर	01.07.2010
3509	10452588एम	हवलदार	के सुब्रमनिअन	01.02.2010
3510	10166577एम	हवलदार	के टी शिबू	01.06.2010
3511	10405402एम	हवलदार	महावीर सिंह	01.07.2010
3512	10291091एफ	हवलदार	एमएन राजन	01.06.2010
3513	10452590के	हवलदार	एम पेरूमल	01.02.2010

[सं. बी/43432/आई डी-10/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै जनरल, एडजुटेंट जनरल

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 12(E) dated 15th August, 2010.**—The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement on the eve of Independence Day 2010 under para 180 of the Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

### TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/NAIB SUBEDARS

#### 7 CAVALRY

1	1082440N	DFR	SAHAB SINGH	01-07-2010
---	----------	-----	-------------	------------

#### 8 CAVALRY

2	1080768W	DFR	GURDIAL SINGH	01-04-2010
3	1080083X	DFR	R B S KUSHWAH	01-03-2010
4	1081897H	DFR	RAM PARTAP SINGH	01-06-2010
5	1082698F	DFR	SURENDRA SINGH	01-08-2010

#### 2 LANCERS

6	1081060H	DFR	AJAB SINGH	01-04-2010
---	----------	-----	------------	------------

#### 17 HORSE

7	1081371W	DFR	BALWAN SINGH	01-05-2010
8	1080946N	DFR	DEVI SINGH INDIA	01-04-2010
9	1083273P	DFR	DILBAGH SINGH SASAN	01-08-2010
10	1082760H	DFR	INDERJIT SINGH	01-06-2010
11	1080641N	DFR	ISWAR SINGH	01-03-2010
12	1083638Y	DFR	KARAM SINGH	01-08-2010
13	1081330M	DFR	RAJENDRA BAHADUR SINGH	01-05-2010
14	1082947P	DFR	RANVIR SINGH	01-07-2010

**9 HORSE**

15	1082441W	DFR	JAGDISH PRASAD	01-07-2010
16	1080591N	DFR	MALKHAN SINGH	01-04-2010
17	1082722M	DFR	PIAR CHAND	01-08-2010
18	1082222P	DFR	RAJ RAM	01-06-2010

**14 HORSE**

19	1080119L	DFR	BALI RAM	01-03-2010
20	1082498L	DFR	BIR SINGH	01-07-2010
21	1081392M	DFR	CHAMBAIL SINGH	01-05-2010
22	1080122L	DFR	DESH RAJ	01-03-2010
23	1080423P	DFR	KULDIP CHAND	01-03-2010
24	1080903Y	DFR	MOHAN LAL	01-05-2010
25	1082206X	DFR	RAJWINDER SINGH	01-06-2010

**18 CAVALRY**

26	1081433L	DFR	VIRENDRA SINGH	01-05-2010
----	----------	-----	----------------	------------

**62 CAVALRY**

27	1081069X	HAV	DILAWAR SINGH	01-04-2010
28	1083105W	HAV	SHKIV NARAYAN MUNDEL	01-08-2010

**20 LANCERS**

29	1080244P	DFR	GAJENDRA SINGH	01-02-2010
30	1083309H	DFR	KARNAIL SINGH	01-08-2010
31	1082564H	DFR	KARNAIL SINGH	01-07-2010

**64 CAVALRY**

32	1083101A	DFR	AJAI PAL SINGH	01-08-2010
33	8031817L	DFR	BAL WANT SINGH	01-04-2010
34	1083092K	DFR	SUBEDAR SINGH	01-08-2010
35	1083069W	DFR	VOGENDRA PAL SINGH	01-08-2010

**65 ARMoured REGIMENT**

36	1081669A	DFR	GARU RAM	01-06-2010
37	1083155F	DFR	JANAK SINGH	01-08-2010
38	1080860P	DFR	KASHMIR SINGH	01-04-2010

**67 ARMoured REGIMENT**

39	1081126N	DFR	AMARJIT SINGH	01-03-2010
40	1081223L	DFR	RAVI KUMAR	01-05-2010
41	1081231K	DFR	SUDERSHAN SINGH	01-05-2010

**71 ARMoured REGIMENT**

42	1082321X	DFR	D BABY	01-05-2010
43	1080613F	DFR	RACHHPAL SINGH	01-04-2010
44	1082791H	DFR	RAM SINGH	01-07-2010

**72 ARMoured REGIMENT**

45	1080157F	DFR	LAXMAN SINGH	01-03-2010
46	1080331H	DFR	MAHENDER SINGH	01-03-2010
47	1080066X	DFR	MOHAN SINGH	01-03-2010
48	1083314N	DFR	ROSHAN LAL	01-08-2010
49	1081293K	DFR	SAROZ KUMAR SINGH	01-05-2010

**73 ARMoured REGIMENT**

50	1083233N	DFR	BALKAR SINGH	01-06-2010
51	1079847Y	DFR	LUKHMAL ALI KHAN	01-03-2010
52	1080701X	DFR	NACHHATTER SINGH	01-04-2010
53	1083239P	DFR	NARWANT SINGH	01-06-2010
54	1081283A	DFR	OVINDRA SINGH	01-05-2010
55	1083431Y	DFR	PAHUP SINGH	01-08-2010
56	1083241M	DFR	RACHHPAL SINGH	01-06-2010
57	1083235Y	DFR	SUKHA SINGH	01-06-2010
58	1081070M	DFR	SURINDER SINGH	01-04-2010

**74 ARMoured REGIMENT**

59	1081630N	DFR	RANDHIR SINGH	01-06-2010
----	----------	-----	---------------	------------

**75 ARMoured REGIMENT**

60	1080568A	DFR	SUMIRAN SINGH	01-03-2010
----	----------	-----	---------------	------------

**76 ARMoured REGIMENT**

61	1081352L	DFR	HARBHADUR SINGH	01-05-2010
----	----------	-----	-----------------	------------

**82 ARMoured REGIMENT**

62	1081026H	DFR	KUSHAL KUMAR	01-04-2010
----	----------	-----	--------------	------------

**84 ARMoured REGIMENT**

63	1087616X	HAV	P S SHIVMURTI	01-03-2010
----	----------	-----	---------------	------------

**88 ARMoured REGIMENT**

64	1087636L	DFR	DHUM SINGH	01-03-2010
----	----------	-----	------------	------------

**89 ARMoured REGIMENT**

65	1082903X	DFR	TARA CHAND	01-07-2010
----	----------	-----	------------	------------

**90 ARMoured REGIMENT**

66	1087678X	DFR	VIJAY BAHADUR SINGH	01-03-2010
----	----------	-----	---------------------	------------

**41 ARMoured REGIMENT**

67	1081067M	DFR	CHAMAN LAL	01-04-2010
----	----------	-----	------------	------------

**43 ARMoured REGIMENT**

68	1087640N	DFR	MUNNA SINGH	01-03-2010
----	----------	-----	-------------	------------

**44 ARMoured REGIMENT**

69	1087684L	DFR	JANARDAN YADVA	01-03-2010
70	1087671N	DFR	MOHAR PAL	01-03-2010

**46 ARMoured REGIMENT**

71	1079673K	DFR	SAGAR SINGH	01-02-2010
----	----------	-----	-------------	------------

**47 ARMoured REGIMENT**

72	1082859Y	DFR	YOGENDRA SINGH	01-07-2010
----	----------	-----	----------------	------------



**48 ARMoured REGIMENT**

73	1082900K	DFR	JASWINDER SINGH	01-07-2010
74	1082615L	DFR	RAM LAKHAN SINGH RATHOR	01-07-2010

**6 ARMoured REGIMENT**

75	1083523L	DFR	A P SINGH CHAUHAN	01-08-2010
----	----------	-----	-------------------	------------

**11 ARMoured REGIMENT**

76	1087673Y	DFR	GAJRAJ	01-03-2010
----	----------	-----	--------	------------

**15 ARMoured REGIMENT**

77	1087760M	DFR	RAJENDER KUMAR	01-04-2010
----	----------	-----	----------------	------------

**50 ARMoured REGIMENT**

78	1080847L	DFR	ASHOK KUMAR	01-04-2010
79	1081937Y	DFR	BHIM SINGH GUJAR	01-06-2010
80	1082239H	DFR	GANPAT SINGH	01-07-2010
81	1082334P	DFR	SHRI NIWAS	01-05-2010

**51 ARMoured REGIMENT**

82	1083611F	DFR	JAGRUP SINGH	01-08-2010
----	----------	-----	--------------	------------

**ARMoured CORPS**

83	1081695F	DFR	ALMU UDDIN MAHAMMAD	01-06-2010
84	1083311A	DFR	ANATA KUMAR DAS	01-08-2010
85	1080993L	DFR	BHURE LAL	01-04-2010
86	1082590K	DFR	CHARAN SINGH	01-07-2010
87	1079869X	DFR	DHRUV SAH	01-03-2010
88	1082838H	DFR	GANESH SINGH	01-07-2010
89	1082658A	DFR	GANGA DHAR	01-08-2010
90	1081818H	DFR	GOPAL LAXMAN KAMBLE	01-06-2010
91	1081702M	DFR	GORA LASKAR	01-06-2010
92	1081569P	DFR	HARBANS LAL	01-05-2010
93	1570557H	DFR	JOGINDER SINGH	01-04-2010
94	1083000M	DFR	JOGRAJ SINGH	01-08-2010
95	1082836X	DFR	M K SHARMA	01-07-2010
96	1083421P	DFR	N CHANDRAN	01-08-2010
97	1082849P	DFR	N K MAHADEV KAMLA	01-07-2010
98	1083600P	DFR	NANDA CHAND SINGHA	01-08-2010
99	1082744L	DFR	RAKESH	01-08-2010
100	1087797N	DFR	RAM SINGH	01-07-2010
101	1087608Y	DFR	RAMESH KUMAR	01-02-2010
102	1082300F	DFR	SURENDER SINGH	01-06-2010
103	1087786F	DFR	VINOD KUMAR SINGH	01-05-2010

**REGIMENT OF ARTILLERY**

104	14395098W	HAV	A CHINNAPPAN	01-08-2010
-----	-----------	-----	--------------	------------

105	14497310W	HAV	A PALANI	01-08-2010
106	14491531M	HAV	A RATHINAM	01-02-2010
107	14394877M	HAV	A VELU	01-04-2010
108	14379964H	HAV	ABDHESH SINGH	01-02-2010
109	14382635X	HAV	AJAD KUMAR SINGH	01-05-2010
110	14380803M	HAV	AJAY KUMAR	01-03-2010
111	14495800L	HAV	AJAY KUMAR	01-08-2010
112	14491986H	HAV	AJAY KUMAR BARIK	01-03-2010
113	14380144H	HAV	AJAYA KUMAR SAHANI	01-03-2010
114	14395016H	HAV	AJIT SINGH	01-04-2010
115	14382614F	HAV	AJIT SINGH	01-05-2010
116	14379722A	HAV	AJIT SINGH	01-02-2010
117	14496468M	HAV	AJMER SINGH	01-08-2010
118	15107803W	HAV	AKVAL SHANKER	01-02-2010
119	3383350K	HAV	AMARJIT SINGH	01-04-2010
120	15107303Y	HAV	AMBI D	01-02-2010
121	14379188N	HAV	AMIT KUMAR PANDIT	01-02-2010
122	15108460X	HAV	AMRIK SINGH	01-04-2010
123	14494438W	HAV	ANIL KUMAR SHARMA	01-03-2010
124	14380688X	HAV	ANIL ROY	01-03-2010
125	14394862K	HAV	ARJUN SINGH	01-04-2010
126	14379302A	HAV	ARUN KUMAR PANDEY	01-02-2010
127	15108222L	HAV	ARVIND SINGH	01-03-2010
128	15107711K	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2010
129	14493068P	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2010
130	14494082N	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2010
131	14491129H	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2010
132	15107858A	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2010
133	14490700W	HAV	ASHOK KUMAR CHOURASIA	01-02-2010
134	14379008A	HAV	ASHOK KUMAR THAKUR	01-02-2010
135	14491956L	HAV	ASHOK KUMAR THAKUR	01-03-2010
136	15107649H	HAV	ASHWINA RAM ROY	01-02-2010
137	14383610X	HAV	ATMA RAM MISHRA	01-08-2010
138	14490190A	HAV	AVINASH MISHRA	01-02-2010
139	15108649P	HAV	AVTAR SINGH	01-04-2010
140	15108477L	HAV	AZAD SINGH YADAV	01-04-2010
141	14493788W	HAV	B M DIGAMBAR	01-03-2010
142	14383021F	HAV	B P RAJARAM	01-05-2010
143	15108394A	HAV	B S VAKKUND	01-04-2010
144	14382900H	HAV	BABAJI CHARAN SETHI	01-05-2010
145	15107713P	HAV	BABU LAL	01-02-2010
146	14379860F	HAV	BABUL UDDIN LASKAR	01-02-2010
147	15107465K	HAV	BAHADUR SINGH	01-02-2010
148	15107556N	HAV	BAKSHISH SINGH	01-02-2010
149	15108229P	HAV	BALAJIAH	01-03-2010
150	15107257P	HAV	BALAK RAM	01-02-2010
151	14495354P	HAV	BALDEV SINGH	01-06-2010
152	15108259M	HAV	BALIVADA RAVI KUMAR	01-03-2010

153	14493712W	HAV	BALVINDER SINGH	01-03-2010
154	14381263L	HAV	BALWAN SINGH	01-04-2010
155	14496947N	HAV	BALWINDER SINGH	01-08-2010
156	14395314Y	HAV	BAMDEV DUVEDI	01-08-2010
157	14395235K	HAV	BANARASI DAS	01-08-2010
158	14496532Y	HAV	BANKU RAM	01-08-2010
159	14381020A	HAV	BASIR MIANA	01-03-2010
160	14381152N	HAV	BASU DEO	01-04-2010
161	14380830W	HAV	BENCHE LAL	01-03-2010
162	15108561L	HAV	BHAGAT RAM	01-04-2010
163	15108419F	HAV	BHAGAT SINGH	01-04-2010
164	14493267H	HAV	BHAGIRATH	01-03-2010
165	14492848N	HAV	BHAGWAN GOND	01-03-2010
166	14380658A	HAV	BHAGWAN PRASAD	01-03-2010
167	14381821F	HAV	BHAJAN SINGH	01-04-2010
168	14495478K	HAV	BHOLA RAM	01-07-2010
169	14394878P	HAV	BIKRAM SINGH	01-04-2010
170	15108212F	HAV	BINOD GOGOI	01-03-2010
171	15107669W	HAV	C D S RANA	01-02-2010
172	14492469X	HAV	CHAMAN SINGH	01-03-2010
173	14380252M	HAV	CHANDRA DEO	01-03-2010
174	14490640M	HAV	CHANDRA PAL SINGH	01-02-2010
175	14380166F	HAV	CHANDRA SEKHAR SINGH	01-03-2010
176	14491730A	HAV	CHENIRAM KONWAR	01-02-2010
177	14398330F	HAV	CHHAJU RAM	01-06-2010
178	14492776P	HAV	CHHOTE LAL	01-03-2010
179	14395221K	HAV	DAMBAR SINGH	01-08-2010
180	15105483N	HAV	DAYA RAM	01-04-2010
181	14395347K	HAV	DEBA BRATA GHOSH	01-08-2010
182	15108766A	HAV	DEWAN SINGH	01-04-2010
183	14496472P	HAV	DHAN BAHADUR KARKI	01-08-2010
184	7773903N	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-08-2010
185	14494785P	HAV	DHARMANAND	01-04-2010
186	14394785A	HAV	DHAWARE SANDIPAN GOPAL	01-02-2010
187	14490622K	HAV	DHERMENDRA SINGH YADAV	01-02-2010
188	14495428Y	HAV	DHIMA RAM	01-06-2010
189	15108748X	HAV	DILBAG SINGH	01-04-2010
190	15108434W	HAV	DILBAG SINGH	01-04-2010
191	15108211Y	HAV	DILIP CHANGMAI	01-03-2010
192	15107326A	HAV	DILSUKH RAM	01-02-2010
193	14492084A	HAV	DINA NATH PANDEY	01-03-2010
194	15108408P	HAV	DINDAYAL	01-04-2010
195	14496826M	HAV	DINESH MISHRA	01-08-2010
196	15108384W	HAV	DIP SINGH	01-04-2010
197	14380881K	HAV	DUDHNATH YADAV	01-03-2010
198	15107470P	HAV	DURGA DASS	01-02-2010
199	14379114Y	HAV	E BALAVENKATIAH	01-02-2010
200	14383837L	HAV	FATEH BAHADUR SINGH	01-08-2010

201	14382375X	HAV	FATEH BAHADUR SINGH	01-04-2010
202	14380910N	HAV	G C B SURJI	01-03-2010
203	14382686L	HAV	GH AHMAD HAJAM	01-05-2010
204	14495579X	HAV	GOPAL SINGH	01-07-2010
205	14395257H	HAV	GOPAL SINGH	01-08-2010
206	14385865W	HAV	GOVINTA DELLESWARA RAO	01-07-2010
207	14492068H	HAV	GUPTESHWAR OJHA	01-03-2010
208	15107261X	HAV	GUR CHARAN SINGH	01-02-2010
209	15107640N	HAV	H C PARADHI	01-02-2010
210	15108139N	HAV	HAKIM SINGH	01-03-2010
211	15101606X	HAV	HALAPANI SAHU	01-07-2010
212	14382778X	HAV	HALASH SAH	01-05-2010
213	14381803Y	HAV	HANS RAJ	01-04-2010
214	15107313H	HAV	HARENDER PRASAD SINGH	01-02-2010
215	14492779H	HAV	HARI KUTTAN G	01-03-2010
216	14395277W	HAV	HARI SHANKAR	01-08-2010
217	14493305N	HAV	HARISH CHANDER	01-03-2010
218	14381476Y	HAV	HARISH CHANDER	01-04-2010
219	14492086L	HAV	HARISH CHANDRA SINGH	01-03-2010
220	15108511A	HAV	HARJINDER SINGH	01-04-2010
221	14495680X	HAV	HARPAL	01-08-2010
222	14384197Y	HAV	HIMMAT SINGH	01-07-2010
223	14496157Y	HAV	INDRADEV TIWARI	01-08-2010
224	15107884F	HAV	INDRASEN MAURYA	01-02-2010
225	14383443M	HAV	ISHWAR DAS	01-08-2010
226	15107397F	HAV	ISHWAR DASS	01-02-2010
227	14394780F	HAV	J U M RAO	01-02-2010
228	15108921W	HAV	JADHAV SANDIPAN	01-04-2010
229	14380947P	HAV	JAG RAM	01-03-2010
230	15108253L	HAV	JAGAT SINGH	01-03-2010
231	14381852F	HAV	JAGDISH PRASAD	01-04-2010
232	14395712A	HAV	JAGDISH RAJ	01-08-2010
233	15108339K	HAV	JAGPAL SINGH	01-03-2010
234	14495845L	HAV	JAI CHAND	01-08-2010
235	15107893H	HAV	JAI PRAKASH YADAV	01-02-2010
236	14380793N	HAV	JAI RAM BARAI	01-03-2010
237	14496043N	HAV	JAIBIR SINGH	01-08-2010
238	15107685N	HAV	JAIMAL SINGH RAWAT	01-02-2010
239	14490533L	HAV	JAIRAM SINGH	01-02-2010
240	14383203P	HAV	JAIWIR SINGH	01-06-2010
241	14379505K	HAV	JASBIR SINGH	01-02-2010
242	14495913N	HAV	JASPAL SINGH	01-08-2010
243	14380142X	HAV	JATA SHANDKAR KUMAR	01-03-2010
244	14495359N	HAV	JAWAHAR SINGH	01-06-2010
245	14383175N	HAV	JIEUT RAM	01-06-2010
246	14395222M	HAV	JITENDRA SINGH	01-08-2010
247	14381780H	HAV	K C S SIKARWAR	01-04-2010
248	14383188L	HAV	K GAJENDRAN	01-06-2010

249	14379348H	HAV	K GYANAGURU SWAMY	01-02-2010
250	15107563K	HAV	K KUPPUSAMY	01-02-2010
251	15108246P	HAV	K SUKANT KUMAR REDDY	01-03-2010
252	15108874K	HAV	KADAM BALIRAM	01-04-2010
253	14383707H	HAV	KAILASH RAM	01-08-2010
254	14379708N	HAV	KALI CHARAN	01-02-2010
255	15108508A	HAV	KAMESHWAR SINGH	01-04-2010
256	14381208P	HAV	KAMESWAR RAJAK	01-04-2010
257	14493359P	HAV	KAMLESH KUMAR	01-03-2010
258	15108016F	HAV	KAMLESH KUMAR SHARMA	01-03-2010
259	14490579N	HAV	KAMLESHWARI MEHTA	01-02-2010
260	15108866L	HAV	KANA RAM	01-04-2010
261	14492117A	HAV	KANAILAL SUKLA BAIDYA	01-03-2010
262	14379958P	HAV	KARAN SINGH	01-02-2010
263	14382135A	HAV	KARAN SINGH	01-04-2010
264	14395492F	HAV	KARNAIL MASIH	01-08-2010
265	14492337K	HAV	KASHMIR SINGH	01-03-2010
266	14493901A	HAV	KAVIRAJAN L	01-03-2010
267	14383099M	HAV	KHIMANAND ADHIKARI	01-05-2010
268	14492753N	HAV	KIRAN PAL	01-03-2010
269	14382480N	HAV	KIRPAL SINGH	01-05-2010
270	15107880L	HAV	KISHORE KERKETTA	01-02-2010
271	15108095F	HAV	KOMAL SINGH	01-03-2010
272	14395256A	HAV	KOTEPALLI SIMHADRY	01-08-2010
273	15108772N	HAV	KRISHAN KUMAR	01-04-2010
274	14492300H	HAV	KRISHNA AVTAR	01-03-2010
275	14395204K	HAV	KRISHNAJI VANDREKAR	01-08-2010
276	14395410N	HAV	KULDIP SINGH	01-08-2010
277	14395266K	HAV	KULDIP SINGH	01-08-2010
278	14494389Y	HAV	KUNDAN SINGH	01-03-2010
279	15107494Y	HAV	LAJJA RAM	01-02-2010
280	14379136X	HAV	LAKSHMAN PRASAD SINHA	01-02-2010
281	14491830L	HAV	LAL SINGH	01-02-2010
282	14383655X	HAV	LALA PRASAD	01-08-2010
283	14491988N	HAV	LALAN YADAV	01-03-2010
284	14496103X	HAV	M G MANI	01-08-2010
285	14493442M	HAV	M PANNEER PERUMAL	01-03-2010
286	14492494W	HAV	MADAN GOPAL	01-03-2010
287	14379603K	HAV	MAHAVIR SINGH	01-02-2010
288	14395532X	HAV	MAHENDER SINGH	01-08-2010
289	14395072F	HAV	MAHENDRA SINGH CHOUHAN	01-04-2010
290	14490031H	HAV	MAHENDRA SINGH YADAV	01-02-2010
291	14494933P	HAV	MAHESH SINGH	01-04-2010
292	14490408F	HAV	MAHESH SINGH	01-02-2010
293	14383340N	HAV	MAHESH SINGH	01-07-2010
294	15105737A	HAV	MAHINDER SINGH	01-08-2010
295	15108847A	HAV	MAHIPAL SINGH	01-04-2010
296	15108813M	HAV	MAJBUT SINGH TOMAR	01-04-2010

297	3383351M	HAV	MALKIAT SINGH	01-04-2010
298	15108756W	HAV	MANIKANTAN NAIR K	01-04-2010
299	14380234K	HAV	MD A B SIDDIQUE	01-03-2010
300	15108778P	HAV	MEGH SINGH	01-04-2010
301	14381066H	HAV	MITHU BAHADUR	01-03-2010
302	14383599K	HAV	MOHAMMAD ASLAM	01-08-2010
303	14380152F	HAV	MOHAMMED ARMAN	01-03-2010
304	14494492K	HAV	MOHAN SINGH	01-03-2010
305	14496810F	HAV	MOHINDER SINGH	01-08-2010
306	14381203W	HAV	MRITHUNJAY KUMAR	01-04-2010
307	14383589A	HAV	MUHAMMAD HANIF	01-08-2010
308	14494158H	HAV	MUKTI KANTA PANDA	01-03-2010
309	14379935N	HAV	MUKUNDA BISWAS	01-03-2010
310	14497020Y	HAV	MURUGESAN A	01-08-2010
311	15108852L	HAV	N SATYANARAYANA	01-04-2010
312	15107739K	HAV	NAIB SINGH	01-02-2010
313	14379938F	HAV	NAND JI THAKUR	01-03-2010
314	7773932H	HAV	NAND RAM	01-06-2010
315	14380170K	HAV	NANDJI CHAUDHARY	01-03-2010
316	14379200K	HAV	NANDJI SINGH	01-02-2010
317	14383666K	HAV	NANI CHALIHA	01-08-2010
318	15108359X	HAV	NARAVELU KONDAIAH	01-03-2010
319	14395591K	HAV	NARESH KUMAR	01-08-2010
320	14395563X	HAV	NARESH KUMAR	01-08-2010
321	14382785N	HAV	NARESH KUMAR	01-05-2010
322	14489938K	HAV	NARESH SINGH TOMAR	01-02-2010
323	14494570W	HAV	NARINDER SINGH	01-04-2010
324	15107327H	HAV	NINGAPPA KAMATI	01-02-2010
325	14379029W	HAV	NISHI KANTA DEB NATH	01-02-2010
326	14379242W	HAV	NRAPENDRA KUMAR SINGH	01-02-2010
327	14381367M	HAV	OM PARKASH	01-04-2010
328	15108818L	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-04-2010
329	14492442A	HAV	OMENDRA KUMAR SINGH	01-03-2010
330	15108926P	HAV	OSHIHAR SINGH	01-04-2010
331	15108559N	HAV	P ANJANEYALU	01-04-2010
332	15107933Y	HAV	P R B G BHAI	01-03-2010
333	14492408A	HAV	P S SIKARWAR	01-03-2010
334	14381900W	HAV	P THURAI RAJ	01-04-2010
335	14490987Y	HAV	PADMA KANTA BORAH	01-02-2010
336	14491169K	HAV	PALWINDER SINGH	01-02-2010
337	14491905X	HAV	PARAMJIT SINGH	01-03-2010
338	14490515H	HAV	PARMANAND SHARMA	01-02-2010
339	14381290P	HAV	PATEL VAGHA BHAI VIR SINH	01-04-2010
340	14491356H	HAV	PHANI BHUSHAN NATH	01-02-2010
341	15108054X	HAV	PIARA SINGH	01-03-2010
342	14382085A	HAV	PRABIN HAZARIKA	01-04-2010
343	15107956A	HAV	PRADEEP KORAMBETH	01-03-2010
344	14493703P	HAV	PRAKASAN K	01-03-2010

345	15108169L	HAV	PREM SINGH	01-03-2010
346	14496949Y	HAV	PRONAB KUMAR HALDER	01-08-2010
347	14380783K	HAV	PURAN CHAND	01-03-2010
348	15108283H	HAV	PUSHPENDRA SINGH	01-03-2010
349	15108610H	HAV	R BALAN	01-04-2010
350	14395164N	HAV	RABINDRA MANDAL	01-08-2010
351	15107272K	HAV	RABINDRA PRASAD YADAV	01-02-2010
352	14379625H	HAV	RADHEY SHYAM SINGH	01-02-2010
353	15107248N	HAV	RAGHUNANDAN SINGH	01-02-2010
354	14494320P	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-03-2010
355	15108026L	HAV	RAJANDRA KURUP R	01-03-2010
356	14382335W	HAV	RAJBIR SINGH	01-05-2010
357	15108591H	HAV	RAJENDER NATH DASH	01-04-2010
358	15107484P	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-02-2010
359	15108715M	HAV	RAJENDRA SINGH	01-04-2010
360	14383053K	HAV	RAJESH CHANDRA	01-05-2010
361	14395214N	HAV	RAJINDER SINGH KASHIV	01-08-2010
362	14495561F	HAV	RAJIVE KUMAR SAXENA	01-07-2010
363	15108068X	HAV	RAJU V D	01-03-2010
364	14395124M	HAV	RAKESH KUMAR	01-08-2010
365	14383244Y	HAV	RAKESH KUMAR YADAV	01-06-2010
366	14382334N	HAV	RAM BILAS YADAV	01-05-2010
367	14382544N	HAV	RAM CHANDER	01-05-2010
368	14493314P	HAV	RAM CHANDRA SARKAR	01-03-2010
369	14394793Y	HAV	RAM KISHOR SINGH	01-02-2010
370	14493361M	HAV	RAM KISUN ROY	01-03-2010
371	14493245K	HAV	RAM NARESH GOSWAM	01-03-2010
372	15107871K	HAV	RAM NARESH SINGH	01-02-2010
373	15107600M	HAV	RAM NIWAS JAKHER	01-02-2010
374	14380843N	HAV	RAM PAL	01-03-2010
375	14380515A	HAV	RAM PAL SINGH	01-03-2010
376	14381568L	HAV	RAM PATI SINGH YADAV	01-04-2010
377	14494071F	HAV	RAM PRAKASH	01-03-2010
378	14495394W	HAV	RAM PRATAP SINGH	01-06-2010
379	15107691F	HAV	RAM PRAVESH SAW	01-02-2010
380	14380897P	HAV	RAM SINGH	01-03-2010
381	15108227K	HAV	RAM VINOD SINGH	01-03-2010
382	14496490X	HAV	RAMANAND	01-08-2010
383	14395432M	HAV	RAMANAND YADAV	01-08-2010
384	15108680F	HAV	RAMANANDA SARKAR	01-04-2010
385	14383617F	HAV	RAMASHRAY YADAV	01-08-2010
386	14395231N	HAV	RAMESH CHANDER	01-08-2010
387	14383155A	HAV	RAMESH CHANDRA	01-06-2010
388	14495398M	HAV	RAMESH SINGH	01-06-2010
389	15108539A	HAV	RAMESH SINGH YADAV	01-04-2010
390	14395481P	HAV	RAMESHWAR SAH	01-08-2010
391	14395071Y	HAV	RAMPAL	01-04-2010
392	14496927A	HAV	RANVIR SINGH	01-08-2010

393	14493345P	HAV	RAS BIHARI YADAV	01-03-2010
394	14395010F	HAV	RATTAN SINGH	01-04-2010
395	14383670M	HAV	RAVI SHANKAR	01-08-2010
396	14492814A	HAV	RAVINDER TEWARI	01-03-2010
397	14492078M	HAV	RICHPAL SINGH	01-03-2010
398	14381487L	HAV	RISHIPAL	01-04-2010
399	15108294P	HAV	ROOP KUMAR	01-03-2010
400	14379074H	HAV	RUDRA PAL KUSHWA	01-02-2010
401	14490089A	HAV	S BASKARAN	01-02-2010
402	15107255K	HAV	S C SHRIVASTAV	01-02-2010
403	15108047F	HAV	S CHARLES	01-03-2010
404	14492380L	HAV	S K L SRIVASTVA	01-03-2010
405	14379192W	HAV	S K NABAB	01-02-2010
406	15108224W	HAV	S KUPPAN	01-03-2010
407	15108895A	HAV	S PARAMESWARAN	01-04-2010
408	15107560W	HAV	S RAMA MOORTHY	01-02-2010
409	14383852A	HAV	S V N WAGHMARE	01-08-2010
410	14379446H	HAV	SACHINDRA KUMAR	01-02-2010
411	15108056H	HAV	SAHEB SINGH	01-03-2010
412	14379696K	HAV	SAKKAPPAN	01-02-2010
413	14490937N	HAV	SALINDER SINGH	01-02-2010
414	14491836M	HAV	SAMRAT CH DEKA	01-02-2010
415	14490629N	HAV	SANTOSH KUMAR	01-02-2010
416	15107876H	HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	01-02-2010
417	14490234M	HAV	SASIDHARAN P	01-02-2010
418	14490001L	HAV	SATBIR SINGH	01-02-2010
419	14496274K	HAV	SATISH KUMAR	01-08-2010
420	14490919L	HAV	SATNAM SINGH	01-02-2010
421	15107728X	HAV	SATPAL SINGH	01-02-2010
422	15108546W	HAV	SATPATI NARASIMHULU	01-04-2010
423	14382877A	HAV	SATRUGHANA SETHY	01-05-2010
424	14382072H	HAV	SATY PRAKASH SINGH	01-04-2010
425	8030488N	HAV	SATYA PRAKASH	01-08-2010
426	14495494F	HAV	SATYAPAL YADAV	01-07-2010
427	14492970K	HAV	SATYPAL SINGH	01-03-2010
428	14495457N	HAV	SATYVIR SINGH RATHORE	01-06-2010
429	14379461X	HAV	SHANKAR SINGH	01-02-2010
430	14394805H	HAV	SHASHIKANT HOLI	01-02-2010
431	14495293H	HAV	SHIV KUMAR	01-06-2010
432	14383353L	HAV	SHIVA BASAPPA JAMAKHANDI	01-07-2010
433	14494396P	HAV	SHIVAJI PATIL	01-03-2010
434	14496715P	HAV	SHRI BHAGWAN	01-08-2010
435	14395493K	HAV	SHRI KANT PANDEY	01-08-2010
436	15103746H	HAV	SHYAM GRIHI RAM	01-08-2010
437	14380971L	HAV	SHYAM PYARE RAM	01-03-2010
438	14495757P	HAV	SHYAM SINGH	01-08-2010
439	14496107N	HAV	SHYAM SINGH	01-08-2010
440	14495538N	HAV	SIVARAMAN K	01-07-2010



441	15108298L	HAV	SUBA LAL GOALA	01-03-2010
442	15108182P	HAV	SUBE SINGH	01-03-2010
443	15108771L	HAV	SUBHASH CHAND	01-04-2010
444	14379976X	HAV	SUBHASH CHAND	01-02-2010
445	14495485A	HAV	SUBHASH CHAND SADOLU	01-07-2010
446	15107725K	HAV	SUBODH KUMAR BISWAS	01-02-2010
447	14381110F	HAV	SUDAMA RAM	01-03-2010
448	14495134L	HAV	SUKH RAJ	01-05-2010
449	15108885W	HAV	SUKHDEV SINGH	01-04-2010
450	15108567M	HAV	SUKHWANT SINGH	01-04-2010
451	14495743P	HAV	SUMALLA LAKSHMANA RAO	01-08-2010
452	14492763X	HAV	SUNIL KUMAR V T	01-03-2010
453	15107982F	HAV	SUPRIYA KUMAR HAZARA	01-03-2010
454	14495090Y	HAV	SURAJ BHAN	01-04-2010
455	14395034L	HAV	SURENDER SINGH	01-04-2010
456	15107788M	HAV	SURENDRA SINGH	01-02-2010
457	15108497Y	HAV	SURESH CHAND SHARMA	01-04-2010
458	15107888X	HAV	SURESH CHANDRA YADAVA	01-02-2010
459	14492569H	HAV	SURESH KUMAR K P	01-03-2010
460	14496747X	HAV	SURINDER PAL	01-08-2010
461	14491008F	HAV	SURJIT SINGH	01-02-2010
462	15108732M	HAV	SURJIT SINGH	01-04-2010
463	15108583K	HAV	SURJIT SINGH	01-04-2010
464	14490117F	HAV	SURYA DEO PRASAD	01-02-2010
465	14491758A	HAV	T LOKANATHA CHETTY	01-02-2010
466	15108563W	HAV	T MUTHU PANDIAN	01-04-2010
467	15108317L	HAV	T SINGARAVEL	01-03-2010
468	14381458W	HAV	TAPAN KUMAR SINGH	01-04-2010
469	15108607H	HAV	TARUN KUMAR BHUNIA	01-04-2010
470	14496866N	HAV	THAMPI KUTTAN K	01-08-2010
471	15108930X	HAV	TRIPURARI TIWARI	01-06-2010
472	15108448W	HAV	UDAIPATI RAM	01-04-2010
473	14492960A	HAV	UMAN SINGH	01-03-2010
474	14490514A	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-02-2010
475	15107702H	HAV	UMESH PRASAD SINGH	01-02-2010
476	14492040H	HAV	UPENDRA JHA	01-03-2010
477	14383543X	HAV	V BASKARAN	01-08-2010
478	14492505X	HAV	V MURTHY	01-03-2010
479	14382414L	HAV	VARUGHESE CM	01-05-2010
480	14381306P	HAV	VED PAL	01-04-2010
481	14380232Y	HAV	VIDYA RAM	01-03-2010
482	15107380N	HAV	VIJAY KUMAR SINGH	01-02-2010
483	15108481N	HAV	VIKRAM SINGH	01-04-2010
484	14394955Y	HAV	VINAY KUMAR	01-04-2010
485	14383301P	HAV	VINCENT J	01-06-2010
486	14383255L	HAV	VINOD KUMAR	01-06-2010
487	14490600L	HAV	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-02-2010
488	14495621L	HAV	VIRPAL SINGH	01-07-2010

489	14492067A	HAV	VISHESHWAR RAI	01-03-2010
490	14493936W	HAV	Y J NAIDU	01-03-2010
491	14494139X	HAV	YESHODHARAN K V	01-03-2010

**CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY**

492	14490647W	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2010
493	14380145L	HAV	ASHUTOSH MAJUMDER	01-03-2010
494	14378926A	HAV	B SELVAM	01-02-2010
495	14380590K	HAV	BAHADUR MAL SAINI	01-03-2010
496	14379189W	HAV	BIKRAMA DAS	01-02-2010
497	15108777M	HAV	BINESWAR SINGH YADYA	01-04-2010
498	14382383W	HAV	BRHAM PRAKASH	01-05-2010
499	14381778L	HAV	CHANDRA PRAKASH SINGH	01-04-2010
500	14379263M	HAV	DINA NATH SINGH	01-02-2010
501	14382445L	HAV	GAJRAJ YADAV	01-05-2010
502	14495587W	HAV	GIRAND SINGH YADAV	01-07-2010
503	14381391H	HAV	GOUTAM KUMAR GHOSH	01-04-2010
504	14383667M	HAV	HARI MOHAN	01-08-2010
505	15101475X	HAV	JAGDISH PRASAD	01-05-2010
506	14381567H	HAV	JOGINDER SINGH	01-04-2010
507	14383347X	HAV	KAMAL JEET	01-07-2010
508	14492120A	HAV	KAMALENDU DAS	01-03-2010
509	14383174L	HAV	KAPTAN SINGH	01-06-2010
510	14380032H	HAV	KESH KUMAR SINGH Y	01-02-2010
511	14381090Y	HAV	KIRPAL SINGH	01-03-2010
512	14380211H	HAV	KORE NAGNATH DATTATRAY	01-03-2010
513	14383184P	HAV	MANI VEL S	01-06-2010
514	14382805W	HAV	MD AMIR HAMZA	01-05-2010
515	14381943L	HAV	MOHINDER PAL	01-04-2010
516	14383463A	HAV	MUNI RATHINAM	01-08-2010
517	14382377H	HAV	NILU KANTA DAS	01-05-2010
518	14382253N	HAV	ONKAR SINGH	01-05-2010
519	15107630K	HAV	PAWAR SANJAY KUMAR R	01-02-2010
520	14379569P	HAV	PRABHASH JHA	01-02-2010
521	14379982L	HAV	RAM CHANDER	01-02-2010
522	14379069X	HAV	RAM NIWAS	01-02-2010
523	14495135N	HAV	RAM SHARAN	01-05-2010
524	14381610Y	HAV	RAM UJER	01-04-2010
525	14383676N	HAV	RAMAKANT PANDEY	01-08-2010
526	14381973H	HAV	RAMESH KUMAR	01-04-2010
527	14395015A	HAV	RAMKRISHAN	01-04-2010
528	14383161N	HAV	REMESH CHANDRA MALL	01-06-2010
529	14381839X	HAV	RISPAL SINGH	01-04-2010
530	15107520P	HAV	S RAVICHANDRAN	01-02-2010
531	14381790M	HAV	SAMAR PAL SINGH	01-04-2010
532	14381255M	HAV	SATYEVIR SINGH	01-04-2010
533	14395722K	HAV	SHAMSHER SINGH	01-08-2010
534	14379262K	HAV	SHANKER GEE YADAV	01-02-2010

535	14379219H	HAV	SHRI KRISHNA OJHA	01-02-2010
536	14380842L	HAV	SHRI RAM LAXMAN BABU	01-03-2010
537	14380597N	HAV	SRI GAYARAM SINGH M	01-03-2010
538	14489875M	HAV	SRIKANT SINGH	01-02-2010
539	14383366H	HAV	SUBHA KUMAR GIRI	01-07-2010
540	14490721M	HAV	SURENDRA KUMAR TRIVEDI	01-02-2010
541	14379265X	HAV	SURESH MASI	01-02-2010
542	14380656P	HAV	TEJ NARAIN DIXIT	01-03-2010
543	14395247Y	HAV	VED PARKASH	01-08-2010
544	14382503K	HAV	VIJAY KUAMAR	01-05-2010
545	15107307P	HAV	VIRENDER SINGH	01-02-2010
546	14382510A	HAV	YAD RAM	01-05-2010
547	14493974M	HAV	YUNUS KHAN	01-03-2010

**MADRAS ENGINEER GROUP**

548	1383695Y	HAV	A EBENEZEN	01-02-2010
549	1380783K	HAV	A LOURDUSAMY	01-03-2010
550	1380503L	HAV	A MANI	01-02-2010
551	15301666W	HAV	A MANI VARMA	01-07-2010
552	1383832M	HAV	A SUBIRAMANIAN	01-02-2010
553	15301361W	HAV	AMAR NARAYAN SWAMY R	01-05-2010
554	1381657K	HAV	AMRUT CHALAWADI	01-06-2010
555	1380359F	HAV	ASOKAN P A	01-02-2010
556	1380923L	HAV	ASOKAN R	01-04-2010
557	1383943K	HAV	B KUMARAN	01-06-2010
558	15301259N	HAV	BABU B	01-04-2010
559	15301393Y	HAV	BABU B	01-05-2010
560	1380254X	HAV	BABU P	01-02-2010
561	15301579H	HAV	BABY KC	01-06-2010
562	15301321P	HAV	BASAVARAJU	01-04-2010
563	1381977Y	HAV	BEVARAPRASAD SURAPANENI	01-07-2010
564	1383419W	HAV	C CHANDRA SEKHAR	01-02-2010
565	15301627X	HAV	CHACKO KJ	01-07-2010
566	1380677L	HAV	CHANDRAPPA MAILANNAVAR	01-03-2010
567	1380469W	HAV	CHINNABBA N	01-02-2010
568	1381158P	HAV	D GUNASEKARAN	01-05-2010
569	15301272X	HAV	G THANGARAJ	01-04-2010
570	1381191M	HAV	GANESHA VK	01-05-2010
571	1380478X	HAV	GOPAKUMAR G	01-02-2010
572	1380264F	HAV	GOPALAN KC	01-02-2010
573	15301403X	HAV	GOVINDIAH BHUPATHAIAH	01-05-2010
574	1381743P	HAV	GURULING SURYAVANSHI	01-06-2010
575	1380582L	HAV	H SETTU	01-02-2010
576	1381841P	HAV	J MONIKANTAN NAIR	01-06-2010
577	1380584W	HAV	J NATARAJAN	01-02-2010
578	15301649W	HAV	JAYA MURALI KRISHNA	01-07-2010
579	1381527F	HAV	JAYAKUMAR B P	01-06-2010
580	15301573F	HAV	JAYAPRAKASAN K	01-06-2010

581	15301209H	HAV	JOHNSON T G	01-03-2010
582	15301416P	HAV	JOSEMON B	01-05-2010
583	15301267M	HAV	JOSEPH PHILIP	01-04-2010
584	1380247F	HAV	K KESAVA PILLAI	01-02-2010
585	15301529X	HAV	K MANI	01-06-2010
586	1381604L	HAV	K VAIDAS	01-06-2010
587	15301482X	HAV	K VENKATESULU	01-06-2010
588	15300673A	HAV	KANNAN P	01-07-2010
589	15301215W	HAV	KRISHNA DAVAN S	01-03-2010
590	1381251W	HAV	KRISHNA MOORTHY A	01-05-2010
591	1380724X	HAV	M KANAKARAJ	01-03-2010
592	1381311A	HAV	M KUPPAN	01-05-2010
593	1381068N	HAV	M MURALI	01-05-2010
594	1381843A	HAV	M PARASURAMAN	01-06-2010
595	1381149N	HAV	M RAVICHANDRAN	01-05-2010
596	1380402X	HAV	M SUNDARA RAJAN	01-02-2010
597	1380400M	HAV	MADDU ELISHA	01-02-2010
598	1380790A	HAV	MAGALINGAM A	01-03-2010
599	15301317M	HAV	MAHADEVAPPA NANDIHALLI	01-04-2010
600	15301474Y	HAV	MALA KAJAPPA	01-06-2010
601	1381797W	HAV	MANI C	01-06-2010
602	1382126Y	HAV	MANOGAR G	01-08-2010
603	1380583N	HAV	N BABU	01-02-2010
604	1380317P	HAV	N RAJARAMAN	01-02-2010
605	1380717F	HAV	N SAMI KANNU	01-03-2010
606	15301620N	HAV	N SELVARAJ	01-07-2010
607	1380774H	HAV	NARAYANAN NAIRA	01-03-2010
608	1380279K	HAV	P ANBALAGAN	01-02-2010
609	1381434M	HAV	P CHANDRAN	01-05-2010
610	1380965X	HAV	P JOHN PAWAL	01-04-2010
611	1381299K	HAV	P JOHN SEKAR	01-05-2010
612	1381450K	HAV	P RAJA BATHER	01-05-2010
613	15301221K	HAV	P VANARAJ	01-03-2010
614	1381447K	HAV	P YOHANADAN	01-05-2010
615	15301096L	HAV	PARAMESHWAR	01-02-2010
616	1380600H	HAV	PICHANDI C	01-02-2010
617	15301203F	HAV	POLEBOINA ADAIAH	01-03-2010
618	1381383K	HAV	PONNU SWAMY V	01-05-2010
619	15301516A	HAV	PRAKASH CHANDRA PADHI	01-06-2010
620	1381153W	HAV	PUNDALIK PUJER	01-05-2010
621	1380321X	HAV	PUSHPARAJAN NAIR VM	01-02-2010
622	1380641M	HAV	R KRISHNAN	01-03-2010
623	15301166Y	HAV	R MURUGAN	01-03-2010
624	1380692A	HAV	R VENKATACHALAM	01-03-2010
625	1381368P	HAV	RADHA KRISHNAN M	01-05-2010
626	1381211P	HAV	RAJASEKHARAN K	01-05-2010
627	15301570N	HAV	RAJU P	01-06-2010
628	1381322M	HAV	RAMACHANDRAN K	01-05-2010

629	15301368A	HAV	RAMANATHAN T	01-05-2010
630	15301255X	HAV	RAVEENDRAN P T	01-04-2010
631	15301588K	HAV	RAVURI KASALIAH	01-06-2010
632	15301132L	HAV	RS PANDIARAJ	01-03-2010
633	15301077A	HAV	S BHASKARA REDDY	01-02-2010
634	1382323F	HAV	S FRANCIS	01-08-2010
635	1381320F	HAV	S GAJENDRAN	01-05-2010
636	15301609P	HAV	S ISSAC NEWTON	01-07-2010
637	1380716Y	HAV	S PERIANAYAGAM	01-03-2010
638	1380740P	HAV	S SELVARAJ	01-03-2010
639	15301130A	HAV	S SUKUMARAN	01-03-2010
640	15301721F	HAV	SATHEESH KUMAR T	01-07-2010
641	15301449A	HAV	SELVA KUMAR M	01-06-2010
642	15301205M	HAV	SHAIK MOWLA SHARIF	01-03-2010
643	1380346K	HAV	SHRISHAIL GOUGALA	01-02-2010
644	1380282K	HAV	SP KESAVULU	01-02-2010
645	15301114H	HAV	SREEJITH KM	01-02-2010
646	1380506Y	HAV	SREERENGAN B	01-02-2010
647	1380510F	HAV	SUBERU KUTTY A	01-02-2010
648	15301110M	HAV	SUBRAMANI P	01-02-2010
649	15301421A	HAV	SURESH KOOTHAMBETH K	01-05-2010
650	1380529A	HAV	T ABISAKAM	01-02-2010
651	15301057M	HAV	T BUCHAIAH	01-02-2010
652	1381247N	HAV	V GOPAL	01-05-2010
653	1381462Y	HAV	V GOVINDASAMY	01-05-2010
654	1380550H	HAV	VANIYAMBADI GIRIBABU	01-02-2010
655	1382424P	HAV	VARUGHESE P G	01-06-2010
656	15301257H	HAV	VENKATACHALAM A	01-04-2010
657	15301210X	HAV	VENKATESHA MT	01-03-2010
658	1381400Y	HAV	VIJAYA KUMAR PK	01-05-2010
659	1381399P	HAV	VIJAYAN K	01-05-2010
660	1381373A	HAV	VISWANATHAN V	01-05-2010

**BENGAL ENGINEER GROUP**

661	1474475H	HAV	AKSHAYA KUMAR SINGH	01-04-2010
662	1474684A	HAV	ANIL KUMAR GOGOI	01-04-2010
663	1474109Y	HAV	ANIL KUMAR YADAV	01-03-2010
664	1474440M	HAV	ARPAN SUR CHOWDHURY	01-04-2010
665	1475534W	HAV	ASHOK KUMAR SHARMA	01-07-2010
666	1474819W	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-04-2010
667	1474257K	HAV	AWDESH SINGH	01-03-2010
668	1479351X	HAV	BABBN RAI	01-03-2010
669	1478449Y	HAV	BAHADUR SINGH	01-02-2010
670	1473984Y	HAV	BAIJU ROY	01-03-2010
671	1479431P	HAV	BALA CHANDA PILLAI TR	01-03-2010
672	1475390Y	HAV	BALBIR SINGH	01-07-2010
673	1475624X	HAV	BALBIR SINGH	01-08-2010
674	1475280K	HAV	BALI RAM UPADHYAYA	01-06-2010

675	1479207H	HAV	BALJINDER SINGH	01-02-2010
676	1475603F	HAV	BALJIT SINGH	01-06-2010
677	1474857M	HAV	BALWANT SINGH	01-04-2010
678	1474839K	HAV	BERENDAR BISHT	01-04-2010
679	1474610L	HAV	BHAGWANT SINGH	01-04-2010
680	1474473X	HAV	BHARAT CHANDRA BARIK	01-04-2010
681	1479229F	HAV	BHIM RAJ SINGH	01-02-2010
682	1475314M	HAV	BHUWAN CHANDRA	01-06-2010
683	1475482L	HAV	BIBHASH CHANDRA JHA	01-07-2010
684	1474565K	HAV	BINOD PRASAD	01-04-2010
685	1475408K	HAV	BISHWA ORAON	01-07-2010
686	1473796N	HAV	BRIJ KUMAR UPADHYAY	01-02-2010
687	1475412M	HAV	CHAITANYA DEVNATH	01-07-2010
688	1474671H	HAV	CHANDRA KESH SINGH	01-04-2010
689	1474949Y	HAV	CHET RAM	01-05-2010
690	1475378X	HAV	CHUNNI LAL	01-07-2010
691	1474641L	HAV	DALBIRSINGH	01-04-2010
692	1475062L	HAV	DARIYA SINGH	01-05-2010
693	1479476P	HAV	DARSHAN SINGH	01-04-2010
694	1479877K	HAV	DARSHAN SINGH	01-07-2010
695	1479162N	HAV	DAYA RAM	01-02-2010
696	1475084K	HAV	DAYAL SINGH	01-05-2010
697	1474749H	HAV	DEBI PRASAD BEJ	01-04-2010
698	1474995H	HAV	DEO NATH SINGH	01-05-2010
699	1474993H	HAV	DEV NARAIN	01-05-2010
700	1474041H	HAV	DEVENDRA SINGH	01-03-2010
701	1479642X	HAV	DEVI DATT	01-06-2010
702	1474757F	HAV	DHURUV SINGH YADAV	01-04-2010
703	1474969M	HAV	DILBAG SINGH	01-05-2010
704	1475448L	HAV	DILIP KUMAR BANERJEE	01-07-2010
705	1475495H	HAV	DILIP KUMAR NANDA	01-07-2010
706	1473795X	HAV	DINESH SINGH	01-02-2010
707	1474748A	HAV	DUSASAN MOHAPATRA	01-04-2010
708	1474838F	HAV	GANGA SINGH	01-04-2010
709	1475644L	HAV	GOBARDHAN THAKUR	01-08-2010
710	1475020Y	HAV	GOPAL SINGH	01-05-2010
711	1479498N	HAV	GURCHARAN SINGH	01-04-2010
712	1475616Y	HAV	HABIB KHAN	01-08-2010
713	1479094L	HAV	HARI SINGH	01-02-2010
714	1475407F	HAV	HARJIT SINGH	01-07-2010
715	1474241Y	HAV	IQBAL HUSSAIN	01-03-2010
716	1475597Y	HAV	ISHWAR CHANDRA MUNDA	01-08-2010
717	1479102Y	HAV	ISRAIL MOLLA	01-02-2010
718	1474733X	HAV	JAFRULLA MIAN	01-04-2010
719	1474101M	HAV	JAGAN SINGH	01-03-2010
720	1473989N	HAV	JANARDHAN PRASAD	01-03-2010
721	1479950X	HAV	JASBIR SINGH	01-08-2010
722	1474393A	HAV	JEET SINGH	01-04-2010

723	1475376M	HAV	JITENDRA KUMAR TYAGI	01-07-2010
724	1474271W	HAV	K IBOTHEM SINGH	01-03-2010
725	1474270N	HAV	K NAMGADAI	01-03-2010
726	15301422H	HAV	K RAJU	01-05-2010
727	1473655Y	HAV	KAILASH BABU	01-02-2010
728	1475027H	HAV	KAMLESHAR KUMAR	01-05-2010
729	1475528H	HAV	KAPTAN SINGH YADAV	01-07-2010
730	1474974X	HAV	KARAMJIT SINGH	01-05-2010
731	1475150F	HAV	KHIMA NAND	01-06-2010
732	1475600N	HAV	KRISHAN SINGH	01-08-2010
733	1475555M	HAV	KRISHNA MOHAN JHA	01-07-2010
734	1479353H	HAV	KUKIL BORSAIKIA	01-03-2010
735	1474055H	HAV	KULBIR SINGH	01-03-2010
736	1474855F	HAV	KULDIP SINGH	01-05-2010
737	3383370X	HAV	KULWANT SINGH	01-04-2010
738	1479256L	HAV	KUNWAR BAHADUR SINGH	01-02-2010
739	1474934W	HAV	LAL BABU RAI	01-05-2010
740	1479801K	HAV	LAMBIT CHANDRA NATH	01-07-2010
741	1474245P	HAV	LAXMAN SINGH	01-03-2010
742	1473741W	HAV	LAXMI PRASAD YADAV	01-02-2010
743	1479440W	HAV	MADISA PADI RAJU	01-03-2010
744	1474303N	HAV	MAHESH CHANDRA	01-03-2010
745	1474317N	HAV	MAHESHWAR KAR	01-03-2010
746	1479561X	HAV	MAHESHWARI SINGH SENGAR	01-05-2010
747	1479111A	HAV	MAN MOHAN SINGH	01-02-2010
748	1479597W	HAV	MANGAT SINGH	01-05-2010
749	1474824F	HAV	MANOHAR SINGH	01-04-2010
750	1473992N	HAV	MD IRSAD ANSARI	01-03-2010
751	1479105M	HAV	MD NASIRUDDIN	01-02-2010
752	1382084X	HAV	MH SAGARENDRA NATH	01-08-2010
753	1474439X	HAV	MOHD WASIL KHAN	01-04-2010
754	1474988X	HAV	MULAKH RAJ	01-05-2010
755	1479160H	HAV	MUNNA LAL	01-02-2010
756	1475806L	HAV	NAGODE DAGDU LAXMAN	01-06-2010
757	1474823Y	HAV	NAND KUMAR RAM	01-04-2010
758	1473793A	HAV	NANHE LAL	01-02-2010
759	1479278K	HAV	NARENDRA SINGH	01-02-2010
760	1474919F	HAV	NARMAL SINGH	01-05-2010
761	1478582F	HAV	NIRAN GOGOI	01-03-2010
762	1474750X	HAV	OKIL CHANDRA MOHAPATRA	01-04-2010
763	1479156A	HAV	OM PRAKASH	01-02-2010
764	1474983Y	HAV	PAL SINGH	01-05-2010
765	1475416H	HAV	PAWITER SINGH	01-07-2010
766	1475329P	HAV	PHOOL CHANDRA	01-06-2010
767	1475596W	HAV	PRATAP CHANDRA NAIK	01-08-2010
768	1475240H	HAV	PUDI SURYANARAYANA	01-06-2010
769	1479532H	HAV	PURAN SINGH	01-05-2010
770	1474912X	HAV	RAJ KUMAR	01-05-2010

771	1474562W	HAV	RAJ PAL	01-04-2010
772	1474910M	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-05-2010
773	1475558A	HAV	RAJESH DWIVDI	01-07-2010
774	1473912L	HAV	RAM BAHADUR	01-02-2010
775	1479749M	HAV	RAM DEV SINGH	01-06-2010
776	1479294F	HAV	RAM KUMAR RATHI	01-02-2010
777	1475061H	HAV	RAM NIWAS	01-05-2010
778	1479379X	HAV	RAM NIWAS MANDAL	01-03-2010
779	1474785N	HAV	RAM PAL SINGH	01-04-2010
780	1474763P	HAV	RAM PHAL	01-04-2010
781	1474774F	HAV	RAM SINGHAREY	01-04-2010
782	1474454M	HAV	RAMA KANT DIXIT	01-04-2010
783	1479722P	HAV	RAMA SHANKAR SINGH	01-06-2010
784	1571457K	HAV	RAMSAJEEVAN	01-06-2010
785	1479589X	HAV	RANDHIR SINGH	01-05-2010
786	1479787H	HAV	RANJIT BISWAS	01-06-2010
787	1479242L	HAV	RANJIT SINGH	01-04-2010
788	1474931H	HAV	RAVINDRA KUMAR SINGH	01-05-2010
789	1474386K	HAV	REJUAN ALI	01-04-2010
790	1475396A	HAV	SACHINDER NATH	01-07-2010
791	3383833F	HAV	SAMAN SINGH	01-06-2010
792	1479932P	HAV	SAMSUDDIN	01-08-2010
793	1475253A	HAV	SANJOY DEY	01-06-2010
794	1473682H	HAV	SANTAN SINGH	01-02-2010
795	1474121A	HAV	SASHI KANT PANDEY	01-03-2010
796	1474364L	HAV	SATISH CHANDRA SUKLA	01-03-2010
797	1479128N	HAV	SATPAL SINGH	01-02-2010
798	1473800L	HAV	SATVIR SINGH	01-02-2010
799	1474606H	HAV	SATYENDRA KUMAR SINGH	01-04-2010
800	1474099A	HAV	SOHAN LAL	01-03-2010
801	1474719L	HAV	SUBHASH CHAND	01-04-2010
802	1474895H	HAV	SUBHASH CHANDER	01-05-2010
803	1474007H	HAV	SUCHA SINGH	01-03-2010
804	1473828L	HAV	SUDAMA SINGH	01-02-2010
805	1479116Y	HAV	SUKH RAM SINGH YADAV	01-02-2010
806	1479157H	HAV	SUKHDEV	01-02-2010
807	1479310N	HAV	SUKHDEV SINGH	01-03-2010
808	1474014Y	HAV	SUKHWINDER PAL SINGH	01-03-2010
809	1474811K	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-04-2010
810	1474906K	HAV	SUMBE ASARAM YESHWANTA	01-05-2010
811	1475465L	HAV	SUNDER LAL	01-07-2010
812	1474950N	HAV	SURENDER MISHRA	01-05-2010
813	1475003Y	HAV	SURENDER SINGH	01-05-2010
814	1474311M	HAV	SURENDRA BHARATI	01-03-2010
815	1474531W	HAV	SURENDRA KUAMR UPADHYAY	01-04-2010
816	1475175N	HAV	SURENDRA KUMAR SINGH	01-06-2010
817	1474746P	HAV	SURENDRA NATH DAS	01-04-2010
818	1474816H	HAV	SURENDRA PRASAD SINGH	01-04-2010



819	1474431L	HAV	SURENDRA VIKRAM PRASAD	01-04-2010
820	1474872F	HAV	SURESH	01-05-2010
821	1479635F	HAV	SURESH CHAND VERMA	01-06-2010
822	1479232F	HAV	SURESH KUMAR	01-02-2010
823	1475199X	HAV	SURJEET SINGH	01-06-2010
824	1475244Y	HAV	SURJIT SINGH	01-06-2010
825	1474010H	HAV	SURJIT SINGH	01-03-2010
826	1474444H	HAV	SYED AHSAN JAWAID	01-04-2010
827	1475077N	HAV	TARSEM LAL	01-05-2010
828	1474322Y	HAV	TARUN DAS	01-03-2010
829	1474989A	HAV	TASLIM AHMED	01-05-2010
830	1474677K	HAV	TEJ BAHADUR SINGH	01-04-2010
831	1475118M	HAV	THAKUR SINGH	01-06-2010
832	1475987F	HAV	TIRATH PAL	01-04-2010
833	1474569A	HAV	UDAY KUMAR MONDAL	01-04-2010
834	1571626A	HAV	UPENDRANATH UPADHYAY	01-07-2010
835	1473824P	HAV	VIJAY SHARMA	01-02-2010

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

836	1571572K	HAV	ABDUL HALIM	01-06-2010
837	1475364X	HAV	AKHILESH MISHRA	01-06-2010
838	1571138X	HAV	AMAR SINGH	01-05-2010
839	1570598M	HAV	AMARJEET SINGH	01-03-2010
840	1570843K	HAV	AMARJIT SINGH	01-04-2010
841	1571529H	HAV	AMRIK SINGH	01-06-2010
842	1572048H	HAV	AMRIK SINGH	01-08-2010
843	1570797A	HAV	ANAVAR ALI	01-03-2010
844	1571171P	HAV	ANIL KUMAR	01-06-2010
845	1569606N	HAV	ANWAR HUSSAIN	01-02-2010
846	1570353W	HAV	AVTAR SINGH	01-03-2010
847	1577024H	HAV	BALVIR SINGH	01-06-2010
848	1570688N	HAV	BANGAR VILAS BHAGA	01-03-2010
849	1571216K	HAV	BHAGWAT PRASAD	01-05-2010
850	1571147Y	HAV	BHARAT RAM	01-05-2010
851	1569575Y	HAV	BHOI MANI LAL KODAR BHAI	01-02-2010
852	1573286F	HAV	BRIJBIR	01-05-2010
853	1570731K	HAV	CHARAN SINGH	01-04-2010
854	1569981Y	HAV	CHAURE LAXMAN NIVRUTI	01-02-2010
855	1576967P	HAV	CHAVAN SHAHAJI NANASAHEB	01-05-2010
856	1570730F	HAV	DALBARA SINGH	01-04-2010
857	1572028P	HAV	DARSHAN SINGH	01-08-2010
858	1570416N	HAV	DARSHAN SINGH	01-03-2010
859	1571533L	HAV	DHANMAT.KHAN	01-06-2010
860	1571090P	HAV	GORAKH NATH DATTU CHAVAN	01-05-2010
861	1571215F	HAV	GOVIND SINGH	01-05-2010
862	1570328X	HAV	GUJAR SINGH	01-03-2010
863	1577197A	HAV	GURBAX SINGH	01-08-2010
864	1577199L	HAV	GURDARSHAN SINGH	01-08-2010

865	1577251H	HAV	HARHBAJAN SINGH	01-08-2010
866	1571382X	HAV	HARKRISHANA SINGH	01-06-2010
867	1569700X	HAV	HAROON	01-02-2010
868	1571137P	HAV	HARSH NARAYAN JHA	01-05-2010
869	1571344F	HAV	HEERAMANI DWIVEDI	01-06-2010
870	1571205X	HAV	JADHAV CHANDRAKANT J	01-05-2010
871	1571218P	HAV	JAGDISH PRASAD	01-05-2010
872	1571281K	HAV	JAGDISH SINGH	01-05-2010
873	1570354Y	HAV	JAGTAR SINGH	01-03-2010
874	1571847M	HAV	JAI SINGH	01-08-2010
875	1571070F	HAV	JARNAIL SINGH	01-05-2010
876	1572980F	HAV	JAY PRAKASH	01-02-2010
877	1571944K	HAV	KADAM SAHADEO MAHADEO	01-08-2010
878	1569994W	HAV	KALLAPPA KONDEKAR	01-02-2010
879	1571003W	HAV	KAMARUDDIN	01-04-2010
880	1576751N	HAV	KAREDE CHANDER BHAN B	01-03-2010
881	1571448H	HAV	KARVMIR	01-06-2010
882	1571760L	HAV	KARNA BAHADUR RANA	01-07-2010
883	1570252H	HAV	KASHMIR SINGH	01-03-2010
884	1571998L	HAV	KHANDAVE DNYANOBA GATTU	01-08-2010
885	1570885W	HAV	KHATE KALE SIDHESHWAR R	01-04-2010
886	1571228Y	HAV	KHEM CHAND	01-05-2010
887	1571252P	HAV	KISHORI LAL	01-05-2010
888	1571307N	HAV	KULWANT SINGH	01-05-2010
889	1571591P	HAV	KUNDAN SINGH	01-07-2010
890	1570511A	HAV	KURBAN ALI	01-03-2010
891	1570223N	HAV	M RAMA MURTHY	01-03-2010
892	1570553M	HAV	M VICKNESHWARAN	01-04-2010
893	1570985F	HAV	MAHABIR PRASAD	01-05-2010
894	1571560P	HAV	MAHAVIR SINGH	01-06-2010
895	15108073H	HAV	MAHOMAD ALI	01-03-2010
896	1570143W	HAV	MALKIAT SINGH	01-03-2010
897	1576405X	HAV	MALKIT SINGH	01-02-2010
898	1576765N	HAV	MOHAMMAD HASEEN KHAN	01-03-2010
899	1570556A	HAV	MOHAN GANPAT JADHAV	01-04-2010
900	1569640N	HAV	MOHAN SINGH	01-02-2010
901	1576813H	HAV	MOHD BASHIR	01-04-2010
902	1572022N	HAV	MOHD TAUFIK	01-08-2010
903	1576715H	HAV	MOHINDER SINGH	01-03-2010
904	1569629P	HAV	MUNSRIM AHMED	01-02-2010
905	1571042P	HAV	NARENDRA KUMAR	01-05-2010
906	1576890X	HAV	NUSRAT KHAN	01-04-2010
907	1571595L	HAV	R CHINNASWAMY	01-07-2010
908	1570569X	HAV	P PILAVAR RAJ	01-04-2010
909	1576985X	HAV	PADWAL DEVARAM DAGADU	01-05-2010
910	1570181M	HAV	PARKASH CHAND	01-02-2010
911	1576665H	HAV	PASHORA SINGH	01-03-2010
912	1577035P	HAV	PATIL MAHADEO MARUTI	01-06-2010

913	1570496W	HAV	PAWAR PRAKASH RAMU	01-03-2010
914	1576603H	HAV	PRITAM SINGH	01-02-2010
915	15107559F	HAV	R ULAGANATHAN	01-02-2010
916	1571570Y	HAV	RAJ GIRI	01-06-2010
917	1571874W	HAV	RAJ KUMAR	01-08-2010
918	1570513L	HAV	RAJA RAM	01-03-2010
919	1570544L	HAV	RAJA RAM	01-04-2010
920	1570978L	HAV	RAJVIR SINGH	01-04-2010
921	1570533Y	HAV	RAM JEEVAN	01-03-2010
922	1570525A	HAV	RAM KUMAR	01-03-2010
923	1577005X	HAV	RAM SINGH	01-06-2010
924	1571509P	HAV	RAM SINGH	01-06-2010
925	1571781F	HAV	RAM SINGH	01-08-2010
926	1569754Y	HAV	RAMA SHANKAR	01-02-2010
927	1569813A	HAV	RAMESH CHAND	01-02-2010
928	1571350P	HAV	RANJAN KUMAR JENA	01-06-2010
929	1577263X	HAV	RANVIR SINGH	01-08-2010
930	1571805A	HAV	RAVINDRA PRAKASH	01-08-2010
931	1571155X	HAV	RISHI PRASAD GIRI	01-05-2010
932	1571579N	HAV	S KALIAPPAN	01-06-2010
933	1570479W	HAV	SANJAY KUMAR JADHAV C	01-03-2010
934	1571342W	HAV	SASIDHARAN NAIR	01-06-2010
935	1571229F	HAV	SATBIR SINGH	01-05-2010
936	1577022X	HAV	SATNAM SINGH	01-06-2010
937	1571687X	HAV	SHANKER RAM	01-07-2010
938	1577090L	HAV	SHIV LAL PRASAD SAHU	01-07-2010
939	1576532M	HAV	SHYAM LAL	01-02-2010
940	1571023K	HAV	SRI MOHAN RAM	01-04-2010
941	1569998M	HAV	SUBHASH	01-02-2010
942	1571389F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-06-2010
943	1576721W	HAV	SUKHDEV SINGH	01-03-2010
944	1571142A	HAV	T NARIAPPAN	01-05-2010
945	1571708H	HAV	THANIGAI ARASU	01-07-2010
946	1576984P	HAV	TULSIDAS KRISHNA MOHITE	01-05-2010
947	1570225Y	HAV	V VENKATESAN	01-03-2010
948	1576749W	HAV	VASUDEV TUKARAM CHAUDHARY	01-03-2010
949	1576734N	HAV	VED PRAKASH	01-03-2010
950	1570530L	HAV	VIJAY BAHADUR	01-03-2010
951	1570554P	HAV	VISHWANATH PRASAD	01-04-2010
952	1571989K	HAV	WAZIR SINGH	01-08-2010
953	1572015X	HAV	YEOLE BABAN NAMDEO	01-08-2010

**CORPS OF SIGNALS**

954	14257846A	HAV	A N BASUMATARY	01-07-2010
955	14254426A	HAV	ABHILASH SINGH	01-07-2010
956	14256940X	HAV	ABHIRAM TARAI	01-06-2010
957	15351976X	HAV	AHIRE FULCHAND HIRAJI	01-03-2010
958	15351318L	HAV	AILAN SINGH	01-02-2010

959	14255674X	HAV	AJAI KUMAR	01-04-2010
960	15351090A	HAV	AJAY KUMAR	01-02-2010
961	14254352L	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-02-2010
962	15354465Y	HAV	AJAY RANJAN PAUL	01-07-2010
963	14258208P	HAV	AJMER SINGH	01-05-2010
964	15354811K	HAV	AJMER SINGH	01-08-2010
965	14257091N	HAV	AKHIL CHANDRA BISWAS	01-06-2010
966	15353541N	HAV	ALEKHA CHANDRA DAS	01-04-2010
967	15354224Y	HAV	AMAR NATH SINGH	01-06-2010
968	15353444W	HAV	AMREN NAZZUM	01-05-2010
969	15353044K	HAV	ANIL KUMAR PP	01-04-2010
970	15354823Y	HAV	ANTRAJYAMI MAHARANA	01-08-2010
971	14255544P	HAV	ARBIND KUMAR SINGH	01-04-2010
972	14256079A	HAV	ARUN CHANDRA SAIKIA	01-04-2010
973	14258379A	HAV	ARUN KUMAR JHA	01-05-2010
974	14257983Y	HAV	ARUN KUMAR SAH	01-07-2010
975	14258728Y	HAV	ARVIND KUMAR SINGH	01-08-2010
976	15353157M	HAV	ASHOK KUMAR	01-04-2010
977	14258689L	HAV	ASHOK KUMAR	01-08-2010
978	15354781X	HAV	ASHWANI KUMAR	01-08-2010
979	14257552M	HAV	ASWANI KUMAR PATRA	01-07-2010
980	15353095X	HAV	ATMA SINGH	01-04-2010
981	14256318K	HAV	AVNIP SINGH	01-04-2010
982	14256681A	HAV	AVULAMANDA VENKATAIAH	01-05-2010
983	14259099Y	HAV	B RAJA GOPAL	01-02-2010
984	14254809F	HAV	BABU LAL YADAV	01-02-2010
985	14254622P	HAV	BABY PP	01-02-2010
986	14257220H	HAV	BAGEDU RAM	01-06-2010
987	14257533F	HAV	BAL KRISHAN	01-07-2010
988	15352176L	HAV	BALBEER SINGH	01-03-2010
989	3382789W	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2010
990	14257125W	HAV	BALDEV SINGH	01-06-2010
991	14257590H	HAV	BALMUKUMD SHARMA	01-07-2010
992	14255273H	HAV	BALVIR SINGH	01-03-2010
993	14255224A	HAV	BANI SINGH	01-03-2010
994	14254315X	HAV	BARKHA RAM	01-02-2010
995	15352804P	HAV	BASANTA KUMAR BEHERA	01-04-2010
996	14255011M	HAV	BELORE SANJAYA VIRAPPA	01-03-2010
997	15352036Y	HAV	BHAG SINGH	01-03-2010
998	14256462Y	HAV	BHAGAWAN SINGH	01-04-2010
999	15352073M	HAV	BHAGAWAN SINGH	01-03-2010
1000	15353121N	HAV	BHAT VINAYAK R	01-04-2010
1001	15352127H	HAV	BHIMA BISOI	01-03-2010
1002	14255752K	HAV	BHUKHAN MISTRY	01-04-2010
1003	14255749K	HAV	BIHARI JEE SINGH	01-04-2010
1004	14258469F	HAV	BINOD BIHARI PRADHAN	01-07-2010
1005	14258357F	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-08-2010
1006	15351507P	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-02-2010

1007	14257156W	HAV	BIPIN KUMAR SINGH	01-06-2010
1008	15352513P	HAV	BISWAJIT GHOSH	01-04-2010
1009	15353238M	HAV	BISWAJIT GHOSH	01-04-2010
1010	15351294M	HAV	BORRA VENKATEWARA RAO	01-02-2010
1011	14256080P	HAV	BRAHMANNAND	01-04-2010
1012	14254600W	HAV	BRIJ KISHOR PRASAD	01-02-2010
1013	14256450K	HAV	BRINDRAVAN SINGH	01-04-2010
1014	14258144N	HAV	C A DATTATRAYA	01-07-2010
1015	15353045M	HAV	C NARAYANA SAMY	01-04-2010
1016	14256839X	HAV	CHAKKA CHANDRA MOULI	01-06-2010
1017	14254411M	HAV	CHAMAN LAL	01-02-2010
1018	15351376P	HAV	CHAMEL KUMAR	01-02-2010
1019	14256691K	HAV	CHATTY RANGA SWAMY	01-05-2010
1020	15351116K	HAV	CHAUDHARI DEELIP M	01-02-2010
1021	15352489K	HAV	CHHABINDRA PRADHAN	01-03-2010
1022	14258096Y	HAV	CHHAJU RAM	01-05-2010
1023	14256943L	HAV	CHITTARANJAN BISAL	01-06-2010
1024	15353110F	HAV	DALBIR SINGH	01-04-2010
1025	3383367X	HAV	DALBIR SINGH	01-04-2010
1026	14258646W	HAV	DALIP SINGH	01-08-2010
1027	14257987P	HAV	DALJIT SINGH	01-07-2010
1028	14254909M	HAV	DAMODAR LAL	01-03-2010
1029	15351921N	HAV	DARLAPUDI V R	01-03-2010
1030	14258830F	HAV	DASHAMI LAL SINGH	01-08-2010
1031	14257160Y	HAV	DAVINDER KUMAR	01-06-2010
1032	14258360F	HAV	DEO SHANKAR TIWARI	01-08-2010
1033	14256264N	HAV	DHARAM BIR SINGH	01-04-2010
1034	14256095X	HAV	DHARAM BIR SINGH	01-04-2010
1035	14255368H	HAV	DHARAM NATH RAI	01-03-2010
1036	14254969F	HAV	DHARAM NATH SHARMA	01-03-2010
1037	14259008K	HAV	DHARAM PAL	01-07-2010
1038	14257110N	HAV	DHARM NATH YADAV	01-02-2010
1039	15354420Y	HAV	DHARMENDRA NARAYAN	01-07-2010
1040	14254261F	HAV	DILIP KUMAR MOHANTY	01-02-2010
1041	14255748F	HAV	DILIP KUMAR PANDEY	01-04-2010
1042	15351829P	HAV	DINA NATH DAS	01-03-2010
1043	15351777K	HAV	DINESH CHANDRA	01-03-2010
1044	14258156H	HAV	DIPAK RISHI KAWADE	01-07-2010
1045	14255318X	HAV	DULL CHAND	01-03-2010
1046	14257445L	HAV	DURG BAHADUR BISHT	01-04-2010
1047	15352299X	HAV	ELLAPPA RAO	01-03-2010
1048	15352782F	HAV	FUNDE PRASHANT SHIWAJI	01-04-2010
1049	15352898X	HAV	G G SINGH UTDE	01-04-2010
1050	14256214H	HAV	GANESH BHAGAT	01-04-2010
1051	14258645N	HAV	GANESH CHANDRA KANDPAL	01-08-2010
1052	14254069X	HAV	GAYAKI UDDHAO SUKHADEO	01-02-2010
1053	15354891M	HAV	GIAN SINGH	01-08-2010
1054	14257063F	HAV	GIRAND SINGH	01-06-2010

1055	14256672Y	HAV	GOVIND NARAIN JAT	01-05-2010
1056	14258833P	HAV	GREESH CHANDRA	01-08-2010
1057	14255634W	HAV	GULAB CHAND	01-04-2010
1058	14254448N	HAV	GULZAR SINGH	01-02-2010
1059	15354023A	HAV	HAR NARAYAN	01-06-2010
1060	15352189H	HAV	HARENDRA SINGH	01-03-2010
1061	14256790M	HAV	HARGUN SINGH	01-05-2010
1062	14256743P	HAV	HARI CHANDRAN NAIR B	01-05-2010
1063	14256391H	HAV	HARI KOM SHARMA	01-04-2010
1064	14257212K	HAV	HARI SINGH ARYA	01-06-2010
1065	14255538F	HAV	HARILAL HAJONG	01-04-2010
1066	14256987H	HAV	HARKESH SINGH	01-05-2010
1067	3383635W	HAV	HARPAL SINGH	01-05-2010
1068	14256697L	HAV	HARSWARUP SINGH GUJAR	01-05-2010
1069	14257092W	HAV	HERA SINGHA	01-06-2010
1070	14254563N	HAV	HIRALAL SINGH	01-02-2010
1071	15352413K	HAV	HITENDER PAL SHARMA	01-04-2010
1072	14257998F	HAV	INDRA LAL YADAV	01-07-2010
1073	15354320N	HAV	INGAWALE C L	01-07-2010
1074	15354855F	HAV	JAGAT SINGH	01-08-2010
1075	14257076Y	HAV	JAGDISH	01-06-2010
1076	14256088F	HAV	JAGDISH CHAND	01-04-2010
1077	14254383L	HAV	JAGDISH CHANDER	01-02-2010
1078	14256491N	HAV	JAGDISH KUMAR	01-04-2010
1079	14258334A	HAV	JAGDISH SINGH	01-08-2010
1080	14254864X	HAV	JAGDISH SINGH	01-04-2010
1081	14256073Y	HAV	JAGROOP SINGH	01-04-2010
1082	14254372Y	HAV	JAI BHAGWAN SINGH	01-02-2010
1083	14255893Y	HAV	JAI PRAKASH BHAKTA	01-04-2010
1084	14256487L	HAV	JAI VIR SINGH	01-04-2010
1085	14254802X	HAV	JANARDAN SINGH	01-02-2010
1086	15354805L	HAV	JARNAIL SINGH	01-08-2010
1087	14257363H	HAV	JAWAHAR PRASAD SINGH	01-04-2010
1088	14256277L	HAV	JEET SINGH	01-04-2010
1089	14256504A	HAV	JILEDAR SINGH	01-04-2010
1090	15353270F	HAV	JITENDER SINGH	01-04-2010
1091	15352090M	HAV	JITENDRA KUMAR SINGH	01-03-2010
1092	14255147W	HAV	JOG RAJ	01-03-2010
1093	14256677X	HAV	JOGESWAR GOHAIN	01-05-2010
1094	14256579X	HAV	JOGINDER SINGH	01-04-2010
1095	14257421F	HAV	JOHN JOSEPH	01-04-2010
1096	15353713X	HAV	JYOTHI KUMAR J	01-04-2010
1097	15352851M	HAV	K ARJUNAN	01-04-2010
1098	14258814K	HAV	K J SAGA DEVAN	01-08-2010
1099	15351270H	HAV	K M THIRU KUMAR	01-02-2010
1100	15351867L	HAV	K P ALAGAR SAMY	01-03-2010
1101	14254960M	HAV	K P VISKARMA	01-03-2010
1102	15354920W	HAV	K SONAI MUTHU	01-08-2010

1103	14256230A	HAV	KAILASH PRASAD	01-04-2010
1104	14255128L	HAV	KAMAL BIHARI MISHRA	01-03-2010
1105	14256783W	HAV	KAMAL KUMAR SINGH	01-05-2010
1106	14257045Y	HAV	KAMALESH PRASAD SINGH	01-06-2010
1107	14255138P	HAV	KAMLA KANT CHAUBE	01-03-2010
1108	14258578N	HAV	KANHAYA PAL PRAJAPATI	01-08-2010
1109	14255869H	HAV	KANTHA PRASAD	01-04-2010
1110	15354453K	HAV	KARNAIL SINGH	01-06-2010
1111	14255022Y	HAV	KESHAV SINGH YADAV	01-03-2010
1112	14255618Y	HAV	KEWAL SINGH	01-04-2010
1113	14255840A	HAV	KHEM CHAND	01-04-2010
1114	15351540M	HAV	KIRAN KUMAR	01-02-2010
1115	15353328N	HAV	KRISHAN KUMAR	01-04-2010
1116	14257361X	HAV	KRISHAN NANDAN TIWARI	01-04-2010
1117	4254709Y	HAV	KRISHAN SINGH	01-07-2010
1118	14257249L	HAV	KRISHNA KACHHI	01-07-2010
1119	14256718W	HAV	KRISHNA SINGH	01-05-2010
1120	14256144P	HAV	KRUSHNA CHANDRA GHOSE	01-04-2010
1121	14255209L	HAV	KULDEEP SINGH	01-03-2010
1122	15351539X	HAV	KULDIP SINGH	01-02-2010
1123	15353137Y	HAV	KUMBHAR DATTATRAY GANAPATI	01-04-2010
1124	15354777P	HAV	KUSHAL SINGH	01-08-2010
1125	15354205N	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-06-2010
1126	14257676F	HAV	LAL SINGH	01-05-2010
1127	14257094F	HAV	LAL SINGH GURJAR	01-06-2010
1128	15351198X	HAV	LALAN PRASAD SINGH	01-02-2010
1129	14257298N	HAV	M BHATTACHARYA	01-03-2010
1130	14256056Y	HAV	M RAJENDIRAN	01-04-2010
1131	14255819X	HAV	MADAN LAL	01-04-2010
1132	14256913N	HAV	MADHAB CHANDRA MANDAL	01-06-2010
1133	15352344Y	HAV	MAHA SINGH JAKHAR	01-04-2010
1134	14257153H	HAV	MAHADEV PRASAD VARAMA	01-06-2010
1135	14255617W	HAV	MAHARWAN SINGH	01-04-2010
1136	14255181W	HAV	MAHEN CHANDRA BHARALI	01-03-2010
1137	14254492X	HAV	MAHENDRA KUMAR	01-02-2010
1138	14257209K	HAV	MAHENDRA NATH	01-06-2010
1139	14256507N	HAV	MAHESH CHANDRA YADAV	01-04-2010
1140	15354131K	HAV	MAHILAL SINGH	01-06-2010
1141	14256617H	HAV	MAHIPAL	01-05-2010
1142	14257783H	HAV	MAHIPAL	01-07-2010
1143	14257479Y	HAV	MAN CHAND KUMHAR	01-07-2010
1144	15351878X	HAV	MANE NANDKISHOR VASANT RAO	01-03-2010
1145	14257065M	HAV	MANGLE BHARAT LAXMAN	01-06-2010
1146	14258356Y	HAV	MANI KANT SINHA	01-08-2010
1147	15351364A	HAV	MANOHAR SINGH	01-02-2010
1148	14257199L	HAV	MANU SINGH YADAV	01-06-2010
1149	15352439Y	HAV	MATA DEEN	01-04-2010
1150	14254547W	HAV	MATHEW M KUDAKKACHARI	01-02-2010

1151	15353100X	HAV	MD ZILLURRAHMAN	01-04-2010
1152	15352216H	HAV	MENDEMU JOHN PATEL	01-03-2010
1153	14254079F	HAV	MOHAN SINGH	01-02-2010
1154	14256452P	HAV	MOHAN SINGH RAWAT	01-04-2010
1155	15352161H	HAV	MONI LAL SINGHA	01-03-2010
1156	15354459L	HAV	MOTI LAL MEENA	01-07-2010
1157	15354554X	HAV	MUKESH CHAND	01-07-2010
1158	14256202N	HAV	MURARI RAM	01-04-2010
1159	14254287W	HAV	NAGENDRA SINGH	01-02-2010
1160	14256717N	HAV	NAGESHWAR THAKUR	01-05-2010
1161	15354067X	HAV	NAIB SINGH	01-06-2010
1162	14257761K	HAV	NANDJEE SINGH	01-06-2010
1163	15354457A	HAV	NARAYAN KUMAR DUTTA	01-07-2010
1164	14255856L	HAV	NARENDER PRASAD ROY	01-04-2010
1165	15352450X	HAV	NARENDRA KUMAR SHARMA	01-04-2010
1166	15351936W	HAV	NARENDRA SINGH	01-03-2010
1167	15354039L	HAV	NARENDRA SINGH NEGI	01-06-2010
1168	14257285W	HAV	NARESH KUMAR	01-07-2010
1169	15353927N	HAV	NAROTTAM PRASAD TIWARI	01-06-2010
1170	14257256F	HAV	NAWAL KISHOR SINGH	01-07-2010
1171	15354578F	HAV	NOKHIN CHANDRA ROY	01-07-2010
1172	14256433K	HAV	NURUL ISLAM SHAIKH	01-04-2010
1173	14257415N	HAV	OM PAL	01-04-2010
1174	14256439L	HAV	OM PARKASH	01-04-2010
1175	14255262W	HAV	OM PRAKASH	01-03-2010
1176	14255377K	HAV	OMKAR CHAND	01-03-2010
1177	14254307Y	HAV	OMPAL	01-02-2010
1178	14257340F	HAV	P K SREEVASTAVA	01-04-2010
1179	14251420H	HAV	P RAJA MANI	01-04-2010
1180	14255427K	HAV	PAGARE RAVINDRA P	01-03-2010
1181	14257691W	HAV	PANCHAM RAM	01-05-2010
1182	14255154M	HAV	PANCHDEO PANDEY	01-03-2010
1183	15351445A	HAV	PANCHOLI SUDHANSU M B	01-02-2010
1184	14255252M	HAV	PARGAT SINGH	01-03-2010
1185	14256962W	HAV	PAWAN KUMAR	01-06-2010
1186	15351801P	HAV	PAWAN KUMAR	01-02-2010
1187	14263519L	HAV	PK VENKATA RATHNAM	01-07-2010
1188	14255741X	HAV	PRADEEP KUMAR	01-04-2010
1189	15354038H	HAV	PRADEEP SINGH KHATI	01-06-2010
1190	14254829P	HAV	PRADIP CHANDRA SAKIA	01-02-2010
1191	14255390N	HAV	PRADIP KUMAR NAIK	01-03-2010
1192	14254470Y	HAV	PRAHALAD GIRI	01-02-2010
1193	15352422L	HAV	PRANAB JYOTI DUTTA	01-04-2010
1194	15353393N	HAV	PROMOD KUMAR SINGH	01-04-2010
1195	14256811X	HAV	PUNVASHE PRASAD	01-06-2010
1196	15354763P	HAV	PURANMAL SIROHIWAL	01-08-2010
1197	14257724W	HAV	PURSOTAM KUMAR SINGH	01-06-2010
1198	14258708L	HAV	R BALAJI	01-08-2010



1199	14257316L	HAV	R SHREE KUMARAN NAIR	01-03-2010
1200	15354564F	HAV	RABI GURUNG	01-07-2010
1201	14257754N	HAV	RABINDRA KUMAR PANDA	01-06-2010
1202	14254899N	HAV	RADHA KRISHAN	01-03-2010
1203	15354778X	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-08-2010
1204	14256727X	HAV	RAJ KARAN ROY	01-05-2010
1205	14255968L	HAV	RAJ SINGH	01-04-2010
1206	14254811Y	HAV	RAJA SEKHARAN NAIR B	01-02-2010
1207	14255311N	HAV	RAJBIR SINGH	01-03-2010
1208	15352908W	HAV	RAJDEO RAI	01-04-2010
1209	14254865A	HAV	RAJEEVA	01-02-2010
1210	14256685W	HAV	RAJEN PHUKON	01-05-2010
1211	14258034Y	HAV	RAJENDER PRASAD	01-05-2010
1212	15352872H	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-04-2010
1213	14258229K	HAV	RAJENDRA TIWARI	01-07-2010
1214	14254778M	HAV	RAJENDRAN K	01-02-2010
1215	15354104A	HAV	RAJESH KUMAR TIWARI	01-06-2010
1216	14257901L	HAV	RAJKUMAR S	01-07-2010
1217	15353745A	HAV	RAJU RAM HOODA	01-05-2010
1218	15352428M	HAV	RAJVIR SINGH	01-04-2010
1219	15352658A	HAV	RAJVIR SINGH	01-04-2010
1220	14255901M	HAV	RAM AWADH RAM	01-04-2010
1221	14258495H	HAV	RAM BABU	01-08-2010
1222	15352442Y	HAV	RAM KARAN SIYAK	01-04-2010
1223	14254178K	HAV	RAM KISHAN	01-02-2010
1224	14255188A	HAV	RAM KRISHNA RAJAK	01-03-2010
1225	14255329K	HAV	RAM NARAIN	01-03-2010
1226	14256778L	HAV	RAM NAYAN	01-05-2010
1227	14256139K	HAV	RAM NIWAS	01-04-2010
1228	14257116P	HAV	RAM NIWAS TIWARI	01-06-2010
1229	14255875W	HAV	RAM PAL SINGH	01-04-2010
1230	14258276F	HAV	RAM PAL SINGH	01-08-2010
1231	14258200F	HAV	RAM RAJ SINGH YADAV	01-05-2010
1232	14254638A	HAV	RAM SINGH	01-02-2010
1233	14257496Y	HAV	RAM SINGH YADAV	01-07-2010
1234	14254258F	HAV	RAMA KANTA BORAH	01-02-2010
1235	14257771N	HAV	RAMASHISH CHAUDHARY	01-06-2010
1236	15351944P	HAV	RAMAYAN PRASAD SHARMA	01-03-2010
1237	14258391F	HAV	RAMAYANA YADAV	01-05-2010
1238	14257836W	HAV	RAMENDRA SINGH	01-06-2010
1239	14255790A	HAV	RAMESH CHAND MALIK	01-04-2010
1240	14258558A	HAV	RAMESH CHANDRA PARIDA	01-08-2010
1241	14254963A	HAV	RAMESH KUMAR	01-03-2010
1242	15352461K	HAV	RAMESH KUMAR	01-03-2010
1243	14258484W	HAV	RAMESHWAR PRASAD YADAV	01-08-2010
1244	14256346W	HAV	RAMESHWAR SINGH YADAV	01-04-2010
1245	14256414Y	HAV	RAMJEE TIWARI	01-04-2010
1246	14258834X	HAV	RAMUATAR	01-08-2010

1247	14254252A	HAV	RAMVIR	01-02-2010
1248	14256914W	HAV	RANJAN KUMAR MONDAL	01-06-2010
1249	14254442M	HAV	RANJEET SINGH MEENA	01-02-2010
1250	15353315W	HAV	RANJIT CHANDRA ROY	01-04-2010
1251	14256040N	HAV	RANJIT SINGH	01-04-2010
1252	14256047X	HAV	RANVIR SINGH	01-04-2010
1253	15354702X	HAV	RATTAN LAL	01-07-2010
1254	14258818A	HAV	RAVI KUMAR R	01-08-2010
1255	14255736M	HAV	RAVINDRA KUMAR SINGH	01-04-2010
1256	15351949N	HAV	RAVISH KUMAR	01-03-2010
1257	15353810P	HAV	REGHUTHAMAN NAIR T K	01-06-2010
1258	14257292M	HAV	ROHAN SINGH	01-03-2010
1259	14258371N	HAV	ROHIT KUMAR MAHTO	01-05-2010
1260	14257229X	HAV	ROOP LAL	01-06-2010
1261	14257468M	HAV	ROSHAN LAL	01-06-2010
1262	14256490L	HAV	RUCKAM PAL SINGH	01-04-2010
1263	15351397L	HAV	RUDAL SINGH	01-02-2010
1264	15350683A	HAV	RUP SINGH CHAUHAN	01-08-2010
1265	14257134X	HAV	S B PRASAD YADAV	01-06-2010
1266	15352801F	HAV	S K LYAKAT ALLI	01-04-2010
1267	14255586F	HAV	S P CHAURASIA	01-04-2010
1268	14256219F	HAV	SABHAJEET DUBEY	01-04-2010
1269	14256747L	HAV	SAIHUN KUJUR	01-05-2010
1270	15352667F	HAV	SALIMUDDIN LASKAR	01-04-2010
1271	14257198H	HAV	SANJAY KUMAR	01-06-2010
1272	15351763K	HAV	SANWALIA	01-03-2010
1273	15352481X	HAV	SASI KUMAR V	01-03-2010
1274	15352793N	HAV	SASI P V	01-04-2010
1275	14254951L	HAV	SATBIR SINGH	01-03-2010
1276	14257664M	HAV	SATBIR SINGH	01-05-2010
1277	15351088H	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2010
1278	14258464H	HAV	SATISH KUMAR TIWARI	01-07-2010
1279	14255983A	HAV	SATYA NARAYAN SAHU	01-02-2010
1280	14256059M	HAV	SATYAVIR SINGH	01-04-2010
1281	14255988Y	HAV	SATYAWAN	01-04-2010
1282	14255989F	HAV	SATYVIR SINGH	01-04-2010
1283	14256357H	HAV	SERAJ MOHAMMED KHAN	01-04-2010
1284	15354906K	HAV	SHAJIMON M C	01-08-2010
1285	14265949N	HAV	SHAKTI CHAND VERMA	01-04-2010
1286	15353167W	HAV	SHAMSHER SINGH	01-04-2010
1287	15352508K	HAV	SHANKAR BANDEKAR	01-04-2010
1288	14257682P	HAV	SHANKAR GOWDA	01-05-2010
1289	15353256P	HAV	SHEO GANGA	01-04-2010
1290	14254182M	HAV	SHIV KUMAR TRIPATHI	01-02-2010
1291	14257849N	HAV	SHIVA CHANDRA RAY	01-07-2010
1292	14255655M	HAV	SHIVLAL SAINI	01-04-2010
1293	14257324K	HAV	SHIWESHWAR PANDEY	01-03-2010
1294	14257473X	HAV	SHREE CHANDRA GURJAR	01-06-2010

1295	14254368W	HAV	SHRI BHAGWAN	01-02-2010
1296	14257380H	HAV	SHRI NIWAS RAI	01-04-2010
1297	14254310Y	HAV	SHYAM KISHOR YADAV	01-02-2010
1298	14254948L	HAV	SHYAM LAL SAH	01-03-2010
1299	14257205N	HAV	SHYAM NARAIN YADAV	01-06-2010
1300	14256052H	HAV	SHYAM NARAYAN SINGH	01-04-2010
1301	14257331A	HAV	SHYAM SUNDAR BEHERA	01-04-2010
1302	15353723F	HAV	SITAKANTA KAR	01-05-2010
1303	14257035P	HAV	SIVA KUMAR T	01-06-2010
1304	14254795M	HAV	SIVANANTHA KUMAR P V	01-02-2010
1305	14257270N	HAV	SIYA RAM SHARMA	01-07-2010
1306	14254325F	HAV	SOMESWARAN L	01-02-2010
1307	14258363P	HAV	SRI BABU SINGH	01-08-2010
1308	15354819W	HAV	SRI BHAGWAN	01-08-2010
1309	14254244F	HAV	SUBAL CHANDRA BISWAS	01-02-2010
1310	15352349X	HAV	SUBE SINGH	01-04-2010
1311	14256009F	HAV	SUBHASH CHAND	01-04-2010
1312	14255143A	HAV	SUBHASH CHAND RANA	01-03-2010
1313	14255652Y	HAV	SUBHASH CHANDER	01-04-2010
1314	14260314L	HAV	SUDAM CHARAN SWAIN	01-02-2010
1315	14257667A	HAV	SUDHIR KANTA DAS	01-05-2010
1316	14258393M	HAV	SUDHIR SINGH	01-06-2010
1317	15355034Y	HAV	SUJIT DAS GUPTA	01-08-2010
1318	14257164P	HAV	SUKHBIR SINGH	01-06-2010
1319	15354786W	HAV	SUKHDEV SINGH	01-08-2010
1320	15352353A	HAV	SUMER SINGH SHARMA	01-04-2010
1321	14258474M	HAV	SUNDER LAL	01-07-2010
1322	15352229Y	HAV	SUNDER PAL	01-03-2010
1323	14258029N	HAV	SUNDER SINGH	01-05-2010
1324	14254866H	HAV	SUNIL DAS	01-02-2010
1325	15354953F	HAV	SUNIL KUMAR	01-08-2010
1326	14254986F	HAV	SURENDER KUMAR	01-03-2010
1327	14258648F	HAV	SURENDRA SINGH	01-08-2010
1328	15354523X	HAV	SURESH BHADUR SINGH	01-07-2010
1329	15353454A	HAV	SURESH CHANDRA PURSTY	01-04-2010
1330	14258037M	HAV	SURESH KUMAR	01-05-2010
1331	14256142K	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2010
1332	15352762N	HAV	SURESH KUMAR P	01-04-2010
1333	14255189H	HAV	SURESH PD KUSHWAHA	01-03-2010
1334	15354862X	HAV	SURESH RABHA	01-08-2010
1335	14256622N	HAV	SURESH TIWARI	01-05-2010
1336	14254776F	HAV	SURI ANILAN D	01-02-2010
1337	14256856X	HAV	SURYAKANT HAWALDAR	01-06-2010
1338	14257018P	HAV	SURYANATH SINGH	01-06-2010
1339	14254248X	HAV	SUSHIL KUMAR	01-02-2010
1340	14255200W	HAV	SWARN CHAND	01-03-2010
1341	15353062M	HAV	SYED NAZEERUDDIN	01-04-2010
1342	15354404F	HAV	T K BALAKRISHNAN	01-07-2010

1343	14255054F	HAV	TAPAN KUMAR BEHERA	01-03-2010
1344	14254339F	HAV	TARKESHWAR SINGH	01-02-2010
1345	14256246L	HAV	TARUN SARKAR	01-04-2010
1346	14254678F	HAV	TH MANIHAR SINGHA	01-02-2010
1347	15352822X	HAV	THADLAPU APPALASURI	01-04-2010
1348	15353039Y	HAV	THALUR PRAKASH KUMAR	01-04-2010
1349	15354957X	HAV	THANDAVA MOORTHY R	01-08-2010
1350	14257171L	HAV	THANESWAR HAZARIKA	01-06-2010
1351	14255243L	HAV	TRILOCHAN BARIK	01-03-2010
1352	15354937K	HAV	UGLE BHAGWAN WASUDEO	01-08-2010
1353	14254743W	HAV	UMA KANT BORA	01-02-2010
1354	15353199Y	HAV	UMER DEEN	01-04-2010
1355	14257124N	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-06-2010
1356	14257144F	HAV	UMESH SINGH	01-06-2010
1357	15353226X	HAV	UNNIKRISHNAN NAIR G	01-04-2010
1358	15353267F	HAV	VED PRAKASH	01-04-2010
1359	15351593L	HAV	VED PRAKASH GOSWAMI	01-02-2010
1360	14255878K	HAV	VIDYA SHANKER SINGH	01-04-2010
1361	14255313Y	HAV	VIDYADHAR SINGH	01-03-2010
1362	14255725A	HAV	VIJAY KUMAR	01-04-2010
1363	14257988X	HAV	VIJOY KUMAR	01-07-2010
1364	15351977A	HAV	VIRENDRA KUMAR	01-03-2010
1365	15354292M	HAV	VIRENDRA KUMAR YADAV	01-07-2010
1366	15352339N	HAV	VIRENDRA SINGH	01-04-2010
1367	15352306H	HAV	VIRENDRA SINGH YADAV	01-03-2010
1368	14255287H	HAV	VISHWAKARMA YADAV	01-03-2010
1369	15354228P	HAV	WAYFAL RAMDAS BHAIRU	01-07-2010
1370	14258661L	HAV	Y ARUN SINGHA	01-08-2010
1371	14254869W	HAV	YAVVARI APPAYYA	01-02-2010
1372	15351423F	HAV	ZALA MEGHRAJ SINH B	01-02-2010

**THE BRIGADE OF GUARDS**

1373	13688282F	HAV	AJAB SINGH	01-08-2010
1374	13685577M	HAV	AMANWASH PAL	01-02-2010
1375	13685696H	HAV	AMIT KUMAR VERMA	01-02-2010
1376	13685751N	HAV	ARUN KUMAR	01-02-2010
1377	13688292L	HAV	BHANI RAM	01-08-2010
1378	13686054A	HAV	BHIM SINGH	01-03-2010
1379	13687994X	HAV	BHIYA RAM	01-04-2010
1380	13685982K	HAV	BIREN SAIKIA	01-02-2010
1381	13686123L	HAV	CHANDRA NATH	01-04-2010
1382	13686460A	HAV	DAYA SINGH	01-03-2010
1383	13688231N	HAV	DEV SINGH	01-07-2010
1384	2477495X	HAV	DHARAM PAL SHARMA	01-06-2010
1385	13685629X	HAV	DIL BAHADUR THAPA	01-02-2010
1386	13688100H	HAV	DURGPAL SINGH	01-05-2010
1387	13685929Y	HAV	GANESWAR BARO	01-03-2010
1388	13685553H	HAV	HARIPADA SINGH	01-02-2010

1389	13685930N	HAV	HARISH KUMAR	01-03-2010
1390	13686253N	HAV	HIRA LAL	01-03-2010
1391	13686081K	HAV	ISHAV KUMAR	01-02-2010
1392	13686564F	HAV	JAFFAR MASUD	01-05-2010
1393	13687024P	HAV	JAGVIR	01-08-2010
1394	13686103X	HAV	JAWINDER PRASAD SINGH	01-02-2010
1395	13688142P	HAV	KARUNA SHANKAR TIWARI	01-06-2010
1396	13688281Y	HAV	KISHANVIR SINGH	01-08-2010
1397	13685863N	HAV	MANGAL CHARAN	01-02-2010
1398	13686946L	HAV	MOHAN KATHAT	01-08-2010
1399	13688141M	HAV	NAWAL KISHOR PANT	01-06-2010
1400	13685775X	HAV	NETRA PAL SINGH	01-02-2010
1401	13688185K	HAV	PAWAN KUMAR	01-07-2010
1402	13686262P	HAV	PREM SINGH	01-03-2010
1403	13688210X	HAV	RAM BARAN SINGH	01-07-2010
1404	13687984N	HAV	RAM KARAN GURJAR	01-02-2010
1405	13688203F	HAV	RAM NIWAS SINGH	01-07-2010
1406	13688294W	HAV	RAMESH CHAND	01-08-2010
1407	13687018F	HAV	RAMESHWAR DAYAL	01-08-2010
1408	13686086H	HAV	RAMNATH YADAV	01-02-2010
1409	13686620P	HAV	RISHIKESH	01-04-2010
1410	13688019W	HAV	SANJOY CHOUDHARY	01-04-2010
1411	13688071Y	HAV	SHRI NIWAS	01-05-2010
1412	13685662P	HAV	SITA SHARON TIWARI	01-02-2010
1413	13686502F	HAV	SUBE SINGH	01-04-2010
1414	13688036W	HAV	SUDHARSHAN KUMAR	01-04-2010
1415	13688032A	HAV	TILAK RAJ	01-04-2010
1416	13686798L	HAV	UMESH CHANDER	01-06-2010
1417	13686084X	HAV	VIJAY KUMAR YADAV	01-02-2010

**THE PARACHUTE REGIMENT**

1418	13616664P	HAV	ARBIND KUMAR	01-06-2010
1419	13615516X	HAV	BHAGWAT SINGH	01-06-2010
1420	13616558W	HAV	BIRPAL SINGH	01-04-2010
1421	13616702A	HAV	CHHAGAN SINGH	01-07-2010
1422	13616501F	HAV	DALIP SINGH	01-02-2010
1423	13616738Y	HAV	DRAG VIJAY SINGH	01-08-2010
1424	13615491W	HAV	GOPAL CHAND	01-05-2010
1425	13616584X	HAV	JAIBHAN SINGH	01-04-2010
1426	13616545Y	HAV	KAILASH CHANDER	01-04-2010
1427	13616539L	HAV	KAPOOR SINGH	01-04-2010
1428	13616700P	HAV	LAL CHAND	01-07-2010
1429	13615503A	HAV	MADHO SINGH	01-05-2010
1430	13615555W	HAV	NARAYAN RAM	01-06-2010
1431	13616674Y	HAV	PARMAL SINGH	01-06-2010
1432	13615425N	HAV	PRABHU	01-02-2010
1433	4180605A	HAV	RAM AJOR YADAV	01-02-2010
1434	13616722N	HAV	RAM CHANDRA	01-08-2010

1435	13616629M	HAV	RAMESH KUMAR	01-05-2010
1436	13615469L	HAV	RAMESHWAR DAS	01-04-2010
1437	13615660M	HAV	RAMESHWAR LAL	01-07-2010
1438	13615710M	HAV	RANJU GURUNG	01-08-2010
1439	13615723K	HAV	SANKAR DAS	01-08-2010
1440	13616589W	HAV	SHISH RAM	01-04-2010
1441	13615540N	HAV	SRI PRAHLAD SINGH TOMAR	01-06-2010
1442	13616530W	HAV	SULINDER PAL	01-03-2010
1443	5751423X	HAV	TUL BAHADUR THAPA	01-08-2010
1444	13616625W	HAV	UMESH NATH	01-05-2010
1445	13616605H	HAV	VIRAM RAM VISHNOI	01-05-2010
1446	13688070W	HAV	YESHPAL SINGH	01-05-2010

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

1447	14912120X	HAV	ANAND KUMAR	01-03-2010
1448	14912650M	HAV	AV NAGENDRA KUMAR	01-06-2010
1449	14911657K	HAV	BABU NANDAN YADAV	01-03-2010
1450	14911788P	HAV	BAIRISTAR SINGH	01-03-2010
1451	14911500K	HAV	BHARAT BHUSHAN YADAV	01-02-2010
1452	14912249L	HAV	BIJAYA KUMAR BEHERA	01-04-2010
1453	14911660K	HAV	BIRENDRA KUMAR PANDA	01-03-2010
1454	14914095H	HAV	BUDDH DEO	01-08-2010
1455	14911467X	HAV	C MOTI RAM KUTARA BHAI	01-02-2010
1456	14912930A	HAV	CHANDRA BHANU K P.	01-07-2010
1457	14914088M	HAV	D THIYAGARAJAN	01-07-2010
1458	14911760P	HAV	DAMODDAR PRASAD YADAV	01-03-2010
1459	14914115L	HAV	DEBA HARI JENA	01-08-2010
1460	14913976P	HAV	DHAN BAHADUR	01-02-2010
1461	14913047W	HAV	DHARAMBIR SINGH	01-08-2010
1462	14913969Y	HAV	G KODANDA RAO	01-02-2010
1463	14914057M	HAV	GANGA SINGH NAYAL	01-06-2010
1464	14912408X	HAV	GONESH BARUAH	01-04-2010
1465	14912541A	HAV	GOPALA KRISHNA KURUP V	01-05-2010
1466	14913974K	HAV	GOURANGA CHARAN SAHU	01-02-2010
1467	14911570H	HAV	HARAN DAS	01-02-2010
1468	14912383W	HAV	HARDEEP SINGH	01-04-2010
1469	14912632K	HAV	HARDIP SINGH	01-06-2010
1470	14911528K	HAV	HIRAMAN MAHTO	01-02-2010
1471	14912967F	HAV	INDRA BAHADUR THAPA	01-07-2010
1472	14912572A	HAV	INDRA BHAN PATEL	01-05-2010
1473	14912356M	HAV	JAGNAYAK SINGH	01-04-2010
1474	2983343P	HAV	JAI PAL	01-02-2010
1475	14912671H	HAV	JASBIR SINGH	01-06-2010
1476	14912545W	HAV	KALU RAM	01-02-2010
1477	14911520X	HAV	KARMA ORAON	01-02-2010
1478	14912800X	HAV	KARNAT KISHORE SINGH	01-07-2010
1479	14912071A	HAV	KESH BAHADUR THAPA	01-03-2010
1480	14913027H	HAV	KIRTA RAM JANI	01-04-2010

1481	14914001A	HAV	KISHAN SINGH	01-05-2010
1482	14914111P	HAV	L ARJUN	01-08-2010
1483	14911891A	HAV	MAHATM SINGH YADAV	01-03-2010
1484	14911981F	HAV	MAHESH PRASAD	01-03-2010
1485	14913070K	HAV	MEHAR CHAND YADAV	01-08-2010
1486	14912640H	HAV	MEHAR SINGH	01-06-2010
1487	14912774F	HAV	MOHAN LAL PRASAD PATEL	01-07-2010
1488	14911736Y	HAV	NAWAL KISHOR SINGH	01-03-2010
1489	14912542H	HAV	NEM CHANDRA	01-05-2010
1490	14911960L	HAV	NIM BAHADUR RANA	01-03-2010
1491	14912794P	HAV	OM PRAKASH	01-07-2010
1492	14911461W	HAV	P A S CHANDRA SINH	01-02-2010
1493	14911896Y	HAV	PARIMAL CHANDRA RAY	01-03-2010
1494	14912460A	HAV	PARKASH CHAND	01-05-2010
1495	14914060M	HAV	PRABHU YADAV	01-06-2010
1496	14913036K	HAV	PRAHLAD SINGH	01-08-2010
1497	14912459L	HAV	PRAKASH SINGH NEGI	01-04-2010
1498	14911758X	HAV	RABINDRA SINGH	01-03-2010
1499	2986072N	HAV	RAJ KUMAR	01-08-2010
1500	14913114W	HAV	RAM KISHAN	01-08-2010
1501	14912343P	HAV	RAM NIWAS	01-04-2010
1502	14913000L	HAV	RAM VILAS YADAVA	01-08-2010
1503	14913972Y	HAV	RAMASHRAY SINGH YADAV	01-02-2010
1504	14912731M	HAV	RAMDEV SINGH RAWAT	01-06-2010
1505	14911728A	HAV	RAMESH ROY	01-03-2010
1506	14911665H	HAV	RAMESHWAR YADAV	01-03-2010
1507	2983560L	HAV	RAN SINGH	01-02-2010
1508	14912190W	HAV	RANBIR CHAND	01-03-2010
1509	14911881W	HAV	RANJAN C	01-03-2010
1510	14913104M	HAV	RATAN LAL PAREEK	01-08-2010
1511	14912425X	HAV	RAVINDER SINGH	01-04-2010
1512	14912928H	HAV	ROHTASH SINGH	01-07-2010
1513	14912022X	HAV	ROMESH SINGH	01-03-2010
1514	14912966Y	HAV	S KANAGA RAJ	01-07-2010
1515	14914043M	HAV	SAMIR TARAFDAR	01-06-2010
1516	14912443A	HAV	SARVENDRA PRASAD	01-04-2010
1517	14911598H	HAV	SATYENDRA RAM	01-02-2010
1518	14912935Y	HAV	SHAJI N	01-07-2010
1519	14911675M	HAV	SHIVPUJAN ROUT	01-03-2010
1520	14911678A	HAV	SHIW KUMAR YADAW	01-03-2010
1521	14912336Y	HAV	SHYAM BIHARI RAI	01-04-2010
1522	14912991X	HAV	SHYAMENDRA SINGHA	01-07-2010
1523	14912607L	HAV	SON PAL SINGH	01-06-2010
1524	14912109X	HAV	SULTAN SINGH	01-03-2010
1525	14914052N	HAV	SUNIL PRASAD SINGH	01-06-2010
1526	14912367Y	HAV	SURENDER KUMAR	01-04-2010
1527	14912885Y	HAV	SURESH CHANDRA	01-07-2010
1528	14912752H	HAV	SURESH KUMAR	01-07-2010

1529	13700387A	HAV	SURJIT SINGH	01-05-2010
1530	14914024F	HAV	TAPAN KANTI GHOSH	01-06-2010
1531	14911790M	HAV	TEJ SINGH	01-03-2010
1532	14912375X	HAV	THANKACHAN R	01-04-2010
1533	14914015A	HAV	TILAK DHARI	01-05-2010
1534	14911983M	HAV	UDAYVIR SINGH	01-03-2010
1535	14912075W	HAV	UMESH PRASAD YADAV	01-03-2010
1536	14911953P	HAV	VED PRAKASH PANDEY	01-03-2010
1537	14914105F	HAV	VIJAY SINGH	01-08-2010
1538	14911903K	HAV	VINOD KUMAR SINGH	01-04-2010

**THE PUNJAB REGIMENT**

1539	2477169P	HAV	AMARJIT SINGH	01-02-2010
1540	2478816W	HAV	AVTAR SINGH	01-05-2010
1541	2477337H	HAV	B RAJEYA REDDY	01-04-2010
1542	2477357W	HAV	BAKHSHISH SINGH	01-04-2010
1543	2477016L	HAV	BAL KRISHAN	01-02-2010
1544	2476990K	HAV	CHHOTE LAL	01-02-2010
1545	2477345F	HAV	CHUNI LAL DOGRA	01-04-2010
1546	2477397X	HAV	DARSHAN LAL	01-04-2010
1547	2477432P	HAV	DHARAMBIR SINGH	01-05-2010
1548	2478706F	HAV	DHIAN SINGH	01-02-2010
1549	2478822K	HAV	GURDEEP SINGH	01-05-2010
1550	2478955A	HAV	JASPAL SINGH	01-08-2010
1551	2477182Y	HAV	KAMALJIT	01-02-2010
1552	2477124P	HAV	KARAM CHAND	01-02-2010
1553	2477197F	HAV	KASHMIR SINGH	01-02-2010
1554	2478719Y	HAV	KASHMIR SINGH	01-03-2010
1555	2477648W	HAV	MARINAİK ANNAPPA LAXMAN	01-08-2010
1556	2477646L	HAV	MG PILLAI	01-08-2010
1557	2477015H	HAV	NANDAN RAM	01-02-2010
1558	2478870K	HAV	PARMJEET SINGH	01-06-2010
1559	2477255A	HAV	PARVINDER SINGH	01-03-2010
1560	2476999Y	HAV	PREM CHAND	01-02-2010
1561	2477518N	HAV	PRITH PAL SINGH SM	01-06-2010
1562	2477107P	HAV	RAJINDER KUMAR	01-02-2010
1563	2478894N	HAV	RAJINDER SINGH	01-07-2010
1564	2477242H	HAV	RASPAL SINGH	01-02-2010
1565	2477053Y	HAV	RAVI KUMAR	01-02-2010
1566	2478862L	HAV	RAVINDER SINGH	01-06-2010
1567	2478847W	HAV	RUP SINGH	01-06-2010
1568	2477220K	HAV	SARBJIT SINGH	01-02-2010
1569	2478967P	HAV	SARWAN SINGH	01-08-2010
1570	2477077H	HAV	SHAM LAL SHARMA	01-02-2010
1571	2477451A	HAV	SHUSHIL KUMAR	01-05-2010
1572	2476976X	HAV	UTTAM SINGH	01-02-2010
1573	2477006F	HAV	VIJAI PAL SINGH	01-02-2010



**THE MADRAS REGIMENT**

1574	2590940Y	HAV	ANIL KUMAR PC	01-05-2010
1575	2590935N	HAV	ANIL KUMAR S	01-05-2010
1576	2591282K	HAV	BADDITI PRASAD	01-08-2010
1577	2590749X	HAV	BASAPPA METTEPPANAVAR	01-03-2010
1578	2590804H	HAV	BASAVARAJ CHOUGALA	01-04-2010
1579	2591058X	HAV	BODDU NAGESWARA RAO	01-06-2010
1580	15107290M	HAV	D RAVI	01-02-2010
1581	2590576L	HAV	DEVENDIRAN C	01-03-2010
1582	2590796P	HAV	GIRI GOUDA PATIL	01-04-2010
1583	2590665K	HAV	GUJJALA SEETHAYYA	01-03-2010
1584	2591155P	HAV	H VISWESWARA RAO	01-08-2010
1585	2590564W	HAV	J TAMIL SELVAN	01-03-2010
1586	2590546N	HAV	JACOB J	01-02-2010
1587	2590619P	HAV	JAYAPRAKASH	01-03-2010
1588	3987829N	HAV	JOHN TK	01-07-2010
1589	2588058M	HAV	K GANESAN	01-05-2010
1590	2591217K	HAV	K MUTHUSAMY	01-08-2010
1591	2591101N	HAV	K SATHIYA MOORTHY	01-07-2010
1592	2591009P	HAV	K SHANMUGAM	01-06-2010
1593	2590691L	HAV	K SUBRAMANIAM	01-03-2010
1594	2591050L	HAV	KOPPISETTY SATYANARAYANA	01-06-2010
1595	2590764M	HAV	KORVIPATTI MOULALI	01-03-2010
1596	2590887Y	HAV	KURAKU KHADERAIAH	01-04-2010
1597	2590912M	HAV	KURELLA V SURYANARAYANA	01-04-2010
1598	2591000A	HAV	LAXME GOWDA	01-06-2010
1599	2591048N	HAV	M PERUMAL	01-06-2010
1600	2590611H	HAV	MADDIRALA PULLAIAH	01-03-2010
1601	2476964H	HAV	MAN SARIF SAFI	01-02-2010
1602	2591307L	HAV	MARIYA PANDI	01-08-2010
1603	2590537M	HAV	MURALEEDHARAN NAIR B	01-02-2010
1604	2590649M	HAV	MURUGESAN T	01-03-2010
1605	25911276W	HAV	N BALA VENKATA REDDY	01-08-2010
1606	2591299X	HAV	N GOVINDASAMY	01-08-2010
1607	2590903L	HAV	NARAYANAN KUTTY A	01-04-2010
1608	2590651K	HAV	P KUMAR	01-03-2010
1609	2590655A	HAV	P MUNIRATHINAM	01-03-2010
1610	2591278F	HAV	P RENGANATHAN	01-08-2010
1611	2590598K	HAV	PADMANABHAN MC	01-03-2010
1612	2590861H	HAV	PANDI DILLISWARA RAO	01-04-2010
1613	2590559L	HAV	PANEER SELVAM P	01-03-2010
1614	2591257L	HAV	PAWAR SUNIL BABAN	01-08-2010
1615	2590561H	HAV	PERIYAPPA C	01-03-2010
1616	2590633F	HAV	PRABHATH KM	01-03-2010
1617	2590527H	HAV	PREM KUMAR R	01-02-2010
1618	2590692N	HAV	R GOVINDASWAMY	01-03-2010
1619	2590738L	HAV	R RAGHU	01-03-2010

1620	2590705A	HAV	RADHAKRISHNAN NAIR KG	01-03-2010
1621	2591199M	HAV	RAGUPATHI S	01-08-2010
1622	2588728H	HAV	RAJAN NK	01-06-2010
1623	2590511X	HAV	RAJEEV G	01-02-2010
1624	2590498Y	HAV	RAM KISHOR YADAV	01-02-2010
1625	2590943M	HAV	RAM KRIPAL	01-05-2010
1626	2591212L	HAV	S ABDUL MALIK	01-08-2010
1627	2590525X	HAV	S JOHN NELSON RAJAKUMAR	01-02-2010
1628	2588255P	HAV	S ULAGANATHAN	01-06-2010
1629	2590968Y	HAV	SHAIK RAFI AHAMMED	01-06-2010
1630	2591111X	HAV	SIDAN KUMAR ROY	01-07-2010
1631	2590821H	HAV	SOMACHANDRAN PILLAI R	01-04-2010
1632	2588649N	HAV	STEPHENSON V	01-08-2010
1633	2587884A	HAV	SUBHA CHAND	01-05-2010
1634	2590726W	HAV	SURESH KUMAR M	01-03-2010
1635	2590746K	HAV	SURESH PANDRE	01-03-2010
1636	2591061X	HAV	SYED MAHABOOB BASHA	01-06-2010
1637	2591305A	HAV	T THIRUPATHAIAH	01-08-2010
1638	2590517Y	HAV	U MANOHARAN	01-02-2010
1639	2590621M	HAV	UNNIKRISHNA PILLAI K	01-03-2010
1640	2590759F	HAV	V GOVINDA RAJAN	01-03-2010
1641	2591067Y	HAV	V MANOGARAN	01-07-2010
1642	2588029X	HAV	VIJAYAKUMARAN UNNITHAN B	01-05-2010
1643	2591017N	HAV	VIJI PHILIP	01-06-2010
1644	2591214W	HAV	Y NAGENDRA BABU	01-08-2010

**THE GRENADIERS**

1645	2680602H	HAV	ABIASH SINGH	01-05-2010
1646	2680744A	HAV	AMAR NATH	01-07-2010
1647	2679406W	HAV	AMAR SINGH	01-07-2010
1648	2680476F	HAV	AMIT KUMAR BISWAS	01-03-2010
1649	13967958K	HAV	BABU LAL	01-05-2010
1650	2678798H	HAV	BALWANT SINGH	01-02-2010
1651	2678951N	HAV	BISHAN SINGH	01-03-2010
1652	2680480K	HAV	C CHARLESS	01-04-2010
1653	2680482P	HAV	CHINA SUBBA REDDY VARI	01-04-2010
1654	2678839F	HAV	DHARAMBIR SINGH	01-03-2010
1655	2679527X	HAV	GIRI RAJ SINGH	01-08-2010
1656	2680647H	HAV	GOKULA CHANDRA GARANAYAK	01-06-2010
1657	2680458Y	HAV	HARI BUX	01-02-2010
1658	2680782W	HAV	KANA KATHAT	01-08-2010
1659	2680805M	HAV	KANAK DEKA	01-08-2010
1660	2680544K	HAV	KESHAW SINGH YADAW	01-05-2010
1661	2680479P	HAV	KRISHAN KUMAR	01-03-2010
1662	2680792A	HAV	KRISHAN PRAKASH SINGH	01-08-2010
1663	2679270X	HAV	KRISHNAN UNNI	01-06-2010
1664	2678909P	HAV	KULDEEP SINGH	01-03-2010
1665	2680779W	HAV	LAXMAN SINGH	01-07-2010

1666	2680637Y	HAV	LOVE KUMAR	01-06-2010
1667	2680546P	HAV	MAHENDRA YADAV	01-05-2010
1668	2679216K	HAV	MOHAMMAD ANIS	01-06-2010
1669	2679463X	HAV	MUMTAZ ALI KHAN	01-07-2010
1670	2680785K	HAV	NAND KISHORE SINGH	01-08-2010
1671	2680677A	HAV	NASIB DASS	01-06-2010
1672	2680727A	HAV	PAPPU LAL	01-07-2010
1673	2680696L	HAV	PARABHU RAM	01-06-2010
1674	2680755M	HAV	PAWAN KUMAR	01-07-2010
1675	2678908M	HAV	PRAKASH CHAND	01-03-2010
1676	2678924K	HAV	RAJENDRA SINGH	01-03-2010
1677	2680473N	HAV	RAM DHANI CHAUDHARY	01-03-2010
1678	2679442F	HAV	RAM SAWRUP	01-02-2010
1679	2680483X	HAV	RAMESH RAM	01-04-2010
1680	2679136M	HAV	RAN BIR SINGH	01-04-2010
1681	2680841X	HAV	RANVIR SINGH	01-08-2010
1682	2680743X	HAV	RASH PAL SINGH	01-07-2010
1683	2680636W	HAV	RATTAN LAL	01-06-2010
1684	2680714H	HAV	ROOP SINGH	01-07-2010
1685	2679022F	HAV	ROSHAN LAL	01-04-2010
1686	2679192L	HAV	SAMDA LAL	01-05-2010
1687	2680746L	HAV	SANJEET SINGH	01-07-2010
1688	2680664H	HAV	SATISH KUMAR	01-06-2010
1689	2680503A	HAV	SHAKTI DAN	01-04-2010
1690	2679664W	HAV	SHANKAR LAL SHARMA	01-08-2010
1691	2680814N	HAV	SHASHI BHADUR KHDKA	01-08-2010
1692	2679673X	HAV	SHASHI KANT SINGH	01-08-2010
1693	2680778N	HAV	SHYAM SINGH SARANG DEVOT	01-07-2010
1694	2678818L	HAV	SUNDAR LAL	01-02-2010
1695	2680570L	HAV	UMED SINGH	01-05-2010
1696	13967966H	HAV	V GOPALAN	01-05-2010
1697	2680507W	HAV	VEER SINGH	01-05-2010
1698	2678734X	HAV	VIDHADHAR SHARMA	01-02-2010
1699	2680715L	HAV	VISHWA NATH	01-07-2010

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

1700	2780540H	HAV	AJAY KUMAR KISKU	01-07-2010
1701	2783038Y	HAV	BIJAYA KUMAR BARIK	01-08-2010
1702	2782589X	HAV	DESHMUKH KAKA SHESERAO	01-02-2010
1703	2779992Y	HAV	FRANCIS DANIEL D SOUZA	01-03-2010
1704	2782618F	HAV	GALANDE BRAHMBHADEO M	01-02-2010
1705	2782615N	HAV	KAD PANDURANG BALA	01-02-2010
1706	2783021L	HAV	KADAM SUNEEL SHANKAR	01-08-2010
1707	2782777Y	HAV	KANASE HIMMAT BAJIRAO	01-03-2010
1708	2782553Y	HAV	MARUTI RAGHUNATH DESAI	01-02-2010
1709	2780203N	HAV	PALAO SURYAKANT TATU	01-04-2010
1710	2780564M	HAV	RAM BHAGAT	01-07-2010
1711	2782708H	HAV	SIDDAPPA	01-02-2010

1712	2782544X	HAV	SONKATLE MALLINATH V	01-02-2010
1713	2780499X	HAV	TANAJI SHYAMRAO B	01-07-2010
<b><u>THE RAJPUTANA RIFLES</u></b>				
1714	2983324K	HAV	BABU SINGH	01-02-2010
1715	2883427N	HAV	BHAGWAN DAS	01-03-2010
1716	2985893W	HAV	BHANA RAM	01-06-2010
1717	2883412L	HAV	BHANWAR SINGH	01-03-2010
1718	2883840K	HAV	BRJESH KUMAR	01-07-2010
1719	2881291W	HAV	CHANDAN SINGH MERTIYA	01-02-2010
1720	2881410F	HAV	CHIMAN SINGH	01-03-2010
1721	2883599H	HAV	CHUNA RAM DHOLIYA	01-05-2010
1722	2883405P	HAV	DIGAMBER SINGH	01-03-2010
1723	2883519A	HAV	HARBIR SINGH	01-04-2010
1724	2883368M	HAV	INDRAJ SINGH	01-02-2010
1725	2881954W	HAV	JAGDISH SINGH	01-07-2010
1726	2884575L	HAV	JASMAT	01-04-2010
1727	2883956A	HAV	JAYRAJ SINGH	01-08-2010
1728	2883928N	HAV	JETHA RAM CHAUDHARY	01-07-2010
1729	3987803Y	HAV	JOGENDRA SINGH	01-06-2010
1730	3987466P	HAV	KANWAR PAL	01-05-2010
1731	2883468X	HAV	KARAN SINGH	01-04-2010
1732	2884669H	HAV	KRISHAN SINGH	01-05-2010
1733	2883305K	HAV	KUNJU RAM	01-02-2010
1734	2883523H	HAV	MAHENDRA SINGH RADH	01-04-2010
1735	2883932W	HAV	MALA RAM SIYAG	01-07-2010
1736	2881825W	HAV	MAN SINGH	01-06-2010
1737	2883783N	HAV	MOHAMMAD SHMSHER	01-06-2010
1738	2881460M	HAV	MOJDEEN	01-03-2010
1739	2883291P	HAV	MUNNA LAL SM	01-02-2010
1740	2882047H	HAV	R JAGAN NATHAN	01-08-2010
1741	2883316W	HAV	RAGHKUVIR SINGH	01-02-2010
1742	2881570F	HAV	RAM MEHAR	01-04-2010
1743	13967631L	HAV	RAMESH	01-04-2010
1744	2883450F	HAV	RANBIR SINGH	01-04-2010
1745	2881642A	HAV	RAVENDRA SINGH	01-05-2010
1746	2883781H	HAV	RIAZUL AHMAD	01-06-2010
1747	2883721N	HAV	SAJJAN KUMAR THOLIA	01-06-2010
1748	2883775P	HAV	SAMARJIT SINGH	01-06-2010
1749	2883914N	HAV	SARDAR SINGH	01-07-2010
1750	2881911F	HAV	SATBIR SINGH	01-07-2010
1751	2882489F	HAV	SATISH KUMAR SINGH	01-03-2010
1752	2883850N	HAV	SHIV LAL	01-07-2010
1753	2883769F	HAV	SOVINDRA KUMAR	01-06-2010
1754	2882114H	HAV	SUBASH SINGH YADAV	01-08-2010
1755	2883693M	HAV	SURENDER SINGH	01-06-2010
1756	2883563K	HAV	SURENDRA KUMAR RANA	01-05-2010
1757	2881405W	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2010

1758	2883571H	HAV	TEJA RAM KUREEYA	01-05-2010
1759	2883828H	HAV	TEJBIR SINGH	01-06-2010
1760	2883313H	HAV	VIRENDER SINGH	01-02-2010

**THE RAJPUT REGIMENT**

1761	2984462X	HAV	AJAI PAL SINGH	01-06-2010
1762	2985801Y	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2010
1763	2985925N	HAV	ANJANI KUMAR SINGH	01-06-2010
1764	2986086N	HAV	ASHOK KUMAR	01-08-2010
1765	2984539P	HAV	BHANWAR SINGH	01-08-2010
1766	2985824A	HAV	DEV KARAN	01-05-2010
1767	2984414X	HAV	DEV KARAN GUJAR	01-07-2010
1768	2985873H	HAV	DEV RAJ	01-05-2010
1769	2985987N	HAV	DHOOP SINGH GURJAR	01-07-2010
1770	2985810A	HAV	GAJENDAR SINGH TOMAR	01-04-2010
1771	2985957W	HAV	GAJRAJ SINGH	01-06-2010
1772	2984299H	HAV	GIAN SINGH	01-05-2010
1773	2985953A	HAV	H P S SENGAR	01-06-2010
1774	2985911N	HAV	HARI SHANKAR SINGH	01-06-2010
1775	2985832Y	HAV	J S KUSHWAH	01-05-2010
1776	2985978M	HAV	JALE SINGH	01-07-2010
1777	2984446A	HAV	KAPTAN SINGH	01-07-2010
1778	2985878F	HAV	KRISHNA KUMAR SINGH	01-05-2010
1779	3386398H	HAV	KUNDAN SINGH	01-03-2010
1780	2986067H	HAV	LAXMAN SINGH	01-08-2010
1781	2985866M	HAV	M S CHOUHAN	01-05-2010
1782	2984460M	HAV	MUNESHWAR SINGH	01-06-2010
1783	2985929K	HAV	NARESH SINGH	01-06-2010
1784	2983905F	HAV	NASEER AHMED	01-03-2010
1785	2985999H	HAV	NIRBHAY SINGH	01-07-2010
1786	2985760A	HAV	OM PRAKASH	01-02-2010
1787	2984185X	HAV	PREM CHAND	01-04-2010
1788	2985780N	HAV	PREM CHANDRA	01-04-2010
1789	2986126K	HAV	R B S BHADOURIA	01-08-2010
1790	2985845W	HAV	RAM NATH GURJAR	01-05-2010
1791	2985843L	HAV	RAVINDRA SINGH	01-05-2010
1792	2984015N	HAV	REJENDER PRASAD	01-04-2010
1793	2984401A	HAV	SAJJAN KUMAR	01-07-2010
1794	2986048X	HAV	SEVA RAM	01-08-2010
1795	2983669L	HAV	SUBAHAN MIAN	01-03-2010
1796	2984315P	HAV	SURESH KUMAR	01-06-2010
1797	2985762L	HAV	VIKRAM BAHADUR SINGH	01-02-2010

**THE JAT REGIMENT**

1798	3178409L	HAV	AMAR SINGH	01-07-2010
1799	15108297H	HAV	ASHISH CHANDRA OJHA	01-03-2010
1800	3179410M	HAV	BEERMA RAM	01-02-2010
1801	3179776K	HAV	BHANWAR LAL	01-08-2010

1802	3179714K	HAV	BHRAM PAL	01-07-2010
1803	3179409X	HAV	BIJAY SINGH	01-02-2010
1804	3178332N	HAV	CHAINA RAM	01-06-2010
1805	3179518K	HAV	CHANDER SINGH	01-05-2010
1806	3179583K	HAV	CHHOTU RAM	01-06-2010
1807	3179000W	HAV	D P SHUKLA	01-04-2010
1808	3179601F	HAV	DILAVAR SINGH	01-06-2010
1809	3178062K	HAV	GAJ RAJ	01-03-2010
1810	3179764P	HAV	JEEWAN RAM	01-08-2010
1811	3179718A	HAV	KAPTAN	01-07-2010
1812	3179569X	HAV	KARMVEER SINGH	01-06-2010
1813	3179540P	HAV	KRISHAN LAL	01-05-2010
1814	3179833A	HAV	KRISHAN SINGH	01-08-2010
1815	3179645Y	HAV	LAXMI DATT JOSHI	01-06-2010
1816	3179445H	HAV	MAGANA RAM JAT	01-03-2010
1817	3179809K	HAV	MAHENDER SINGH	01-08-2010
1818	3178235W	HAV	MAHENDER SINGH	01-06-2010
1819	3179862P	HAV	MAHENDRA SINGH	01-08-2010
1820	3179474X	HAV	MALKHAN SINGH	01-04-2010
1821	3179506A	HAV	MAN SINGH	01-05-2010
1822	3179536M	HAV	MAWASI RAM	01-05-2010
1823	3178084H	HAV	NAYAN PAL SINGH	01-04-2010
1824	3179881A	HAV	PARBHU NANDAN SAHI	01-08-2010
1825	3179836N	HAV	PREM SINGH	01-08-2010
1826	3179830M	HAV	PRITAM CHAND	01-08-2010
1827	3179591H	HAV	R JAYA SANKAR	01-06-2010
1828	3177808H	HAV	RAGHUVIR SINGH	01-02-2010
1829	3179534F	HAV	RAJENDER SINGH	01-05-2010
1830	3179404Y	HAV	RAJESH KUMAR	01-02-2010
1831	3179786N	HAV	RAKAM SINGH	01-08-2010
1832	3179466Y	HAV	RAM KISHAN	01-04-2010
1833	3179611L	HAV	RAM NIWAS	01-06-2010
1834	3179827M	HAV	RAM NIWAS	01-08-2010
1835	3179598M	HAV	RAM PAL SINGH	01-06-2010
1836	3179705H	HAV	SADHU RAM NAIN	01-07-2010
1837	3179559N	HAV	SHYAM SINGH	01-05-2010
1838	3179677F	HAV	SUBE SINGH	01-07-2010
1839	3179469M	HAV	SUKHPAL SINGH	01-04-2010
1840	3179762K	HAV	SURAJ BHAN	01-08-2010
1841	3179832X	HAV	SURENDRA	01-08-2010
1842	3177880Y	HAV	SURENDRA KUMAR	01-03-2010
1843	3179781P	HAV	UMESH KUAMAR	01-08-2010
1844	3179508A	HAV	VANSHI LAL JAT	01-05-2010
1845	3179839F	HAV	VIJAY PAL	01-08-2010
1846	3179761F	HAV	WAKIL	01-08-2010

**THE SIKH REGIMENT**

1847	3386164Y	HAV	BAHADUR	01-02-2010
------	----------	-----	---------	------------

1848	3386452L	HAV	BALDEV SINGH	01-05-2010
1849	3386450A	HAV	BALWINDER SINGH	01-05-2010
1850	3386703K	HAV	DANESH SINGH	01-07-2010
1851	3382876K	HAV	DILAWAR SINGH	01-02-2010
1852	3386287L	HAV	DILBAG SINGH	01-02-2010
1853	3386409K	HAV	GURMEET SINGH	01-04-2010
1854	3382930M	HAV	GURMIT SINGH	01-03-2010
1855	3386656X	HAV	JEET SINGH	01-07-2010
1856	3386521W	HAV	JOGINDER SINGH	01-05-2010
1857	3386224H	HAV	KARTAR SINGH	01-02-2010
1858	3382879X	HAV	KHERODHAR	01-02-2010
1859	3386306L	HAV	KULWANT SINGH	01-03-2010
1860	3386212N	HAV	MADHUKAR K SARDAR	01-02-2010
1861	3386728W	HAV	MAHATAM SINGH	01-08-2010
1862	3386276Y	HAV	MAKHAN SINGH	01-02-2010
1863	3383497A	HAV	MEHRU RAM	01-04-2010
1864	3382864P	HAV	RATTAN CHAND	01-02-2010
1865	3386729Y	HAV	ROTHAS SINGH	01-08-2010
1866	3386739H	HAV	SAILENDRA SARKAR	01-08-2010
1867	3386679Y	HAV	SARJINDER SINGH	01-07-2010
1868	3386617Y	HAV	SOHAN SINGH	01-06-2010
1869	3383215W	HAV	SUDAMA BHAGAT	01-03-2010
1870	3386298X	HAV	SUGGAN RAM	01-02-2010
1871	3386456F	HAV	SUKHPAL SINGH	01-05-2010
1872	3383314Y	HAV	SUSHIL KUMAR SINGH	01-04-2010
1873	3386716F	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2010
1874	3386704M	HAV	VINOD KUMAR	01-07-2010

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

1875	13966788Y	HAV	ASHA RAM	01-02-2010
1876	4466781L	HAV	AVTAR SINGH	01-04-2010
1877	4466906X	HAV	BAHADUR SINGH	01-04-2010
1878	4466833W	HAV	BALBIR SINGH	01-04-2010
1879	4466662P	HAV	BALJIT SINGH	01-04-2010
1880	4466920K	HAV	BALWINDER SINGH	01-04-2010
1881	4466776A	HAV	BASHOURA SINGH	01-04-2010
1882	4464225W	HAV	BHAG SINGH	01-02-2010
1883	4467172N	HAV	BHUPINDER SINGH	01-05-2010
1884	4466701H	HAV	BIRPAL SINGH	01-04-2010
1885	4466809A	HAV	CHARANJIT SINGH	01-04-2010
1886	4466598H	HAV	DARBARA SINGH	01-04-2010
1887	4466428Y	HAV	DARSHAN SINGH	01-02-2010
1888	4464185A	HAV	DHARAM SINGH	01-02-2010
1889	4467205N	HAV	GIAN SINGH	01-08-2010
1890	4464262K	HAV	GURMIT SINGH	01-03-2010
1891	4466624Y	HAV	GURMIT SINGH	01-04-2010
1892	4466551X	HAV	GURNAM SINGH	01-03-2010
1893	4466779N	HAV	HANS RAJ	01-04-2010

1894	4467045Y	HAV	HARDAM SINGH	01-04-2010
1895	4466632X	HAV	HARJINDER SINGH	01-04-2010
1896	4466527F	HAV	HARMAIL SINGH	01-03-2010
1897	4466497P	HAV	HARPAL SINGH	01-03-2010
1898	4466541N	HAV	ISHWAR CHANDRA BEHERA	01-03-2010
1899	4466653N	HAV	JAGMEL SINGH	01-04-2010
1900	4464170X	HAV	JANGA SINGH	01-02-2010
1901	4466902F	HAV	JASPAL SINGH	01-04-2010
1902	4466987H	HAV	JASWANT SINGH	01-04-2010
1903	4466569N	HAV	KAWALJIT SINGH	01-03-2010
1904	4466865Y	HAV	KULWANT SINGH	01-04-2010
1905	4467102P	HAV	LAL SINGH	01-04-2010
1906	4466966M	HAV	MAN SINGH	01-04-2010
1907	4464349L	HAV	MEGH NATH	01-04-2010
1908	4464513H	HAV	MOHAN LAL	01-08-2001
1909	4466820Y	HAV	MOHINDER PAL	01-04-2010
1910	4466648H	HAV	NAURANG SINGH	01-04-2010
1911	4466447K	HAV	NILUS KISPOTTA	01-02-2010
1912	4467041H	HAV	ONKAR SINGH	01-04-2010
1913	4466962W	HAV	PARAMJIT SINGH	01-04-2010
1914	4466778L	HAV	PARAMJIT SINGH	01-04-2010
1915	4466739M	HAV	RACHHPAL SINGH	01-04-2010
1916	4466422X	HAV	RAJPAL SINGH	01-02-2010
1917	4466761X	HAV	RAM SARUP SINGH	01-04-2010
1918	4466603H	HAV	RAM SINGH	01-04-2010
1919	4466613M	HAV	RAM SINGH	01-04-2010
1920	4464221A	HAV	RANDHIR SINGH	01-02-2010
1921	4466480F	HAV	SALWINDER SINGH	01-03-2010
1922	4466630M	HAV	SATNAM SINGH	01-04-2010
1923	4466591Y	HAV	SATPAL SINGH	01-04-2010
1924	4467131K	HAV	SA WINDERPAL SINGH	01-04-2010
1925	4467155N	HAV	SEWA SINGH	01-04-2010
1926	4466786K	HAV	SHAMSHER SINGH	01-04-2010
1927	4467031Y	HAV	SHANGARA SINGH	01-04-2010
1928	4466815N	HAV	SUKHWANT SINGH	01-04-2010
1929	4466600P	HAV	TARLOCHAN SINGH	01-04-2010
1930	4466484X	HAV	V MATHIALANGAN	01-03-2010
1931	4464491P	HAV	ZENDE PRAKASH TATOBA	01-08-2010

**THE DOGRA REGIMENT**

1932	3987088F	HAV	B S BHATARIA	01-02-2010
1933	3985208W	HAV	BACHAN SINGH	01-03-2010
1934	3987421P	HAV	BAHADUR SINGH	01-04-2010
1935	3987124F	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2010
1936	3987418P	HAV	BASANT SINGH CHAUHAN	01-04-2010
1937	3987165L	HAV	BHAGAT SINGH	01-03-2010
1938	3987825X	HAV	BHAGWAN DASS	01-07-2010
1939	3985244F	HAV	BHAGWAN SINGH	01-03-2010



1940	3987269M	HAV	BHUPINDER SINGH	01-03-2010
1941	3987597A	HAV	BIKRAM SINGH	01-05-2010
1942	3987644M	HAV	BISHAN SINGH	01-05-2010
1943	3985668X	HAV	DAKHI RAM	01-07-2010
1944	3987685W	HAV	DALJEET KUMAR	01-05-2010
1945	3987061K	HAV	DALJIT SINGH	01-02-2010
1946	3987234W	HAV	DEEPAK SINGH	01-03-2010
1947	3987805K	HAV	DES RAJ	01-06-2010
1948	3987595P	HAV	DEV RAJ	01-05-2010
1949	3987667N	HAV	DHAMESHWAR DUTT	01-05-2010
1950	3987321K	HAV	DURGA DASS	01-04-2010
1951	3987148L	HAV	DURGA SINGH	01-03-2010
1952	3987244A	HAV	FAJINDER SINGH	01-03-2010
1953	3985561H	HAV	GOPAL DASS SHARMA	01-07-2010
1954	3987632X	HAV	HARI RAM	01-05-2010
1955	3987573W	HAV	HARNAM SINGH	01-05-2010
1956	3987591Y	HAV	HIRA LAL	01-05-2010
1957	3985288Y	HAV	ISHAR SINGH	01-03-2010
1958	3987512Y	HAV	JAI CHAND	01-05-2010
1959	3985599M	HAV	KAILASH CHANDER	01-07-2010
1960	3987156K	HAV	KASHORI LAL	01-03-2010
1961	3987084L	HAV	KEHAR SINGH	01-02-2010
1962	3987435P	HAV	KEWAL KRISHAN	01-04-2010
1963	3986953H	HAV	KULDEEP RAJ	01-02-2010
1964	3987174M	HAV	KULDEEP SINGH	01-03-2010
1965	3987330L	HAV	LATIFUDDIN AHAMED	01-04-2010
1966	3985217X	HAV	MADAN LAL	01-03-2010
1967	3987572N	HAV	MADHO RAM	01-05-2010
1968	3987816W	HAV	MAHINDER DEV	01-07-2010
1969	3987564P	HAV	MANBIR PAUL	01-05-2010
1970	3987502P	HAV	MANOJ KUMAR	01-05-2010
1971	3985554M	HAV	NIKKA RAM	01-07-2010
1972	3987684N	HAV	P C CHOHAN S C	01-05-2010
1973	3987666L	HAV	PARAM DEV	01-05-2010
1974	3987120L	HAV	PARSHOTAM PAUL	01-02-2010
1975	3985074H	HAV	PERSHOTAM KUMAR	01-02-2010
1976	3987638Y	HAV	PREM CHAND	01-05-2010
1977	3985240L	HAV	PURAN CHAND	01-03-2010
1978	3987453X	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2010
1979	3985758Y	HAV	RAJ KUMAR	01-08-2010
1980	3987454A	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2010
1981	3987262H	HAV	RAJINDER KUMAR	01-03-2010
1982	3987268K	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2010
1983	3985103M	HAV	RAM LAL	01-02-2010
1984	3987099N	HAV	RAM PAL	01-02-2010
1985	3987333Y	HAV	RAMESH CHAND	01-04-2010
1986	3986964P	HAV	RANJEET SINGH	01-02-2010
1987	3987500K	HAV	RATTAN CHAND	01-05-2010

1988	3985384N	HAV	RATTAN PAUL	01-05-2010
1989	3987747L	HAV	RAVINDER KUMAR	01-05-2010
1990	2985903P	HAV	ROSHAN LAL	01-06-2010
1991	3986939W	HAV	SADI LAL	01-02-2010
1992	3987446F	HAV	SARWAN KUMAR	01-04-2010
1993	3987511W	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2010
1994	3987759A	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2010
1995	3985600W	HAV	SHAM LAL	01-07-2010
1996	3987157M	HAV	SHAM LAL	01-03-2010
1997	3986985L	HAV	SHAM LAL	01-02-2010
1998	3985962X	HAV	SHER SINGH	01-04-2010
1999	3986978P	HAV	SHIV SINGH	01-02-2010
2000	3985630N	HAV	SHYAM SINGH	01-07-2010
2001	3987631P	HAV	SIKENDER KUMAR	01-05-2010
2002	3985550W	HAV	SINGU RAM	01-07-2010
2003	3987110F	HAV	SOHAN LAL	01-02-2010
2004	3987601X	HAV	SOM RAJ	01-05-2010
2005	3987778L	HAV	SUBHASH CHAND	01-05-2010
2006	3987344L	HAV	SUBHASH CHAND	01-04-2010
2007	3985618M	HAV	SUBHASH CHANDER	01-07-2010
2008	3987302Y	HAV	SUBHASH SINGH	01-04-2010
2009	3987642F	HAV	SUNDER PAL	01-05-2010
2010	3985512A	HAV	SURENDER SINGH	01-06-2010
2011	3987658M	HAV	SURESH CHAND	01-05-2010
2012	3987475W	HAV	TARA CHAND	01-05-2010
2013	3987762A	HAV	TILAK RAJ	01-05-2010
2014	13616711F	HAV	UTTAM SINGH	01-07-2010
2015	3987370M	HAV	VIJAY KUMAR	01-04-2010
2016	3985417N	HAV	VIJAY SINGH	01-05-2010
2017	3985597F	HAV	YASH PAUL	01-07-2010

**THE GARHWAL RIFLES**

2018	4069313H	HAV	ANAND SINGH	01-03-2010
2019	4069199W	HAV	ANUSUYA SINGH	01-02-2010
2020	4069327H	HAV	ARJUN SINGH	01-03-2010
2021	4067648F	HAV	ARJUN SINGH	01-08-2010
2022	4067537K	HAV	BALWANT SINGH	01-08-2010
2023	4067059L	HAV	BALWANT SINGH	01-04-2010
2024	4067172A	HAV	BALWANT SINGH	01-04-2010
2025	4067310W	HAV	BASAKHU LAL	01-06-2010
2026	4067124A	HAV	BELAM SINGH	01-04-2010
2027	4069368M	HAV	BHUWAN SINGH	01-03-2010
2028	4069385M	HAV	CHANDER MOHAN SINGH NEGI	01-04-2010
2029	4067234P	HAV	CHANDER SINGH	01-05-2010
2030	4069495F	HAV	CHANDRA MOHAN SINGH	01-06-2010
2031	4069512W	HAV	CHITRA MANI	01-08-2010
2032	4069362L	HAV	DALBIR SINGH	01-03-2010
2033	4069271F	HAV	DALBIR SINGH RAWAT	01-03-2010

2034	4069294H	HAV	DALPAT SINGH	01-03-2010
2035	4069388A	HAV	DARSHAN SINGH	01-04-2010
2036	4069234N	HAV	DEEN DAYAL SINGH	01-03-2010
2037	4069127M	HAV	DEERGH PAL SINGH	01-02-2010
2038	4069445W	HAV	DINESH CHANDRA	01-05-2010
2039	4067353L	HAV	GANGA SINGH	01-05-2010
2040	4066991X	HAV	GANGA SINGH	01-02-2010
2041	4069403K	HAV	HARSHWARDHAN SINGH	01-04-2010
2042	4067062L	HAV	HIRA SINGH	01-04-2010
2043	4067635K	HAV	JABAR SINGH	01-08-2010
2044	4069129X	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-02-2010
2045	4069406X	HAV	JAI DEV SINGH	01-04-2010
2046	4069316W	HAV	JASPAL SINGH	01-03-2010
2047	4069475N	HAV	KAILASH CHANDRA	01-06-2010
2048	4069263H	HAV	KISHAN LAL	01-03-2010
2049	4069484P	HAV	KUSHALA NAND	01-06-2010
2050	4069157K	HAV	LAKSHMAN SINGH	01-02-2010
2051	4069174K	HAV	LAXMAN SINGH	01-02-2010
2052	4069220N	HAV	LAXMAN SINGH	01-03-2010
2053	4069439H	HAV	MEHARBAN SINGH	01-05-2010
2054	3179651M	HAV	MOR SINGH	01-06-2010
2055	4069192M	HAV	MOR SINGH	01-02-2010
2056	4067150F	HAV	MURKHLIA SINGH	01-04-2010
2057	4069431W	HAV	NARENDRA SINGH	01-05-2010
2058	13958604A	HAV	OM PRAKASH	01-06-2010
2059	4066951W	HAV	PADAM CHAND	01-02-2010
2060	4069222Y	HAV	PADAM SINGH	01-03-2010
2061	4069366F	HAV	PITAMBAR DUTT	01-03-2010
2062	4067128W	HAV	PREM SINGH RAWAT	01-04-2010
2063	4069226P	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-03-2010
2064	4067044H	HAV	SHERI LAL	01-03-2010
2065	4069310P	HAV	SHIVRAJ SINGH	01-03-2010
2066	4069295L	HAV	SOBAN SINGH	01-03-2010
2067	4069272K	HAV	SOBAT SINGH	01-03-2010
2068	4069145P	HAV	TAPENDRA SINGH	01-02-2010
2069	4069435M	HAV	TRILOK SINGH	01-05-2010
2070	4069153N	HAV	UMESH CHANDRA	01-02-2010
2071	4067063N	HAV	UMMED SINGH	01-04-2010
2072	4067097F	HAV	VIKRAM SINGH NEGI	01-04-2010
2073	4069217N	HAV	YASHPAL SINGH	01-03-2010
2074	4069281L	HAV	YESHPAL SINGH RAWAT	01-03-2010

**THE KUMAON REGIMENT**

2075	4180724W	HAV	ACHHAN	01-04-2010
2076	4178803M	HAV	ANAND BALLABH	01-03-2010
2077	4179340P	HAV	ANAND BALLABH	01-08-2010
2078	4178670F	HAV	BHAGWAN SINGH	01-02-2010
2079	4180604X	HAV	CHANDRA SHEKHER GOP	01-02-2010

2080	4178643X	HAV	DAYAL SINGH	01-02-2010
2081	4180773Y	HAV	DEOTA DEEN	01-06-2010
2082	4180652X	HAV	GAJENDRA SINGH KARKI	01-03-2010
2083	4179027K	HAV	GANESH SINGH BISHT	01-06-2010
2084	4179015P	HAV	GANGA SINGH	01-06-2010
2085	4179328N	HAV	GOVIND SINGH	01-08-2010
2086	4178751F	HAV	GOVIND SINGH DHAMI	01-03-2010
2087	4178928K	HAV	GUMAN SINGH	01-06-2010
2088	4179171Y	HAV	HARISH RAM	01-07-2010
2089	4178705M	HAV	HIRA SINGH	01-03-2010
2090	4178654K	HAV	J S POKHARIYA	01-02-2010
2091	4180568X	HAV	JAGMAL SINGH	01-02-2010
2092	4180577Y	HAV	KALYAN SINGH BHATI	01-02-2010
2093	2883931N	HAV	KRISHAN KUMAR YADAV	01-07-2010
2094	4178723P	HAV	KUNDAN SINGH	01-03-2010
2095	4180655L	HAV	KUSHAL RAM	01-03-2010
2096	4178985L	HAV	MADAN MOHAN TRIPATHI	01-07-2010
2097	4179054N	HAV	MOHAN SINGH	01-06-2010
2098	4179131X	HAV	N K SHRIWAS	01-07-2010
2099	4179016X	HAV	NARAYAN SINGH	01-06-2010
2100	4178807H	HAV	NARENDER SINGH	01-03-2010
2101	2883685N	HAV	PORAS	01-06-2010
2102	4178993K	HAV	PUSHKAR SINGH	01-07-2010
2103	3177691P	HAV	RAJENDER SINGH	01-02-2010
2104	14701725P	HAV	RAJENDRA CHAND	01-02-2010
2105	4178675A	HAV	RAM BABU	01-02-2010
2106	4179350Y	HAV	RAM BILAS SINGH YADAV	01-08-2010
2107	2883843X	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2010
2108	4178681N	HAV	RANJIT SINGH AITHANI	01-02-2010
2109	4179300N	HAV	SAIWAJ SINGH	01-08-2010
2110	4178831Y	HAV	SATYAVIR SINGH	01-04-2010
2111	4178714N	HAV	SHIV SINGH	01-03-2010
2112	4178739A	HAV	UMRAO SINGH	01-03-2010
2113	4178746W	HAV	VIPIN KUMAR	01-03-2010

**THE ASSAM REGIMENT**

2114	4357760Y	HAV	BIJAY SENA SINHA	01-03-2010
2115	4357416N	HAV	JAG NARAYAN RAM	01-02-2010
2116	4357491X	HAV	MADHAB CHANDRA SAIKIA	01-02-2010
2117	4357818L	HAV	MAYNA SINGHA	01-04-2010
2118	4358074X	HAV	NIRANJAN DEB BARMA	01-07-2010
2119	4426730P	HAV	PRITAM SINGH	01-04-2010
2120	4357876P	HAV	RABIN CH MODAI	01-05-2010
2121	4426718N	HAV	RAM KISHAN	01-05-2010
2122	4357790W	HAV	RANADHIR SINHA	01-03-2010
2123	4357476H	HAV	RATUL CHAND KALITA	01-02-2010
2124	4358134F	HAV	SHYAM BHADUR GURUNG	01-08-2010
2125	4426640N	HAV	SINGHASHWAR RAY	01-03-2010

2126	4357578Y	HAV	SONTASH MUCHAHARY	01-03-2010
2127	4358069M	HAV	SUDISH RAM	01-07-2010
2128	4357723L	HAV	SUGRAKPAM KUMAR SINGH	01-03-2010
2129	4357549K	HAV	SURENDRA SINHA	01-03-2010

**THE BIHAR REGIMENT**

2130	4264112K	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-03-2010
2131	4264704N	HAV	ARUN KUMAR THAKUR	01-06-2010
2132	4264482K	HAV	ASHOK KUMAR PRASAD	01-03-2010
2133	4263943W	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-02-2010
2134	4265893P	HAV	BABU SHAY MAHTO	01-07-2010
2135	4265795P	HAV	BHARAT BHUSHAN	01-06-2010
2136	4265843K	HAV	BHARAT KUMAR YADAV	01-06-2010
2137	4265702P	HAV	BIRENDRA KUMAR SHARMA	01-05-2010
2138	4265792F	HAV	CHANDESHWAR YADAV	01-06-2010
2139	4265773W	HAV	CHUMNU ORAON	01-06-2010
2140	4264303Y	HAV	DEBASIS GHOSHAL	01-04-2010
2141	4265606A	HAV	DHIRENDRA CHANDRA RAY	01-02-2010
2142	4265934N	HAV	DOLA GOVINDA MAJHI	01-08-2010
2143	4264621H	HAV	ESHWARNATH SHARMA	01-06-2010
2144	4265860K	HAV	ETWA ORAON	01-06-2010
2145	4264352F	HAV	FRANSIS JEVIER KHAKHA	01-05-2010
2146	4264715A	HAV	GOLAP CHANDRA SAHU	01-07-2010
2147	4263915K	HAV	GULAB CHAND THAKUR	01-03-2010
2148	4265957P	HAV	KAMESHWAR PANDEY	01-08-2010
2149	4263926W	HAV	KAMESHWAR PRASAD	01-03-2010
2150	4263856H	HAV	KANDRA MAJHI	01-03-2010
2151	4264368M	HAV	KANHU CHARANA NAIK	01-05-2010
2152	4265891K	HAV	KAPILESHWAR LAL DEO	01-07-2010
2153	4264136N	HAV	KEDAR THAKUR	01-03-2010
2154	4265765X	HAV	KRISHNA SINGH	01-06-2010
2155	4265674N	HAV	LUKASH PRADHAN	01-05-2010
2156	4264081P	HAV	MADAN RAM	01-03-2010
2157	4264763A	HAV	MAHESH KUMAR SINGH	01-06-2010
2158	4264187F	HAV	MOHAN LAL SHARMA	01-03-2010
2159	4264427N	HAV	PETRUS HORO	01-05-2010
2160	4265737L	HAV	PRAKASH CHANDRA BEHUR	01-06-2010
2161	4265730F	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-05-2010
2162	4263861N	HAV	PRAVAKAR JENA	01-03-2010
2163	4264290M	HAV	RAJ KISHOR SINGH	01-04-2010
2164	4265912P	HAV	RAM BABU SINGH	01-07-2010
2165	4265701M	HAV	RAM BINYA KUMAR	01-05-2010
2166	4263816F	HAV	RAM KRISHN MISHRA	01-02-2010
2167	4264765L	HAV	RAM PRAVESH DAS	01-06-2010
2168	4264092F	HAV	RAM PRAVESH YADAV	01-03-2010
2169	4265699A	HAV	RAM UDESHWAR SINGH	01-05-2010
2170	4265641H	HAV	RAMAUTAR RAI	01-03-2010
2171	4265978L	HAV	RAMSAY BHAGAT	01-08-2010

2172	4265967Y	HAV	RANBIR SINGH	01-07-2010
2173	4264195A	HAV	RAVINDRA PRASAD SINGH	01-03-2010
2174	4263593P	HAV	RISHI NANDAN SINGH	01-02-2010
2175	4265878A	HAV	SANIKA ORAM	01-07-2010
2176	4265616K	HAV	SARDAR MALGANDI	01-02-2010
2177	4264533M	HAV	SATENDRA PRASAD RAY	01-06-2010
2178	4263604W	HAV	SHESH NATH SINGH	01-02-2010
2179	4265696M	HAV	SHIV KUMAR PRASAD	01-05-2010
2180	4265828P	HAV	SUKESAN K	01-07-2010
2181	4263885X	HAV	SURESH TIWARI	01-03-2010
2182	4264449M	HAV	SURESH YADAV	01-05-2010
2183	4264033P	HAV	TEJNARAYAN SHARMA	01-03-2010
2184	4265690L	HAV	VIJAY KUMAR SINGH	01-05-2010
2185	4264254F	HAV	WAKIL SINGH	01-04-2010
2186	7430707F	HAV	YOGENDRA PRASAD KUSHWAHA	01-04-2010

**THE MAHAR REGIMENT**

2187	4558238M	HAV	ARULANAND	01-02-2010
2188	4558269M	HAV	ASHOK PRASAD	01-02-2010
2189	4556923Y	HAV	BAPU RAM CHANDRA YADAV	01-07-2010
2190	4558436X	HAV	BHIM SINGH	01-08-2010
2191	4555826P	HAV	BHUM SINGH	01-03-2010
2192	4556991M	HAV	BINOD KUMAR PRADHAN	01-07-2010
2193	4556730Y	HAV	GAJANAN	01-06-2010
2194	4558317F	HAV	JAGBIR SINGH	01-04-2010
2195	4556509A	HAV	JAGDISH	01-04-2010
2196	4556115F	HAV	JAI BHAGWAN BALMIKI	01-04-2010
2197	4558408L	HAV	MAHIPAL SINGH PUJARI	01-07-2010
2198	4558434M	HAV	P M SHAMSUDDIN	01-08-2010
2199	4558281N	HAV	PADALE BALASHEB BABURAO	01-02-2010
2200	4558282W	HAV	RAKESH KUMAR	01-02-2010
2201	4558388H	HAV	RANJAN	01-06-2010
2202	4555590L	HAV	RAVINDER KUMAR	01-02-2010
2203	4558307X	HAV	SEWA RAM	01-03-2010
2204	4556050Y	HAV	SHYAM PRASAD GIRI	01-03-2010
2205	4558245H	HAV	SRIMAN SHANKAR KUMAR GHOSH	01-02-2010
2206	4558427W	HAV	VISHAWNATH SINGH KUSHWAH	01-08-2010

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

2207	13749377A	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2010
2208	13750069M	HAV	ASHOK KUMAR	01-08-2010
2209	13749695K	HAV	BALAM SINGH	01-03-2010
2210	13751096H	HAV	BALWANT SINGH	01-05-2010
2211	13751211X	HAV	BALWINDER SINGH	01-08-2010
2212	13749370W	HAV	BHAG MAL	01-02-2010
2213	13749182P	HAV	BINDU RAM	01-02-2010
2214	13749361P	HAV	BIPAT KUMAR	01-02-2010
2215	13749445H	HAV	C SAKTHI VELU	01-02-2010

2216	13751179N	HAV	DEEP SINGH	01-08-2010
2217	13749687L	HAV	DES RAJ	01-03-2010
2218	13749439P	HAV	DES RAJ	01-02-2010
2219	13749359X	HAV	DESH RAJ	01-02-2010
2220	13749871W	HAV	DHARAM BIR	01-05-2010
2221	13749842F	HAV	HEM RAJ	01-05-2010
2222	13749518K	HAV	JAGRAIL SINGH	01-03-2010
2223	13749836N	HAV	JIA LAL	01-05-2010
2224	13749717X	HAV	JOGINDER PAUL	01-03-2010
2225	13749840W	HAV	KAMLESH KUMAR	01-05-2010
2226	13749630W	HAV	KISHORE CHAND	01-03-2010
2227	13749391M	HAV	KRISHAN SINGH	01-03-2010
2228	13749585P	HAV	KULDEEP SINGH	01-03-2010
2229	13750008P	HAV	KULWANT RAJ	01-07-2010
2230	13751004L	HAV	LAL BHADUR THAPA	01-02-2010
2231	13749459H	HAV	MADAN LAL	01-03-2010
2232	13749845P	HAV	MEHAR SINGH	01-05-2010
2233	13751112P	HAV	NEHAL KHAN	01-06-2010
2234	13749854W	HAV	NIKU CHAND	01-05-2010
2235	13749512H	HAV	PRITAM CHAND	01-03-2010
2236	13749295X	HAV	RAJ KUMAR	01-02-2010
2237	13751166W	HAV	RAJASEGAR S	01-08-2010
2238	13750054K	HAV	RAM ASHRAY PRASAD	01-08-2010
2239	13749678K	HAV	RAM LAL	01-03-2010
2240	13751174P	HAV	RAM PAL	01-08-2010
2241	13749473P	HAV	RAMESH CHANDER	01-03-2010
2242	13751364F	HAV	RATTAN SINGH	01-03-2010
2243	13749938K	HAV	RAVI DUTT	01-06-2010
2244	13751167Y	HAV	RAVINDER PAL SINGH	01-08-2010
2245	13749841Y	HAV	RIKHI RAM CHAMBYAL	01-05-2010
2246	13749998Y	HAV	ROMESH CHANDER	01-07-2010
2247	13751055Y	HAV	SAMAR BHADUR	01-04-2010
2248	13751157P	HAV	SANTOSH BHUJEL	01-07-2010
2249	13749650K	HAV	SHARNAIL SINGH	01-03-2010
2250	13749849L	HAV	SHASHI KUMAR	01-05-2010
2251	13750095N	HAV	SHYAM LAL	01-08-2010
2252	13751031P	HAV	SUDESH SINGH THAPA	01-03-2010
2253	13750049Y	HAV	SURJEET SINGH	01-08-2010
2254	13751051H	HAV	SURYA NARAYAN SHRESTA	01-04-2010
2255	13749722H	HAV	TARSEM LAL	01-03-2010
2256	13749380A	HAV	TRILOKE CHAND	01-02-2010
2257	13749369F	HAV	UMED SINGH	01-02-2010
2258	13749508A	HAV	VAMDEO PRASAD	01-03-2010
2259	13751190M	HAV	VIJAY KUMAR SINGH	01-08-2010
2260	13751032X	HAV	VIJAY SINGH THAPA	01-03-2010
2261	13749595Y	HAV	YODH SINGH	01-03-2010

**THE LADAKH SCOUTS**

2262	9923068X	HAV	PHUNCHOK ANGCHOK	01-03-2010
------	----------	-----	------------------	------------

**THE NAGA REGIMENT**

2263	14701835K	HAV	A SALIO	01-03-2010
2264	14701781N	HAV	AVTAR SINGH	01-02-2010
2265	4180693F	HAV	B B RANA	01-04-2010
2266	14701775A	HAV	GANGA SINGH	01-02-2010
2267	14701776H	HAV	JAGDISH PRASAD	01-02-2010
2268	14702168N	HAV	KHIM SINGH	01-02-2010
2269	14701919X	HAV	KHUMSA SEMA	01-04-2010
2270	14701673K	HAV	MAHENDER KUMAR	01-02-2010
2271	14701767F	HAV	MEGH BAHADUR THAPA	01-02-2010
2272	14701753F	HAV	NANDAN SINGH	01-02-2010
2273	4178778Y	HAV	NANHU MAL SHARMA	01-03-2010
2274	14701771K	HAV	PREM CHANDRA	01-02-2010
2275	14701867M	HAV	RAJ KUMAR PRADHAN	01-03-2010
2276	14701783Y	HAV	RANJIT SINGH	01-02-2010
2277	14702247H	HAV	S HONPAM	01-04-2010
2278	14701788X	HAV	SURENDRA SINGH GWARI	01-03-2010

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

2279	9085878M	HAV	ASHOK KUMAR	01-05-2010
2280	9085925Y	HAV	BALBIR SINGH	01-06-2010
2281	9086060K	HAV	BALWANT SINGH	01-07-2010
2282	9086146H	HAV	BASHIR AHMED SHEER GOJRI	01-08-2010
2283	9088057H	HAV	BHAGWAN DASS	01-05-2010
2284	9085809W	HAV	GANGA BAHADUR THAPA	01-02-2010
2285	9085922L	HAV	GIRDHARI LAL	01-06-2010
2286	9088141H	HAV	JAGDEV RAM	01-08-2010
2287	9086032X	HAV	JANAK RAJ	01-06-2010
2288	9085999N	HAV	JANAK SINGH	01-06-2010
2289	9086187M	HAV	JASWANT SINGH	01-08-2010
2290	9085941W	HAV	JASWANT SINGH	01-05-2010
2291	9085859F	HAV	KALANDER SHEIKH	01-05-2010
2292	9086219K	HAV	KALYAN SINGH	01-08-2010
2293	9086099W	HAV	KARAM DAD	01-07-2010
2294	9086246N	HAV	MOHD IBRAHIM SHEIKH	01-08-2010
2295	9088065F	HAV	MOHD YOUSF SHIEKH	01-06-2010
2296	9088073A	HAV	NASIB CHAND	01-06-2010
2297	9086122Y	HAV	NASIB SINGH	01-08-2010
2298	9086166W	HAV	RADHA KRISHAN	01-08-2010
2299	9086003H	HAV	RAGBIR SINGH	01-06-2010
2300	9088109N	HAV	RAJ MOHD	01-07-2010
2301	9086154F	HAV	ROSHAN LAL	01-08-2010
2302	9088044L	HAV	SANTOSH KUMAR	01-03-2010
2303	9088071P	HAV	SAT PAUL	01-06-2010



2304	9088139L	HAV	TARA SINGH	01-08-2010
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>				
2305	5043433A	HAV	BRIKA BAHADUR GURUNG	01-06-2010
2306	5043480X	HAV	DHAN RAJ BASPHOR	01-07-2010
2307	5043848P	HAV	DURGA BAHADUR THAPA	01-02-2010
2308	5043872L	HAV	NIR BAHADUR THAPA	01-04-2010
2309	5043868H	HAV	SANT RAM GURUNG	01-04-2010
2310	5043845F	HAV	SATNAM SINGH	01-02-2010
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>				
2311	5245376M	HAV	DHAN SINGH THAPA	01-07-2010
2312	5245367L	HAV	KOSHAL PRASAD SHRESTHA	01-05-2010
2313	5245356Y	HAV	SHAMBHOO SINGH	01-03-2010
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
2314	5345778Y	HAV	ABTAR SHRESTHA	01-06-2010
2315	5345755X	HAV	BHARAT LAL PANDEY	01-04-2010
2316	5345362F	HAV	DESH RAJ	01-04-2010
2317	1087813A	HAV	DHAN BAHADUR	01-08-2010
2318	5345476M	HAV	HARKA BAHADUR GURUNG	01-08-2010
2319	5345811L	HAV	MAN BAHADUR ALE	01-08-2010
2320	5345789L	HAV	MOHINDER SINGH	01-06-2010
2321	5345437N	HAV	PAHAL SINGH THAPA	01-07-2010
2322	5345769X	HAV	SHYAM BAHADUR THAPA	01-04-2010
2323	5345373N	HAV	SHYAM LAL	01-05-2010
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
2324	5450142W	HAV	ENDRA KUMAR THAPA MAGAR	01-03-2010
2325	5450173W	HAV	NARAYAN SHING THAPA	01-04-2010
2326	5450219N	HAV	PADMA RAJPUN	01-05-2010
2327	5450126Y	HAV	RAM BAHADUR RANA	01-03-2010
2328	5450163M	HAV	RAN BAHADUR GURUNG	01-04-2010
2329	5751378W	HAV	SHYAM BAHADUR KHADKA CHHETRI	01-04-2010
<b><u>8 GORKHA RIFLES</u></b>				
2330	5751016P	HAV	CHABIL RAJAK	01-06-2010
2331	5750964M	HAV	DHAL BAHADUR SARKI	01-04-2010
2332	5751371M	HAV	GOKARNA BAHADUR THAPA	01-04-2010
2333	5751336K	HAV	HARSA BAHADUR THAPA	01-03-2010
2334	5751345L	HAV	KRISHNA BAHADUR GURUNG	01-03-2010
2335	5750932K	HAV	NEMBU LAL	01-02-2010
2336	14912528W	HAV	RAMJIT SINGH	01-05-2010
2337	5751322K	HAV	SOM BAHADUR SHRESTHA	01-02-2010
2338	5751370K	HAV	SURYA LAL GURUNG	01-04-2010
<b><u>9 GORKHA RIFLES</u></b>				
2339	5846283F	HAV	DEV CHANDRA MALLA	01-06-2010

2340	5846261H	HAV	DHAN MASIH SORENG	01-03-2010
2341	5846290X	HAV	KRISHNA BAHADUR ADHIKARI	01-07-2010
2342	5845707A	HAV	OM PRAKASH BASAL	01-02-2010
2343	5845728W	HAV	TOP BAHADUR BHANDARI	01-03-2010
2344	5846291A	HAV	YAM BAHADUR ADHIKARI	01-07-2010

**11 GORKHA RIFLES**

2345	9418651A	HAV	BAL BAHADUR LEMBANG	01-04-2010
2346	9418006L	HAV	BIRENDRA KUMAR RAI	01-03-2010
2347	9418600M	HAV	CHHATRA BAHADUR RAI	01-03-2010
2348	9418619L	HAV	CHHATRA PAL RAI	01-04-2010
2349	9418561Y	HAV	DHAN RAJ KANDANGWA	01-02-2010
2350	9417996P	HAV	GANGA BAHADUR RAI	01-02-2010
2351	1082719M	HAV	GIRDHARI	01-08-2010
2352	9418597X	HAV	HARKA BAHADUR RAI	01-03-2010
2353	9418586L	HAV	HARKA BAHADUR RAI	01-02-2010
2354	9418610W	HAV	JAMALUDDIN MINYA	01-04-2010
2355	9418608Y	HAV	KESHAV SINGH	01-03-2010
2356	9418589Y	HAV	LOKINDER BAHADUR	01-03-2010
2357	9418060Y	HAV	PADAM KUMAR LIMBU	01-05-2010
2358	9418594K	HAV	PREM BAHADUR PRADHAN	01-03-2010
2359	9418637N	HAV	PREM BAHADUR TAMANG	01-04-2010
2360	9418625Y	HAV	RAGHU NATH BEHERA	01-04-2010
2361	9418647X	HAV	SAPTA MAN RAI	01-04-2010
2362	9418605L	HAV	SARENDRA RAI	01-03-2010
2363	9418567A	HAV	SARJAN SUBBA	01-02-2010

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

2364	6380128A	HAV	A KANNAIYIRAM	01-03-2010
2365	6379782K	HAV	ADITYA YADAV	01-03-2010
2366	6381443H	HAV	ADIVEPPA SIDDAYYA HUDALIMATH	01-02-2010
2367	6380683N	HAV	AJAY KUMAR NAIK	01-08-2010
2368	6380659X	HAV	AKHILESHWAR TIWARY	01-08-2010
2369	13897096W	HAV	AMAL BISWAS	01-03-2010
2370	5845661H	HAV	AMARJEET	01-02-2010
2371	15352143A	HAV	AMITAVA MANDAL	01-03-2010
2372	6382133K	HAV	AMJAD ULLAH KHAN	01-08-2010
2373	6380053N	HAV	AMRIK SINGH	01-04-2010
2374	6380271M	HAV	ANIL CHANDRA DAS	01-05-2010
2375	13895955X	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-03-2010
2376	6380600X	HAV	ANTONY SALIS	01-07-2010
2377	6380460W	HAV	APURBA JOOTI BORA	01-06-2010
2378	6381881L	HAV	AREVITI VENKATESWARLU	01-07-2010
2379	6380097L	HAV	ARJUN SINGH	01-04-2010
2380	6380486L	HAV	ARUN KUMAR SHARMA	01-06-2010
2381	6380616H	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2010
2382	13894994K	HAV	ASHOK KUMAR PRASAD	01-06-2010
2383	13894221K	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-02-2010

2384	13897277F	HAV	AYODHYA YADAV	01-04-2010
2385	6381777X	HAV	BACHU SAH	01-06-2010
2386	6381438X	HAV	BAI PALLI VALLABHA RAO	01-02-2010
2387	13897494X	HAV	BALAPPA JAGATAP	01-07-2010
2388	6380160P	HAV	BALKRISHNA RASAILY	01-04-2010
2389	13897462P	HAV	BHAGRATH BORMAN	01-06-2010
2390	6381726K	HAV	BHAIYA LAL PANDEY	01-06-2010
2391	6380140F	HAV	BHAL CHANDER SHARMA	01-04-2010
2392	6380389N	HAV	BHANWAR SINGH	01-07-2010
2393	6476294L	HAV	BHERA RAM	01-07-2010
2394	6382089L	HAV	BHIKAJI RANGNATH KULKARNI	01-08-2010
2395	6380515P	HAV	BHIM SEN	01-06-2010
2396	6381765H	HAV	BHUPAL SINGH	01-06-2010
2397	6380240M	HAV	BIRENDRA SINGH	01-04-2010
2398	13897386N	HAV	BISNU DEV MISHRA	01-05-2010
2399	13894687M	HAV	BOSE A	01-02-2010
2400	6381661F	HAV	BRIJESH KUMAR SHARMA	01-05-2010
2401	13894894Y	HAV	C KASINATHAN	01-03-2010
2402	13894615H	HAV	C S PURUSHOTHAM	01-04-2010
2403	6381798N	HAV	C SIVANESAN	01-07-2010
2404	6380338A	HAV	CHAMAR KANTI BHAI MAGAN BHAI	01-05-2010
2405	6380458Y	HAV	CHANCHAL SAHA	01-06-2010
2406	13895100P	HAV	CHANDRA KANT HANGIRKAR	01-07-2010
2407	6382043H	HAV	CHANDUGADE NANA SHAMA RAO	01-08-2010
2408	6380364F	HAV	CHATTAR PAL SHARMA	01-05-2010
2409	6380093P	HAV	CHHOTELAL	01-04-2010
2410	14494265K	HAV	CHITTARANJAN PANIGRAHI	01-03-2010
2411	13894330W	HAV	D ELANGO VAN	01-02-2010
2412	6476140Y	HAV	DEBENDRA BEHERA	01-04-2010
2413	6380137F	HAV	DEV PAL SINGH	01-04-2010
2414	6379920A	HAV	DEV SINGH	01-03-2010
2415	6380257A	HAV	DEV SINGH	01-05-2010
2416	6380241P	HAV	DEVENDER SINGH	01-04-2010
2417	13891973H	HAV	DHRUBA CHARAN BARIK	01-02-2010
2418	13895989L	HAV	DINESH KUMAR	01-07-2010
2419	13897242L	HAV	DINESH RAM	01-04-2010
2420	6382101F	HAV	DURAI SAMY P	01-08-2010
2421	6381999M	HAV	DURGA MADHAB SETHI	01-08-2010
2422	6380605W	HAV	DURYODHAN CHAUHAN	01-07-2010
2423	6380104W	HAV	FUNDE SUNIL ASHRUBA	01-04-2010
2424	6380126P	HAV	G CHINNA DURAI	01-03-2010
2425	6380562M	HAV	G SURYANARAYANA	01-07-2010
2426	6380131A	HAV	GAJ SINGH RAJPUT	01-03-2010
2427	6381873M	HAV	GAJRAJ PRASAD	01-07-2010
2428	6380371X	HAV	GANDHI SHAW	01-05-2010
2429	6381676K	HAV	GIRDHARI LAL	01-06-2010
2430	4263776L	HAV	GIRISH KUMAR	01-02-2010
2431	6380564X	HAV	GOBARDHAN BHATT	01-07-2010

2432	6380230H	HAV	GOURANGA SARKAR	01-04-2010
2433	13894889N	HAV	GOVINDA SWAMY	01-03-2010
2434	6380066L	HAV	GUNA SEKARAN P	01-04-2010
2435	13894885X	HAV	HARIKISHAN SINGH	01-03-2010
2436	13897245Y	HAV	HAWA SINGH	01-04-2010
2437	13894824A	HAV	HAYAT SINGH MEHTA	01-03-2010
2438	13897358F	HAV	HIRA RAM	01-04-2010
2439	6380174P	HAV	INDRAJIT PANDEY	01-04-2010
2440	6381739F	HAV	ISHWAR SINGH	01-06-2010
2441	6380337X	HAV	JADUVIR SINGH	01-05-2010
2442	15353427W	HAV	JAGADEESAN THARAMMAL	01-04-2010
2443	6381419M	HAV	JAGDALE VIJAY KUMAR JANARDHAN	01-02-2010
2444	6380962Y	HAV	JAGDISH CHANDRA	01-04-2010
2445	6380696L	HAV	JAI PRAKASH	01-08-2010
2446	13894589M	HAV	JAI PRAKASH SINGH	01-03-2010
2447	6382013L	HAV	JASWANT SINGH	01-08-2010
2448	6482142A	HAV	JISHU RANJAN NATH	01-07-2010
2449	6382105X	HAV	K. SHANMUGAM	01-08-2010
2450	6381749L	HAV	KAILASH CHANDRA BEHERA	01-06-2010
2451	13894478P	HAV	KAILASH CHANDRA MUDULI	01-03-2010
2452	13894728L	HAV	KALIKIRI JANARDHAN	01-03-2010
2453	6381628K	HAV	KALUA RAM	01-05-2010
2454	13894954H	HAV	KALYAN BRATA DAS	01-06-2010
2455	13894234F	HAV	KAMAL DEO THAKUR	01-02-2010
2456	13894217F	HAV	KAMENDER SINGH	01-02-2010
2457	6381668L	HAV	KAMLESH RANJAN	01-05-2010
2458	6381639W	HAV	KARAM SINGH	01-05-2010
2459	13894904X	HAV	KARUNA KARJENA	01-05-2010
2460	13897222X	HAV	KESHAV YADAV	01-03-2010
2461	6379759W	HAV	KISHAN SINGH	01-02-2010
2462	6380459F	HAV	KISHOR DEO RAM	01-06-2010
2463	13894633L	HAV	KISHOR CHANDRA PRADHAN	01-04-2010
2464	6379743L	HAV	KRISHAN SINGH	01-02-2010
2465	13894299P	HAV	KRISHNA H S	01-02-2010
2466	6380328W	HAV	KUDAYFALE GOVIND GYANOBA	01-05-2010
2467	6379716F	HAV	KUNWARA SINGH	01-02-2010
2468	13897112H	HAV	LAL BABU SINGH	01-03-2010
2469	13895011W	HAV	LAL DEOGAM	01-06-2010
2470	6379808N	HAV	LALAN SAH	01-03-2010
2471	6379698K	HAV	LALJI	01-02-2010
2472	6382004K	HAV	LANDA BHASKARA RAO	01-08-2010
2473	6380479P	HAV	LAXMAN SINGH RAWAT	01-06-2010
2474	13897241H	HAV	LAXMI NARAYAN	01-04-2010
2475	6381851N	HAV	LOGANATHAN A	01-07-2010
2476	6381877H	HAV	M RAM BABU	01-07-2010
2477	6380676X	HAV	MAHESH SRIVASTAVA	01-08-2010
2478	6381993L	HAV	MAKVANA BHIKHA MANGA BHAI	01-08-2010
2479	13895172Y	HAV	MANA MOHAN SAHOO	01-07-2010

2480	6382044L	HAV	MANDVEKAR RAJENDRA JAGANNATH	01-08-2010
2481	6379727N	HAV	MANOJ KUMAR	01-02-2010
2482	13895104L	HAV	MARUTI KUGAJI	01-07-2010
2483	13897064N	HAV	MD ABDUL HUSSAIN MAZUMDAR	01-02-2010
2484	13894278Y	HAV	MD MUSTAFA	01-02-2010
2485	6380242X	HAV	MEWA SINGH	01-04-2010
2486	13894279F	HAV	MOHAMMED QURESH ANSARI	01-02-2010
2487	13891972A	HAV	MOHAN LAL	01-02-2010
2488	13891919P	HAV	MOHAN PRASAD SINGH	01-02-2010
2489	13897440W	HAV	MOIZUL HAQUE LASKAR	01-06-2010
2490	6381425A	HAV	MOORTHY S	01-02-2010
2491	6382005M	HAV	MUGU RAMA RAO	01-08-2010
2492	6380391L	HAV	MUNESHWER SINGH	01-06-2010
2493	13894331Y	HAV	N MANIKANDAN	01-02-2010
2494	6380287X	HAV	NAND KUMAR YADAV	01-05-2010
2495	13895126K	HAV	NANDA LAL SINGH	01-06-2010
2496	6381852W	HAV	NAVJEET SINGH	01-07-2010
2497	13897059H	HAV	NIMAI CHAND SEAL	01-02-2010
2498	6379942Y	HAV	OM PRAKASH TIWARI	01-04-2010
2499	6382047Y	HAV	PABANA DEHURY	01-08-2010
2500	6381588N	HAV	PARMA NAND	01-04-2010
2501	13894200N	HAV	PARSHOTAM LAL	01-02-2010
2502	6380302F	HAV	PARWAT SINGH SHEKHAWAT	01-05-2010
2503	6380633H	HAV	PATI RAM	01-08-2010
2504	6381994N	HAV	PAWAN KUMAR	01-07-2010
2505	6379863K	HAV	PRABHU NATH YADAV	01-03-2010
2506	6381717H	HAV	PRASANTHAN P	01-06-2010
2507	6380250W	HAV	PRATAP SINGH	01-05-2010
2508	6476198W	HAV	PRAVEEN SINGH	01-05-2010
2509	15354280X	HAV	PREKASH P V	01-07-2010
2510	6381828A	HAV	PUSHPENDER SHARMA	01-07-2010
2511	13897082W	HAV	R KANNA PIRAN	01-03-2010
2512	6476308A	HAV	R S MURUGHAN	01-07-2010
2513	6381839M	HAV	R THANGAPPANDIAN	01-07-2010
2514	13897151F	HAV	RADHA KRISHNAN NAIR	01-03-2010
2515	13897157H	HAV	RADHEY SHYAM	01-03-2010
2516	6381715X	HAV	RAGHU RAJAN KUNHIVEETIL	01-06-2010
2517	6380505L	HAV	RAGHUVIR SINGH CHAUDHARY	01-06-2010
2518	13897567Y	HAV	RAJ KISHOR SINGH	01-07-2010
2519	6380091K	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2010
2520	13894987N	HAV	RAJENDER SHARMA	01-05-2010
2521	6382124H	HAV	RAJNESH KUMAR	01-08-2010
2522	13895163X	HAV	RAJU LAL	01-07-2010
2523	6379953L	HAV	RAKESH KUMAR	01-04-2010
2524	6476201L	HAV	RAKESH KUMAR MISHRA	01-05-2010
2525	6380110K	HAV	RAKH SHIVAJI VYANKAT RAO	01-04-2010
2526	13897565N	HAV	RAM AVTAR SINGH	01-07-2010
2527	6380430Y	HAV	RAM BABU KATIYAR	01-06-2010

2576	15351886W	HAV	SHYAM LAL	01-03-2010
2577	13897445P	HAV	SIRISH CHANDRA NAYAK	01-06-2010
2578	13897267X	HAV	SITA NATH SETHI	01-04-2010
2579	6381844X	HAV	SIVASANKARAN P	01-07-2010
2580	6382080W	HAV	SUBAS DUBEY	01-08-2010
2581	6380422A	HAV	SUDAMA RAM	01-06-2010
2582	6381848N	HAV	SUDARSANA LAL P	01-07-2010
2583	6381469X	HAV	SUDHESH KUMAR GHOSH	01-02-2010
2584	13897178Y	HAV	SUDHIR KUMAR SINGH	01-02-2010
2585	13891975N	HAV	SUJAN SINGH	01-02-2010
2586	6381856M	HAV	SUKH LAL	01-07-2010
2587	6382082F	HAV	SUKRAM PAL	01-08-2010
2588	6381962L	HAV	SUKUMARA PILLAI J	01-07-2010
2589	3383307H	HAV	SURAT SINGH	01-04-2010
2590	6381984K	HAV	SURENDRA PRASAD	01-07-2010
2591	1474679P	HAV	SURESH D	01-04-2010
2592	6380593M	HAV	SURJUSE ULHAS VISHNUJI	01-07-2010
2593	6380028P	HAV	SUSHIL KUMAR JHA	01-04-2010
2594	13894257H	HAV	TARKESHWAR PRASAD	01-02-2010
2595	13894828W	HAV	TEJ BHADUR VERMA	01-03-2010
2596	13897156A	HAV	THAKOR RAJI BHAJ LADU BHAJ	01-03-2010
2597	6382040P	HAV	THORBOLE BALKRISHNA DNYANDEV	01-08-2010
2598	6380059P	HAV	UMAPATHI M	01-04-2010
2599	6381850L	HAV	UNNIKRISHNAN NAIR G	01-07-2010
2600	13894914F	HAV	UTPAL KANTI DHAR	01-05-2010
2601	6380067N	HAV	V MAHADEVAN.	01-04-2010
2602	6380114A	HAV	VAGHELA BHUPTAJI KESHAJI	01-04-2010
2603	6381426H	HAV	VENKATA CHALAM K	01-02-2010
2604	13897293Y	HAV	VIDYA NAND YADAV	01-05-2010
2605	6381939X	HAV	VIJAI PAL SINGH	01-07-2010
2606	6380096H	HAV	VIJAY PAL SINGH RAGHAV	01-04-2010
2607	6380450M	HAV	VIJAYAN P	01-06-2010
2608	13894273A	HAV	VIMAL SINGH	01-02-2010
2609	15351292F	HAV	VINOD KUMAR	01-02-2010
2610	6379824L	HAV	VIRENDER KUMAR	01-03-2010
2611	15352023F	HAV	YASH PAL SINGH CHAUHAN	01-03-2010
2612	13894280W	HAV	YOGENDRA PRASAD	01-02-2010
2613	13897613H	HAV	ZILE SINGH	01-08-2010

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

2614	6476237K	HAV	ABDUL ROB	01-05-2010
2615	6476276H	HAV	BALBIR SINGH	01-06-2010
2616	6476298F	HAV	BALBIR SINGH DHANKAR	01-07-2010
2617	6476531K	DFR	BAMA CHARAN MONDAL	01-08-2010
2618	6476207M	HAV	BASU DEBA SAHU	01-05-2010
2619	6476145X	DFR	BHARAT PRASAD TIWARI	01-04-2010
2620	6476354P	HAV	CHANDESHWAR SINGH	01-08-2010
2621	6482071K	HAV	CHANDI DAS ADHIKARY	01-04-2010

2528	13895056W	HAV	RAM BIHARI PRAJAPATI	01-06-2010
2529	6379822A	HAV	RAM CHAND BAITHA	01-03-2010
2530	13894410N	HAV	RAM KRISHNA	01-02-2010
2531	6379793W	HAV	RAM MURAT SINGH	01-03-2010
2532	13897577H	HAV	RAM NAND JHA	01-07-2010
2533	6381910P	HAV	RAM NIWAS	01-07-2010
2534	13894226H	HAV	RAM NIWAS PANDEY	01-02-2010
2535	6380424L	HAV	RAM SHNKER TIWARI	01-06-2010
2536	6379958K	HAV	RAM SINGH	01-04-2010
2537	6379843W	HAV	RAM VIJAY THAKUR	01-03-2010
2538	6380219K	HAV	RAMA SHANKAR MISHRA	01-04-2010
2539	6380175X	HAV	RAMESH CHAND	01-04-2010
2540	13894873H	HAV	RAMESH CHANDRA BARADA	01-05-2010
2541	6381737W	HAV	RAMESH CHANDRA SAHOO	01-06-2010
2542	13894612P	HAV	RAMJI SINGH	01-04-2010
2543	6382074H	HAV	RAMJI SINGH	01-08-2010
2544	13894487W	HAV	RAMVIR SINGH	01-03-2010
2545	6380375N	HAV	RAVI KUMAR R	01-05-2010
2546	13891949M	HAV	RAVINDER SHARMA	01-02-2010
2547	13894825H	HAV	RAVINDRA SINGH	01-03-2010
2548	6381547K	HAV	RAVINDRA SINGH GUSAIN	01-04-2010
2549	13897578L	HAV	REJESHWAR PRASAD SINGH	01-07-2010
2550	13894329F	HAV	RISH PAL SINGH	01-02-2010
2551	13897430M	HAV	ROY P	01-06-2010
2552	13897226N	HAV	RUP NARAYAN SINGH	01-03-2010
2553	13895144M	HAV	SADHA NAND SINGH	01-07-2010
2554	13894481P	HAV	SAKAL SINGH	01-03-2010
2555	6382092L	HAV	SAMAY SINGH	01-08-2010
2556	13895969X	HAV	SANT DEO SINGH	01-04-2010
2557	6379785X	HAV	SARDAR BAIG MOGAL	01-03-2010
2558	6380580P	HAV	SARDAR SINGH THAKUR	01-07-2010
2559	15354276P	HAV	SASINDRAN NAIR EK	01-07-2010
2560	13894756X	HAV	SATPAL SINGH	01-04-2010
2561	6381685L	HAV	SATYA NARAYAN	01-06-2010
2562	6382067M	HAV	SATYABIR	01-08-2010
2563	6380303K	HAV	SATYAVIR SINGH	01-05-2010
2564	13894724P	HAV	SHALENDRA KUMAR MAURYA	01-03-2010
2565	13897143H	HAV	SHEO PRASAD SINGH	01-03-2010
2566	6380252F	HAV	SHIBU RAM	01-05-2010
2567	6381762P	HAV	SHINDE RAMESH GOPAL	01-06-2010
2568	6380173M	HAV	SHIV KUMAR	01-04-2010
2569	13894296F	HAV	SHIV PRASAD MAHATO	01-02-2010
2570	6381529F	HAV	SHIVA PUTARAPPA	01-04-2010
2571	6380573Y	HAV	SHIVAJI BELAWADKAR	01-07-2010
2572	13894450P	HAV	SHIVJI YADAV	01-03-2010
2573	6379925Y	HAV	SHIVLAL SINGH	01-04-2010
2574	6380208X	HAV	SHRI NIWAS PRASAD	01-04-2010
2575	13891940X	HAV	SHRINATH PRASAD	01-02-2010

2622	6476386X	HAV	DADU LAL SHUKLA	01-08-2010
2623	6482166K	HAV	DARBAR SINGH	01-08-2010
2624	6482066Y	DFR	DARENDRA BASUMATA	01-04-2010
2625	3383210X	HAV	DIAL SINGH	01-03-2010
2626	6476079A	HAV	DINESH KUAMR	01-02-2010
2627	6476406A	DFR	DONDA PATI KOTAIAH	01-08-2010
2628	6476146A	HAV	FIRANGI LAL	01-04-2010
2629	6476223K	HAV	GANGA RAM MONDAL	01-06-2010
2630	6476391H	DFR	HAKIM SINGH	01-08-2010
2631	3382763F	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-02-2010
2632	6476373A	HAV	HARISHA A M	01-08-2010
2633	6476162X	HAV	HARPHOOL SINGH DHAKA	01-04-2010
2634	6381630F	HAV	JARNAIL SINGH	01-04-2010
2635	6379714W	HAV	JAY SHANKAR SINGH	01-02-2010
2636	6476296W	HAV	JEEWAN SINGH	01-07-2010
2637	6476024W	HAV	KAMLESH SINGH	01-02-2010
2638	6476314N	HAV	KISHAN KUMAR	01-07-2010
2639	6476035H	HAV	KRISHAN MURARI LAL	01-02-2010
2640	6476256P	DFR	LOGU P	01-06-2010
2641	6476180A	HAV	M D TOYMUS ISLAM AHMED	01-05-2010
2642	6476077P	HAV	MACHKO YADAV	01-02-2010
2643	13686498K	HAV	N LAGAMANNA BOMBRI	01-04-2010
2644	6476230A	HAV	NIHAL SINGH	01-05-2010
2645	6476242P	HAV	PADAM KUMAR PARIYAR	01-06-2010
2646	6476295N	DFR	PREM BAHADUR	01-07-2010
2647	6476352K	DFR	RABINDRA KUMAR SINGH	01-08-2010
2648	6476270F	HAV	RAJAMOHANAN K	01-06-2010
2649	6476065A	HAV	RAJENDAR SINGH	01-02-2010
2650	6482178Y	HAV	RAJENDAR SINGH	01-08-2010
2651	6482089A	DFR	RAM KARAN SINGH KUSHWAH	01-05-2010
2652	6476197N	HAV	RAM KISHAN	01-05-2010
2653	6476051A	DFR	RAM KISHAN	01-02-2010
2654	6476194A	HAV	RAM NATH PRASAD	01-05-2010
2655	6476076M	DFR	RAM PRAVESH ROY	01-02-2010
2656	6476118N	HAV	RAMJIT SINGH	01-03-2010
2657	6476111K	HAV	S B RAJENDER PRASAD R	01-03-2010
2658	6482107X	HAV	S M BHAIRU	01-05-2010
2659	6476032P	HAV	S RAMACHANDRAN	01-02-2010
2660	6476115A	HAV	SEKHAR CHANDRA AMANI	01-03-2010
2661	6476218Y	HAV	SHAIK UNUS	01-05-2010
2662	6476215L	HAV	SHIVAJI RAJA RAM SHINDE	01-05-2010
2663	3382729F	HAV	SIMARJIT SINGH	01-02-2010
2664	6476109M	HAV	SOMAN K	01-03-2010
2665	6476409N	HAV	SUBASH CHANDRA BARIK	01-08-2010
2666	6476104N	DFR	UPENDRA PRASAD	01-03-2010
2667	6476326H	HAV	V M SHANKUGAM	01-07-2010
2668	6476023N	HAV	V S B P BHAI	01-02-2010
2669	6476132A	HAV	VIJAY SINGH	01-03-2010



2670	6476164H	DFR	VIR BAHADUR SINGH	01-04-2010
2671	6381771W	HAV	VIRENDRA KUMAR	01-06-2010
2672	6476027K	DFR	YOHANNAN V K	01-02-2010

**ARMY MEDICAL CORPS**

2673	13966401L	HAV	A B JANARDAN	01-02-2010
2674	13957790P	HAV	AHIBARAN SINGH	01-04-2010
2675	13957720W	HAV	AJAB SINGH	01-04-2010
2676	13958262X	HAV	AJAI PAL SINGH	01-05-2010
2677	13957902K	HAV	AJAYA KUMAR PRADHAN	01-04-2010
2678	13957853M	HAV	AJIT KUMAR DUTTA	01-04-2010
2679	13957788X	HAV	AMAR SINGH CHAUHAN	01-04-2010
2680	13968566H	HAV	ANIL KUMAR	01-07-2010
2681	13957181L	HAV	ANUP MUKHAPADHYAY	01-03-2010
2682	13957625K	HAV	ANUP SINGH	01-04-2010
2683	13969124W	HAV	ARUN KUMAR SHARMA	01-08-2010
2684	13957050A	HAV	ASHARAM DESHMUKH	01-03-2010
2685	13956772A	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2010
2686	13957967X	HAV	ASHOK KUMAR DUBEY	01-04-2010
2687	13957105Y	HAV	ASHOK KUMAR MAHATO	01-03-2010
2688	13957596A	HAV	ASHOK KUMAR TILANTHE	01-04-2010
2689	13968592K	HAV	B B SADHUJI	01-07-2010
2690	13958202H	HAV	B MADHU BALAN	01-05-2010
2691	13968921P	HAV	B T MOKASE	01-08-2010
2692	13968501P	HAV	BACHCHA PRASAD SINGH	01-07-2010
2693	13958337K	HAV	BAL KRISHAN	01-05-2010
2694	13957447M	HAV	BAL RAJ SINGH	01-04-2010
2695	13958283N	HAV	BALESHWAR BHAKTA	01-05-2010
2696	13957686F	HAV	BALKAR SINGH	01-04-2010
2697	13958582M	HAV	BHARAT CHANDRA DALAI	01-06-2010
2698	13956737X	HAV	BHOJ RAJ	01-02-2010
2699	13956797M	HAV	BHOLANATH PANDEY	01-02-2010
2700	13957852K	HAV	BHUPEN BURA GOHAIN	01-04-2010
2701	13957925L	HAV	BIJAYA KUMAR NAYAK	01-04-2010
2702	13958051P	HAV	BIJENDER SINGH RATHI	01-04-2010
2703	13956640M	HAV	BINAY KUMAR PRASAD	01-02-2010
2704	13957074K	HAV	BISHDEB MONDAL	01-03-2010
2705	13957571N	HAV	BRAHAM PRAKASH	01-04-2010
2706	13957606Y	HAV	BRAHMANANDA DAS	01-04-2010
2707	13957499H	HAV	C S SINGH	01-04-2010
2708	13957010Y	HAV	CHANDRA BHAN	01-02-2010
2709	13958059F	HAV	CHANDRA PRAKASH	01-05-2010
2710	13957695H	HAV	CHANDRAN K	01-04-2010
2711	13957957N	HAV	CHANDRIKA PRASAD	01-04-2010
2712	13956638P	HAV	CHHOTE LAL	01-02-2010
2713	13957553L	HAV	CHOUDHARI CHAUHAN	01-04-2010
2714	13956672P	HAV	D H R SARGAR	01-02-2010
2715	13958261P	HAV	D K SHRIWAS	01-05-2010

2716	13956993M	HAV	D SINGH BISHT	01-02-2010
2717	13958281H	HAV	DAMODAR SINGH	01-05-2010
2718	13957215N	HAV	DEEN BANDHU	01-03-2010
2719	13957297F	HAV	DHARAM PAL	01-03-2010
2720	13957984X	HAV	DHARMABIR SINGH	01-04-2010
2721	13956941W	HAV	DHARMESHWAR RAI	01-02-2010
2722	13957003H	HAV	DHYAN SINGH	01-02-2010
2723	13958087N	HAV	DIN BANDHU SINGH	01-05-2010
2724	13957492Y	HAV	DINESH CHANDRA	01-04-2010
2725	13957682L	HAV	DINESH CHANDRA	01-04-2010
2726	13957552H	HAV	DIWAKAR MISHRA	01-04-2010
2727	13957539Y	HAV	DURAGA SHARAN MISHRA	01-04-2010
2728	13956810L	HAV	G K TRIPATHI	01-02-2010
2729	13957612M	HAV	G S CHOUDAHURY	01-04-2010
2730	13957900Y	HAV	GAYADHAR SAHOO	01-04-2010
2731	13957801W	HAV	GEORGE C D	01-04-2010
2732	13957014P	HAV	GOLOK PATRA	01-02-2010
2733	13957807X	HAV	GULAB SINGH	01-04-2010
2734	13957722F	HAV	GURMAIL CHAND	01-04-2010
2735	13957687K	HAV	GURMIT SINGH	01-04-2010
2736	13956955W	HAV	GURNAM SINGH	01-02-2010
2737	13957344N	HAV	HANS RAJ	01-03-2010
2738	13957285M	HAV	HARENDRA KUMAR SINGH	01-03-2010
2739	13957399X	HAV	HARENDRA RAI	01-04-2010
2740	13958124W	HAV	HARISH CHANDRA JHA	01-05-2010
2741	13958033M	HAV	INDR BIR SINGH	01-04-2010
2742	13957513K	HAV	INDRAJIT ROY	01-04-2010
2743	13958282L	HAV	J K TIWARI	01-05-2010
2744	13957011F	HAV	J S KUSHWAHA	01-02-2010
2745	13957641F	HAV	JAGBIR SINGH	01-04-2010
2746	13957572W	HAV	JAGPAL	01-04-2010
2747	13957433M	HAV	JAI PAL SINGH	01-03-2010
2748	13956845F	HAV	JOR SINGH	01-02-2010
2749	13957504H	HAV	JORA SINGH	01-04-2010
2750	13957834F	HAV	K GURU SAMY	01-04-2010
2751	13958362H	HAV	K K YASHWANT DHONDU	01-05-2010
2752	13956688A	HAV	K KAMALA VASAN	01-02-2010
2753	13957601A	HAV	K P SRIVASTAVA	01-04-2010
2754	13958084A	HAV	KAMLESH MISHRA	01-05-2010
2755	13957056F	HAV	KANHAIYA KUMAR SINGH	01-03-2010
2756	13956682Y	HAV	KANNAN T	01-02-2010
2757	13957421X	HAV	KARAN SINGH	01-03-2010
2758	13957262L	HAV	KARMAVIR SINGH	01-03-2010
2759	13957250W	HAV	KARUNESH KUMAR SINGH	01-03-2010
2760	13957233W	HAV	KASI PRASAD LAL	01-03-2010
2761	13958305F	HAV	KATURI NANCHARAI AH	01-05-2010
2762	13958321Y	HAV	KEMESHWAR BORA	01-05-2010
2763	13958199N	HAV	KHYALI RAM	01-05-2010

2764	13957960N	HAV	KIRTI SINGH	01-04-2010
2765	13957963F	HAV	KRISHAN KUMAR	01-04-2010
2766	13958381N	HAV	LACHU DHAR RAM	01-05-2010
2767	13969106N	HAV	LAKSHMI KANT NANDI	01-08-2010
2768	13958179A	HAV	LAL BAHADUR YADAV	01-05-2010
2769	13956754X	HAV	LOGANATHAN S	01-02-2010
2770	13956799X	HAV	M P KAMMARA	01-02-2010
2771	13958191F	HAV	M P PASWAN	01-05-2010
2772	13956928M	HAV	M S BEPARI	01-02-2010
2773	13958139Y	HAV	M T GHAWARE	01-05-2010
2774	13969024L	HAV	MADHO RAM OJHA	01-08-2010
2775	13957129H	HAV	MAHABIR	01-03-2010
2776	13958228X	HAV	MANAN YADAV	01-05-2010
2777	13957629A	HAV	MANE HANMANT HARIBA	01-04-2010
2778	13958235N	HAV	MANJIT SINGH	01-05-2010
2779	13958371K	HAV	MARIYALA SRINIVASULU	01-05-2010
2780	13956611X	HAV	MD ANUL HAK	01-02-2010
2781	13969131M	HAV	MOHAMMAD NOWSAD ALI	01-08-2010
2782	13968517A	HAV	MOMIN BABU SAYYAD	01-07-2010
2783	13957099W	HAV	MOTI RAM	01-03-2010
2784	13957789A	HAV	NAGINA PRASAD YADAV	01-04-2010
2785	13956763Y	HAV	NANI GOPAL SAHA	01-02-2010
2786	13969060W	HAV	NARESH KUMAR	01-08-2010
2787	13957920M	HAV	OM PARKASH	01-04-2010
2788	13957137F	HAV	OM PRAKASH	01-03-2010
2789	13957661P	HAV	P C RAMUDU	01-04-2010
2790	13956924W	HAV	P K KAMBLE	01-02-2010
2791	13957308H	HAV	P MUTHUSAMY	01-03-2010
2792	13958125Y	HAV	P RAJADA DARAMA RAO	01-05-2010
2793	13956666F	HAV	P SHANMUGAM	01-02-2010
2794	13968547X	HAV	P VENKAT REDDY	01-07-2010
2795	13958217L	HAV	PALE RAM	01-05-2010
2796	13686018P	HAV	PANDAVA SAHU	01-03-2010
2797	13957159A	HAV	PARAMJIT	01-03-2010
2798	13958190Y	HAV	PHENKU RAM	01-05-2010
2799	13957602H	HAV	PIJUSH KANTI CHANDA	01-04-2010
2800	13956867A	HAV	PRAKASH CHAND	01-02-2010
2801	13958726K	HAV	PRAKASH CHANDRA	01-06-2010
2802	13957927W	HAV	PRAKASH PATRA	01-04-2010
2803	13956826W	HAV	PRASADAN K V	01-02-2010
2804	13685855P	HAV	PREM SAGAR	01-02-2010
2805	13957926N	HAV	PURNA CHANDRA JENA	01-04-2010
2806	13956837H	HAV	R C PILLAI A	01-02-2010
2807	13957503A	HAV	R S GHANGHAS	01-04-2010
2808	13686791F	HAV	R THIRUPATHI	01-05-2010
2809	13956883X	HAV	RADHAKRISHNAN R	01-02-2010
2810	13957922X	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2010
2811	13957688M	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2010

2812	13969026W	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-08-2010
2813	13958067A	HAV	RAJBIR SINGH	01-05-2010
2814	13957729L	HAV	RAJBIR SINGH	01-04-2010
2815	13957431F	HAV	RAJENDER SINGH	01-03-2010
2816	13957831N	HAV	RAJENDIRAN	01-04-2010
2817	13956888W	HAV	RAJENDRAN N	01-02-2010
2818	13957849K	HAV	RAKHUNDE K R	01-04-2010
2819	13956649F	HAV	RAM BAHADUR VERMA	01-02-2010
2820	13957131A	HAV	RAM DATT	01-03-2010
2821	13958304Y	HAV	RAM MEHAR	01-05-2010
2822	13957254M	HAV	RAM NARESH	01-03-2010
2823	13957972H	HAV	RAM NARESH SINGH	01-04-2010
2824	13957728H	HAV	RAM PAL	01-04-2010
2825	13957434P	HAV	RAM PHAL	01-03-2010
2826	13957302F	HAV	RAM PHAL	01-03-2010
2827	13958056N	HAV	RAM SEWAK OJHA SM	01-05-2010
2828	13957406H	HAV	RAM SHARAN PATEL	01-03-2010
2829	13957125M	HAV	RAM SINGH	01-03-2010
2830	13958255F	HAV	RAM TAPESYA YADAV	01-05-2010
2831	13968973L	HAV	RAM UJAGAR PATEL	01-08-2010
2832	13956704M	HAV	RAMA KRISHNA REDDY V	01-02-2010
2833	13958111Y	HAV	RAMANAND PASWAN	01-05-2010
2834	13957054W	HAV	RAMANAND SINGH	01-03-2010
2835	13957118W	HAV	RAMANAND THAKUR	01-03-2010
2836	13958044Y	HAV	RAMAVTAR SINGH	01-04-2010
2837	13957591F	HAV	RAMAYAN RAM	01-04-2010
2838	13957328W	HAV	RAMESH CHAND	01-03-2010
2839	13957041Y	HAV	RAMESH CHANDER	01-02-2010
2840	13957867M	HAV	RAMESH KUMAR	01-04-2010
2841	13957185F	HAV	RAMESHWAR PRASAD	01-03-2010
2842	13969127K	HAV	RAMJI LAL	01-08-2010
2843	13957731H	HAV	RANJIT SINGH	01-04-2010
2844	13957058M	HAV	REDAR YADAV	01-03-2010
2845	13969107W	HAV	S K GOFFAR ALI	01-08-2010
2846	13958020P	HAV	S N DADANIYA	01-04-2010
2847	13968964K	HAV	S P SINGH	01-08-2010
2848	13958018X	HAV	S S KUSHAWAHA	01-04-2010
2849	13957999A	HAV	S S PANDURANG	01-04-2010
2850	13956645L	HAV	S SUBRAMANYAN	01-02-2010
2851	13957532P	HAV	SADAN KUMAR	01-04-2010
2852	13957761A	HAV	SADANAND THAKUR	01-04-2010
2853	13957271M	HAV	SADIQ MASIH	01-03-2010
2854	13956921H	HAV	SAMHUT RAY	01-02-2010
2855	13958360X	HAV	SAMUNDER SINGH	01-05-2010
2856	13957049L	HAV	SANJAY SRIVASTAVA	01-03-2010
2857	13957395F	HAV	SASIDHARAN PILLAI B	01-04-2010
2858	13957441L	HAV	SASINDRAN M	01-03-2010
2859	13969101P	HAV	SASWATA KUMAR PAL	01-08-2010

2860	13957130X	HAV	SATYAVIR SINGH	01-03-2010
2861	13957330N	HAV	SATYAWAN SINGH MANN	01-03-2010
2862	13958206Y	HAV	SAWANT VINOD VAMAN	01-05-2010
2863	13968703W	HAV	SHADEV SINGH DHAKA	01-07-2010
2864	13958229A	HAV	SHAMIM ANSARI	01-05-2010
2865	13957751W	HAV	SHINDE D B	01-04-2010
2866	13956699M	HAV	SHIO NATH BAITHA	01-02-2010
2867	13956769A	HAV	SHYAM SUNDER	01-02-2010
2868	13957905X	HAV	SISH RAM	01-04-2010
2869	13957773P	HAV	SITA RAM	01-04-2010
2870	13957610F	HAV	SIV NARAYAN SINGH	01-04-2010
2871	13956740X	HAV	SRIDHAR TRIPATHY	01-02-2010
2872	13957124K	HAV	SUBE SINGH	01-03-2010
2873	13956597W	HAV	SUBHASH TIWARI	01-02-2010
2874	13957212A	HAV	SUKESH KUMAR	01-03-2010
2875	13957480K	HAV	SUKHEN KUMAR PAL	01-04-2010
2876	13957630P	HAV	SUMAN PAL	01-04-2010
2877	13957628X	HAV	SUMER SINGH	01-04-2010
2878	13969179A	HAV	SUNIRMAL PAUL	01-08-2010
2879	13957317K	HAV	SURENDER SINGH	01-03-2010
2880	13957715L	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2010
2881	13956957F	HAV	SURESH PAUL	01-02-2010
2882	13958209M	HAV	T KOTESHWAR RAO	01-05-2010
2883	13957768K	HAV	T L BALABHIM	01-04-2010
2884	13969110W	HAV	TANMAY BHATTACHARJEE	01-08-2010
2885	13956778F	HAV	TAPAN KUAMR BISWAS	01-02-2010
2886	13958075Y	HAV	TARSEM LAL	01-05-2010
2887	13957264W	HAV	TEJ PRATAP SINGH	01-03-2010
2888	13957435X	HAV	THAKUR DAS	01-03-2010
2889	13957098N	HAV	UDAIBIR SINGH	01-03-2010
2890	13958285Y	HAV	UMESH DAS	01-05-2010
2891	13956850M	HAV	V REDDIAYA	01-02-2010
2892	13957881Y	HAV	VIJAY PAL	01-04-2010
2893	13958077K	HAV	VIJAYA KUMAR K	01-05-2010
2894	13958159M	HAV	VIJAYAN NAIR B	01-05-2010
2895	13957935P	HAV	VIRENDER SINGH	01-04-2010
2896	13957615A	HAV	VIRENDER SINGH	01-04-2010
2897	13956632N	HAV	VISHWANATHAN K K	01-02-2010

**ARMY ORDNANCE CORPS**

2898	6924475K	HAV	A RAJU	01-02-2010
2899	6920144L	HAV	ABDUL SALAM	01-03-2010
2900	3383856H	HAV	AJAIB SINGH	01-06-2010
2901	6924552N	HAV	ALLA BAX	01-02-2010
2902	6920609A	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-05-2010
2903	6925743P	HAV	ASHIS KUMAR ATTA	01-08-2010
2904	6921004L	HAV	ASHOK KUMAR MAHANNA	01-07-2010
2905	6925703N	HAV	ASHOK SINGH	01-08-2010

2906	6924989F	HAV	ASHOKAN M	01-04-2010
2907	6921033A	HAV	AWDHESH KUMAR RAI	01-07-2010
2908	6925730X	HAV	AYODHYA CHANDRA BANSI	01-08-2010
2909	6920393K	HAV	BABU LAL PICHKIYA	01-04-2010
2910	6924672M	HAV	BALVIR SHARMA	01-02-2010
2911	6920174H	HAV	BANKE LAL	01-03-2010
2912	6920902X	HAV	BANWARI LAL	01-06-2010
2913	6920480X	HAV	BHAGWAN YADAV	01-04-2010
2914	6924824H	HAV	BHIM SINGH	01-04-2010
2915	6925724K	HAV	BHUPENDRA KUMAR CHATERJEE	01-08-2010
2916	6925761X	HAV	BIJAY GIRI	01-08-2010
2917	6920245Y	HAV	C P S CHAUHAN	01-04-2010
2918	6920104K	HAV	CHHOTE LAL	01-02-2010
2919	6924470L	HAV	CHUDAMAN	01-02-2010
2920	6924503L	HAV	D KOMAGAAN	01-02-2010
2921	6920019F	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-02-2010
2922	8030307X	HAV	DINA NATH YADAV	01-05-2010
2923	6925274X	HAV	DIP KALITA	01-05-2010
2924	6920286H	HAV	FATHE BAHADUR SINGH PAL	01-04-2010
2925	6920106P	HAV	G K MANJOOTRA	01-02-2010
2926	13958704L	HAV	GOPAL PRASAD YADAV	01-06-2010
2927	6924837A	HAV	GOVIND SINGH	01-04-2010
2928	6920467N	HAV	HAENDRA SINGH	01-04-2010
2929	6925432P	HAV	HAREKRUSHNA RAY	01-06-2010
2930	6924694L	HAV	HARI BABU	01-03-2010
2931	6920057X	HAV	HARI TIWARI	01-02-2010
2932	3383836P	HAV	HARJEET SINGH	01-06-2010
2933	6925619N	HAV	HARMAN KERKETTA	01-07-2010
2934	6920200Y	HAV	JAGDISH SINGH	01-03-2010
2935	13958930H	HAV	JAI PRAKASH RATHEE	01-05-2010
2936	6920836A	HAV	JASBANTA DAS	01-06-2010
2937	3383230L	HAV	JASPAL SINGH	01-03-2010
2933	6920197K	HAV	JAWAHIR RAM	01-03-2010
2939	6920481A	HAV	JOSE B	01-04-2010
2940	6920988F	HAV	K V DNYANOBHA	01-06-2010
2941	6920562A	HAV	K VENATESAN	01-05-2010
2942	6920276Y	HAV	KAKA SRINIWASA RAO	01-04-2010
2943	6925657K	HAV	KALLA MOHANA RAO	01-08-2010
2944	6920967L	HAV	KAMESHWAR SHARMA	01-06-2010
2945	6920109H	HAV	KANNAN R	01-02-2010
2946	6920955W	HAV	KAUSHAL KUMAR	01-06-2010
2947	6920234M	HAV	KHUSHAL PRASAD	01-03-2010
2948	6924569F	HAV	KISHNA RAM	01-02-2010
2949	6921193A	HAV	KRISHAN SINGH	01-08-2010
2950	8030334F	HAV	KULDIP SINGH	01-05-2010
2951	6920150Y	HAV	KUMARAN T K	01-03-2010
2952	6920313F	HAV	LAKSHMI NARAYAN	01-03-2010
2953	6921027M	HAV	LEKH RAJ	01-07-2010

2954	6920182A	HAV	MADHU LAL SAH	01-03-2010
2955	6921046X	HAV	MADHU SUDAN GAIN	01-07-2010
2956	6921497X	HAV	MALKIT SINGH	01-06-2010
2957	6921828N	HAV	MAN BIRENDER SINGH	01-08-2010
2958	6920381P	HAV	MAN SINGH	01-03-2010
2959	6924759N	HAV	MANEBENDRA KUMAR SHARMA	01-03-2010
2960	6924753M	HAV	MANGAL SINGH	01-03-2010
2961	6924802K	HAV	MD SHAMSUL KHAN	01-03-2010
2962	6920156A	HAV	MOHAMMED SHARIF	01-03-2010
2963	6920983H	HAV	MOHAN LAL	01-06-2010
2964	6925431Y	HAV	MOLOY PAL	01-06-2010
2965	6920970L	HAV	MURUGESAN C	01-06-2010
2966	6921125M	HAV	NAGALINGAPPA SINGATALUR	01-08-2010
2967	6921122Y	HAV	NAND KISHOR	01-08-2010
2968	6920741A	HAV	NAND KISHORE YADAV	01-05-2010
2969	6921155K	HAV	NARENDER KUMAR	01-05-2010
2970	6920039P	HAV	NARENDRA KUMAR THAKUR	01-02-2010
2971	6921211X	HAV	NILCHANDRA SINGHA	01-08-2010
2972	6920964X	HAV	PRABUNATH YADAV	01-06-2010
2973	6920455Y	HAV	PRADIP KONWAR	01-04-2010
2974	6921958W	HAV	PRAKASH SINGH	01-04-2010
2975	6921056F	HAV	PRATAP SINGH	01-07-2010
2976	6920639X	HAV	RAHIS PAL SINGH	01-05-2010
2977	6924675A	HAV	RAJINDER SINGH	01-02-2010
2978	6920105M	HAV	RAM BARAN SINGH	01-02-2010
2979	6925238M	HAV	RAM GANESH SINGH	01-04-2010
2980	6921199F	HAV	RAM KUMAR MISHRA	01-08-2010
2981	6921139M	HAV	RAM NARAYAN	01-08-2010
2982	6920209N	HAV	RAM NIWAS	01-03-2010
2983	6924969N	HAV	RAM SANKAR K	01-04-2010
2984	6920175L	HAV	RAMAYAN DASS TIWARI	01-03-2010
2985	6920297P	HAV	RAMPADA GHOSH	01-04-2010
2986	6920142A	HAV	RAVINDRA TIWARI	01-03-2010
2987	6920661H	HAV	REJI KUMAR K	01-05-2010
2988	6920855L	HAV	S A O A RAHIM	01-06-2010
2989	6924877F	HAV	S DHARMAR	01-04-2010
2990	6924505W	HAV	S RAJAN	01-02-2010
2991	6920587M	HAV	S S BALAGOLE	01-05-2010
2992	6920058A	HAV	S S S SENGAR	01-02-2010
2993	6924863F	HAV	SAILENDRA CHETTRI	01-04-2010
2994	6924912Y	HAV	SANA RAM BARO	01-04-2010
2995	6924596L	HAV	SANKAR PRAMANIK	01-02-2010
2996	6920199P	HAV	SATISH CHAND	01-03-2010
2997	6920236X	HAV	SATYABIR SINGH	01-03-2010
2998	6920170M	HAV	SATYADEV SINGH	01-03-2010
2999	6921086Y	HAV	SHAM SHER SINGH	01-07-2010
3000	6920194W	HAV	SHIV CHANDRA RAM	01-03-2010
3001	6925709P	HAV	SHIV DUTT	01-08-2010

3002	6920157H	HAV	SHYAM JI PANDEY	01-03-2010
3003	6920122M	HAV	SIRAJ UDDIN LASKAR	01-02-2010
3004	6921152W	HAV	SOHAN LAL PANDEY	01-08-2010
3005	6925048A	HAV	SOM PAL	01-04-2010
3006	6920448H	HAV	SRIKANTA BARIK	01-04-2010
3007	6924524F	HAV	SUJIT KUMAR DAS	01-02-2010
3008	6924688X	HAV	SUJIT KUMAR MANDAL	01-03-2010
3009	6920283P	HAV	SWAPAN KUMAR BISWAS	01-04-2010
3010	6924898X	HAV	U M S SAMPATTI	01-04-2010
3011	6920820P	HAV	UBENDER SINGH	01-06-2010
3012	6920917A	HAV	UDAI SINGH	01-06-2010
3013	6920716F	HAV	UMA SHARKAR RAI	01-05-2010
3014	6924881K	HAV	VIJAIPAL YADAV	01-04-2010
3015	6924949A	HAV	VIJAYA KUMAR C	01-04-2010

### **CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

3016	14563551Y	HAV	AJAY KUMAR RAY	01-02-2010
3017	14567427P	HAV	AMAN ALI	01-05-2010
3018	14567078W	HAV	ANANT YASHWANT KENDRE	01-05-2010
3019	14563762F	HAV	ANGPAL SINGH SANGVAN	01-02-2010
3020	14563933H	HAV	ANIL KUMAR	01-03-2010
3021	14569272K	HAV	ANIL KUMAR SRIVASTAVA	01-07-2010
3022	14568761H	HAV	ANIL KUMAR TRIPATHI	01-07-2010
3023	14563151M	HAV	ANIRUDH THAKUR	01-02-2010
3024	14567394P	HAV	ARBIND KUMAR	01-05-2010
3025	14564902P	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-03-2010
3026	14563188N	HAV	ARUN KUMAR TIWARI	01-02-2010
3027	14564215Y	HAV	ARUN THAKUR	01-02-2010
3028	14563669A	HAV	ARVIND KUMAR SINGH	01-02-2010
3029	14568812L	HAV	ASHOK BHAIKU PATIL	01-07-2010
3030	14564351P	HAV	ASHOK KUAMR ROUT	01-03-2010
3031	14566249L	HAV	ASHOK KUMAR	01-04-2010
3032	14564911W	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2010
3033	14594359W	HAV	ASHOK KUMAR PAL	01-04-2010
3034	14566971K	HAV	ASHOK KUMAR SAMAL	01-05-2010
3035	14564267P	HAV	ASHUTOSH NATH	01-03-2010
3036	14563977A	HAV	ASIT KUMAR MANDAL	01-02-2010
3037	14568523W	HAV	AUGUSTIN ANTONY	01-06-2010
3038	14563883H	HAV	AWADESH JHA	01-03-2010
3039	14564848M	HAV	AWADESH KUMAR SINGH	01-03-2010
3040	14564679W	HAV	AYODHI MANDAL	01-03-2010
3041	14565710K	HAV	AZAD SINGH	01-04-2010
3042	14563725N	HAV	B B PRASAD SINHA	01-02-2010
3043	14563827K	HAV	BABU AP	01-03-2010
3044	14563791W	HAV	BABU LAL	01-02-2010
3045	14569377N	HAV	BABU LAL CHAKAR	01-08-2010
3046	14568034L	HAV	BABUL CHANDRA DAS	01-06-2010
3047	14564748F	HAV	BACHCHA PRASAD SINGH	01-03-2010



3048	14592684X	HAV	BAL RAM SINGH	01-03-2010
3049	14569232H	HAV	BALBIR SINGH	01-07-2010
3050	14568317M	HAV	BALBIR SINGH CHOUHAN	01-06-2010
3051	14563794K	HAV	BALI RAM PRASAD	01-02-2010
3052	14562583P	HAV	BALJEET SINGH	01-02-2010
3053	14566773Y	HAV	BALRAJ SINGH	01-05-2010
3054	14564209L	HAV	BALRAJ SINGH	01-02-2010
3055	14565115A	HAV	BANKE BIHARI SINGH	01-03-2010
3056	14570222L	HAV	BANNI THOMAS	01-08-2010
3057	14593227W	HAV	BASTI RAM MUNDEL	01-04-2010
3058	14597927F	HAV	BENNY CHACKO	01-08-2010
3059	14563135P	HAV	BHAGIRATHI PRASAD	01-02-2010
3060	14565981F	HAV	BHARAT SINGH	01-04-2010
3061	14562799W	HAV	BHAWANI PRASAD SAHU	01-02-2010
3062	14562825M	HAV	BHUMIDHAR DAS	01-02-2010
3063	14564368H	HAV	BHUVANA CHANDRAN PK	01-03-2010
3064	14566905F	HAV	BIDHITRA KALITA	01-05-2010
3065	14563941F	HAV	BIJAY KUMAR SHARMA	01-03-2010
3066	14564752K	HAV	BIJAY KUMAR SINGH	01-03-2010
3067	14564205P	HAV	BINOD KUMAR OJHA	01-03-2010
3068	14564276W	HAV	BIR BHADUR YADAV	01-03-2010
3069	14566330X	HAV	BIREN THAKURI A	01-04-2010
3070	14565117L	HAV	BIRENDRA UPADHYAY	01-03-2010
3071	14563562L	HAV	BIRMA RAM CHAUDHARY	01-02-2010
3072	14563154A	HAV	BISHNU MOHAN RAI	01-02-2010
3073	14564357W	HAV	BISHNU PRASAD SHARMA	01-03-2010
3074	14567151K	HAV	BODAKE DATTATRAY	01-05-2010
3075	14564701W	HAV	BRAHMA DEV SINGH	01-03-2010
3076	14563132F	HAV	BRAJ NANDAN SINGH	01-02-2010
3077	14593027A	HAV	BYPA NAGESWARA RAO	01-03-2010
3078	14562657Y	HAV	CHANDER BHAN	01-02-2010
3079	14566269Y	HAV	CHANKARURE NARESH BAPURAOJI	01-04-2010
3080	14563638A	HAV	CHAPTE BALAJI GYANBA	01-02-2010
3081	14568358W	HAV	CHARAN SINGH	01-06-2010
3082	14566746P	HAV	CHATEN PRASAD	01-04-2010
3083	14564746W	HAV	CHHABILA SAH	01-03-2010
3084	14562950W	HAV	DALEL SINGH	01-02-2010
3085	14565473L	HAV	DAMODAR PRASAD DUBEY	01-04-2010
3086	14562962L	HAV	DAVENDER PAL B	01-02-2010
3087	14568958Y	HAV	DAYANAND	01-07-2010
3088	14565717N	HAV	DESH PAL	01-04-2010
3089	14567111H	HAV	DESRAJ	01-05-2010
3090	14566595F	HAV	DEVENDRA SINGH	01-04-2010
3091	14567879X	HAV	DEVJIT SINGH	01-06-2010
3092	14566737N	HAV	DHAMALE ARUN RAM CHANDRA	01-04-2010
3093	14566736L	HAV	DHAMANKAR SAMBAJI NIVRITHI	01-04-2010
3094	14564623K	HAV	DHANANJAY KUMAR	01-03-2010
3095	14564684F	HAV	DHANESWAR PRASAD SAHA	01-03-2010

3096	14565548X	HAV	DHANI RAM	01-04-2010
3097	14566602M	HAV	DHARAM SINGH	01-04-2010
3098	14564449H	HAV	DHARAMA RAJAN T	01-03-2010
3099	14563471F	HAV	DHARAMBIR SINGH VERMA	01-02-2010
3100	14563017F	HAV	DHARAMPAL	01-02-2010
3101	14593009X	HAV	DINESH KUMAR SINGH	01-03-2010
3102	14570186L	HAV	DINESH SINGH BHANDARI	01-08-2010
3103	14567894M	HAV	DIPAK CHAKRABORTY	01-06-2010
3104	14566689Y	HAV	DIPENUMOY NATH	01-04-2010
3105	14562768W	HAV	G N NAIR	01-01-2010
3106	14566930A	HAV	GANDHI SINGH	01-05-2010
3107	14564299X	HAV	GANESH CHANDRA	01-03-2010
3108	14566445L	HAV	GANGADHAR SAHOO	01-04-2010
3109	14564562X	HAV	GAUR PADA BISWAS	01-03-2010
3110	14564791H	HAV	GAYA PRASAD DIWAKRA	01-03-2010
3111	14566539H	HAV	GHANSHYAM RAI	01-04-2010
3112	14567817X	HAV	GIRISH CHANDRA	01-06-2010
3113	14568571W	HAV	GOBINDA CHANDRA JENA	01-07-2010
3114	14595131M	HAV	GOPAL CHANDRA KUILI	01-06-2010
3115	14592229P	HAV	GOPINANDANAN V	01-03-2010
3116	14564031A	HAV	GOVIND KUMAR SINGH	01-02-2010
3117	14565671W	HAV	GULAB SINGH	01-04-2010
3118	14564367A	HAV	GURMEJ SINGH	01-03-2010
3119	14569204W	HAV	HAKAM SINGH	01-07-2010
3120	14563145Y	HAV	HAKIM ANSARI	01-02-2010
3121	14563697M	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-02-2010
3122	14564894F	HAV	HARE RAM RAM	01-03-2010
3123	14569743M	HAV	HARI SHANKAR OLI	01-08-2010
3124	14566356M	HAV	HARI SHANKAR SINGH	01-04-2010
3125	14566743F	HAV	HARISH CHANDRA YADAV	01-04-2010
3126	14593048W	HAV	HEM CHANDRA	01-03-2010
3127	14562970K	HAV	HUKAM CHAND	01-02-2010
3128	14568749F	HAV	INDRAJIT DAS	01-07-2010
3129	14563710L	HAV	ISHWAR SINGH	01-02-2010
3130	14564376F	HAV	JADEJA RANJIT SINGH	01-03-2010
3131	14562678P	HAV	JAGADISH YADAWA	01-02-2010
3132	14562851N	HAV	JAGAN SINGH YADAV	01-02-2010
3133	14567217P	HAV	JAGDISH SINGH	01-05-2010
3134	14562888P	HAV	JAGESHWAR SINGH	01-02-2010
3135	14564846F	HAV	JAI KISHORE DUBY	01-03-2010
3136	14563163F	HAV	JAI MANGAL SINGH	01-02-2010
3137	14564272A	HAV	JAI PRAKASH MISHRA	01-03-2010
3138	14566982W	HAV	JAI PRAKASH PRASAD	01-05-2010
3139	14562645K	HAV	JAI SINGH	01-02-2010
3140	14563467Y	HAV	JAIBIR SINGH TOMAR	01-02-2010
3141	14563040P	HAV	JAINENDRA PRASAD SINGH	01-02-2010
3142	14564245W	HAV	JAIPAL SINGH	01-03-2010
3143	14567737A	HAV	JAN MOHAMMAD	01-06-2010

3144	14565219F	HAV	JANARDAN PRASAD SINGH	01-03-2010
3145	14566748A	HAV	JASMER SINGH KHARAB	01-04-2010
3146	14592450N	HAV	JATHAR RAJENDRA KUNDLIK	01-03-2010
3147	14563193Y	HAV	JAYA DEVAN A	01-11-2009
3148	14562871F	HAV	JITENDER KUMAR	01-03-2010
3149	14570004M	HAV	JIWAN SINGH	01-03-2010
3150	14568440L	HAV	JOGESH CHANDRA CHOUDARY	01-07-2010
3151	14568701N	HAV	JOHNY KUTTY K	01-07-2010
3152	14564913F	HAV	JOLEN MINJ	01-03-2010
3153	14564266M	HAV	JURKAN ALI LASKAR	01-03-2010
3154	14564595H	HAV	K B THAPA	01-03-2010
3155	14564601L	HAV	K C SAIKIA	01-03-2010
3156	14568970A	HAV	K CHANDRA PANI	01-07-2010
3157	14563843F	HAV	K SELVARAJ	01-02-2010
3158	14564340H	HAV	KABINDRA KUMAR BISWAL	01-03-2010
3159	14566229X	HAV	KADAM SUBHASH CHANDRA	01-04-2010
3160	14567429A	HAV	KAHAK CHANDRA MEDHI	01-05-2010
3161	14570481N	HAV	KAJAL KUMAR NANDY	01-08-2010
3162	14562592W	HAV	KAMI RAM SWARGIARY	01-02-2010
3163	14563162Y	HAV	KAMLESHWAR OJHA	01-02-2010
3164	14564338L	HAV	KANHAIYA THAKUR	01-03-2010
3165	14570672H	HAV	KANHAMA PRASAD YADAV	01-08-2010
3166	14566001F	HAV	KARUNAKARAN PILLAI S	01-04-2010
3167	14563057H	HAV	KASHMIRI LAL SHARMA	01-02-2010
3168	14597958F	HAV	KASINATH MAHAPATRA	01-08-2010
3169	14590741P	HAV	KEDAR NATH YADAV	01-02-2010
3170	14563293K	HAV	KEDAR PRASAD YADAV	01-02-2010
3171	14567219A	HAV	KESHAR SINGH	01-05-2010
3172	14564334P	HAV	KISHORI CHANDRA M	01-03-2010
3173	14564895K	HAV	KRISHAN PAL	01-03-2010
3174	14564042M	HAV	KULBIR SINGH	01-02-2010
3175	14566819W	HAV	KULDHARAM JAT	01-05-2010
3176	14566609W	HAV	KULKARNI ARUN DEVIDAS	01-04-2010
3177	14564345F	HAV	KUNWAR PAL SINGH	01-03-2010
3178	14562866W	HAV	KURDA RAM	01-02-2010
3179	14569403K	HAV	LADHU RAM BISHNOI	01-08-2010
3180	14569368M	HAV	LAL BAHADUR CHAUDHARI	01-07-2010
3181	14562782H	HAV	LALIT KUMAR MAHARAJ	01-02-2010
3182	14563953W	HAV	LALIT MOHAN SINGH KUNWAR	01-02-2010
3183	14566045Y	HAV	LALLAN SINGH	01-04-2010
3184	14569022H	HAV	LALLAN YADAV	01-07-2010
3185	14564789L	HAV	LALLU RAM	01-03-2010
3186	14567610X	HAV	LALLU RAM	01-06-2010
3187	14563632Y	HAV	LOKHANDE BD	01-02-2010
3188	14563404W	HAV	M SUBRAMANIAN	01-02-2010
3189	14566943X	HAV	MADAN LAL	01-05-2010
3190	14568216Y	HAV	MAHENDRA NATH	01-06-2010
3191	14563394X	HAV	MAHENDRA PAL SINGH	01-02-2010

3192	14563705A	HAV	MAN SINGH	01-02-2010
3193	14567340N	HAV	MANDRANTAN BASUMATRY	01-05-2010
3194	14565793A	HAV	MANGAL KUMAR SINGH	01-04-2010
3195	14569970M	HAV	MANI RAM	01-08-2010
3196	14565629X	HAV	MANIK KUMAR NAYAK	01-04-2010
3197	14564372L	HAV	MANNU SINGH	01-03-2010
3198	14570321N	HAV	MANOHAR SINGH BIST	01-08-2010
3199	14592098P	HAV	MATHAYI N P	01-03-2010
3200	14563271L	HAV	MD ALAMGIR ANSARI	01-02-2010
3201	14564213N	HAV	MD JUBAIR SULEMANI	01-02-2010
3202	14564255A	HAV	MD MOJANMEL MONDAL	01-03-2010
3203	14564414M	HAV	MD MUSTAQUEEN	01-03-2010
3204	14568989Y	HAV	MD RAKIMUDDIN	01-07-2010
3205	14565455H	HAV	MD SAHABUDDIN	01-04-2010
3206	14570088L	HAV	MD ZIAUL HAG	01-08-2010
3207	14566910M	HAV	MITHLESH KUMAR	01-05-2010
3208	14570636X	HAV	MITHLESH KUMAR SINGH	01-08-2010
3209	14563115F	HAV	MOHAMMAD SHAHABUDDIN KHALIFA	01-02-2010
3210	14570592L	HAV	MOHAN RAM JANGHU	01-08-2010
3211	14567809Y	HAV	MOHANADAS V	01-06-2010
3212	14591696A	HAV	MOHI RAM SONOWAL	01-03-2010
3213	14564786X	HAV	MP DWIVEDI	01-03-2010
3214	14563434N	HAV	MUNDRIKA PRASAD	01-02-2010
3215	14563472K	HAV	MUNENDRA KUMAR	01-02-2010
3216	14566983Y	HAV	MUNNOO RAM	01-05-2010
3217	14564541F	HAV	MURALEEDHARAN NAIR	01-03-2010
3218	14563849H	HAV	N GOVINDA SAMY	01-12-2009
3219	14565000M	HAV	N K SHARMA	01-04-2010
3220	14569363N	HAV	NABAB SINGH	01-07-2010
3221	14565012F	HAV	NAFE SINGH	01-04-2010
3222	14565468A	HAV	NAND LAL SINGH	01-04-2010
3223	14568402P	HAV	NARAYANAN K K	01-06-2010
3224	14563440F	HAV	NARAYANAN MV	01-02-2010
3225	14566586A	HAV	NAREDNRA PAL SINGH	01-04-2010
3226	14563784A	HAV	NARENDRA PAL SINGH	01-02-2010
3227	14569005H	HAV	NARENDRA PRASAD	01-07-2010
3228	14563389M	HAV	NARENDRAN M	01-02-2010
3229	14564686M	HAV	NARESH PRASAD	01-03-2010
3230	14567018F	HAV	NATHOO RAM	01-05-2010
3231	14567511P	HAV	NAYAN SINGH YALAV	01-06-2010
3232	14566280X	HAV	NAZIM UDDIN	01-04-2010
3233	14565414Y	HAV	NIRMAL SAIKIA	01-03-2010
3234	14562648X	HAV	OM PRAKASH	01-02-2010
3235	14563721X	HAV	OM PRAKASH	01-02-2010
3236	14566540X	HAV	OM PRAKASH VERMA	01-04-2010
3237	14566034M	HAV	PAIR CHAND	01-02-2010
3238	14565654W	HAV	PARAMJEET SINGH	01-04-2010
3239	14563940Y	HAV	PARDEEP KUMAR	01-03-2010

3240	14566344X	HAV	PARMAR SARMAN NATHA	01-04-2010
3241	14563748P	HAV	PARSURAM BARIK	01-02-2010
3242	14569532K	HAV	PONNAPPA BC	01-08-2010
3243	14563497W	HAV	PRADEEPAN B	01-02-2010
3244	14563178K	HAV	PRADIPTA KUMAR BARAL	01-02-2010
3245	14563023P	HAV	PRAKASH CHAND	01-02-2010
3246	14567570F	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-05-2010
3247	14564812N	HAV	PRATAP CHANDRA SINGHA	01-03-2010
3248	14566268W	HAV	PRAVIN MANDAL	01-04-2010
3249	14564120Y	HAV	PRAYAG THAKUR	01-02-2010
3250	14567508P	HAV	PREM SHANKAR SINGH	01-05-2010
3251	14564242H	HAV	PREM SINGH	01-03-2010
3252	14564119K	HAV	PRITHVIRAJ SINGH Y	01-02-2010
3253	14569525N	HAV	PURAN SINGH	01-08-2010
3254	14567989M	HAV	PURAN SINGH	01-06-2010
3255	14563148M	HAV	PURSHOTTAM PRASAD SINGH	01-02-2010
3256	14566287F	HAV	R K SINGHA	01-04-2010
3257	14564876Y	HAV	RABINDRA NATH ROUT	01-03-2010
3258	14569376L	HAV	RADAKRISHNAN VR	01-07-2010
3259	14565766W	HAV	RAJ KISHORE SINGH	01-04-2010
3260	14562926A	HAV	RAJ KUMAR	01-02-2010
3261	14570169L	HAV	RAJ KUMAR AWASTHI	01-08-2010
3262	14593196F	HAV	RAJ KUMAR TIWARI	01-04-2010
3263	14564815F	HAV	RAJ NARAYAN ROY	01-03-2010
3264	14564519W	HAV	RAJ NARAYAN TIWARI	01-03-2010
3265	14569639Y	HAV	RAJAN M	01-08-2010
3266	14564959K	HAV	RAJENDER KUMAR	01-03-2010
3267	14563594N	HAV	RAJENDRA PRAKASH	01-02-2010
3268	14593502L	HAV	RAJENDRA SINGH	01-04-2010
3269	14568870P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-07-2010
3270	14593981X	HAV	RAJENDRAN R	01-04-2010
3271	14565471A	HAV	RAJKARAN YADAV	01-04-2010
3272	14570151P	HAV	RAJPAL SINGH	01-08-2010
3273	13959055X	HAV	RAJU S	01-07-2010
3274	14564873L	HAV	RAKESH KUMAR GAUTAM	01-03-2010
3275	14567392K	HAV	RAM BACHAN SINGH	01-05-2010
3276	14568908N	HAV	RAM BALI MAHTO	01-07-2010
3277	14568839H	HAV	RAM BINESH SHARMA	01-07-2010
3278	14564723P	HAV	RAM CHANDRA JHA	01-03-2010
3279	14598070L	HAV	RAM CHANDRA SINGH	01-08-2010
3280	14567274W	HAV	RAM DAS	01-05-2010
3281	14567379A	HAV	RAM DEV YADAV	01-05-2010
3282	14570192Y	HAV	RAM DHANI YADAV	01-08-2010
3283	14564897P	HAV	RAM KISHAN VISHWAKARMA	01-03-2010
3284	14564167K	HAV	RAM KRIPAL SINGH	01-02-2010
3285	14567612H	HAV	RAM NARESH	01-06-2010
3286	14569733H	HAV	RAM NARESH PD TIWARI	01-08-2010
3287	14567307W	HAV	RAM PAL SINGH	01-05-2010

3288	14596828M	HAV	RAM PAL YADAV	01-07-2010
3289	14563541P	HAV	RAM RAJ GODIYA	01-02-2010
3290	14567834X	HAV	RAM TEJ	01-06-2010
3291	14590736K	HAV	RAMAYAN PRASAD M	01-02-2010
3292	14565573W	HAV	RAMESH CHANDRA KHATI	01-04-2010
3293	14564214W	HAV	RAMESH SHARMA	01-02-2010
3294	14570323Y	HAV	RAMESH SINGH BIST	01-08-2010
3295	14564750Y	HAV	RAMESHWAR NATH PANDEY	01-03-2010
3296	14564347M	HAV	RAMESHWAR PRASAD G	01-03-2010
3297	14565472H	HAV	RAMESHWAR SINGH YADAV	01-04-2010
3298	14564059A	HAV	RAMJEE PRASAD SINGH	01-02-2010
3299	14563080W	HAV	RAMJEE SINGH	01-02-2010
3300	14564617W	HAV	RAMJI	01-03-2010
3301	14566948W	HAV	RAMVIR SHARMA	01-05-2010
3302	14593386N	HAV	RANBIR	01-04-2010
3303	14568725X	HAV	RANBIR SINGH	01-07-2010
3304	14564713L	HAV	RANG BAHADUR SINGH	01-03-2010
3305	14564479A	HAV	RANINDRA PILLAI R	01-03-2010
3306	14568567N	HAV	RANJIT KUMAR DAS	01-07-2010
3307	14563607A	HAV	RANPAL SINGH	01-02-2010
3308	14562556L	HAV	RASBIR SINGH	01-02-2010
3309	14568622Y	HAV	RATI RAM	01-07-2010
3310	14568840X	HAV	RATTAN SINGH	01-07-2010
3311	14591348Y	HAV	RAVINDER KUMAR	01-03-2010
3312	14564758L	HAV	RAVINDRANATH SINGH	01-03-2010
3313	14564910N	HAV	RISHI PAL	01-03-2010
3314	14566702X	HAV	ROSHAN SINGH	01-04-2010
3315	14566231P	HAV	ROZAN	01-04-2010
3316	14566691W	HAV	S IBUNGAJAIMA SINGHA	01-04-2010
3317	14564942W	HAV	S RAJAVELU	01-03-2010
3318	14563596Y	HAV	SABU TR	01-02-2010
3319	14564745N	HAV	SACHIDANAND SINGH	01-03-2010
3320	14566708Y	HAV	SADHU RAM	01-04-2010
3321	14564305A	HAV	SAHADEV SINGH BURAYAN	01-03-2010
3322	14563968Y	HAV	SAMAR KUMAR CHOUDHURY	01-02-2010
3323	14566530N	HAV	SAMUNDER SINGH	01-04-2010
3324	14592977H	HAV	SANJAY KUMAR	01-03-2010
3325	14563227F	HAV	SANJEEV GOGOI	01-02-2010
3326	14598007W	HAV	SANKAR KUMAR DAS	01-08-2010
3327	14563880P	HAV	SANKAR KUMAR JHA	01-03-2010
3328	14564335X	HAV	SARAT CHANDRA PRADHAN	01-03-2010
3329	14565674K	HAV	SARBJIT SINGH	01-04-2010
3330	14563187L	HAV	SARDA NAND	01-02-2010
3331	14563465N	HAV	SATENDRA KUMAR	01-02-2010
3332	14563523M	HAV	SATHEESH KUMAR K	01-02-2010
3333	14563764M	HAV	SATISH KUMAR	01-02-2010
3334	14562693K	HAV	SATRUGHAN RAI	01-02-2010
3335	14564912Y	HAV	SATYA RAM YADAV	01-03-2010

3336	14565931W	HAV	SATYAVRI	01-04-2010
3337	14564377K	HAV	SATYAWAN	01-03-2010
3338	14570728K	HAV	SHAIENDRA KUMAR	01-08-2010
3339	14566810F	HAV	SHAKTI SINGH	01-05-2010
3340	14569557W	HAV	SHANIL KUMAR	01-08-2010
3341	14564289N	HAV	SHANKAR SINGH	01-03-2010
3342	14562606L	HAV	SHINDE ASHOK VASANT	01-02-2010
3343	14568469N	HAV	SHIV RAJ SINGH YADAV	01-06-2010
3344	14569044F	HAV	SHIVAJEE YADAV	01-07-2010
3345	14562948Y	HAV	SHRI CHAND	01-02-2010
3346	14569860X	HAV	SHRIPAL SINGH	01-08-2010
3347	14564616N	HAV	SHYAM BABOO	01-03-2010
3348	14564161H	HAV	SHYAM SUNDER	01-02-2010
3349	14567783P	HAV	SHYAM SUNDER SAHOO	01-06-2010
3350	14564968L	HAV	SIDHESHWAR YADAV	01-03-2010
3351	14563663Y	HAV	SIKANDAR PRASAD	01-02-2010
3352	14567840L	HAV	SINNET SINGH	01-06-2010
3353	14564475K	HAV	SIVA PRASAD K	01-03-2010
3354	14568328Y	HAV	SIVAN KUTTY	01-06-2010
3355	14562918F	HAV	SIVARAJAN	01-02-2010
3356	14563631W	HAV	SK AGNIHOTRI	01-02-2010
3357	14598104N	HAV	SOHIDUL ISLAM	01-08-2010
3358	14564503L	HAV	SREE KUMAR V	01-03-2010
3359	14570340Y	HAV	SRI RAM KUNWAR	01-08-2010
3360	14566618X	HAV	SRI RAMESHWAR SINGH	01-04-2010
3361	14563906Y	HAV	SRINIVASAN AK	01-03-2010
3362	14564759N	HAV	SUBASH CHANDRA SINGH	01-03-2010
3363	14564262W	HAV	SUBASHIS SARKAR	01-03-2010
3364	14569926H	HAV	SUBHASH CHAND	01-08-2010
3365	14564742A	HAV	SUBODH PRASAD SINHA	01-03-2010
3366	14564253P	HAV	SUBRATA KUMAR MONDAL	01-03-2010
3367	14566046F	HAV	SUDAMA SINGH	01-04-2010
3368	14564877F	HAV	SUGUNAN ARIPPA	01-03-2010
3369	14567664Y	HAV	SULTAN SINGH	01-05-2010
3370	14568096L	HAV	SUMER SINGH	01-06-2010
3371	14565278N	HAV	SUMER SINGH	01-03-2010
3372	14564816K	HAV	SUNIL KUMAR	01-03-2010
3373	14564248K	HAV	SURAJMAL	01-03-2010
3374	14568775H	HAV	SURENDRA KUMAR	01-07-2010
3375	14570452Y	HAV	SURENDRA SINGH	01-08-2010
3376	14565021H	HAV	SURENDRA SINGH	01-04-2010
3377	14564986N	HAV	SURENDRAN P	01-03-2010
3378	14566238Y	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2010
3379	14563618M	HAV	SURESH RAM	01-02-2010
3380	14564993K	HAV	SURYANARAYANA MISHRA	01-03-2010
3381	14562841K	HAV	SYED BABA SHAZADA	01-02-2010
3382	14563301X	HAV	TARA KANT JHA	01-02-2010
3383	14563600W	HAV	TEEKAM SINGH	01-02-2010

3384	14563704X	HAV	UDAI RAM	01-02-2010
3385	14566827P	HAV	UDAYA SINGH	01-05-2010
3386	14568345Y	HAV	UDDHAB SHANDRA ROY	01-06-2010
3387	14570049M	HAV	UMA SHANKAR PRASAD	01-08-2010
3388	14564011M	HAV	UTTAM KUMAR MALL	01-02-2010
3389	14567677W	HAV	V MAHADEVAN	01-06-2010
3390	14563570K	HAV	VAZAI PAL SINGH	01-02-2010
3391	14562994N	HAV	VED PRAKASH PUNIA	01-02-2010
3392	14568963K	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2010
3393	14568753K	HAV	VIJAY SHANKAR TIWARI	01-07-2010
3394	14562629M	HAV	VIJAY SINGH	01-02-2010
3395	14563318L	HAV	VIJAY VAHADUR SINGH	01-02-2010
3396	14563377X	HAV	VIJAYA KUMARAN D	01-02-2010
3397	14566355K	HAV	VINAY KUMAR	01-04-2010
3398	14592000W	HAV	VINAY KUMAR RAI	01-03-2010
3399	14562897W	HAV	VINOD KUMAR	01-02-2010
3400	14563616F	HAV	VIRENDRA SINGH	01-02-2010
3401	14564809N	HAV	VISWANTH PRASAD	01-03-2010
3402	14568954H	HAV	WALMIKI RAJENDRA MANGI	01-07-2010
3403	14562682X	HAV	YOGENDRA PRASAD	01-02-2010
3404	14562872K	HAV	YOGENDRA PRASAD	01-02-2010

**ARMY EDUCATION CORPS**

3405	9509376Y	HAV	JITENDRA KUMAR SINGH	01-07-2010
3406	9509668F	HAV	RAM SINGH SHEKHAWAT	01-06-2010

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

3407	7239238F	DFR	AMBIKA RAM	01-05-2010
3408	7239772Y	DFR	BALIRAM SINGH	01-07-2010
3409	7239203L	DFR	DARBAR SINGH	01-03-2010
3410	7239814A	DFR	DHARAM SINGH	01-08-2010
3411	7239662K	DFR	DILIP KUMAR MAHAPATRA	01-04-2010
3412	7239224F	DFR	KAPIL SAH	01-05-2010
3413	7239947W	DFR	MAHENDER PRATAP	01-08-2010
3414	7239281H	HAV	NEMI PANDEY	01-08-2010
3415	7239220L	DFR	PATIL NAMADEV SIDDU	01-05-2010
3416	7239242K	DFR	RAM RAJ SINGH GURJAR	01-06-2010
3417	7239713M	HAV	RANBIR SINGH	01-06-2010
3418	7239208K	DFR	SHANKAR NARHARI CHAUDHARI	01-04-2010
3419	7239688Y	DFR	SURENDRA KUMAR	01-06-2010
3420	7239799W	HAV	SURENDRAN ARIYIL	01-08-2010
3421	7239636H	DFR	SWARANJEET	01-02-2010

**THE INTELLIGENCE CORPS**

3422	2477131L	HAV	LAL CHAND	01-02-2010
3423	15353994Y	HAV	M V RAO	01-06-2010
3424	3985297A	HAV	MANOHAR LALA JASWAL	01-03-2010
3425	7430430N	HAV	RAJESH KUMAR	01-07-2010



3426	3177815Y	HAV	RAMBIR SINGH	01-02-2010
3427	3177871X	HAV	SUNIL RAJPUT	01-03-2010
3428	14591984M	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2010
3429	14567681Y	HAV	TARA CHAND	01-06-2010
3430	14912848L	HAV	YASPAL SINGH	01-07-2010

**CORPS OF MILITARY POLICE**

3431	7773734X	HAV	ANIL TATI	01-03-2010
3432	7773811F	HAV	ANIRUDH KUMAR SINGH	01-06-2010
3433	7773797A	HAV	ANWAR MOHAMMAD	01-06-2010
3434	7773804L	HAV	BADAN SINGH	01-06-2010
3435	7773942M	HAV	BHARAT SINGH	01-08-2010
3436	7774123P	HAV	CHANDRA BHAN	01-08-2010
3437	7775042F	HAV	CHATRADHAR KALITA	01-03-2010
3438	7773847A	HAV	DALIP SINGH	01-07-2010
3439	7773855Y	HAV	DULLIPUDI VENKATA S R	01-08-2010
3440	7773639L	HAV	KAJAL VARIABANAND	01-02-2010
3441	7775115H	HAV	KHAIRU JAMAN	01-06-2010
3442	7774117F	HAV	NAZARUL ISLAM BARBHUIYA	01-08-2010
3443	7775028P	HAV	P MAHALINGAM	01-02-2010
3444	7773651M	HAV	RADHA KRISHAN YADAV	01-02-2010
3445	7773875M	HAV	RAJDHAR CHAUBEY	01-07-2010
3446	7773668A	HAV	RAMESH CHANDRA SINGH	01-02-2010
3447	7773936Y	HAV	SHESH NATH THAKUR	01-06-2010
3448	7775131A	HAV	SRINIBASA KARAN	01-06-2010
3449	7775082H	HAV	SUJIT KUMAR DAS	01-04-2010
3450	7773649P	HAV	SURENDRA PRASAD SINGH	01-02-2010

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

3451	14395588K	HAV	PATIL SAMBHAJI GANGADHAR	01-08-2010
3452	4556119X	HAV	PRITAM SINGH	01-04-2010
3453	14493742N	HAV	SAMSHAR SINGH	01-03-2010
3454	14395350K	HAV	TAPAN BISWAS	01-08-2010
3455	2780256M	HAV	VILAS DATTU HIRUGADE	01-04-2010

**THE PIONEER CORPS**

3456	8430335X	HAV	ANAND PAL SINGH	01-02-2010
3457	8030230A	HAV	HIRALAL JADAV	01-02-2010
3458	8031850H	HAV	KANGI RAM GUJAR	01-06-2010
3459	8031878H	HAV	MOHAN LAL	01-07-2010
3460	8031799N	HAV	PRABHAKARAN NG	01-04-2010
3461	8030513F	HAV	RAJENDRA SINGH	01-08-2010
3462	8030279W	HAV	RAMESH KUMAR	01-04-2010
3463	8031860M	HAV	SAROJ NATH GOSWAMI	01-07-2010
3464	8030397K	HAV	SHAIK BAKSHI	01-07-2010
3465	8031884W	HAV	SURAWASE FULCHAND SADU	01-08-2010

**ARMY POSTAL SERVICE**

3466	8370949N	HAV	ARUN KUMAR	01-05-2010
3467	8430371H	HAV	ASHOK	01-02-2010
3468	8430325N	HAV	ATAR SINGH	01-02-2010
3469	8430364M	HAV	BABULAL GURJAR	01-02-2010
3470	8430593X	HAV	BALAK RAM	01-04-2010
3471	8430621Y	HAV	DIPANKAR MANDAL	01-06-2010
3472	8430447X	HAV	DIWAN SINGH	01-04-2010
3473	8430539K	HAV	GULSHAN RAI VERMA	01-04-2010
3474	8430523Y	HAV	JAG RAM	01-03-2010
3475	8430342N	HAV	JIWAN SINGH	01-02-2010
3476	8430522W	HAV	KRISHAN LAL	01-03-2010
3477	8430628H	HAV	LAXMAN MARANDI	01-06-2010
3478	8430365P	HAV	MAHENDAR SINGH	01-02-2010
3479	8430359F	HAV	MOHANAKUMAR P	01-02-2010
3480	8430338L	HAV	N HARI GOPAL SINGHA	01-02-2010
3481	8430455W	HAV	NANDU RAM	01-03-2010
3482	8430524F	HAV	NINGAPPA	01-04-2010
3483	8430591M	HAV	PARDEEP KAUSHAL	01-04-2010
3484	8430343W	HAV	PRITAM SINGH THAKUR	01-02-2010
3485	8430322A	HAV	RAJA RAM	01-02-2010
3486	8430494P	HAV	RAJJAN LAL	01-03-2010
3487	8430356N	HAV	RAKESH SINGH	01-02-2010
3488	8430515A	HAV	SAJEEVAN N	01-03-2010
3489	8430649Y	HAV	SHIV SHANKER SINGH	01-06-2010
3490	8430491F	HAV	SHYAMSUNDER DWIVEDI	01-03-2010

**DEFENCE SECURITY CORPS**

3491	10243172K	HAV	ADHIR CHANDRA ROY	01-05-2010
3492	10243308H	HAV	A GOPI MOHAN SINGHA	01-07-2010
3493	10326872W	HAV	BS HOOLIKATTI	01-06-2010
3494	4249062M	HAV	JALDHAR PRASAD TIWARI	01-02-2010
3495	10301775N	HAV	KHANGAR SINGH	01-05-2010
3496	10180949X	HAV	RAMNATH SINGH	01-05-2010
3497	5340730F	HAV	YUDH BAHADUR BARAL	01-08-2010

**TERRITORIAL ARMY**

3498	103290074	HAV	A ANANDAM	01-02-2010
3499	10405414F	HAV	ARVIND KUMAR	01-07-2010
3500	10227921L	HAV	AVADHUT PATIL	01-04-2010
3501	10291092K	HAV	BABU PUTHIYA VEETTI	01-06-2010
3502	10374323N	HAV	BAL BAHADUR SUBBA	01-06-2010
3503	10274484F	HAV	DEBASISH BHATTACHARJEE	01-06-2010
3504	10291081X	HAV	DEVADASAN A	01-06-2010
3505	10227916M	HAV	GAJANAN CHOUDHARI	01-04-2010
3506	10466336L	HAV	HARBANS SINGH	01-05-2010
3507	10361996K	HAV	KANHIYA LAL	01-07-2010

3508	10361994Y	HAV	KISHORI LAL THAKUR	01-07-2010
3509	10452588M	HAV	K SUBRAMANIAN	01-02-2010
3510	10166577M	HAV	KT SHIBU	01-06-2010
3511	10405402M	HAV	MAHAVIR SINGH	01-07-2010
3512	10291091F	HAV	MN RAJAN	01-06-2010
3513	10452590K	HAV	M PERUMAL	01-02-2010

[No. B/43432/ID-10/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt Gen, Adjutant General

**संशोधन**

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 13(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—भारत के राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना संख्या 02(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2008 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियमावली, 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:—

**हाशिया के नीचे****अवैतनिक रिसालदार मेजर/सुबेदार मेजर के रूप में****8 कैवलरी**

कमसंख्या 5 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

2 भारत के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) संख्या 10 अ दिनांक 15 जनवरी 2008 के अवसर पर एन सी ओज को सेवा निर्मित होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

**हाशिया के नीचे****अवैतनिक नायब रिसालदार/नायब सुबेदार के रूप में****गार्ड्स**

कमसंख्या 1244 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

3 भारत के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) संख्या 11 अ दिनांक 15 अगस्त 2009 के अवसर पर एन सी ओज को सेवा में रहते हुए सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

**हाशिया के नीचे****अवैतनिक नायब रिसालदार/नायब सुबेदार के रूप में****सेना चिकित्सा कोर**

कमसंख्या 2488 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

4 भारत के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) संख्या 01 अ दिनांक 26 जनवरी 2010 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा में रहते हुए सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

**हाशिया के नीचे****अवैतनिक कप्तान के रूप में****सेना सेवा कोर ( दक्षिण )**

कमसंख्या 20533

के लिए  
पढेइन्द्राजीत  
इन्द्रजीत

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में8 आर्मड रेजीमेन्ट

कमसंख्या 27	के लिए	जेसी 241172 एम
	पढे	जेसी 241172 एन

आर्टिलरी रेजीमेन्ट

कमसंख्या 108 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

सेना चिकित्सा कोर

कमसंख्या 922 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

पायोनीयर कोर

कमसंख्या 1075	के लिए	सी 8 2928908 वाई
	पढे	जेसी 829298 वाई

5 भारत के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) संख्या 02 अ दिनांक 26 जनवरी 2010 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निर्मित होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचेअवैतनिक कप्तान के रूप में51 आर्मड रेजीमेन्ट

कमसंख्या 20	के लिए	राम कुमार सिंह
	पढे	राम कुवर सिंह

सिगनल्स कोर

कमसंख्या 200 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

आसाम रेजीमेन्ट

कमसंख्या 475 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

सेना चिकित्सा कोर

कमसंख्या 666	के लिए	01/11/2009
	पढे	01/10/2009

प्रादेशिक सेना

कमसंख्या 794	के लिए	सुबेदार अवैतनिक लैफ्टिनेंट
	पढे	सुबेदार मेजर अवैतनिक लैफ्टिनेंट
	के लिए	01/04/2009
	पढे	01/03/2009

हाशिया के नीचेअवैतनिक लैफ्टिनेंटमैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

कमसंख्या 114

के लिए  
पढ़ेवीर सिंह गुलीरा  
वीर सिंह गुलेरियापंजाब रेजीमेन्ट

कमसंख्या 115

के लिए  
पढ़े31/10/2009  
01/11/2009हाशिये के नीचेअवैतनिक रिसालदार मेजर/सुबेदार मेजर के रूप में45 कैवलरी

कमसंख्या 47

के लिए  
पढ़ेभूप सिंह  
भुप सिंह

कमसंख्या 83

के लिए  
पढ़ेजेसी 240883 डबल्यू  
जेसी 240833 डबल्यू

कमसंख्या 119

के लिए  
पढ़ेजेसी 240982 एच  
जेसी 240892 एचआर्टिलरी रेजीमेन्ट

कमसंख्या 427 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

वायु सुरक्षा सेना

कमसंख्या 463

के लिए  
पढ़ेजेसी 927176 डबल्यू  
जेसी 267176 डबल्यूसिगनल्स कोर

कमसंख्या 799

के लिए  
पढ़ेआर एल भारी  
आर एल भारती

कमसंख्या 802

के लिए  
पढ़ेराज किशोर  
राज कशोरग्रेनिडियर्स

कमसंख्या 987

के लिए  
पढ़े01/01/2010  
01/10/2009

कमसंख्या 989

के लिए  
पढ़े01/01/2010  
01/10/2009

सिखलाई इन्फैन्ट्री

कमसंख्या 1055	के लिए पढे	सुबेदार सबुदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट
---------------	---------------	--

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

कमसंख्या 914	के लिए पढे	कुटी संकरन सीपी कुटी शंकरन सीपी
कमसंख्या 923	के लिए पढे	नंदजी गोसोवामी नंदजी गोस्वामी
कमसंख्या 928	के लिए पढे	राधा किशीरहना पिलई डी राधा कृष्णन पिलई डी
कमसंख्या 942	के लिए पढे	शेखर चन्द्र तिवारि शेखर चन्द्र तिवारि

सेना सेवा कोर ( दक्षिण )

कमसंख्या 1335 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

सेना चिकित्सा कोर

कमसंख्या 1422 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें  
कमसंख्या 1445 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 1467	के लिए पढे	सुबेदार सबुदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट
कमसंख्या 1476	के लिए पढे	सुबेदार सबुदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट

कमसंख्या 1479 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 1484 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

रिमाउन्ट वेटनरी कोर

कमसंख्या 1734	के लिए पढे	सुबेदार सबुदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट
---------------	---------------	--

हाशिया के नीचेअवैतनिक रिसालदार/सुबेदारआर्मड कोर

कमसंख्या 16	के लिए पढे	बिशन सिंह बिशन दास
-------------	---------------	-----------------------

कमसंख्या 22	के लिए पढ़े	मूड चंद मूल चंद
-------------	----------------	--------------------

**आर्टिलरी रेजीमेन्ट**

कमसंख्या 47	के लिए पढ़े	बालकिशन सिंह बाल कृष्ण सिंह
कमसंख्या 58	के लिए पढ़े	एलगोदर सांतिनाथ एलगोदर शान्तिनाथ
कमसंख्या 75	लिए पढ़े	किशोर दास धिमान किशोरी दास धिमान
कमसंख्या 90	के लिए पढ़े	प्रदीप कुमार मिश्रा प्रदीप कुमार मिश्रा
कमसंख्या 97	के लिए पढ़े	जेसी 269903 एन जेसी 269103 एन
कमसंख्या 102	के लिए पढ़े	रंगेश चौधरी रंगेश चौधरी
कमसंख्या 105	के लिए पढ़े	एस मनि हर सिंघा एस मनिहर सिंघा
कमसंख्या 111	के लिए पढ़े	श्याम सुंदर सिंह श्याम सुंदर
कमसंख्या 113	के लिए पढ़े	सुबाश चन्द्र राउत सुभाष चन्द्र राउत
कमसंख्या 121	के लिए पढ़े	ठाकुर उदयरज सिंह ठाकुर उदयरज सिंह शलिकराम सिंह

**सिगनल्स कोर**

कमसंख्या 215 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

**11 गोरखा राईफल्स**

कमसंख्या 267 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

**सेना आयुध कोर**

कमसंख्या 295	के लिए पढ़े	विजयराज आर विजयराज आर
कमसंख्या 296	के लिए पढ़े	यशवंत सिंह यशवंत सिंह

6 भारत के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) संख्या 03 अ दिनांक 26 जनवरी 2010 के अवसर पर एन सी ओज को सेवा में रहते हुए सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे

अवैतनिक नायब रिसालदार/सुबेदार

8 कैवलरी

कमसंख्या 5	के लिए पदे	कोलबीर सिंह कुलबीर सिंह
------------	---------------	----------------------------

आर्टिलरी रेजीमेन्ट

कमसंख्या 54 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 57	के लिए पदे	अमर नाथ सिंह यादव अमर नाथ सिंह यादव
-------------	---------------	--

कमसंख्या 58	के लिए पदे	अमृत देव बर्मा अमृत देव बर्मा
-------------	---------------	----------------------------------

कमसंख्या 85 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 86	के लिए पदे	14392032पी 14392032ए
-------------	---------------	-------------------------

कमसंख्या 87 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 98	के लिए पदे	भारत सिंह भरत सिंह
-------------	---------------	-----------------------

कमसंख्या 100	के लिए पदे	भारत सिंह भरत सिंह
--------------	---------------	-----------------------

कमसंख्या 129	के लिए पदे	सी ए रामचन्द्रा चवन अपसा रामचन्द्र
--------------	---------------	---------------------------------------

कमसंख्या 132	के लिए पदे	सी एस चौधरी चन्द्र शेखर चौधरी
--------------	---------------	----------------------------------

कमसंख्या 133	के लिए पदे	सी वाई मलाप्पा गोल चन्द्राप्पा येल्लप्पा मैल्लाप्पा गोल
--------------	---------------	--

कमसंख्या 139	के लिए पदे	डी ए एस भाई दाभी अखम सिंह हीरा भाई
--------------	---------------	---------------------------------------

कमसंख्या 160 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 163 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें



कमसंख्या 169 के लिए पढ़े जी जी तोरसाले  
गुनवंत गुंदाजी तोरसाले

कमसंख्या 170 के लिए पढ़े जी वी राव  
गुरपति वेंकटेशवर राव

कमसंख्या 178 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 188 के लिए पढ़े एच ए कथल  
हुसैनसाब अब्दुलसाब काथल

कमसंख्या 189 के लिए पढ़े एच आर एफ सकारकर  
हरि राम फोगल सकारकर

कमसंख्या 201 के लिए पढ़े हेम कांथ ब्रामन  
हेम कांत बर्मन

कमसंख्या 216 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 249 के लिए पढ़े कमिलेश प्रसाद मिश्रा  
कमलेश प्रसाद मिश्रा

कमसंख्या 279 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 283 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 299 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 323 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 327 के लिए पढ़े माली महा देव वियाहल  
माली महा देव विटल

कमसंख्या 337 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 358 के लिए पढ़े नजीर अहमद शाह  
नजीर अहमद शाह

कमसंख्या 364 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 368 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 371 के लिए पढ़े पी सी एस नायडू  
पी चन्द्र सेकेरा नायडू

कमसंख्या 397 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 400 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 402 के लिए पढ़े आर पी कुशवाह  
राजेन्द्र प्रसाद कुशवाह

कमसंख्या 410 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 411 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 484	के लिए पदे	रविंदर कुमार रविन्द्र कुमार
कमसंख्या 489	के लिए पदे	एस सी तिकदेर सुषेन चन्द्र तिकदेर
कमसंख्या 490	के लिए पदे	एस एन अवस्थी सत्येन्द्र नारायन अवस्थी
कमसंख्या 491	के लिए पदे	एस एन सिंह सतेन्द्र नारायन सिंह
कमसंख्या 492	के लिए पदे	एस आर विश्वनाथम समपथी राव विश्वनाथम
कमसंख्या 513	के लिए पदे	सेवा सिंह सेवा राम

कमसंख्या 532 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 536 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 540	के लिए पदे	सुरेन्द्र सिंह सुरीन्द्र सिंह
--------------	---------------	----------------------------------

कमसंख्या 546 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 555	के लिए पदे	तरसेम सिंह तरसेम सिंह
--------------	---------------	--------------------------

कमसंख्या 565 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 568	के लिए पदे	उत्तम सिंह उत्तम चन्द
--------------	---------------	--------------------------

कमसंख्या 574 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 588 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

वायु सेना सुरक्षा

कमसंख्या 628	के लिए पदे	15105323वाई 15105373वाई
कमसंख्या 638	के लिए पदे	राकेश कुमार रमेश कुमार

मद्रास इंजीनियर समूह

कमसंख्या 673	के लिए पढे	भिमप्या बीरांगदी बी बीरांगदी
कमसंख्या 688	के लिए पढे	01/12/2009 01/11/2009
कमसंख्या 705	के लिए पढे	कृषणा प्रसाद सिंह कृषणा प्रसाद सी
कमसंख्या 720	के लिए पढे	मोहम्मद रहानी थुला शरीफ मोहम्मद आर शरीफ
कमसंख्या 737	के लिए पढे	पीथाम्बरन के पीताम्बरन के
कमसंख्या 749	के लिए पढे	रेघु नंदन जी रेघु नंधन जी
कमसंख्या 750	के लिए पढे	01/12/2009 01/11/2009
कमसंख्या 757	के लिए पढे	शोक मोहम्मद हुसैन शोक मोहम्मद

कमसंख्या 752 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

बॉम्बे इंजीनियर समूह

कमसंख्या 966	के लिए पढे	1536079एक्स 1569079 एक्स
--------------	---------------	-----------------------------

सिगनल्स कोर

कमसंख्या 1030	के लिए पढे	14267846डबल्यू 14267846एन
कमसंख्या 1033	के लिए पढे	अशोकन टी असोकन टी
कमसंख्या 1058	के लिए पढे	विजोय कुमार मोहंथी बिजोय कुमार मोहंती
कमसंख्या 1059	के लिए पढे	बिजसी प्रताप कुशावाह बिजय प्रताप कुशावाह
कमसंख्या 1060	के लिए पढे	बिंधयचल प्रसाद बिंध्याचल प्रसाद
कमसंख्या 1072	के लिए पढे	सी वेरवन सी वेरावन

कमसंख्या 1103	के लिए पढे	गजेमद्र प्रताप यादव गजेन्द्र प्रसाद यादव
कमसंख्या 1107	के लिए पढे	गिगोरी ए पी त्रिगोरी ए पी
कमसंख्या 1113	के लिए पढे	गुलाब चन्द चौबे गुलाब चन्द चौबे
कमसंख्या 1115	के लिए पढे	गुरताज सिंह गुरतेज सिंह
कमसंख्या 1112	के लिए पढे	हरेन्द्र सिंह हरेन्द्र सिंह
कमसंख्या 1161	के लिए पढे	कनैया सिंह कन्हैया सिंह
कमसंख्या 1166	के लिए पढे	14252442एक्स 14252442एन
कमसंख्या 1208	के लिए पढे	31/10/2009 01/12/2009
कमसंख्या 1219	के लिए पढे	मुरली मोहन एन एन मुरली मोहनन एन एन
कमसंख्या 1227	के लिए पढे	नंद लाल मालकर नंद लाल मलाकर
कमसंख्या 1230	के लिए पढे	नरेन्द्र कुमार अवस्थी नरेन्द्र कुमार अवस्थी
कमसंख्या 1233	के लिए पढे	01/12/2009 01/11/2009
कमसंख्या 1241	के लिए पढे	14251583 एल 14251583डबल्यू
कमसंख्या 1252	के लिए पढे	परमात्मा नंद के परमात्मा नंद कुशवाह
कमसंख्या 1257	के लिए पढे	पाटिल लैलास नाना पाटिल कैलास नाना
कमसंख्या 1264	के लिए पढे	प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार
कमसंख्या 1268	के लिए पढे	प्रबोध चन्द्र दास प्रबोध चन्द्र दास

कमसंख्या 1324	के लिए पढे	14253508एल. 14253508एफ
कमसंख्या 1345	के लिए पढे	समशेर सिंह समशेर सिंह विष्ट
कमसंख्या 1353	के लिए पढे	सरवेशवर सिंह
कमसंख्या 1385	के लिए पढे	सरवेशर सिंह सिवदास के के सिवदास के के
कमसंख्या 1426	के लिए पढे	01/11/2009 01/12/2009
कमसंख्या 1442	के लिए पढे	वाँ उमाकान्त दिनकर वाँ उमाकान्त दिनकर

मैकेनाइजड पैदल सेना रेजीमेन्ट

कमसंख्या 1479	के लिए पढे	अरुन चन्द्र बेहरा अरुन चन्द्र बेहरा
	के लिए पढे	01/11/2009 01/10/2009
कमसंख्या 1512	के लिए पढे	शिव राम सिंगम सेंगरा शिव राम सिंह सेंगर
कमसंख्या 1517	के लिए पढे	सुरेश महातो सुरेश महातो
कमसंख्या 1518	के लिए पढे	ताज प्रताप सिंह तेज प्रताप सिंह

राजपूत रेजीमेन्ट

कमसंख्या 1696 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाय  
कमसंख्या 1701 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाय

गढ़वाल राईफल्स

कमसंख्या 1913	के लिए पढे	01/10/2009 01/12/2009
कमसंख्या 1924	के लिए पढे	प्राताप सिंह प्रताप सिंह
कमसंख्या 1928	के लिए पढे	रगुबीर सिंह भंडारी रघुबीर सिंह भंडारी

कमसंख्या 1931	के लिए पदे	राजेन्द्र प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद
कमसंख्या 1935	के लिए पदे	रमबीर सिंह रणबीर सिंह
<u>आसाम रेजीमेन्ट</u>		
कमसंख्या 2002	के लिए पदे	डेविड संगमा डेविड संगमा
<u>सेना आयुध कोर</u>		
कमसंख्या 2692	के लिए पदे	बी बसनायक मल्लप्पा नायक बसनायक मल्लप्पा नायक
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>		
कमसंख्या 2499 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें		
कमसंख्या 2500 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें		
कमसंख्या 2562 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें		
कमसंख्या 2611 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें		
<u>आर्मी पोस्टल सर्विस</u>		
कमसंख्या 3182	के लिए पदे	मंजुनाथ बी एन मंजुनाथ बी एन
कमसंख्या 3184	के लिए पदे	दफर हवलदार
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>		
कमसंख्या 3188	के लिए पदे	01/02/2009 01/09/2009

[सं. बी/43432/कोरी-2010/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश शंकरवाल, ले जनरल, एडजुटेंट जनरल

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 13(E) dated 15th August, 2010.**—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 02(E) dated 26 January, 2008, notifying the grant of honorary ranks to JCOs on retirement under para 179 of Regulation for the Army, 1987 is amended as under :—

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR MAJOR/SUBEDAR MAJOR****B.CAVALRY****DELETE SERIAL 5 AND CONNECTED ENTRIES**

2. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 10 (E) dated 15 January 2008, notifying the grant of honorary ranks of N/A Risaldar/Subedar to NCOs on retirement under Para 180 of Regulation for the Army 1987 is amended as under : -

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/NAIB SUBEDARS****THE BRIGADE OF GUARDS****DELETE SERIAL 1224 AND CONNECTED ENTRIES**

3. The Gazette of India ( Extraordinary ) Notification No 11 ( E ) dated 15 August 2009, notifying the grant of honorary ranks of Nb Risaldar/Subedar to NCOs on retirement under Para 180 of Regulation for the Army 1987 is amended as under : -

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/NAIB SUBEDARS****ARMY MEDICAL CORPS****DELETE SERIAL 2488 AND CONNECTED ENTRIES**

4. The Gazette of India ( Extraordinary ) Notification No 01 ( E ) dated 26 January 2010, notifying the grant of honorary commission to JCOs on the active list under Para 177 of Regulations for the Army is amended as under : -

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY CAPTAINS****ARMY SERVICE CORPS (SOUTH)**

SERIAL 205	FOR	-	INDRAJIT SINGH
	READ	-	INDARJIT SINGH

**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****6 ARMOURED REGIMENT**

SERIAL 27	FOR	-	JC 241172M
	READ	-	JC 241172N

**REGIMENT OF ARTILLERY****DELETE SERIAL 108 AND CONNECTED ENTRIES****ARMY MEDICAL CORPS****DELETE SERIAL 922 AND CONNECTED ENTRIES****THE PIONEER CORPS**

SERIAL 1075	FOR	-	C8 292898Y
	READ	-	JC 829298Y

5. The Gazette of India ( Extraordinary ) Notification No 02 ( E ) dated 26 January 2010, notifying the grant of honorary ranks to JCOs on retirement under Para 179 of Regulation for the Army 1987 is amended as under : -

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY CAPTAINS****51 ARMOURED REGIMENT**

SERIAL 20	FOR	-	RAM KUMAR SINGH
	READ	-	RAM KUWAR SINGH

**CORPS OF SIGNALS****DELETE SERIAL 200 AND CONNECTED ENTRIES**

**THE ASSAM REGIMENT****DELETE SERIAL 475 AND CONNECTED ENTRIES****ARMY MEDICAL CORPS**

SERIAL 666	FOR	-	01.11.2009
	READ	-	01.10.2009

**TERRITORIAL ARMY**

SERIAL 794	FOR	-	SUB & HONY LT
	READ	-	SUB MAJ & HONY LT
	FOR	-	01.04.2009
	READ	-	01.03.2009

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY LIEUTENANTS****THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 114	FOR	-	VEER SINGH GULEIRA
	READ	-	VEER SINGH GULERIA

**THE PUNJAB REGIMENT**

SERIAL 115	FOR	-	31.10.2009
	READ	-	01.11.2009

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR MAJOR/SUBEDAR MAJOR****45 CAVALRY**

SERIAL 47	FOR	-	BHOOP SINGH
	READ	-	BHUP SINGH
SERIAL 83	FOR	-	JC 240883W
	READ	-	JC 240833W
SERIAL 119	FOR	-	JC 240982H
	READ	-	JC 240892H

**REGIMENT OF ARTILLERY****DELETE SERIAL 427 AND CONNECTED ENTRIES****ARMY AIR DEFENCE**

SERIAL 463	FOR	-	JC 927176W
	READ	-	JC 267176W

**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 799	FOR	-	R L BHARI
	READ	-	R L BHARTI
SERIAL 802	FOR	-	RAJ KISHOR
	READ	-	RAJ KISHORE

**THE GRENADIERS**

SERIAL 987	FOR	-	01.01.2010
	READ	-	01.10.2009
SERIAL 989	FOR	-	01.01.2010
	READ	-	01.10.2009



**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

SERIAL 1055	FOR	-	SUB
	READ	-	SUB & HONY LT

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 914	FOR	-	KUTTY SANKARAN CP
	READ	-	KUTTY SHANKARAN CP

SERIAL 923	FOR	-	NANDJI GOSWAMI
	READ	-	NANDJI GOSWAMI

SERIAL 928	FOR	-	RADHA KSIRHNA PILLAI D
	READ	-	RADHA KRISHNA PILLAI D

SERIAL 942	FOR	-	SHEKHAR CHANDRA TIWARI
	READ	-	SHEKHAR CHANDRA TEWARI

**ARMY SERVICE CORPS (SOUTH)****DELETE SERIAL 1335 AND CONNECTED ENTRIES****ARMY MEDICAL CORPS****DELETE SERIAL 1422 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 1445 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 1467	FOR	-	SUB
	READ	-	SUB & HONY LT

SERIAL 1476	FOR	-	SUB
	READ	-	SUB & HONY LT

**DELETE SERIAL 1479 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 1484 AND CONNECTED ENTRIES****REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

SERIAL 1734	FOR	-	SUB
	READ	-	SUB & HONY LT

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR /SUBEDAR****ARMOURED CORPS**

SERIAL 16	FOR	-	BISHAN SINGH
	READ	-	BISHAN DASS

SERIAL 22	FOR	-	MOOD CHAND
	READ	-	MOOL CHAND

**REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 47	FOR	-	BALKISHAN SINGH
	READ	-	BAL KRISHUN SINGH

SERIAL 58	FOR	-	ELAGOUDAR SHANTINATH
	READ	-	ELAGOUDAR SANTINATH

SERIAL 75	FOR	-	KISHORE DASS DHIMAN
	READ	-	KISHORI DASS DHIMAN

SERIAL 90	FOR READ	- -	PRADEEP KUMAR MISHRA PRADIP KUMAR MISHRA
SERIAL 97	FOR READ	- -	JC 269903N JC 269103N
SERIAL 102	FOR READ	- -	RANGESH CHAUDHARY RANGESH CHAUDHURY
SERIAL 105	FOR READ	- -	S MANI HAR SINGHA S MANIHAR SINGHA
SERIAL 111	FOR READ	- -	SHYAM SUNDAR SINGH SHYAM SUNDER
SERIAL 113	FOR READ	- -	SUBASH CHANDRA ROUT SUBHASH CHANDRA ROUT
SERIAL 121	FOR READ	- -	THAKUR UDRAJ SINGH THAKUR UDRAJ SINGH SHALIKRAM SINGH

**CORPS OF SIGNALS****DELETE SERIAL 215 AND CONNECTED ENTRIES****11 GORKHA RIFLES****DELETE SERIAL 267 AND CONNECTED ENTRIES****ARMY ORDNANCE CORPS**

SERIAL 295	FOR READ	- -	VIJAYRAJ R VIJAYARAJ R
SERIAL 296	FOR READ	- -	YASHWANT SINGH YASHAWANT SINGH

6. The Gazette of India ( Extraordinary ) Notification No 03 (E) dated 26 January 2010, notifying the grant of honorary ranks of Nb Risaldar/Subedar to NCOs on retirement under Para 180 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

**UNDER HEADING                      TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS****8 CAVALRY**

SERIAL 5	FOR READ	- -	KUALBIR SINGH KULBIR SINGH
----------	-------------	--------	-------------------------------

**REGIMENT OF ARTILLERY****DELETE SERIAL 54 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 57	FOR READ	- -	AMAR NATH SINGH YADAV AMAR NATH SINGH YADAVA
SERIAL 58	FOR READ	- -	AMRIT DEB VERMA AMRIT DEB BARMA

**DELETE SERIAL 85 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 86	FOR READ	- -	14392032P 14392032A
-----------	-------------	--------	------------------------

**DELETE SERIAL 87 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 98	FOR READ	- -	BHARAT SINGH BHRAT SINGH
-----------	-------------	--------	-----------------------------

SERIAL 100	FOR READ	- -	BHARAT SINHG BHARAT SINGH
SERIAL 129	FOR READ	- -	C A RAMACHANDRA CHAVAN APPASA RAMCHANDRA
SERIAL 132	FOR READ	- -	C S CHOUDHARY CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY
SERIAL 133	FOR READ	- -	C Y MALLAPPA GOL CHANDRAPPA YELLAPPA MALLAPPA GOL
SERIAL 139	FOR READ	- -	D A S H BHAI DABHI AKHAM SINH HIRA BHAI

**DELETE SERIAL 160 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 163 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 169	FOR READ	- -	G G TORSALLE GUNWANT GUNDAJI TORSALLE
SERIAL 170	FOR READ	- -	G V RAO GURAPATI VENKATESHWARA RAO

**DELETE SERIAL 178 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 188	FOR READ	- -	H A KATHAL HUSSANSAB ABDULSAB KATHAL
SERIAL 189	FOR READ	- -	H R F SAKKARKAR HARI RAM FOGAL SAKKARKAR
SERIAL 201	FOR READ	- -	HEM KANTH BRAMAN HEM KANTA BARMAN

**DELETE SERIAL 216 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 249	FOR READ	- -	KAMILESH PRASAD MISHR KAMLESH PRASAD MISHRA
------------	-------------	--------	--

**DELETE SERIAL 279 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 283 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 299 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 323 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 327	FOR READ	- -	MALLI MAHA DEV VIYYHAL MALLI MAHA DEV VITTHAL
------------	-------------	--------	--

**DELETE SERIAL 337 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 358	FOR READ	- -	NAZIR AHMAD SHAH NAZIR AHMED SHAH
------------	-------------	--------	--------------------------------------

**DELETE SERIAL 364 AND CONNECTED ENTRIES**

**DELETE SERIAL 368 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 371           FOR   -   P C S NAIDU  
                      READ  -   P CHANDRA SEKERA NAIDU

**DELETE SERIAL 397 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 400 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 402           FOR   -   R P KUSHWAHA  
                      READ  -   RAJENDRA PRASAD KUSHWAHA

**DELETE SERIAL 410 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 411 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 484           FOR   -   RAVINDAR KUMAR  
                      READ  -   RAVINDRA KUMAR

SERIAL 489           FOR   -   S C TIKADER  
                      READ  -   SUSHEN CHANDRA TIKADER

SERIAL 490           FOR   -   S N AWASTHI  
                      READ  -   SATYENDRA NARAYAN AWASTHI

SERIAL 491           FOR   -   S N SINGH  
                      READ  -   SATENDER NARAYAN SINGH

SERIAL 492           FOR   -   S R VISWANATHAM  
                      READ  -   SAMPATHI RAO VISHWANATHAM

SERIAL 513           FOR   -   SEWA SINGH  
                      READ  -   SEWA RAM

**DELETE SERIAL 532 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 536 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 540           FOR   -   SURENDER SINGH  
                      READ  -   SURINDER SINGH

**DELETE SERIAL 546 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 555           FOR   -   TERSEM SINGH  
                      READ  -   TARSEM SINGH

**DELETE SERIAL 565 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 568           FOR   -   UTTAM SINGH  
                      READ  -   UTTAM CHAND

**DELETE SERIAL 574 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 588 AND CONNECTED ENTRIES****ARMY AIR DEFENCE**

SERIAL 628           FOR   -   15105323Y  
                      READ  -   15105373Y

SERIAL 638	FOR	-	RAKESH KUMAR
	READ	-	RAMESH KUMAR

**MADRAS ENGINEER GROUP**

SERIAL 673	FOR	-	BHIMAPPA BEERANAGADDI
	READ	-	B BEERANAGADDI

SERIAL 688	FOR	-	01.12.2009
	READ	-	01.11.2009

SERIAL 705	FOR	-	KRISHNA PRAKASH SINGH
	READ	-	KRISHNA PRAKASH C

SERIAL 720	FOR	-	MOHAMAD RAHANIA THULLAH SHAREEF
	READ	-	MOHAMAD R SHAREEF

SERIAL 737	FOR	-	PEETHAMBARAN K
	READ	-	PITAMBARAN K

SERIAL 749	FOR	-	REGHU NANDAN G
	READ	-	REGHU NADHAN G

SERIAL 750	FOR	-	01.12.2009
	READ	-	01.11.2009

SERIAL 757	FOR	-	SHAIK MAHAMMAD HUSSAIN
	READ	-	SHAIK MAHAMMAD

**DELETE SERIAL 752 AND CONNECTED ENTRIES****BOMBAY ENGINEER GROUP**

SERIAL 966	FOR	-	1536079X
	READ	-	1569079X

**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 1030	FOR	-	14267846W
	READ	-	14267846N

SERIAL 1033	FOR	-	ASHOKAN T
	READ	-	ASOKAN T

SERIAL 1058	FOR	-	BIJOYA KUMAR MOHANTHY
	READ	-	BIJOYA KUMAR MOHANTY

SERIAL 1059	FOR	-	BIJSY PRATAP KUSHWAHA
	READ	-	BIJAY PRATAP KUSHWAHA

SERIAL 1060	FOR	-	BINDHYCHAL PRASAD
	READ	-	BINDHYACHAL PRASAD

SERIAL 1072	FOR	-	C VAIRVAN
	READ	-	C VAIRAVAN

SERIAL 1103	FOR	-	GAJEMDRA PRATAP YADAV
	READ	-	GAJENDRA PRASAD YADAV

SERIAL 1107	FOR READ	- -	GIRGORY A P GRIGORY A P
SERIAL 1113	FOR READ	- -	GULAB CHAND CHAUBE GULAB CHANDA CHAUBE
SERIAL 1115	FOR READ	- -	GURTAJ SINGH GURTEJ SINGH
SERIAL 1112	FOR READ	- -	HARENDER SINGH HARENDRA SINGH
SERIAL 1161	FOR READ	- -	KANAIYA SINGH KANHAIYA SINGH
SERIAL 1166	FOR READ	- -	14252442X 14252442N
SERIAL 1208	FOR READ	- -	31.10.2009 01.12.2009
SERIAL 1219	FOR READ	- -	MURALEE MOHAN N N MURALEE MOHANAN N N
SERIAL 1227	FOR READ	- -	NAND LAL MALAKAR NANDA LAL MALAKAR
SERIAL 1230	FOR READ	- -	NARENDER KUMAR AWASTHI NARENDAR KUMAR AWASTHI
SERIAL 1233	FOR READ	- -	01.12.2009 01.11.2009
SERIAL 1241	FOR READ	- -	14251583L 14251583W
SERIAL 1252	FOR READ	- -	PARAMATMA NAND K PARMATMA NAND KUSHWAHA
SERIAL 1257	FOR READ	- -	PATIL LAILAS NANA PATIL KAILAS NANA
SERIAL 1264	FOR READ	- -	PRADEEP KUMAR PARDEEP KUMAR
SERIAL 1268	FOR READ	- -	PRBODH CHANDRA DAS PRABODH CHANDRA DAS
SERIAL 1324	FOR READ	- -	14253508L 14253508F
SERIAL 1345	FOR READ	- -	SAMSHER SINGH SAMSHER SINGH BISHT
SERIAL 1353	FOR READ	- -	SARVESHWAR SINGH SARAVESHWAR SINGH

SERIAL 1385	FOR READ	-	SIVDAS K K SIVADAS K K
SERIAL 1426	FOR READ	-	01.11.2009 01.12.2009
SERIAL 1442	FOR READ	-	WAG UMAKANT DINKAR WAG UMAKANTA DINKAR

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 1479	FOR READ	-	ARUN CHANDRA BEHERA ARUNA CHANDRA BEHERA
	FOR READ	-	01.11.2009 01.10.2009
SERIAL 1512	FOR READ	-	SHIV RAM SINGM SENGRA SHIV RAM SINGH SENGAR
SERIAL 1517	FOR READ	-	SUREAH MAHATO SURESH MAHATO
SERIAL 1518	FOR READ	-	TAJ PRATAP SINGH TEJ PRATAP SINGH

**THE RAJPUT REGIMENT****DELETE SERIAL 1696 AND CONNECTED ENTRIES****DELETE SERIAL 1701 AND CONNECTED ENTRIES****THE GARHWAL RIFLES**

SERIAL 1913	FOR READ	-	01.10.2009 01.12.2009
SERIAL 1924	FOR READ	-	PRATAP SINGH PARTAP SINGH
SERIAL 1928	FOR READ	-	RAGUBEER SINGH BHANDARI RAGHUBEER SINGH BHANDARI
SERIAL 1931	FOR READ	-	RAJENDER PRASAD RAJENDRA PRASAD
SERIAL 1935	FOR READ	-	RAMBIR SINGH RANBIR SINGH

**THE ASSAM REGIMENT**

SERIAL 2002	FOR READ	-	DAVID SAGAMA DAVID SANGMA
-------------	-------------	---	------------------------------

**ARMY ORDNANCE CORPS**

SERIAL 2692	FOR READ	-	B BASANAİK MALAPPA NAIK BASANAİK MALLAPPA NAIK
-------------	-------------	---	---

**AMRY MEDICAL CORPS**

DELETE SERIAL 2499 AND CONNECTED ENTRIES

DELETE SERIAL 2500 AND CONNECTED ENTRIES

DELETE SERIAL 2562 AND CONNECTED ENTRIES

DELETE SERIAL 2611 AND CONNECTED ENTRIES

**ARMY POSTAL SERVICE**

SERIAL 3182 FOR - MANJUNATH BN  
READ - MANJUNATHA BN

SERIAL 3184 FOR - DFR  
READ - HAV

**DEFENCE SECURITY CORPS**

SERIAL 3188 FOR - 01.02.2009  
READ - 01.09.2009

[No. B/43432/ Corrigendum 2010/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt Gen, Adjutant General

( वायु शाखा )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 14(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित ऑनरेरी फ्लाईंग अफसरों को 15 अगस्त, 2010 से ऑनरेरी फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में पदोन्नत किया जाता है :—

1.	617519एन	मा वा अ (आ फ अ)	बोमाला नागुलु	एसीएच जीडी
2.	614098एस	मा वा अ (आ फ अ)	मुराला सुभाष चन्द्र बोस	एसीएच जीडी
3.	616967एन	मा वा अ (आ फ अ)	विशेश्वर नाथ सिंह	एडीएसओ
4.	616480एफ	मा वा अ (आ फ अ)	शिव सिंह रावत	एडीएसओ
5.	642855एस	मा वा अ (आ फ अ)	ज्ञान सिंह	ए एफ फिटर
6.	641019एल	मा वा अ (आ फ अ)	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	ए एफ फिटर
7.	604411एच	मा वा अ (आ फ अ)	सत्यपाल शर्मा	एएफएसओ
8.	631472जी	मा वा अ (आ फ अ)	फता राम	एएफएसओ
9.	293257ए	मा वा अ (आ फ अ)	देव नारायण यादव	कारपेंटर रीगर



10.	613773एफ	मा वा अ (आ फ अ)	अजीज मुहम्मद सिरानी	कैटरिंग असिसटेंट
11.	610041जी	मा वा अ (आ फ अ)	जसमैर सिंह	क्लर्क एकाउंट्स
12.	613930बी	मा वा अ (आ फ अ)	राम कुमार	क्लर्क एकाउंट्स
13.	641418जी	मा वा अ (आ फ अ)	जयराज आर	क्लर्क जीडी
14.	613248टी	मा वा अ (आ फ अ)	नरथ गोविंदन	क्लर्क जीडी
15.	631408बी	मा वा अ (आ फ अ)	सदानंदन कुन्नुमल	किप्टो
16.	670678आर	मा वा अ (आ फ अ)	राम करण शर्मा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
17.	608649एल	मा वा अ (आ फ अ)	ई मोनी	इलेक्ट फिटर
18.	608710एन	मा वा अ (आ फ अ)	ओमप्रकाश मौर्या	इलेक्ट फिटर
19.	641812टी	मा वा अ (आ फ अ)	गौरी चरण बोस	इंजन फिटर
20.	293967एफ	मा वा अ (आ फ अ)	अतिक अहमद सिद्दिकी	इंजन फिटर
21.	612761जी	मा वा अ (आ फ अ)	पांडेय कृष्ण कुमार	इक्वीपमेंट असिसटेंट
22.	611359ए	मा वा अ (आ फ अ)	बदर सिंह मल्लिक	इक्वीपमेंट असिसटेंट
23.	642640आर	मा वा अ (आ फ अ)	चनन सिंह धीमन	फ्लाइंट इंजीनियर
24.	293997एच	मा वा अ (आ फ अ)	दयाराम	फ्लाइंट गनर
25.	612491एल	मा वा अ (आ फ अ)	सोभनन शिवदासन	जी टी आई
26.	616526एच	मा वा अ (आ फ अ)	युधिष्ठिर बेहुरा	आई ए एफ (पी)
27.	616507आर	मा वा अ (आ फ अ)	कुलदीप सिंह बिष्ट	आई ए एफ (पी)
28.	608116आर	मा वा अ (आ फ अ)	फौजदार सिंह	इंस्ट फिटर
29.	608991एल	मा वा अ (आ फ अ)	रमेन्द्र सिंह सचान	इंस्ट फिटर
30.	242848बी	मा वा अ (आ फ अ)	सैयद बसीर अहमद एस	मेडिकल असिसटेंट
31.	242872एच	मा वा अ (आ फ अ)	तिवारी सूर्य कुमार	मेडिकल असिसटेंट
32.	604360एल	मा वा अ (आ फ अ)	अरुण विकास घर	मेट असिसटेंट
33.	616572आर	मा वा अ (आ फ अ)	अर्जुन	एम टी फिटर
34.	287849के	मा वा अ (आ फ अ)	अनिल कुमार दत्ता	एम टी फिटर
35.	618054एस	मा वा अ (आ फ अ)	राघवन नायर टी वी	एम टी डी
36.	615485आर	मा वा अ (आ फ अ)	शिव पूजन	एम टी डी
37.	620444आर	वा अ (आ फ अ)	वातापारफिल फांसिस एंटोनी	म्युजिशियन
38.	641330एल	वा अ (आ फ अ)	रघुराज सिंह	फोटो फिटर
39.	616327टी	मा वा अ (आ फ अ)	सुरत सिंह यादव	पी जे आई
40.	615683एच	मा वा अ (आ फ अ)	बृजपाल सिंह ग्रडे	पी जे आई
41.	608975एच	मा वा अ (आ फ अ)	राम सजीवन यादव	पी एम एफ(ई)
42.	617954ए	मा वा अ (आ फ अ)	पंकज कुमार दत्ता	रडार फिटर

43.	631584जी	मा वा अ (आ फ अ)	विक्रमजीत रॉय	रेडियो फिटर
44.	604681आर	मा वा अ (आ फ अ)	निर्मल सिंह	रेडियो फिटर
45.	631621बी	मा वा अ (आ फ अ)	परदीप कुमार प्राशर	रेडियो टेक
46.	631566के	मा वा अ (आ फ अ)	ओमप्रकाश शर्मा	रेडियो टेक
47.	641444एफ	मा वा अ (आ फ अ)	रोहिताश्व यादव	एस ई डब्ल्यू
48.	631388जी	मा वा अ (आ फ अ)	हर कुमार तिवारी	टेलिस्ट आर टी ओ
49.	604866एन	मा वा अ (आ फ अ)	थॉडिकापोईकेइल नानु शशिघरण	टेलिस्ट आरटीओ
50.	641958एच	मा वा अ (आ फ अ)	शिवगुलाम गुप्ता	विपन फिटर
51.	641968बी	वा अ (आ फ अ)	अजय सेन गुप्ता	डब्ल्यू एस फिटर (बी)
52.	641450एन	मा वा अ (आ फ अ)	रुद्रप्रताप सिंह श्रीनाते	डब्ल्यू एस फिटर (बी)
53.	292707ए	मा वा अ (आ फ अ)	बलबीर सिंह	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
54.	293655टी	मा वा अ (आ फ अ)	हरमेश कुमार चौहान	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
55.	641012एस	मा वा अ (आ फ अ)	रामाशीश पंडित	डब्ल्यू एस फिटर (एम)
56.	641517बी	मा वा अ (आ फ अ)	राजेश्वर प्रसाद	डब्ल्यू एस फिटर (एम)

[सं. वा से मु/सी 40254/146/पी ए (सीपीसी)]

के जे मैथ्यूस, एयर मार्शल कार्मिक प्रभारी वायु अफसर  
(AIR BRANCH)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 14(E) dated 15th August, 2010.**—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 15 August 2010 on occasion of Independence Day under para 344 of Regulations for the Air Force :—

Sl. No.	Service Number	Rank	Name & initials	Trade
1.	617519N	MWO(Hony Fg Offr)	BOMMALA NAGULU	ACH GD
2.	614098S	MWO(Hony Fg Offr)	MURALA SUBHAS CHANDRA BOSE	ACH GD
3.	616967N	MWO(Hony Fg Offr)	BISHESHWAR NATH SINGH	ADSO
4.	616480F	MWO(Hony Fg Offr)	SHIV SINGH RAWAT	ADSO
5.	642855S	MWO(Hony Fg Offr)	GYAN SINGH	AF FIT
6.	641019L	MWO(Hony Fg Offr)	SURENDRA PRASAD SINGH	AF FIT
7.	604411H	MWO(Hony Fg Offr)	SATYA PAL SHARMA	AFSO
8.	631472G	MWO(Hony Fg Offr)	FATARAM	AFSO
9.	293257A	MWO(Hony Fg Offr)	DEO NARAIN YADAV	CARP RIG
10.	613773F	MWO(Hony Fg Offr)	AZIZ MUHAMMAD SHERANI	CAT ASST

11.	610041G	MWO(Hony Fg Offr)	JASMER SINGH	CLK ACCTS
12.	613930B	MWO(Hony Fg Offr)	RAM KUMAR	CLK ACCTS
13.	641418G	MWO(Hony Fg Offr)	JAYARAJ R	CLK GD
14.	613248T	MWO(Hony Fg Offr)	NARATH GOVINDAN	CLK GD
15.	631408B	MWO(Hony Fg Offr)	SADANANDAN KUNNUMAL	CRYPTO
16.	670678R	MWO(Hony Fg Offr)	RAM KARAN SHARMA	EDN INST
17.	608649L	MWO(Hony Fg Offr)	E MONY	ELECT FIT
18.	608710N	MWO(Hony Fg Offr)	OM PRAKASH MAURYA	ELECT FIT
19.	641812T	MWO(Hony Fg Offr)	GOURI CHARAN BOSE	ENG FIT
20.	293967F	MWO(Hony Fg Offr)	ATIQUE AHMED SIDDIQUI	ENG FIT
21.	612761G	MWO(Hony Fg Offr)	PANDAY KRISHNA KUMAR	EQPT ASST
22.	611359A	MWO(Hony Fg Offr)	BADAR SINGH MALIK	EQPT ASST
23.	642640R	MWO(Hony Fg Offr)	CHANAN SINGH DHIMAN	FLT ENG
24.	293997H	MWO(Hony Fg Offr)	DAYARAM	FLT GUN
25.	612491L	MWO(Hony Fg Offr)	SOBHANAN SIVADASAN	GTI
26.	616526H	MWO(Hony Fg Offr)	YUDHISTIR BEHURA	IAF (P)
27.	616507R	MWO(Hony Fg Offr)	KULDIP SINGH BISHT	IAF (P)
28.	608116R	MWO(Hony Fg Offr)	FAUJ DAR SINGH	INST FIT
29.	608991L	MWO(Hony Fg Offr)	RAMENDRA SINGH SACHAN	INST FIT
30.	242848B	MWO(Hony Fg Offr)	SYED BASHEER AHAMED S	MED ASST
31.	242872H	MWO(Hony Fg Offr)	TIWARI SURYA KUMAR	MED ASST
32.	604360L	MWO(Hony Fg Offr)	ARUN BIKASH DHAR	MET ASST
33.	616572R	MWO(Hony Fg Offr)	ARJUN	MT FIT
34.	287849K	MWO(Hony Fg Offr)	ANIL KUMAR DUTTA	MT FIT
35.	618054S	MWO(Hony Fg Offr)	RAGHAVAN NAIR TV	MTD
36.	615485R	MWO(Hony Fg Offr)	SHIV PUJAN	MTD
37.	620444R	WO(Hony Fg Offr)	VATTAPARAMPHIL FRANCIES ANTONY	MUSN
38.	641330L	WO(Hony Fg Offr)	RAGHU RAJ SINGH	PHOTO FIT
39.	616327T	MWO(Hony Fg Offr)	SURAT SINGH YADAV	PJI
40.	615683H	MWO(Hony Fg Offr)	BRIJPAL SINGH GRADE	PJI
41.	608975H	MWO(Hony Fg Offr)	RAM SAJIWAN YADAW	PMF(E)
42.	617954A	MWO(Hony Fg Offr)	PANKAJ KUMAR DUTTA	RAD FIT

43.	631584G	MWO(Hony Fg Offr)	BIKRAM JIT ROY	RDO FIT
44.	604681R	MWO(Hony Fg Offr)	NIRMAL SINGH	RDO FIT
45.	631621B	MWO(Hony Fg Offr)	PARDIP KUMAR PRASHAR	RDO TECH
46.	631566K	MWO(Hony Fg Offr)	OM PRAKASH SHARMA	RDO TECH
47.	641444F	MWO(Hony Fg Offr)	ROHITASW YADAV	SEW
48.	631388G	MWO(Hony Fg Offr)	HAR KUMAR TIWARY	TELST RTO
49.	604866N	MWO(Hony Fg Offr)	THONDIKKAPOIKEYIL NANU SASI DHARAN	TELST RTO
50.	641958H	MWO(Hony Fg Offr)	SHEO GULAM GUPTA	WPN FIT
51.	641968B	WO(Hony Fg Offr)	AJOY SEN GUPTA	WS FIT(B)
52.	641450N	MWO(Hony Fg Offr)	RUDRA PRATAP SINGH SHRINATE	WS FIT(B)
53.	292707A	MWO(Hony Fg Offr)	BALBIR SINGH	WS FIT(C)
54.	293655T	MWO(Hony Fg Offr)	HARMESH KUMAR CHOUHAN	WS FIT(C)
55.	641012S	MWO(Hony Fg Offr)	RAMASHISH PANDIT	WS FIT (M)
56.	641517B	MWO(Hony Fg Offr)	RAJESHWAR PRASAD	WS FIT(M)

[No. Air HQ/C 40254/146/PA (CPC)]

KJ MATHEWS, Air Mshl Air Officer-incharge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 15(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 15 अगस्त, 2010 से फ्लाईंग अफसर रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

1.	614885आर	मा वा अ	रतिनम विनायगम	एसीएच जीडी
2.	642423के	मा वा अ	भुपिन्दर सिंह शेखों	एसीएच जीडी
3.	613222एल	मा वा अ	अरुण कुमार झा	एसीएच जीडी
4.	641503बी	मा वा अ	वीर मणि प्रसाद	एसीएच जीडी
5.	612503जी	मा वा अ	सुरता राय	एसीएच जीडी
6.	632067एन	मा वा अ	जजाति केशरी त्रिपाठी	एसीएच जीडी
7.	613341एस	मा वा अ	मोहम्मद शमी	एसीएच जीडी
8.	612443एल	मा वा अ	रामा शंकर दुबे	एसीएच जीडी
9.	617263के	वा अ	अक्षय कुमार राउत्रे	एसीएच जीडी
10.	613611एल	मा वा अ	छोटे लाल	एसीएच जीडी
11.	614404एल	वा अ	डेनियल राजन	एसीएच जीडी
12.	613342एन	वा अ	सुभाष चन्द्र भोवल	एसीएच जीडी

13.	620448एच	वा अ	आनंद सिंह राउत्तला	एसीएच जीडी
14.	612892टी	वा अ	सिंहासन राय	एसीएच जीडी
15.	615237के	मा वा अ	लक्ष्मी नारायण सिंह	ए डी एस ओ
16.	615529जी	मा वा अ	त्रिलोचन नंदा	ए डी एस ओ
17.	617961जी	मा वा अ	राम गुलाम राय	ए डी एस ओ
18.	616717आर	मा वा अ	बलदेव चन्द	ए डी एस ओ
19.	616682बी	मा वा अ	गणेश चन्द्र दास	ए डी एस ओ
20.	643058आर	मा वा अ	गोल्लापेल्ली राम रेड्डी	ए एफ फिटर
21.	641677बी	मा वा अ	मोहम्मद अब्दुल मोटलेव	ए एफ फिटर
22.	642278टी	मा वा अ	बिन्द्रावन सिंह	ए एफ फिटर
23.	641971बी	मा वा अ	रामा शंकर सिंह	ए एफ फिटर
24.	642821एच	मा वा अ	नवीन चन्दर	ए एफ फिटर
25.	293596ए	मा वा अ	पुखराज आचार्या	ए एफ फिटर
26.	642276जी	मा वा अ	गुलाब लाल श्रीवास्तव	ए एफ फिटर
27.	293849आर	मा वा अ	सुभाष चन्द्र	ए एफ फिटर
28.	641874टी	मा वा अ	रवीन्द्र प्रसाद राय	ए एफ फिटर
29.	642864आर	मा वा अ	पृथ्वी राज खेतर पाल	ए एफ फिटर
30.	293645एफ	मा वा अ	जितेन्दर पाल सिंह दुग्गल	ए एफ फिटर
31.	642076ए	मा वा अ	ओम प्रकाश	ए एफ फिटर
32.	632934आर	मा वा अ	दिनेश चन्द्र सिंह	ए एफ एस ओ
33.	632998एच	मा वा अ	आराम सिंह	ए एफ एस ओ
34.	631042एल	मा वा अ	पंचानन पंडा	ए एफ एस ओ
35.	631701जी	मा वा अ	पाटिल यादवराव बिडु	ए एफ एस ओ
36.	631129के	मा वा अ	मिश्री प्रसाद	ए एफ एस ओ
37.	631991बी	वा अ	चरण पाल सिंह	ए एफ एस ओ
38.	631848एल	वा अ	उमेश चन्द्र पांडेय	ए एफ एस ओ
39.	615887टी	मा वा अ	नूर मोहम्मद	ए एफ एस ओ
40.	603953एल	मा वा अ	शलक राम वर्मा	ए एफ एस ओ
41.	632021एस	वा अ	अदित्य कुमार श्रीवास्तव	ए एफ एस ओ
42.	631946एल	वा अ	नंद लाल प्रसाद सिंह	ए एफ एस ओ
43.	631735आर	मा वा अ	पन्ना यादव	ए एफ एस ओ
44.	293091आर	मा वा अ	माधव चन्द्र महापात्र	कारपेंटर रीगर
45.	614588जी	मा वा अ	रवीन्द्र देव नाथ	कैटरिंग असिस्टेंट
46.	613919ए	मा वा अ	मेवा लाल	कैटरिंग असिस्टेंट
47.	614328एन	वा अ	सुदीप रंजन देवराय	कैटरिंग असिस्टेंट
48.	614220के	वा अ	मोहन करिथारा कुरियाकोस	कैटरिंग असिस्टेंट
49.	613809एन	वा अ	कमलेश्वर प्रसाद	कैटरिंग असिस्टेंट
50.	614862एस	मा वा अ	केम्पन्ना चौगला	क्लर्क एकाउंट्स
51.	614465आर	मा वा अ	शिराजुदीन	क्लर्क एकाउंट्स
52.	613291एस	मा वा अ	श्रीकांत मिश्रा	क्लर्क एकाउंट्स
53.	612545एस	मा वा अ	रंग लाल राम	क्लर्क एकाउंट्स

54.	614053एस	मा वा अ	सुरेन्द्र सिंह	क्लर्क एकाउंट्स
55.	613330जी	मा वा अ	परिमल कुमार दास	क्लर्क एकाउंट्स
56.	610502एच	मा वा अ	आनंता शर्मा	क्लर्क एकाउंट्स
57.	613062एफ	मा वा अ	अवधेश कुमार श्रीवास्तव	क्लर्क जी डी
58.	613847टी	मा वा अ	कलबीर सिंह परमार	क्लर्क जी डी
59.	612818ए	मा वा अ	मुनीर खान	क्लर्क जी डी
60.	612454बी	मा वा अ	बोहिनी मोहन राव वेंकट राव	क्लर्क जी डी
61.	613490जी	मा वा अ	रजिन्द्र प्रसाद	क्लर्क जी डी
62.	614183एन	मा वा अ	राजेन्द्र सिंह	क्लर्क जी डी
63.	612154एफ	मा वा अ	बलबीर सिंह दहिया	क्लर्क जी डी
64.	610700ए	मा वा अ	तपन राँय	क्लर्क जी डी
65.	614059आर	मा वा अ	हरचन्द सिंह	क्लर्क जी डी
66.	612681बी	मा वा अ	सत्य नारायण मिश्रा	क्लर्क जी डी
67.	613792एस	वा अ	राम दुलार सिंह	क्लर्क जी डी
68.	612414एफ	वा अ	पुरनेन्दु विकास राय	क्लर्क जी डी
69.	614034एफ	वा अ	देवी प्रसाद	क्लर्क जी डी
70.	611675बी	वा अ	मोहम्मद हैबत अली	क्लर्क जी डी
71.	613554जी	मा वा अ	रवि नारायण महापात्रा	क्लर्क जी डी
72.	612931एच	वा अ	बलराम यादव	क्लर्क जी डी
73.	612933ए	वा अ	सरदार मल	क्लर्क जी डी
74.	613895टी	वा अ	अशोक कुमार साहु	क्लर्क जी डी
75.	645375आर	मा वा अ	विजय शंकर तिवारी	किप्टो
76.	613790एफ	मा वा अ	रामाधार सिंह	किप्टो
77.	612175के	मा वा अ	राम नारायण दुबे	किप्टो
78.	670698एफ	मा वा अ	विष्णु केशरी मिश्रा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
79.	647824एल	मा वा अ	कृष्णा नारायण श्रीवास्तव	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
80.	609229बी	मा वा अ	एम शिवागननम गौंडर	इलैक्ट फिटर
81.	609039एल	मा वा अ	श्रीधरण के	इलैक्ट फिटर
82.	609130एस	मा वा अ	हरिन्दरजीत सिंह	इलैक्ट फिटर
83.	609166टी	मा वा अ	निहाल सिंह मंगल	इलैक्ट फिटर
84.	608479के	मा वा अ	कंचन चटर्जी	इलैक्ट फिटर
85.	609102जी	मा वा अ	अक्षय कुमार	इलैक्ट फिटर
86.	608372बी	मा वा अ	मोहम्मद अली	इलैक्ट फिटर
87.	608783एफ	मा वा अ	जयप्रकाश सिंह	इलैक्ट फिटर
88.	608455आर	मा वा अ	धीरज कुमार भट्टाचार्जी	इलैक्ट फिटर
89.	608902एस	मा वा अ	बलबीर सिंह	इलैक्ट फिटर
90.	607929के	मा वा अ	अशोक कुमार अवस्थी	इलैक्ट फिटर
91.	609318एफ	मा वा अ	रमाशंकर यादव	इलैक्ट फिटर
92.	643107टी	मा वा अ	सिकंदर सिंह	इंजन फिटर
93.	641682आर	मा वा अ	शशि कुमार शर्मा	इंजन फिटर
94.	642287एस	मा वा अ	विरेन्द्र सिंह	इंजन फिटर
95.	643436एफ	मा वा अ	रतिकांता भुयान	इंजन फिटर
96.	642893बी	वा अ	नरेश कुमार मिश्रा	इंजन फिटर

97.	641903एन	मा वा अ	विश्वास प्रदीप कुमार	इंजन फिटर
98.	642426टी	मा वा अ	सुनील चन्द्र बनिक	इंजन फिटर
99.	641884एन	मा वा अ	कामता प्रसाद गुप्ता	इंजन फिटर
100.	642268एफ	मा वा अ	बीर मान सिंह	इंजन फिटर
101.	642285एफ	मा वा अ	रमेश चन्दर	इंजन फिटर
102.	642678के	मा वा अ	विश्वनाथ साहु	इंजन फिटर
103.	642199एल	मा वा अ	आनंद कुमार	इंजन फिटर
104.	642047एन	मा वा अ	वशिष्ठ नारायण सिंह	इंजन फिटर
105.	641516जी	वा अ	दयानंद मंडल	इंजन फिटर
106.	612987टी	मा वा अ	लक्ष्मण बेहरा	इक्वीपमेंट असिसटेंट
107.	613659ए	मा वा अ	रविकान्त	इक्वीपमेंट असिसटेंट
108.	645344आर	मा वा अ	मधुसुदनन चिरोडी	इक्वीपमेंट असिसटेंट
109.	614199जी	मा वा अ	सतीश चन्द्र राय	इक्वीपमेंट असिसटेंट
110.	608184एफ	मा वा अ	रमेश कुमार	इक्वीपमेंट असिसटेंट
111.	614200ए	मा वा अ	रामज्ञान सिंह	इक्वीपमेंट असिसटेंट
112.	613965एच	मा वा अ	संतोष कुमार त्रिपाठी	इक्वीपमेंट असिसटेंट
113.	613835एल	मा वा अ	गणपत सिंह	इक्वीपमेंट असिसटेंट
114.	612829एल	मा वा अ	रणवीर सिंह	इक्वीपमेंट असिसटेंट
115.	610578एच	मा वा अ	प्रभु साह	इक्वीपमेंट असिसटेंट
116.	612923जी	मा वा अ	महेश कुमार गौतम	इक्वीपमेंट असिसटेंट
117.	614304टी	वा अ	शिव प्रसाद विश्वकर्मा	इक्वीपमेंट असिसटेंट
118.	614190टी	वा अ	शत्रुघ्न नाथ श्रीवास्तव	इक्वीपमेंट असिसटेंट
119.	614153के	वा अ	किशोरी सिंह राठौर	इक्वीपमेंट असिसटेंट
120.	614093आर	वा अ	पेडिंटी वेंकट राव	इक्वीपमेंट असिसटेंट
121.	641752एफ	मा वा अ	विश्वनाथ यादव	फ्लाइट इंजिनियर
122.	614803जी	मा वा अ	बटकृष्ण साहु	जी टी आई
123.	645080के	मा वा अ	रामशंकर कुरील	जी टी आई
124.	614171जी	मा वा अ	करुणाशंकर पांडेय	जी टी आई
125.	618700एच	मा वा अ	बनवारी लाल शर्मा	आइ ए एफ (पी)
126.	616758के	मा वा अ	पदम सिंह सिनसिनवर	आइ ए एफ (पी)
127.	617291ए	मा वा अ	राम सागर त्रिपाठी	आइ ए एफ (पी)
128.	617626एल	मा वा अ	प्रफुल्ल कुमार पटवारी	आइ ए एफ (पी)
129.	616772ए	मा वा अ	पुरनमल बदरवाल	आइ ए एफ (पी)
130.	617540के	वा अ	गुरदेव सिंह कोठेत	आइ ए एफ (पी)
131.	609105आर	मा वा अ	कपिलदेव यादव	इंस्ट फिटर
132.	609277बी	मा वा अ	हरिमजन लाल	इंस्ट फिटर
133.	609158एफ	मा वा अ	विनय कुमार	इंस्ट फिटर

134.	607393एस	मा वा अ	विष्णुदेव सिंह	इंस्ट फिटर
135.	608788जी	मा वा अ	उमाशंकर सिंह	इंस्ट फिटर
136.	608978एस	मा वा अ	शशि कुमार सिंह	इंस्ट फिटर
137.	609069आर	मा वा अ	जीत राम	इंस्ट फिटर
138.	608789बी	वा अ	अर्जुन प्रसाद सिंह	इंस्ट फिटर
139.	242773एल	मा वा अ	गोविंद चन्द्र पुरोहित	मेडिकल असिसटेंट
140.	242934आर	मा वा अ	महबूब सुभानी	मेडिकल असिसटेंट
141.	242774एच	मा वा अ	पूर्ण चन्द्र जैन	मेडिकल असिसटेंट
142.	242732एस	मा वा अ	श्रीनिवास त्रिपाठी	मेडिकल असिसटेंट
143.	242788एच	मा वा अ	ए बेबी फिलिप	मेडिकल असिसटेंट
144.	242757एच	मा वा अ	यदुनंदन प्रसाद	मेडिकल असिसटेंट
145.	242800एन	मा वा अ	धरम पाल सिंह शर्मा	मेडिकल असिसटेंट
146.	242727एफ	मा वा अ	श्री भगवान सिंह	मेडिकल असिसटेंट
147.	242896बी	वा अ	कपूर सिंह	मेडिकल असिसटेंट
148.	242881जी	वा अ	मंगल सिंह यादव	मेडिकल असिसटेंट
149.	603988एस	मा वा अ	जी रविन्द्रन नायर	मेट असिसटेंट
150.	632739एल	मा वा अ	सत्य नारायण सिंह	मेट असिसटेंट
151.	632413जी	मा वा अ	कल्याण कुमार विश्वास	मेट असिसटेंट
152.	615177आर	मा वा अ	उत्पल घोष	एम टी फिटर
153.	615900ए	मा वा अ	दशरथ बंशी मल्लाह	एम टी फिटर
154.	615689जी	मा वा अ	तजबर सिंह रावत	एम टी फिटर
155.	615910आर	मा वा अ	मनोरंजन नाथ	एम टी फिटर
156.	615063बी	मा वा अ	समुद्र सिंह	एम टी फिटर
157.	616596के	मा वा अ	निर्मल सिंह सहोता	एम टी डी
158.	617124आर	मा वा अ	जगन्नाथ वर्मा	एम टी डी
159.	617728एस	मा वा अ	श्रीकृष्णा सिंह	एम टी डी
160.	618067ए	मा वा अ	सुरिन्दर सिंह	एम टी डी
161.	617798टी	मा वा अ	सुरेश कुमार पांडेय	एम टी डी
162.	616644एस	मा वा अ	शिम्भु दयाल यादव	एम टी डी
163.	618138जी	मा वा अ	रविन्द्रन नायर अपुकुट्टन पिल्लै	एम टी डी
164.	616189एन	मा वा अ	कोल्लथ काणातिल पुदनवीडे केशवन कुट्टी	एम टी डी
165.	617735बी	मा वा अ	कामता प्रसाद पांडेय	एम टी डी
166.	615639एन	मा वा अ	सर्वेश्वर देव शर्मा	एम टी डी
167.	617457जी	वा अ	रामानंद सिंह	एम टी डी
168.	616418एन	मा वा अ	विरेंद्र सिंह	एम टी डी



169.	617634एन	वा अ	सुधाकर तिवारी	एम टी डी
170.	618081एल	वा अ	राजकुमार सिंह	एम टी डी
171.	616646के	मा वा अ	मोहन सिंह राठौर	एम टी डी
172.	618038एन	मा वा अ	इडीकुला पुथेन कालातिल चाको	एम टी डी
173.	615714आर	वा अ	राम ज्योतिष	एम टी डी
174.	617108एल	वा अ	चन्द्रकिशोर प्रसाद सिंह	एम टी डी
175.	616274के	वा अ	अब्दुल लैस	एम टी डी
176.	616656एफ	वा अ	राजकिशोर साह	एम टी डी
177.	617173एल	वा अ	शिव पाल	एम टी डी
178.	616636आर	वा अ	राजविन्दर सिंह जगदेव	एम टी डी
179.	616574एच	वा अ	अब्दुल खालिक कुरैशी	एम टी डी
180.	642296आर	मा वा अ	वेद प्रकाश	फोटो फिटर
181.	293894जी	मा वा अ	विजय कुमार शर्मा	फोटो फिटर
182.	616153एल	मा वा अ	रघुवीर सिंह पॉल	पी जे आई
183.	616321ए	मा वा अ	उमेद सिंह विरहमान	पी जे आई
184.	611775आर	मा वा अ	जयवीर सिंह चंदेल	पी जे आई
185.	619694बी	मा वा अ	परमजीत सिंह	रडार फिटर
186.	617896टी	मा वा अ	जगजीत सिंह	रडार फिटर
187.	617979एल	मा वा अ	मिश्रा विजय कुमार रामदुलारे	रडार फिटर
188.	617514एल	मा वा अ	जतीन्दर कुमार डोगरा	रडार फिटर
189.	617699बी	मा वा अ	महताब आलम खान	रडार फिटर
190.	620253एच	मा वा अ	कीमती लाल	रडार फिटर
191.	604137एस	मा वा अ	रविन्द्र कुमार जयसवाल	रेडियो फिटर
192.	632745ए	मा वा अ	रमेश चन्द्र कटियार	रेडियो फिटर
193.	631250टी	मा वा अ	रणवीर सिंह	रेडियो फिटर
194.	631488टी	मा वा अ	पी चन्दर मुद्दलियार	रेडियो फिटर
195.	631801टी	मा वा अ	नरेन्द्र कुमार फारस्वान	रेडियो फिटर
196.	632193एफ	मा वा अ	कुलवंत सिंह	रेडियो फिटर
197.	631248आर	मा वा अ	जयनारायण शर्मा	रेडियो फिटर
198.	631580ए	मा वा अ	रणवीर सिंह	रेडियो फिटर
199.	604058के	मा वा अ	जसवीर सिंह सेम्बी	रेडियो फिटर
200.	604698एफ	मा वा अ	शिव प्रसाद मिश्रा	रेडियो फिटर
201.	604658जी	मा वा अ	गुरदेव सिंह	रेडियो फिटर
202.	632232एन	मा वा अ	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला	रेडियो फिटर
203.	632063एच	मा वा अ	सुखविन्दर सिंह	रेडियो फिटर
204.	604678आर	मा वा अ	हरदेव सिंह कौन्टैय	रेडियो फिटर

205.	604906टी	मा वा अ	ओमपाल असैलिया	रेडियो फिटर
206.	604900ए	मा वा अ	त्यागी गंगा राम	रेडियो फिटर
207.	632260एफ	वा अ	नागेन्द्र सिंह	रेडियो फिटर
208.	631586टी	वा अ	बीरसेन तोमर	रेडियो फिटर
209.	631728के	वा अ	कृष्णा कुमार	रेडियो फिटर
210.	604455एल	मा वा अ	संतोष कुमार तिवारी	रेडियो टेक
211.	631937एन	मा वा अ	अरुण कुमार चौरसिया	रेडियो टेक
212.	631650के	मा वा अ	वैधर नायर	रेडियो टेक
213.	631089एफ	मा वा अ	निर्मल कुमार सरकार	रेडियो टेक
214.	631722एल	मा वा अ	सूर्यदेव कुमार गुप्ता	रेडियो टेक
215.	604797ए	मा वा अ	विश्वनाथ रक्षित	रेडियो टेक
216.	643613एल	मा वा अ	प्रवेश कुमार सिंह	एस इ डब्ल्यू
217.	642023टी	मा वा अ	देवकीनंदन	एस इ डब्ल्यू
218.	293496एच	वा अ	परविन्दर सिंह	एस इ डब्ल्यू
219.	632011बी	मा वा अ	राजकुमार	टेलिस्ट आर टी ओ
220.	604818एन	मा वा अ	सुभाष चन्द्र साहु	टेलिस्ट आर टी ओ
221.	604278एफ	मा वा अ	राव नरसिंघा पितापुरम	टेलिस्ट आर टी ओ
222.	604293एल	मा वा अ	राम ईश्वर दास	टेलिस्ट आर टी ओ
223.	632117एन	वा अ	रामा कान्त पहाडी	टेलिस्ट आर टी ओ
224.	603670एन	वा अ	प्रेम सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
225.	631397एफ	वा अ	बलिराम प्रसाद सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
226.	642944टी	मा वा अ	हरभजन सिंह	विपन फिटर
227.	641174के	मा वा अ	हरि सिंह मुट्टी	विपन फिटर
228.	641926एल	मा वा अ	रामप्यारे राम	विपन फिटर
229.	641688एन	वा अ	शमीउल्लाह अंसारी	विपन फिटर
230.	641636एच	वा अ	निर्मल कुमार महाराज	विपन फिटर
231.	641441आर	मा वा अ	दयाल सिंह शेखावत	डब्ल्यू एस फिटर (बी)
232.	641678टी	वा अ	टी वी जॉर्ज	डब्ल्यू एस फिटर (बी)
233.	293980टी	वा अ	राजेन्द्र सिंह	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
234.	292477एफ	मा वा अ	योगेन्द्र प्रसाद	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
235.	293486एन	मा वा अ	ईश्वर चन्द्र प्रसाद	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
236.	641167एफ	मा वा अ	सुखवीर सिंह	डब्ल्यू एस फिटर (एम)
237.	642055आर	मा वा अ	दुलार चन्द माझी	डब्ल्यू एस फिटर (एम)

[सं. वा से मु/सी 40254/146/पी ए (सीपीसी)]

के जे मैथ्यूस, एयर मार्शल कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 15(E) dated 15th August, 2010.**—The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 15 August 2010 on occasion of Independence Day under para 344 of Regulations for the Air Force :—

Sl No.	Service Number	Rank	Name & Initials	Trade
1.	614885R	MWO	RATHINAM VINAYAGAM	ACH GD
2.	642423K	MWO	BHUPINDER SINGH SEKHO	ACH GD
3.	613222L	MWO	ARUN KUMAR JHA	ACH GD
4.	641503B	MWO	BIR MANY PRASAD	ACH GD
5.	612503G	MWO	SURTA RAM	ACH GD
6.	632067N	MWO	JAJATI KESHARI TRIPATHY	ACH GD
7.	613341S	MWO	MOHAMMAD SHAMI	ACH GD
8.	612443L	MWO	RAMASHANKER DUBEY	ACH GD
9.	617263K	WO	AKSHYA KUMAR ROUTRAY	ACH GD
10.	613611L	MWO	CHHOTE LAL	ACH GD
11.	614404L	WO	DANIEL RAJAN	ACH GD
12.	613342N	WO	SUBHAS CHANDRA BHOWAL	ACH GD
13.	620446H	WO	ANAND SINGH RAUTHLA	ACH GD
14.	612892T	WO	SINGHASAN ROY	ACH GD
15.	615237K	MWO	LAKSHMINARAYAN SINGH	ADSO
16.	615529G	MWO	TRILLOCHANA NANDA	ADSO

17.	617961G	MWO	RAM GULAM RAI	ADSO
18.	616717R	MWO	BALDEV CHAND	ADSO
19.	616682B	MWO	GANESH CHANDRA DAS	ADSO
20.	643058R	MWO	GOLLAPELLY RAM REDDY	AF FIT
21.	641677B	MWO	MD ABDUL MOTLEB	AF FIT
22.	642278T	MWO	BINDRABAN SINGH	AF FIT
23.	641971B	MWO	RAMASHANKER SINGH	AF FIT
24.	642821H	MWO	NAVIN CHANDER	AF FIT
25.	293596A	MWO	PUKH RAJ ACHARYA	AF FIT
26.	642276G	MWO	GULAB LAL SRIVASTVA	AF FIT
27.	293849R	MWO	SUBASH CHANDRA	AF FIT
28.	641874T	MWO	RAVINDRA PRASAD ROY	AF FIT
29.	642864R	MWO	PRITHVI RAJ KHETAR PAL	AF FIT
30.	293645F	MWO	JITENDER PAL SINGH DUGGAL	AF FIT
31.	642076A	MWO	OM PARKASH	AF FIT
32.	632934R	MWO	DINESH CHANDRA SINGH	AFSO
33.	632998H	MWO	ARAM SINGH	AFSO
34.	631042L	MWO	PANCHANAN PANDA	AFSO
35.	631701G	MWO	PATIL YADAVRAO VEDU	AFSO
36.	631129K	MWO	MISHRI PRASAD	AFSO
37.	631991B	WO	CHARANPAL SINGH	AFSO
38.	631848L	WO	UMESH CHANDRA PANDE	AFSO
39.	615887T	MWO	NOOR MOHAMMAD	AFSO
40.	603953L	MWO	SALAK RAM VERMA	AFSO
41.	632021S	WO	ADITYA KUMAR SRIVASTVA	AFSO
42.	631946L	WO	NAND LAL PRASAD SINGH	AFSO
43.	631735R	MWO	PANNA YADAV	AFSO
44.	293091R	MWO	MADHABA CHANDRA MOHAPATRA	CARP RIG

45.	614588G	MWO	RABINDRA DEB NATH	CAT ASST
46.	613919A	MWO	MEWA LAL	CAT ASST
47.	614328N	WO	SUDIP RANJAN DEBROY	CAT ASST
48.	614220K	WO	MOHAN KAREETHARA KURIAKOSE	CAT ASST
49.	613809N	WO	KAMLESHWAR PRASAD	CAT ASST
50.	614862S	MWO	KEMPANNA CHOUGALA	CLK ACCTS
51.	614465R	MWO	SIRAJUDDIN	CLK ACCTS
52.	613291S	MWO	SHRI KANT MISHRA	CLK ACCTS
53.	612545S	MWO	RANG LAL RAM	CLK ACCTS
54.	614053S	MWO	SURENDER SINGH	CLK ACCTS
55.	613330G	MWO	PARI MAL KUMAR DAS	CLK ACCTS
56.	610502H	MWO	ANANTA SARMA	CLK ACCTS
57.	613062F	MWO	AWADHESH KUMAR SRIVASTAVA	CLK GD
58.	613847T	MWO	KALBIR SINGH PARMAR	CLK GD
59.	612818A	MWO	MUNIR KHAN	CLK GD
60.	612454B	MWO	BOHINI MOHAN RAO VENKAT RAO	CLK GD
61.	613490G	MWO	RAJINDER PARSHAD	CLK GD
62.	614183N	MWO	RAJENDRA SINGH	CLK GD
63.	612154F	MWO	BALBIR SINGH DAHIYA	CLK GD
64.	610700A	MWO	TAPAN ROY	CLK GD
65.	614059R	MWO	HARCHAND SINGH	CLK GD
66.	612681B	MWO	SATYA NARAIN MISHRA	CLK GD
67.	613792S	WO	RAM DULAR SINGH	CLK GD
68.	612414F	WO	PURNENDU BIKASH ROY	CLK GD
69.	614034F	WO	DEVI PRASAD	CLK GD
70.	611675B	WO	MD HAIBAT ALI	CLK GD
71.	613554G	MWO	RABI NARAYAN MOHAPATRA	CLK GD
72.	612931H	WO	BALRAM YADAV	CLK GD

73.	612933A	WO	SARDAR MALL	CLK GD
74.	613895T	WO	ASHOK KUMAR SAHU	CLK GD
75.	645375R	MWO	VIJAY SHANKER TIWARI	CRYPTO
76.	613790F	MWO	RAMADHAR SINGH	CRYPTO
77.	612175K	MWO	RAM NARAYAN DUBEY	CRYPTO
78.	670698F	MWO	BISHNU KESHARI MISHRA	EDN INST
79.	647824L	MWO	KRISHNA NARAYAN SRIVASTAVA	EDN INST
80.	609229B	MWO	M SIVAGNANAM GOUNDER	ELECT FIT
81.	609039L	MWO	SREEDHARAN K	ELECT FIT
82.	609130S	MWO	HARINDER JIT SINGH	ELECT FIT
83.	609166T	MWO	NIHAL SINGH MANGAT	ELECT FIT
84.	608479K	MWO	KANCHAN CHATTERJEE	ELECT FIT
85.	609102G	MWO	AKSHAYA KUMAR	ELECT FIT
86.	608372B	MWO	MOHAMMED ALI	ELECT FIT
87.	608783F	MWO	JAY PRAKASH SINGH	ELECT FIT
88.	608455R	MWO	DHIRAJ KUMAR BHATTACHARJEE	ELECT FIT
89.	608902S	MWO	BALBIR SINGH	ELECT FIT
90.	607929K	MWO	ASHOKA KUMAR AWASTHI	ELECT FIT
91.	609318F	MWO	RAMA SHANKER YADAV	ELECT FIT
92.	643107T	MWO	SIKANDER SINGH	ENG FIT
93.	641682R	MWO	SHASHI KUMAR SHARMA	ENG FIT
94.	642287S	MWO	VIRENDRA SINGH	ENG FIT
95.	643436F	MWO	RATIKANTA BHUYAN	ENG FIT
96.	642893B	WO	NARESH KUMAR MISRA	ENG FIT
97.	641903N	MWO	BISWAS PRADEEP KUMAR	ENG FIT
98.	642426T	MWO	SUNIL CHANDRA BANIK	ENG FIT
99.	641884N	MWO	KAMTA PRASAD GUPTA	ENG FIT
100.	642268F	MWO	BIR BHAN SINGH	ENG FIT

101.	642285F	MWO	RAMESH CHANDER	ENG FIT
102.	642678K	MWO	BISWANATH SAHU	ENG FIT
103.	642199L	MWO	ANAND KUMAR	ENG FIT
104.	642047N	MWO	BASHISHTHA NARAYAN SINGH	ENG FIT
105.	641516G	WO	DAYANAND MANDAL	ENG FIT
106.	612987T	MWO	LOKSHMAN BEHERA	EQPT ASST
107.	613659A	MWO	RAVI KANT	EQPT ASST
108.	645344R	MWO	MADHUSUDHANAN CHEERODY	EQPT ASST
109.	614199G	MWO	SATISH CHANDRA RAI	EQPT ASST
110.	608184F	MWO	RAMESH KUMAR	EQPT ASST
111.	614200A	MWO	RAM GYAN SINGH	EQPT ASST
112.	613965H	MWO	SANTOSH KUMAR TRIPATHI	EQPT ASST
113.	613835L	MWO	GANPAT SINGH	EQPT ASST
114.	612829L	MWO	RANVIR SINGH	EQPT ASST
115.	610578H	MWO	PRABHU SAH	EQPT ASST
116.	612923G	MWO	MAHESH KUMAR GAUTAM	EQPT ASST
117.	614304T	WO	SHIV PRASAD VISHAWKARMA	EQPT ASST
118.	614190T	WO	SHATRUGHUN NATH SRIVASTAVA	EQPT ASST
119.	614153K	WO	KISHORE SINGH RATHORE	EQPT ASST
120.	614093R	WO	PEDDINTI VENKATA RAO	EQPT ASST
121.	641752F	MWO	VISHWA NATH YADAV	FLT ENG
122.	614803G	MWO	BATA KRUSHNA SAHOO	GTI
123.	645080K	MWO	RAM SHANKAR KUREEL	GTI
124.	614171G	MWO	KARUNA SHANKAR PANDEY	GTI
125.	618700H	MWO	BANWARI LAL SHARMA	IAF(P)
126.	616758K	MWO	PADAM SINGH SINSINWAR	IAF(P)
127.	617291A	MWO	RAM SAGAR TRIPATHI	IAF (P)
128.	617626L	MWO	PRAFULLA KUMAR PATOWARY	IAF (P)

129.	616772A	MWO	PURAN MAL BADERWAL	IAF (P)
130.	617540K	WO	GURDEV SINGH KOTHETH	IAF (P)
131.	609105R	MWO	KAPIL DEO YADAVA	INST FIT
132.	609277B	MWO	HARI BHAJAN LAL	INST FIT
133.	609156F	MWO	BINAY KUMAR	INST FIT
134.	607393S	MWO	BISHNU DEO SINGH	INST FIT
135.	608788G	MWO	UMA SHANKAR SINGH	INST FIT
136.	608978S	MWO	SHASHI KUMAR SINGH	INST FIT
137.	609069R	MWO	JEET RAM	INST FIT
138.	608789B	WO	ARJUN PRASAD SINGH	INST FIT
139.	242773L	MWO	GOVINDACHANDRA PUROHITA	MED ASST
140.	242934R	MWO	MAHABOOB SUBHANI	MED ASST
141.	242774H	MWO	PURNA CHANDRA JAIN	MED ASST
142.	242732S	MWO	SHRINIWAS TRIPATHI	MED ASST
143.	242788H	MWO	A BABY PHILIP	MED ASST
144.	242757H	MWO	YADU NANDAN PRASAD	MED ASST
145.	242800N	MWO	DHARAMPAL SINGH SHARMA	MED ASST
146.	242727F	MWO	SHREE BHAGWAN SINGH	MED ASST
147.	242896B	WO	KAPOOR SINGH	MED ASST
148.	242881G	WO	MANGAL SINGH YADAV	MED ASST
149.	603988S	MWO	G RAVEENDRAN NAIR	MED ASST
150.	632739L	MWO	SATYA NARAIN SINGH	MED ASST
151.	632413G	MWO	KALYAN KUMAR BISWAS	MED ASST
152.	615177R	MWO	UTPAL GHOSH	MT FIT
153.	615900A	MWO	DASHRATH BANSHI MALLAH	MT FIT
154.	615689G	MWO	TAJBAR SINGH RAWAT	MT FIT
155.	615910R	MWO	MONORANJON NATH	MT FIT
156.	615063B	MWO	SAMUDRA SINGH	MT FIT



157.	616596K	MWO	NIRMAL SINGH SAHOTA	MTD
158.	617124R	MWO	JAGGAN NATH VERMA	MTD
159.	617728S	MWO	SHREE KRISHNA SINGH	MTD
160.	618067A	MWO	SURRINDER SINGH	MTD
161.	617798T	MWO	SURESH KUMAR PANDEY	MTD
162.	616644S	MWO	SHIMBHU DAYAL YADAV	MTD
163.	618138G	MWO	RAVINDRAN NAIR APPUKUTTAN PILLAI	MTD
164.	616189N	MWO	KOLLATH KALATHIL PUTHANVEEDE KESAVAN KUTTY	MTD
165.	617735B	MWO	KAMTA PRASAD PANDEY	MTD
166.	615639N	MWO	SARBESWAR DEV SARMA	MTD
167.	617457G	WO	RAMA NAND SINGH	MTD
168.	616418N	MWO	VIRENDRA SINGH	MTD
169.	617634N	WO	SUDHAKAR TIWARI	MTD
170.	618081L	WO	RAJ KUMAR SINGH	MTD
171.	616646K	MWO	MOHAN SINGH RATHORE	MTD
172.	618038N	MWO	IDICULA PUTHENKALATHIL CHACKO	MTD
173.	615714R	WO	RAMJYOTISH	MTD
174.	617108L	WO	CHANDRA KISHORE PRASAD SINGH	MTD
175.	616274K	WO	ABDUL LAISH	MTD
176.	616656F	WO	RAJ KISHORE SAH	MTD
177.	617173L	WO	SHIV PAL	MTD
178.	616636R	WO	RAJVINDER SINGH JAGDEV	MTD
179.	616574H	WO	ABDULKHALIQ QURASHI	MTD
180.	642296R	MWO	VED PRAKASH	PHOTO FIT
181.	293894G	MWO	VIJAYKUMAR SHARMA	PHOTO FIT
182.	616153L	MWO	RAGHUBIR SINGH PAUL	PJI

183.	616321A	MWO	UMED SINGH BIRHMAN	PJI
184.	611775R	MWO	JAIBIR SINGH CHANDAL	PJI
185.	619694B	MWO	PARAM JIT SINGH	RAD FIT
186.	617896T	MWO	JAGJIT SINGH	RAD FIT
187.	617979L	MWO	MISHRA VIJAY KUMAR RAM DULARE	RAD FIT
188.	617514L	MWO	JATINDER KUMAR DOGRA	RAD FIT
189.	617699B	MWO	MAHTAB ALAM KHAN	RAD FIT
190.	620253H	MWO	KIMTI LAL	RAD FIT
191.	604137S	MWO	RABINDRA KUMAR JAYASWAL	RDO FIT
192.	632745A	MWO	RAMESH CHANDRA KATIYAR	RDO FIT
193.	631250T	MWO	RANVIR SINGH	RDO FIT
194.	631488T	MWO	P CHANDAR MUDALIAR	RDO FIT
195.	631801T	MWO	NARENDAR KUMAR FARSWAN	RDO FIT
196.	632193F	MWO	KULWANT SINGH	RDO FIT
197.	631248R	MWO	JAI NARAIN SHARMA	RDO FIT
198.	631580A	MWO	RANVIR SINGH	RDO FIT
199.	604058K	MWO	JASBIR SINGH SEMBHI	RDO FIT
200.	604698F	MWO	SHIVA PRASAD MISRA	RDO FIT
201.	604658G	MWO	GURDEV SINGH	RDO FIT
202.	632232N	MWO	RAJENDRA PRASAD SHUKLA	RDO FIT
203.	632063H	MWO	SUKHVINDER SINGH	RDO FIT
204.	604678R	MWO	HARDEVSINGH KAUNTEY	RDO FIT
205.	604906T	MWO	OM PAL ASSELIA	RDO FIT
206.	604900A	MWO	TYAGI GANGA RAM	RDO FIT
207.	632260F	WO	NAGENDRA SINGH	RDO FIT
208.	631586T	WO	BIRSAIN TOMAR	RDO FIT
209.	631728K	WO	KRISHNA KUMAR	RDO FIT
210.	604455L	MWO	SANTOSH KUMAR TEWARI	RDO TECH

211.	631937N	MWO	ARUN KUMAR CHOURASIA	RDO TECH
212.	631650K	MWO	B Aidhar NAYAK	RDO TECH
213.	631089F	MWO	NIRMAL KUMAR SARKAR	RDO TECH
214.	631722L	MWO	SURYA DEO KUMAR GUPTA	RDO TECH
215.	604797A	MWO	BISWANATH RAKSHIT	RDO TECH
216.	643613L	MWO	PRAWESH KUMAR SINGH	SEW
217.	642023T	MWO	DEVKI NANDAN	SEW
218.	293496H	WO	PERVINDER SINGH	SEW
219.	632011B	MWO	RAJ KUMAR	TELST RTO
220.	604818N	MWO	SUBAS CHANDRA SAHU	TELST RTO
221.	604278F	MWO	RAO NARASINGHA PITHAPURAM	TELST RTO
222.	604293L	MWO	RAM ISHWAR DASS	TELST RTO
223.	632117N	WO	RAMA KANTA PAHARI	TELST RTO
224.	603670N	WO	PREM SINGH	TELST RTO
225.	631397F	WO	BALIRAM PRASAD SINGH	TELST RTO
226.	642944T	MWO	HARBHAJAN SINGH	WPN FIT
227.	641174K	MWO	HARI SINGH MUTTI	WPN FIT
228.	641926L	MWO	RAM PYARE RAM	WPN FIT
229.	641688N	WO	SAMIULLAH ANSARI	WPN FIT
230.	641636H	WO	NIRMAL KUMAR MAHARAJ	WPN FIT
231.	641441R	MWO	DAYAL SINGH SHEKHAWAT	WS FIT(B)
232.	641678T	WO	TV GEORGE	WS FIT(B)
233.	293980T	WO	RAJENDRA SINGH	WS FIT(C)
234.	292477F	MWO	YOGENDRA PRASAD	WS FIT(C)
235.	293486N	MWO	ISHWAR CHANDRA PRASAD	WS FIT(C)
236.	641167F	MWO	SUKHBIR SINGH	WS FIT(M)
237.	642055R	MWO	DULAR CHAND MANJHI	WS FIT(M)

[No. Air HQ/C 40254/146/PA (CPC)]

KJ MATHEWS, Air Mshl Air Officer-incharge Personnel

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या 16(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सूची में निम्नलिखित सेवा निवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 15 अगस्त, 2010 से ऑनरेरी फ्लाईंग अफसर रैंक प्रदान किया जाता है :—

1	616254ए	मा वा अ भू पू	कैलाश पांडेय	आई ए एफ (पी)
2	612887जी	मा वा अ भू पू	सुबोध प्रसाद सिंह	क्लर्क जी डी
3	616735एल	मा वा अ भू पू	मंगल सिंह	ए डी एस ओ
4	292429एफ	मा वा अ भू पू	विष्णु दयाल पंडित	विपन फिटर

[सं. वा से मु/सी 40254/146/पी ए (सीपीसी)]

के जे मैथ्यूस, एयर मार्शल कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2010

No. 16(E) dated 15th August, 2010.—The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 15 August, 2010 on occasion of Independence Day under para 345 of Regulations for the Air Force :—

Sl. No.	Service Number	Rank	Name & Initials	Trade
1.	616254A	Ex-MWO	KAILASH PANDEY	IAF/P
2.	612887G	Ex-MWO	SUBODH PRASAD SINGH	CLK GD
3.	616735L	Ex-MWO	MANGAL SINGH	ADSO
4.	292429F	Ex-MWO	VISHNU DAYAL PANDIT	WPN FIT

[No. Air HQ/C 40254/146/PA (CPC)]

KJ MATHEWS, Air Mshl Air Officer-incharge Personnel

## ( भारतीय नौसेना )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2010

संख्या-17(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2010.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करती हैं :—

भारतीय नौसेनास्थाई काडरविशेष ड्यूटी सूची

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेंटी अफसरों को विशेष ड्यूटी सूची पर 15 अगस्त 2010 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रमांक	नाम	रैंक	नम्बर
1.	घुरहू सिंह	एम सी पी ओ 1 सी डी 1	202347-एफ
2.	गोरे कासी रत्नम	एम सी पी ओ 1 यु सी 1	203249-एफ
3.	जगमोहन सिंह	एम सी पी ओ 1 क्यू ए 1	204316-एफ
4.	कृष्ण चन्द	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	202749-डब्ल्यू
5.	नगिन्द्र सिंह जमवाल	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	201548-आर
6.	ढाल सिंह	एम सी पी ओ 1 पी टी आई	106484-के
7.	शयो सिंह	एम सी पी ओ 1 यु सी 1	106858-के
8.	सुरेश कुमार शर्मा	एम एस सी पी ओ 1	106747-एच
9.	भाना राम	एम एस सी पी ओ 1	106853-जेड
10.	राज कुमार सिंह	एम एस सी पी ओ 1	106508-आर
11.	नारायण चन्द	एम सी पी ओ सी के (ओ)1	106307-एच
12.	राज पति	एम सी पी ओ सी के (एस)1	106787-जेड
13.	वीर सिंह	एम सी पी ओ एस टी डी 1	143738-बी

14.	उदय नारायण पाण्डेय	एम सी ए (ए एच)।	140909-जेड
15.	जय प्रकाश यादव	एम सी मैक ए एल 1	202849-वाई
16.	देश राज राणा	एम सी ए एम डब्ल्यु 1	204116-ए
17.	वेद प्रकाश सिंह	एम सी ई एल ए 1	141369-डब्ल्यु
18.	अशोक कुमार सिंह	एम सी पी ओ ए एफ 1	203781-आर
19.	राधाकृष्णन नायर पी	एम सी ई एल ए आर 1	107275-एच
20.	शिवमुरत यादव	एम सी ए ए डब्ल्यु 1	191227-एच
21.	सुरेश चन्द	एम सी पी ओ आर (एस पी एल)।	106661-एन
22.	अमीरचन्द सिंह यादव	एम सी पी ओ आर (टेल)।	202642-ए
23.	कदम आबासाहेब डी	एम सी मैक।	108280-टी
24.	राजेन्द्र सिंह	एम सी एम ई 1	203110-आर
25.	राम कुमार	एम सी एस डब्ल्यु ए 1	203924-आर
26.	पंचानन प्रधान	एम सी मैक।	149367-वाई
27.	लक्ष्मण सिंह	एम सी मैक पी।	110902-ए
28.	अम्बिका प्रसाद एस यादव	एम सी ई एल आर 1	202691-एन
29.	अशोक सिंह	एम सी ई ए पी सी 1	190752-बी
30.	हीरा सिंह बोरा	एम सी मैक पी 1	110908-आर
31.	राधेश्याम मिश्रा	एम सी ई ए पी 1	203683-टी
32.	लाल सिंह रावत	एम सी ई एल आर 1	141614-ए
33.	अनन्त प्रकाश मिश्र	एम सी मैक आर 1	144953-आर
34.	अमजद अली	एम सी मैक आर 1	149470-एफ
35.	अशोक कुमार	एम सी पी ओ एम।	141726-एफ
36.	बलवन्त सिंह कौशल	एम सी एट आर्मश 1	204202-वाई

अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट विशेष ड्यूटी के पद पर

<u>क्रमांक</u>	<u>नाम</u>	<u>रैंक</u>	<u>नम्बर</u>	
1.	अशोक कुमार दाश	एमसीपीओ I यु सी 1	203928	जेड
2.	बिरेन्द्र कुमार राय, विसेमे	एमसीपीओ I सी डी 1	203558	एच
3.	बसंत कुमार शर्मा	एमसीपीओ II आर सी 1	142971	के
4.	टोंगब्राम सुरजीत सिंह	एमसीपीओ II ए एस डब्ल्यु 1	143995	एन
5.	लाल चन्द सैनी	एमसीपीओ I क्यु ए 1	140757	बी
6.	रामफल सिंह	एमसीपीओ I जी आई डब्ल्यु	147732	एफ
7.	गणेश्वर राउत	एमसीपीओ I क्यु ए 1	202484	टी
8.	शत्रुघन पोथाल	एमसीपीओ I क्यु ए 1	203228	एच
9.	अनिल कुमार	एमसीपीओ I क्यु ए 1	202676	बी
10.	निजामुद्दीन	एमसीपीओ I आर सी 1	204101	टी
11.	रामा कान्त सिंह	एमसीपीओ I यु डब्ल्यु 1	107160	वाई
12.	कुलदीप सिंह नेगी	एमसीपीओ I आर पी 1	140973	डब्ल्यु
13.	जे बाबु सेनन	एमसीपीओ I यु डब्ल्यु 1	203325	बी
14.	सतीश कुमार शर्मा	एमसीपीओ I क्यु ए 1	141065	बी
15.	भूपेन्द्र सिंह चौहान	एमसीपीओ II आर सी 1	143465	एच
16.	के एस किसनराव	एमसीपीओ I क्यु ए 1	106993	टी
17.	एस सेबस्टियन	एमसीपीओ I क्यु ए 1	107121	एच
18.	सुखवीर	एमसीपीओ II आर सी 1	109508	एच
19.	धिरेंद्र कुमार सिंह	एमसीपीओ I आर सी 1	141669	ए
20.	राम लाल	एम सी पी ओ I आर सी 1	140903	के
21.	रामानुज राय	एमसीपीओ II क्यु ए 1	109384	ए
22.	इजलाश राम चौरसिया	एमसीपीओ I यु डब्ल्यु 1	204350	एच
23.	मुस्तफा अन्सारी	एमसीपीओ II यु सी 1	108279	आर
24.	श्यूदान सिंह	एमसीपीओ II क्यु ए 1	143121	ए
25.	रवीन्द्रनाथ एन	एमसीपीओ II आर पी 1	143537	वाई
26.	सोवरण सिंह	एमसीपीओ II आर सी 1	143656	टी
27.	राम सिंह धामी	एमसीपीओ II क्यु ए 1	109513	डब्ल्यु
28.	जिवानन्द सिंह	एमसीपीओ II यु सी 1	108893	के
29.	अमर चन्द	एमसीपीओ II आर सी 1	144749	ए
30.	शंभू नाथ अहीर	एमसीपीओ I यु सी 1	109192	आर
31.	नवगोपाल सिंघा	एमसीपीओ II यु सी 1	144117	आर

32.	शिवदीप एस पठानिया	एमसीपीओ II यु सी 1	143999	वाई
33.	गिरवर सिंह शेखावत	एमसीपीओ II यु सी 1	143961	के
34.	रणधीर सिंह	एमसीपीओ II क्यु ए 1	148513	एफ
35.	दया शंकर ठाकुर	एमसीपीओ-II आर सी 1	110114	के
36.	बलवान सिंह	एमएससीपीओ I	140896	डब्ल्यु
37.	मदन लाल शर्मा	एमसीपीओ रायटर I	140848	के
38.	प्रेम सिंह	एमएससीपीओ I	106677	जेड
39.	विजेन्द्र सिंह शेखावत	एमसीपीओ रायटर II	108831	डब्ल्यु
40.	मदन सिंह	एमसीपीओ रायटर II	108726	एफ
41.	सुन्दर सिंह बिष्ट	एमएससीपीओ II	108746	ए
42.	रामायण सिंह	एमसीपीओ रायटर I	141178	के
43.	कुंवर सिंह कठैत	एमएससीपीओ II	142515	जेड
44.	अर्जुन सिंह	एमएससीपीओ II	109217	वाई
45.	रविन्द्र सिंह	एमसीपीओ रायटर I	141593	बी
46.	अब्दुल कासीम खान	एमएससीपीओ I	142925	एफ
47.	घनेन्द्र सिंह	एमसीपीओ रायटर II	144130	डब्ल्यु
48.	सुभाष चन्द्र शुक्ल	एमएससीपीओ II	161217	बी
49.	बिनोद कुमार	एमसीपीओ सीके (एस) I	107173	ए
50.	बिमलेंद्रु राय	एमसीपीओ सीके (ओ) I	106972	डब्ल्यु
51.	नरेंद्र सिंह	एमसीपीओ सीके (ओ) I	106914	एन
52.	अरे नाथ झा	एमसीपीओ एसटीडी I	107168	आर
53.	नरेंद्र कुमार सिंह	एमसीपीओ एसटीडी I	107054	एफ
54.	पृथ्वी पाल	एमसीपीओ एसटीडी II	143759	ए
55.	बीरेन्द्र सिंह भन्डारि	एमसीपीओ सीके (ओ) II	107558	ए
56.	राजेंद्रन पिल्ले	एमसीपीओ सीके (ओ) II	108408	एच
57.	सुभाष चन्द्र	एमसीपीओ सीके (ओ) II	108318	बी
58.	रामेश्वर प्रसाद	एमसीपीओ सीके (एस) II	108449	ए
59.	बच्चा लाल राम	एमसीपीओ टोप II	108638	एफ
60.	मिल्खी राम	एमसीपीओ सीके (एस) II	108573	एच
61.	राकेश नन्दन पाल	एमसीपीओ एसटीडी II	143873	के
62.	राम नरेश	एमसीपीओ सीके (एस) II	108618	के
63.	इन्द्र देव ठाकुर	एमसीपीओ सीके (एस) II	108599	टी
64.	चन्द्रीका प्रसाद	एमसीपीओ टोप II	108585	के
65.	दुददुकुरी वेंकटेश्वरलु	एमसीपीओ टोप II	108216	वाई



66.	मच्चा-सुर्या राव	एमसीपीओ टोप II	107954	ए
67.	राम कुमार यादव	एमसीए (ऐएच) I	108026	आर
68.	के बलराम रेड्डी	एमसीए (ऐएच) II	109179	के
69.	जॉर्ज के जे	एमसीपीओ ऐऐफ II	108531	एन
70.	अहमद अली खान	एमसी ऐऐम I	140995	डब्ल्यु
71.	मंगला यादव	एमसीपीओ ऐऐफ I	140787	वाई
72.	राजाराम सिंह	एमसी ईएलऐ I	140793	के
73.	माया नाथ झा	एमसी ऐऐम I	141675	आर
74.	नुमाना राम	एमसी ईऐलएआर I	108122	एच
75.	सरूप चन्द	एमसीपीओ ऐऐफ I	203658	के
76.	अनंत कुमार ठाकुर	एमसी मेक(ऐआर) I	140935	एच
77.	बिजेन्द्र सिंह	एमसी ईएलऐ I	140853	वाई
78.	शिव चन्द	एमसीपीओ ऐऐफ I	203692	एन
79.	निखिल रंजन पॉल	एमसी ऐऐम (डब्ल्यु) I	140949	आर
80.	नरेश कुमार शाक्या	एमसीपीओ ऐओऐफ I	203851	जेड
81.	राम लौट	एमसी ऐऐ I	203387	डब्ल्यु
82.	हेमकान्ति सरकार	एमसीपीओ ऐऐफ I	203522	ए
83.	श्रीकुमार कुटियिल	एमसी ऐऐम I	111985	एन
84.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	एमसीपीओआरटेल I	148042	के
85.	हरिन्द्र नाथ वर्मा	एमसीपीओआरटेल II	142993	के
86.	हरी सिंह	एमसीपीओअर टॉक I	110130	वाई
87.	लालजी सिंह यादव	एमसीपीओआरएसपीएल II	143374	ए
88.	गोरधन लाल	एमसीपीओअर टॉक II	143194	टी
89.	प्राण कृष्ण पाल	एमसीपीओआरटेल II	143276	बी
90.	बलराम सिंह	एमसी ऐेमइ I	203824	एन
91.	सूरत सिंह यादव	एमसी मेक I	141017	डब्ल्यु
92.	णाला राम	एमसी मेक II	143073	टी
93.	हरगोपाल सिंह	एमसी ऐेमइ I	143388	एच
94.	धर्म वीर सिंह डोगरा	एमसी ईआरए I	191369	एफ
95.	अशोक कुमार सिंह	एमसी ऐेमइ I	110480	टी
96.	महावीर सिंह	एमसी ऐेमइ II	109483	ए
97.	शमशेर सिंह	एमसी ऐेमइ II	143911	वाई
98.	मिर्जा रफीक बेग	एमसी ऐेमइ II	143320	बी
99.	परसा सिंह	एमसी ऐेमइ II	143661	बी

100.	प्रल्हाद वी कुलकर्णी	एमसी ईआरए II	185021	बी
101.	बिजेन्द्र सिंह	एमसी मेक I	148270	बी
102.	जयन्त मजूमदार	एमसी ईआरए I	192162	एच
103.	शक्ति धर महतो	एमसी ईएलआर I	140936	के
104.	मोहम्मद हसीम अन्सारी	एमसीईएसी I	203373	एन
105.	दलबीर सिंह	एमसी मेक (आर) I	107412	डब्ल्यु
106.	प्यार सिंह	एमसी डब्ल्युएम I	106599	वाई
107.	ससीधरण पी के	एमसी ईएलपी I	203729	वाई
108.	एस एस चोपडा	एमसी ईएपी I	202668	के
109.	बनवारी लाल जाट	एमसीईएपी सी I	107441	के
110.	जय सिंह	एमसी ईएलआर I	141197	बी
111.	जय प्रकाश नारायण	एमसी मेक आर I	142332	एच
112.	रीशी कुमार दास	एमसीईएलआर I	141054	बी
113.	विजय कुमार सिंह	एमसी ईएलआर I	107094	वाई
114.	तल्सन सी	एमसी ईएलआर I	144167	बी
115.	राजनारायन प्रसाद	एमसी ईएलपी I	140992	एन
116.	उमेश चन्द्रा जोशी	एमसी ईएलआर II	144054	वाई
117.	श्याम लाल	एमसी मेक आर I	143469	टी
118.	धरमपाल	एमसी ईएलपी I	203563	डब्ल्यु
119.	रमेश कुमार	एमसी ईएआर I	191632	बी
120.	राम एकवाल सिंह	एमसी ईएलआर II	144422	एच
121.	घणश्याम पाण्डे	एमसी ईएलआर II	109392	डब्ल्यु
122.	गेरास मुर्ती प्रदीप	एम सी ई एल आर II	109085	ताई
123.	फनराकार साहू	एमसी ईएपी I	162496	के
124.	जग मोहन कुथारी	एमसी ईएलआर II	111865	आर
125.	प्रेम सिंह	एमसीपीओ ऐम I	141720	टी
126.	अमर नाथ	एमसीपीओ ऐम I	140818	टी
127.	उमेश सिंह	एमसीपीओ ऐम II	143519	एफ
128.	फकीर चन्द्र जेना	एमसीपीओ ऐम II	142412	आर
129.	ज्योति कुमार सिन्हा	एमसीपीओ ऐम II	108901	बी
130.	राजेन्द्र कुमार	एमसीपीओ ऐम II	143389	के
131.	जय प्रकाश	एमसीपीओ ऐम II	144368	के
132.	गंधर्व सिंह	एमसी अँट आर्मस I	141041	जेड
133.	राजपाल सिंह	एमसी अँट आर्मस I	141255	के

134.	चिरंजी लाल	एमसी अेंट आर्मस II	144001	ए
135.	बिक्रम सिंह चौहान	एमसी अेंट आर्मस II	146628	वाई
136.	देवेन्द्र प्रसाद सिंह	एमसीपीओ मुस I	188058	एफ

[फा.सं. एच ए/2504/अगस्त 2010-ऑनररी कमीशन-15 अगस्त 2010]

एम पी मुरलीधरन, वाईस एडमिरल कार्मिक अध्यक्ष एकीकृत मुख्यालय

(INDIAN NAVY)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th August, 2010

**No. 17(E) dated 15 August, 2010.**—The President is pleased to make the following appointments :—

**TO BE HONORARY LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)**

<u>SL</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P NO</u>	
1.	GHURAHU SINGH	MCPO I CD I	202347	F
2.	GORRE KASI RATNAM	MCPO I UC I	203249	F
3.	JAGMOHAN SINGH	MCPO I QA1	204316	F
4.	KRISHAN CHAND	MCPO I RP1	202749	W
5.	NAGINDER SINGH JAMWAL	MCPO I RP1	201548	R
6.	DHAL SINGH	MCPO I PTI	106484	K
7.	SHAYO SINGH	MCPO I UC1	106858	K
8.	SURESH KUMAR SHARMA	MSCPO I	106747	H
9.	BHANA RAM	MSCPO I	106853	Z
10.	RAJ KUMAR SINGH	MSCPO I	106508	R
11.	NARAYAN CHANDA	MCPO CK(O) I	106307	H
12.	RAJ PATI	MCPO CK(S) I	106787	Z
13.	VIR SINGH	MCPO STD I	143738	B
14.	UDAI NARAYAN PANDEY	MCA (AH) I	140909	Z
15.	JAI PRAKASH YADAV	MC MECH(AL) I	202849	Y
16.	DESH RAJ RANA	MC AM(W) I	204116	A
17.	VED PRAKASH SINGH	MC ELA I	141369	W
18.	ASHOK KUMAR SINGH	MCPO AF I	203781	R
19.	RADHAKRISHNAN NAIR P	MC ELAR I	107275	H
20.	SHIV MURATH YADAV	MC AA(W) I	191227	H
21.	SURESH CHAND	MCPOR (SPL) I	106661	N
22.	AMIRCHAND SINGH YADAV	MCPOR (TEL) I	202642	A
23.	KADAM ABASAHEB DNYANU	MC MECH I	108280	T

24.	RAJENDER SINGH	MC ME I	203110 R
25.	RAM KUMAR	MC SWA I	203924 R
26.	PANCHANAN PRADHAN	MC MECH I	149367 Y
27.	LAKSHMAN SINGH	MC MECH P I	110902 A
28.	AMBIKA PRASAD S YADAV	MC ELR I	202691 N
29.	ASHOK SINGH	MCEAP C I	190752 B
30.	HIRA SINGH BORA	MC MECH P I	110908 R
31.	RADHESHYAM MISHRA	MC EAP I	203683 T
32.	LAL SINGH RAWAT	MC ELR I	141614 A
33.	ANANT PRAKASH MISHRA	MC MECH R I	144953 R
34.	AMJAD ALI	MC MECH R I	149470 F
35.	ASHOK KUMAR	MCPO M I	141726 F
36.	BALWANT SINGH KAUSHAL	MC AT ARMS I	204202 Y

#### TO BE HONORARY SUB LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)

<u>SI.</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P.NO.</u>
1.	ASHOK KUMAR DASH	MCPO I UC I	203928 Z
2.	BIRENDRA KUMAR RAI, VSM	MCPO I CD I	203558 H
3.	BASANT KUMAR SHARMA	MCPO II RC I	142971 K
4.	TONGBRAM SURRJIT SINGH	MCPO II ASWI (S) I	143995 N
5.	LAL CHAND SAINI	MCPO I QA I	140757 B
6.	RAMPHAL SINGH	MCPO I GI (W)	147732 F
7.	GANESWAR ROUT	MCPO I QA I	202484 T
8.	SATRUGHNA POTHAL	MCPO I QA I	203228 H
9.	ANIL KUMAR	MCPO I QA I	202676 B
10.	NIZAMUDDIN	MCPO I RC I	204101 T
11.	RAMA KANT SINGH	MCPO I UW I	107160 Y
12.	KULDEEP SINGH NEGI	MCPO I RP I	140973 W
13.	J BABU SENAN	MCPO I UW I	203325 B
14.	SATISH KUMAR SHARMA	MCPO I QA I	141065 B
15.	BHUPENDRA SINGH CHAUHAN	MCPO II RC I	143465 H
16.	KS KISANRAO	MCPO I QA I	106993 T
17.	S SEBASTIAN	MCPO I QA I	107121 H
18.	SUKHVIR	MCPO II RC I	109508 H

19.	DHIRENDRA KUMAR SINGH	MCPO I RC I	141669	A
20.	RAM LAL	MCPO I RC I	140903	K
21.	RAMANUJ RAY	MCPO II QA I	109384	A
22.	IJALASH RAM CHAURASIA	MCPO I UW I	204350	H
23.	MUSTAFA ANSARI	MCPO II UC I	108279	R
24.	SHAUDAN SINGH	MCPO II QA I	143121	A
25.	RAVINDRANATH N	MCPO II RP I	143537	Y
26.	SOWARAN SINGH	MCPO II RC I	143656	T
27.	RAM SINGH DHAMI	MCPO II QA I	109513	W
28.	JIWANAND SINGH	MCPO II UC I	108893	K
29.	AMAR CHAND	MCPO II RC I	144749	A
30.	SHAMBHU NATH AHIR	MCPO I UC I	109192	R
31.	NABAGOPAL SINGHA	MCPO II UC I	144117	R
32.	SHIVDEEP S PATHANIA	MCPO II UC I	143999	Y
33.	GIRWAR SINGH SHEKHAWAT	MCPO II UC I	143961	K
34.	RANDHIR SINGH	MCPO II QA I	148513	F
35.	DAYA SHANKAR THAKUR	MCPO II RC I	110114	K
36.	BALWAN SINGH	MSCPO I	140896	W
37.	MADAN LAL SHARMA	MCPO WTR I	140848	K
38.	PREM SINGH	MSCPO I	106677	Z
39.	VIJENDER SINGH SHEKHAWAT	MCPO WTR II	108831	W
40.	MADAN SINGH	MCPO WTR II	108726	F
41.	SUNDER SINGH BISHT	MSCPO II	108746	A
42.	RAMAYAN SINGH	MCPO WTR I	141178	K
43.	KUNWAR SINGH KATHAIT	MSCPO II	142515	Z
44.	ARJUN SINGH	MSCPO II	109217	Y
45.	RAVINDER SINGH	MCPO WTR I	141593	B
46.	ABDUL QASIM KHAN	MSCPO I	142925	F
47.	GHANENDRA SINGH	MCPO WTR II	144130	W
48.	SUBHASH CHANDRA SHUKLA	MSCPO II	161217	B
49.	BINOD KUMAR	MCPO CK(S) I	107173	A
50.	BIMOLENDU ROY	MCPO CK(O) I	106972	W
51.	NARENDRA SINGH	MCPO CK(O) I	106914	N
52.	ARE NATH JHA	MCPO STD I	107168	R

53.	NARENDRA KUMAR SINGH	MCPO STD I	107054	F
54.	PRITHVI PAL	MCPO STD II	143759	A
55.	BIRENDER SINGH BHANDARI	MCPO CK(O) II	107558	A
56.	RAJENDRAN PILLAI V	MCPO CK(O) II	108408	H
57.	SUBHASH CHANDER	MCPO CK(O) II	108318	B
58.	RAMESHWAR PRASAD	MCPO CK(S) II	108449	A
59.	BACHA LAL RAM	MCPO TOP II	108638	F
60.	MILKHI RAM	MCPO CK(S) II	108573	H
61.	RAKESH NANDAN PAL	MCPO STD II	143873	K
62.	RAM NARESH	MCPO CK(S) II	108618	K
63.	INDRA DEO THAKUR	MCPO CK(S) II	108599	T
64.	CHANDRIKA PRASAD	MCPO TOP II	108585	K
65.	DADDUKURI VENKATESHARLU	MCPO TOP II	108216	Y
66.	MATCHA SURYA RAO	MCPO TOP II	107954	A
67.	RAM KUMAR YADAV	MCA(AH) I	108026	R
68.	K BALARAM REDDY	MCA(AH) II	109179	K
69.	GEORGE KJ	MCPO AF II	108531	N
70.	AHMED ALI KHAN	MC AM I	140995	W
71.	MANGLA YADAV	MCPO AF I	140787	Y
72.	RAJARAM SINGH	MC ELA I	140793	K
73.	MAYA NATH JHA	MC AM I	141675	R
74.	HANUMANA RAM	MC ELAR I	108122	H
75.	SARUP CHAND	MCPO AF I	203658	K
76.	ANANT KUMAR THAKUR	MC MECH(AR) I	140935	H
77.	BIJENDER SINGH	MC ELA II	140853	Y
78.	SHIV CHAND	MCPO AF I	203692	N
79.	NIKHIL RANJAN PAUL	MC AM(W) I	140949	R
80.	NK SHAKYA	MCPO AOF I	203851	Z
81.	RAM LAUT	MC AA I	203387	W
82.	HEMKANTI SARKAR	MCPO AF I	203522	A
83.	SREEKUMAR KUTTIYIL	MC AM I	111985	N
84.	SHAILENDRA KUMAR SINGH	MCPOR (TEL) I	148042	K
85.	HARINDRA NATH VERMA	MCPOR (TEL) II	142993	K
86.	HARI SINGH	MCPOR (TAC) I	110130	Y

87.	LALJI SINGH YADAV	MCPOR (SPL) II	143374	A
88.	GORDHAN LAL	MCPOR (TAC) II	143194	T
89.	PRAN KRISHNA PAUL	MCPOR (TEL) II	143276	B
90.	BALRAM SINGH	MC ME I	203824	N
91.	SURAT SINGH YADAV	MC MECH I	141017	W
92.	LALA RAM	MC MECH II	143073	T
93.	HARGOPAL SINGH	MC ME I	143388	H
94.	DHARAM VEER SINGH DOGRA	MC ERA I	191369	F
95.	ASHOK KUMAR SINGH	MC ME I	110480	T
96.	MAHAVIR SINGH	MC ME II	109483	A
97.	SHAMSHER SINGH	MC ME II	143911	Y
98.	MIRZA RAFIQ BAIG	MC ME II	143320	B
99.	PARSA SINGH	MC ME II	143661	B
100.	PRALHAD V KULKARNI	MC ERA II	185021	B
101.	BIJENDER SINGH	MC MECH I	148270	B
102.	JAYANTA MAJUMDER	MC ERA I	192162	H
103.	SHAKTI DHAR MAHTO	MC ELR I	140936	K
104.	MOHAMMAD HASIM ANSARI	MCEA C I	203373	N
105.	DALBIR SINGH	MC MECH (R) I	107412	W
106.	PIAR SINGH	MC WM I	106599	Y
107.	SASIDHARAN PK	MC ELP I	203729	Y
108.	SS CHOPRA	MC EAP I	202668	K
109.	BANWARI LAL JAT	MCEAP C I	107441	K
110.	JAI SINGH	MC ELR I	141197	B
111.	JAI PRAKASH NARAYAN	MC MECH (R) I	142332	H
112.	RISHI KUMAR DAS	MCELR I	141054	B
113.	VIJAY KUMAR SINGH	MC ELR I	107094	Y
114.	VALSAN C	MC ELR I	144167	B
115.	RAJNARAYAN PRASAD	MC ELP I	140992	N
116.	UMESH CHANDRA JOSHI	MC ELR II	144054	Y
117.	SHYAM LAL	MC MECH (R) I	143469	T
118.	DHARAMPAL	MC ELP I	203563	W
119.	RAMESH KUMAR	MCEAR I	191632	B
120.	RAM EKWAL SINGH	MC ELR II	144422	H

121.	GHANSHYAM PANDEY	MC ELR II	109392	W
122.	GERAS MURTHY PRADEEP	MC ELR II	109085	Y
123.	NIRAKAR SAHOO	MC EAP I	162496	K
124.	JAGMOHAN KUTHARI	MC ELR II	111865	R
125.	PREM SINGH	MCPO M I	141720	T
126.	AMAR NATH	MCPO M I	140818	T
127.	UMESH SINGH	MCPO M II	143519	F
128.	FAKIR CHANDRA JENA	MCPO M II	142412	R
129.	JYOTI KUMAR SINHA	MCPO M II	108901	B
130.	RAJENDRA KUMAR	MCPO M II	143389	K
131.	JAI PRAKASH	MCPO M II	144368	K
132.	GANDHERV SINGH	MC AT ARMS I	141041	Z
133.	RAJPAL SINGH	MC AT ARMS I	141255	K
134.	CHIRANJI LAL	MC AT ARMS II	144001	A
135.	BIKRAM SINGH CHAUHAN	MC AT ARMS II	146628	Y
136.	DEVENDRA PRASAD SINGH	MCPO MUS I	188058	F

[F. No. HA/2504/Aug 2010-Hony Commission-Aug 2010]

MP MURLIDHARAN, Vice Admiral Chief of Personnel Integrated Headquarters